

अर्पण पत्रिका ।

श्रीनेमिचन्द्राय नमः ।

श्रीरायचन्द्रजैनशास्त्रमालामें

श्रीमन्नेमिचन्द्राचार्यकृत

गोम्मटसार

(कर्मकाण्ड)

आ पवित्र ग्रंथनी संक्षिप्त हिन्दीभाषाटीका शा०केशवजी भीमजीना कुडुम्ब
तरफथी भेट दाखल रु० २०० अंके बसो आपी छपावमां आवी छे.

ते श्रीरायचन्द्रजैनशास्त्रमालाने सादर भेट करेल छे.

Printed by B. R. Ghaneker, at the Nirnaya-Sagar Press,
No. 23, Kolbhat Lane, Kalbadevi Road-Bombay.

Published by Sha. Revashankar Jagajeevan Javeri Hon. Vyavastapak
Shree Paramashruta Prabhavak Mandal, Javeri Bazar,
Kharakuva, Bombay.

विज्ञापन ।

विदित हो कि स्वर्गवासी तत्त्वज्ञाता शतावधानी कविवर श्रीरायचन्द्रजीने अतिशय उपयोगी और अलभ्य ऐसे श्रीउमास्वाति (मी) मुनीश्वर, श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, श्रीनेमिचन्द्राचार्य, श्रीअकलङ्कस्वामी, श्रीहरिभद्रसूरी, श्रीहेमचन्द्राचार्य आदि महान् आचार्योंके रचे-हुए जैनतत्त्वग्रन्थोंका सर्वसाधारणमें प्रचार करनेकेलिये श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंडलकी स्थापना कीथी; जिसके द्वारा उक्त कविराजके चिरकालस्मरणार्थ रायचन्द्रजैनशास्त्रमालाके नामसे अतिशय प्राचीन ग्रन्थ प्रगट होकर आजपर्यंत तत्त्वज्ञानामिलाषी भव्यजीवोंको आनंदित कर रहे हैं ॥

इस शास्त्रमालाकी योजना विज्ञपाठकोंको दिगम्बरीय तथा श्वेताम्बरीय उभयपक्षके ऋषिप्रणीत सर्वसाधारणोपयोगी उत्तमोत्तम ग्रन्थोंके अभिप्राय विदित होनेकेलिये कीगई है । इसलिये आत्मकल्याणके इच्छुक भव्यजीवोंसे प्रार्थना है कि इस पवित्र शास्त्रमालाके ग्रन्थोंके ग्राहक बनकर अपनी चललक्ष्मीको अचल करें और तत्त्वज्ञानपूर्ण जैनसिद्धान्तोंका पठन पाठन द्वारा प्रचारकर हमारी इस परमार्थयोजनाके परिश्रमको सफल करें । तथा प्रत्येक सरस्वतीभण्डार, सभा और पाठशालाओंमें इनका संग्रह अवश्य करना चाहिये ॥

इस शास्त्रमालाकी प्रशंसा मुनिमहाराजोंने तथा विद्वानोंने बहुत की है उसको हम स्थानाभावसे लिख नहीं सकते । और यह संस्था किसी स्वार्थकेलिये नहीं है केवल परोपकारकेवास्ते है । जो द्रव्य आता है वह इसी शास्त्रमालामें उत्तमग्रन्थोंके उद्धारकेवास्ते लगाया जाता है ॥ इति शम् ।

रायचन्द्रजैनशास्त्रमालाद्वारा प्रकाशित ग्रन्थोंकी सूची ।

१ पुरुपार्थसिद्धुपाय भाषाटीका यह श्रीअमृतचन्द्रस्वामी विरचित प्रसिद्ध शास्त्र है इसमें आचारसंबन्धी बड़े २ गूढ रहस्य हैं विशेषकर हिंसाका स्वरूप बहुत खूबीकेसाथ दरसाया गया है, यह एक वार छपकर विकगयाथा इसकारण फिरसे संशोधन कराके दूसरीवार छपाया गया है । न्यों. १ रु.

२ पञ्चास्तिकाय भा. संस्कृ. टी. यह श्रीकुन्दकुन्दाचार्यकृत मूल और श्रीअमृतचन्द्रसूरी कृत संस्कृतटीका सहित प्रसिद्ध शास्त्ररत्न है इसमें जीव, अजीव, धर्म, अधर्म और आकाश इन पांचद्रव्योंका तो उत्तम रीतिसे वर्णन है तथा कालद्रव्यका भी संक्षेपसे वर्णन किया गया है । इसकी भाषा टीका स्वर्गिय पांडे हेमराजजीकी भाषाटीकाके अनुसार नवीन सरल भाषाटीकामें परिवर्तन कीगई है । न्यों. १॥ रु.

३ ज्ञानार्णव भा. टी. इसके कर्ता श्रीशुभचन्द्रस्वामीने ध्यानका वर्णन बहुत ही उत्तम-तासे किया है प्रकरणवश ब्रह्मचर्यव्रतका वर्णन भी बहुत दिखलाया है । न्यों. ४ रु.

अर्पण पत्रिका ।

श्रीनेमिचन्द्राय नमः ।

श्रीरायचन्द्रजैनशास्त्रमालामें

श्रीमन्नेमिचन्द्राचार्यकृत

गोम्मटसार

(कर्मकाण्ड)

आ पवित्र ग्रंथनी संक्षिप्त हिन्दीभाषाटीका शा०केशवजी भीमजीना कुटुम्ब
तरफथी भेट दाखल रु० २०० अंके बसो आपी छपावमां आवी छे.

ते श्रीरायचन्द्रजैनशास्त्रमालाने सादर भेट करेल छे.

Printed by B. R. Ghaneker, at the Nirnaya-Sagar Press,
No. 23, Kolbhat Lane, Kalbadevi Road-Bombay.

Published by Sha. Revashankar Jagajeevan Javeri Hon. Vyavastapak
Shree Paramashruta Prabhavak Mandal, Javeri Bazar,
Kharakuva, Bombay.

विज्ञापन ।

विदित हो कि स्वर्गवासी तत्त्वज्ञाता शतावधानी कविवर श्रीरायचन्द्रजीने अतिशय उपयोगी और अलभ्य ऐसे श्रीउमास्वाति (मी) मुनीश्वर, श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, श्रीनेमिचन्द्राचार्य, श्रीअकलङ्कस्वामी, श्रीहरिभद्रसूरी, श्रीहेमचन्द्राचार्य आदि महान् आचार्योंके रचे-हुए जैनतत्त्वग्रन्थोंका सर्वसाधारणमें प्रचार करनेकेलिये श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंडलकी स्थापना कीथी; जिसके द्वारा उक्त कविराजके चिरकालस्मरणार्थ रायचन्द्रजैनशास्त्रमालाके नामसे अतिशय प्राचीन ग्रन्थ प्रगट होकर आजपर्यंत तत्त्वज्ञानामिलाषी भव्यजीवोंको आनंदित कर रहे हैं ॥

इस शास्त्रमालाकी योजना विज्ञपाठकोंको दिगम्बरीय तथा श्वेताम्बरीय उभयपक्षके ऋषिप्रणीत सर्वसाधारणोपयोगी उत्तमोत्तम ग्रन्थोंके अभिप्राय विदित होनेकेलिये कीगई है । इसलिये आत्मकल्याणके इच्छुक भव्यजीवोंसे प्रार्थना है कि इस पवित्र शास्त्रमालाके ग्रन्थोंके ग्राहक बनकर अपनी चललक्ष्मीको अचल करें और तत्त्वज्ञानपूर्ण जैनसिद्धान्तोंका पठन पाठन द्वारा प्रचारकर हमारी इस परमार्थयोजनाके परिश्रमको सफल करें । तथा प्रत्येक सरस्वतीभण्डार, सभा और पाठशालाओंमें इनका संग्रह अवश्य करना चाहिये ॥

इस शास्त्रमालाकी प्रशंसा मुनिमहाराजोंने तथा विद्वानोंने बहुत की है उसको हम स्थानाभावसे लिख नहीं सकते । और यह संस्था किसी स्वार्थकेलिये नहीं है केवल परोपकारकेवास्ते है । जो द्रव्य आता है वह इसी शास्त्रमालामें उत्तमग्रन्थोंके उद्धारकेवास्ते लगाया जाता है ॥ इति शम् ।

रायचन्द्रजैनशास्त्रमालाद्वारा प्रकाशित ग्रन्थोंकी सूची ।

१ पुरुषार्थसिद्ध्युपाय भाषाटीका यह श्रीअमृतचन्द्रस्वामी विरचित प्रसिद्ध शास्त्र है इसमें आचारसंबन्धी बड़े २ गूढ रहस्य हैं विशेषकर हिंसाका स्वरूप बहुत खूबीकेसाथ दरसाया गया है, यह एक वार छपकर विकगयाथा इसकारण फिरसे संशोधन कराके दूसरीवार छपाया गया है । न्यों. १ रु.

२ पञ्चास्तिकाय भा. संस्कृ. टी. यह श्रीकुन्दकुन्दाचार्यकृत मूल और श्रीअमृतचन्द्रसूरी कृत संस्कृतटीका सहित प्रसिद्ध शास्त्ररत्न है इसमें जीव, अजीव, धर्म, अधर्म और आकाश इन पांचद्रव्योंका तो उत्तम रीतिसे वर्णन है तथा कालद्रव्यका भी संक्षेपसे वर्णन किया गया है । इसकी भाषा टीका स्वर्गीय पांडे हेमराजजीकी भाषाटीकाके अनुसार नवीन सरल भाषाटीकामें परिवर्तन कीगई है । न्यों. १॥ रु.

३ ज्ञानार्णव भा. टी. इसके कर्ता श्रीशुभचन्द्रस्वामीने ध्यानका वर्णन बहुत ही उत्तमतासे किया है प्रकरणवश ब्रह्मचर्यव्रतका वर्णन भी बहुत दिखलाया है । न्यों. ४ रु.

४ सप्तभंगीतरंगिणी भा. टी. यह न्यायका अपूर्व ग्रन्थ है इसमें ग्रंथकर्ता श्रीविमलदासजीने स्यादस्ति, स्यान्नास्ति आदि सप्तभंगी नयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिसे किया है। स्याद्वादमत क्या है यह जाननेकेलिये यह ग्रंथ अवश्य पढना चाहिये। न्यों. १ रु.

५ बृहद्रव्यसंग्रह संस्कृ. भा. टी. श्रीनेमिचन्द्रस्वामीकृत मूल और श्रीब्रह्मदेवजीकृत संस्कृतटीका तथा उसपर उत्तम बनाई गई भाषाटीका सहित है इसमें छह द्रव्योंका स्वरूप अतिस्पष्टरीतिसे दिखाया गया है। न्यों. २ रु.

६ द्रव्यानुयोगतर्कणा इस ग्रंथमें शास्त्रकार श्रीमद्भोजसागरजीने सुगमतासे मन्दबुद्धिजीवोंको द्रव्यज्ञान होनेकेलिये 'अथ, " गुणपर्ययवद्रव्यम् " इस महाशास्त्र तत्त्वार्थसूत्रके अनुकूल द्रव्य—गुण तथा अन्य पदार्थोंका भी विशेष वर्णन किया है और प्रसंगवश ' स्यादस्ति ' आदि सप्तभंगोंका और दिगंबराचार्यवर्य श्रीदेवसेनस्वामीविरचित नयचक्रके आधारसे नय, उपनय तथा मूलनयोंका भी विस्तारसे वर्णन किया है। न्यों. २ रु.

७ सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् इसका दूसरा नाम तत्त्वार्थाधिगम मोक्षशास्त्र भी है जैनियोंका यह परममान्य और मुख्य ग्रन्थ है इसमें जैनधर्मके संपूर्णसिद्धान्त आचार्यवर्य श्रीउमास्वाति (मी) जीने बड़े लाघवसे संग्रह किये हैं। ऐसा कोई भी जैनसिद्धान्त नहीं है जो इसके सूत्रोंमें गर्भित न हो। सिद्धान्तसागरको एक अत्यन्त छोटेसे तत्त्वार्थरूपी घटमें भरदेना यह कार्य अनुपमसामर्थ्यवाले इसके रचयिताका ही था। तत्त्वार्थके छोटे २ सूत्रोंके अर्थगांभीर्यको देखकर विद्वानोंको विस्मित होना पड़ता है। न्यों. २ रु.

८ स्याद्वादमंजरी संस्कृ. भा. टी. इसमें छहों मतोंका विवेचनकरके टीका कर्ता विद्वद्भ्य श्रीमल्लिपेणसूरीजीने स्याद्वादको पूर्णरूपसे सिद्ध किया है। न्यों. ४ रु.

९ गोम्मटसार (कर्मकाण्ड) संस्कृतछाया और संक्षिप्त भाषाटीका सहित यह महान ग्रन्थ श्रीनेमिचन्द्राचार्यसिद्धान्तचक्रवर्तीका बनाया हुआ है, इसमें जैनतत्त्वोंका स्वरूप कहते हुए जीव तथा कर्मका स्वरूप इतना विस्तारसे है कि वचनद्वारा प्रशंसा नहीं होसकती देखनेसे ही मालूम होसकता है, और जो कुछ संसारका झगड़ा है वह इन्हीं दोनों (जीव-कर्म) के संबन्धसे है सो इनदोनोंका स्वरूप दिखानेकेलिये अपूर्व सूर्य है। न्यों. २ रु.। इसका दूसरा पूर्वभाग (जीवकाण्ड) भी शीघ्र ही मुद्रित होनेवाला है ॥

१० प्रवचनसार—श्रीअमृतचन्द्रसूरिकृत तत्त्वप्रदीपिका सं. टी., " जोकि यूनिवर्सिटीके कोर्समें दाखिल है " तथा श्रीजयसेनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति सं. टी. और बालाबबोधिनी भाषाटीका इन तीन टीकाओं सहित छपरहा है दिवालीके लगभग तयार होजाइगा, इसके मूलकर्ता श्रीकुन्दकुन्दाचार्य हैं। यह अध्यात्मीक ग्रन्थ है ॥

ग्रन्थोंके मिलनेका पता—

शा. रेवाशंकर जगजीवन जौहरी.



ओं नमः

प्रस्तावना ।

प्रिय पाठकगण ! आज हम श्रीजिनेन्द्रदेवकी कृपासे आपके सन्मुख श्रीगोम्मटसारकर्मकाण्डभी संस्कृतछाया तथा संक्षिप्त भाषाटीका सहित उपस्थित करते हैं। यह ग्रंथ जैनसंप्रदायमें परममाननीय है। इसका पूर्वभाग 'जीवकाण्ड' संस्कृतछाया और उत्थानिका सहित छप चुका है तथा सर्वसाधारणकेलिये संक्षिप्तहिन्दी भाषाटीका सहित भी इसी मंडलसे शीघ्र छपनेवाला है, और इसका परिशिष्ट लब्धिसारक्षणासारकाभी इसीतरह भाषानुवाद सहित छपानेका विचार किया जाइगा।

इस ग्रन्थको पहला सिद्धान्तग्रन्थ वा प्रथमश्रुतस्कंध कहते हैं। इसकी उत्पत्ति इस तरह है कि, श्रीवर्द्धमानस्वामीके निर्वाण होनेके पश्चात् ६८३ वर्षपर्यंत अंगज्ञानकी प्रवृत्ति रही। इसके बाद अंगपाठी कोई भी नहीं हुए किन्तु एक भद्रवाहू स्वामी अष्टांग निमित्तज्ञानके (ज्योतिषके) धारक हुए। इनके समयमें १२ वर्षका दुर्भिक्ष पड़नेसे इनके संघमेंसे अनेकमुनि शिथिलाचारी हो गये और स्वच्छंदप्रवृत्ति होनेसे जैनमार्ग भ्रष्ट होने लगा, तब भद्रवाहूस्वामीके शिष्योंमेंसे एक धरस्नेन नामके मुनि हुए जिनको आप्रायणीनामक दूसरे पूर्वमें पंचमवस्तुमहाधिकारके महाप्रकृतिनाम चौथे प्राश्रुत (अधिकार) का ज्ञान था। सो इन्होंने अपने शिष्य भूतवली और पुष्पदन्त इन दोनों मुनियोंको पढाया। इन दोनोंने षट्खंड नामकी सूत्ररचनाकर ग्रंथमें लिखा फिर उन षट्खण्ड सूत्रोंको अन्य आचार्योंने पढकर उनके अनुसार विस्तारसे धवल महाधवल जयधवलदि टीकाग्रन्थ रचे। उन सिद्धान्त ग्रन्थोंको प्रातःस्वरेणीय भगवान् श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती आचार्यमहाराजने पढकर श्रीगोम्मटसार लब्धिसार क्षणासारादि ग्रंथोंकी रचना की।

इन सब ग्रंथोंमें जीव और कर्मके संयोगसे जो संसारमें पर्यायें होती हैं उनका विस्तारसे स्वरूप दिखाया गया है अर्थात् भव्यजीवोंके हितार्थ गुणस्थान मार्गणाओंका वर्णन तथा अन्य दर्शनोंमें अविचेचित कर्मका वर्णन पर्यायाधिकनयकी प्रधानतासे कहागया है। पर्यायाधिकनयको अनेकान्तशैलीसे अशुद्धद्रव्याधिकनय तथा आध्यात्मिक दृष्टिसे अशुद्धनिश्चय तथा व्यवहारनय भी कहते हैं।

इस महान् ग्रंथके कर्ता 'श्रीनेमिचंद्राचार्य' सिद्धान्तचक्रवर्तीका पवित्र जीवनचरित्र वाहुवलिचरित्र ग्रन्थसे उद्धृत श्रीवृहद्भव्यसंग्रह ग्रंथमें मुद्रित हो चुका है "जोकि यह ग्रन्थभी उक्त आचार्यका ही बनाया हुआ है"। इसकारण यहांपर नहीं प्रकाशित किया। पाठकगण वहांसे देखलेवें।

इस ग्रन्थकी टीका इन आचार्यके प्रधान शिष्य श्रीचामुण्डरायने कर्णाटकी भाषामें बनाई जोकि ९७२ वें गाथासे आचार्यने स्वयं आशीर्वादपूर्वक कहा है। उस कर्णाटकी वृत्तिसे रचीगई इससमय दो संस्कृत टीकायें मिलती हैं। एक केशवचर्णाने बनाई जोकि उक्त टीकाकारने अपनी टीकाके आरंभमें

“नेमिचन्द्रं जिनें नत्वा सिद्धं श्रीज्ञानभूषणम् । वृत्तिं गोम्मटसारस्य कुर्वे कर्णाटवृत्तितः” ॥ इस श्लोकसे दिखलाया है । दूसरी मन्दप्रबोधिनी नामवाली टीका श्रीमदभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीकी बनाई हुई है । इस विषयमें उक्त कर्ताने टीकाके प्रारंभमें “मुनिं सिद्धं प्रणम्याहं नेमिचन्द्रं जिनेश्वरम् । टीकां गोम्मटसारस्य कुर्वे मन्दप्रबोधिनीम्” इस श्लोकसे सूचित किया है । इन्हीं दोनोंकी सहायतासे भव्योपकारी जैनसमाजकमलदिवाकर श्रीमद्विद्वद्वर टोडरमल्लजीने ‘सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका’ नामक भाषाटीकाकी रचना की । जिसकी सहायतासे अतिगहन विषय अच्छीतरह समझकर भव्यजीव परमानंदको प्राप्त होते हैं ।

इस भाषाटीकाका बहुत विस्तार होनेसे तथा कितने एक अन्य कारणोंसे सबका मुद्रित कराना दुस्साध्य समझकर श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंडलाधिकारियोंने संक्षिप्त भाषाटीका सहित तयार करानेकी मुझे प्रेरणाकी । सो अब मैं संस्कृत तथा भाषा दोनों टीकाओंके अनुसार सिद्धान्तशास्त्रपाठक स्याद्वादवारिधि विद्वच्छिरोमणि गुरुवर्य गोपालदासजी वरैयाकी अतिशयकृपासे अपनी बुद्धिके अनुसार संक्षिप्तभाषाटीका सहित इस गोम्मटसारके कर्मकांडको तयारकर पाठकोंके सामने उपस्थित करता हूं । यद्यपि इस भाषानुवादमें सब विषयोंका खुलासा नहीं आया तौभी जहांतक हुआ है वहांतक मूलार्थ कहीं नहीं छोड़ा गया है । सब विषयोंका खुलासा विना बड़ीटीकाके कभी नहीं आसकता है । इस प्रस्तावनाके अंतमें थोड़ी संज्ञाओंका भी खुलासा किया गया है । और बंधोदयसत्त्वका नकशा स्पष्ट करके लगाया गया है । तथा इस समयके अनुकूल ग्रंथका विषय और गाथा सुलभतासे देखनेकेलिये ३ प्रकारकी अनुक्रमणिका (सूची) भी लगादी गई है । यह टीका बड़ी टीकाकी प्रवेशिकारूप अवश्य होजाइगी ऐसी मैं आशा करता हूं । तथा स्वर्गीय तत्त्वज्ञानी श्रीमान् रायचंद्रजीद्वारा स्थापित श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंडलकी तरफसे इसग्रन्थका जो उद्धार हुआ है इसकारण उक्त मंडलके उत्साही सभासदगण और प्रबन्धकर्ताओंको “जिन्होंने अत्यंत उत्साहित होकर ग्रंथ तयार कराके भव्यजीवोंको महान् उपकार पहुंचाया है” कोटिशः धन्यवाद देता हूं । और श्रीजीसे प्रार्थना करता हूं कि वीतरागदेवप्रणीत उच्चश्रेणीके तत्त्वज्ञानका इच्छित प्रसार करनेमें उक्त मंडल कृतकार्य होवे । और मैं अपने मित्रवर्य पं० वंशीधरजी गोलानारेको द्वितीय धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने संशोधनकार्यमें सहायता दी है । अब मेरी अंतमें यह प्रार्थना है कि जो प्रमादसे, दृष्टिदोषसे तथा ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमकी न्यूनतासे कहींपर अशुद्धियां रह गईं होवें तो पाठकगण मेरे ऊपर क्षमा करके शुद्धकरते हुए पढ़ें, क्योंकि यह मुझे भाषाटीका बनानेका पहला ही अवसर प्राप्त हुआ है इसकारण भाषारचनाकी तथा अर्थांशकी अशुद्धियोंका रहजाना संभव है । इसतरह धन्यवादपूर्वक प्रार्थना करता हुआ इस प्रस्तावनाको समाप्त करता हूं । अलं विज्ञेषु ।

काकड़वाड़ी—बम्बई

भाद्रपद कृष्ण १२ सं० २४३८

जैनाचार्यचरणसरोजचञ्चरीक तथा जैनसमाजका सेवक

मनोहरलाल

पाढम (मैनपुरी) निवासी

अथ गोम्मटसार ग्रंथमें उपयोगी अलौकिक गणितकी कुछ संज्ञायोंका खुलासा ।

अलौकिक गणितके मुख्य दो भेद हैं, एक संख्यामान और दूसरा उपमान । संख्यामानके मूल ३ भेद हैं अर्थात् १ संख्यात २ असंख्यात और ३ अनंत । असंख्यातके ३ भेद हैं—१ परीतासंख्यात २ युक्तासंख्यात और ३ असंख्यातासंख्यात । अनंतके भी ३ भेद हैं—१ परीतानन्त, २ युक्तानन्त और ३ अनंतानंत । संख्यातका एक भेद ही है । इसप्रकार संख्यातका १ भेद, असंख्यात और अनंतके तीन तीन भेद, सब मिलकर संख्यामानके ७ भेद हुए । इन सातोंमेंसे प्रत्येक (हरएक)के जघन्य (सबसे छोटा) मध्यम (बीचके) और उत्कृष्ट (सबसे बड़ा) की अपेक्षासे तीन तीन भेद हैं । इसतरह संख्यामानके २१ भेद हुए ।

एकमें एकका भाग देनेसे अथवा एकको एकसे गुणाकार करनेसे कुछ भी हानि वृद्धि नहीं होती । इसलिये संख्याका प्रारम्भ दोके अंकसे ग्रहणकिया है । और एकको गणना (गिनती) शब्दका वाच्य (कहनेवाला) माना है, इसलिये जघन्य संख्यातका प्रमाण दो (२) है । तीन चार पांच इत्यादि एक कम उत्कृष्ट संख्यातपर्यंत मध्यम संख्यातके भेद हैं । एक कम जघन्यपरीतासंख्यातको उत्कृष्टसंख्यात कहते हैं । अब आगे जघन्य परीतासंख्यातका प्रमाण कितना है सो लिखते हैं । अलौकिक गणितका स्वरूप लौकिक गणितसे कुछ विलक्षण है । लौकिक गणितसे स्थूल और स्वल्प (थोड़े) पदार्थोंका परिमाण किया जाता है, किन्तु अलौकिकगणितसे सूक्ष्म और अनंतपदार्थोंकी हीनाधिकताका बोध कराया जाता है ।

हमारे बहुतसे संकीर्ण (संकुचित वा गंभीरतारहित) हृदयवाले भाई अलौकिक गणितका स्वरूप सुनकर चकित हो जाते हैं और कुछ परिमितसंख्याको तथा अनंतवस्तु कोई है इसवातको मानते हुए भी कहते हैं कि ऐसा गणित हो ही नहीं सकता परन्तु उनके ऐसे कहनेसे कुछ उस गणितका अभाव नहीं हो जायगा । एक तो यह विचारनेकी बात है कि संख्या १ से १०० तक एक एक अधिक होती हुई क्रमसे पहुंचती है नकि १ के बाद ५० या १०० हो जावें, इस नियमसे २ संख्यासे लेकर अनंततक भी क्रमकरके ही पहुंचेगी । दूसरीवात यह है कि संसारमें एकदन्तकथा प्रसिद्ध है कि, एकसमय सरोवरका रहनेवाला एक हंस एक कुएके पास गया, वहांपर कुएके मेंडकने हंसका स्वागत करके ऊंचा आसन देकर प्रसंगवश पूछा कि क्योंजी आपका सरोवर कितना बड़ा है ? हंसने जवाब दिया कि बहुत बड़ा है तब मेंडकने हाथ वगैरः अंग क्रमसे लम्बे करके कहा कि क्या इतना बड़ा है ? । राजहंसने कहा कि नहीं नहीं ! इससे भी बहुत बड़ा है, तब मेंडकने सब शरीर लम्बा किया तथा कुएके एक तटसे सामनेके दूसरे तटपर उछलकर कहा तो क्या इससे भी बड़ा है ? हंसने कहा भाई ! इससे भी बहुत बड़ा है । तब मेंडकने (झुंझलाकर) कहा बस ! तुम बड़े झूठे हो ! इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, सब कहने सुननेकी बात है सच्ची नहीं है । ऐसा प्रत्युत्तर मिलनेपर वह हंस मेंडकको मूर्ख समझकर चुप हो गया और उड़कर अपने स्थानको चला गया । इस दंतकथाके ऊपर एक कविने भी ऐसा दोहा कहा है “ हाथ पसारे पांव पसारे, और पसारौ गात । यातें बडौ तलाव है तौ कहन सुननकी बात ॥ ” इसप्रकार कुएके मेंडककी तरह जो महाशय संकीर्णबुद्धिवाले हैं उनकी समझमें अलौकिक गणितका स्वरूप प्रवेश नहीं कर सकता । किंतु जिनकी बुद्धि गौरवयुक्त है वे अच्छीतरह समझ सकते हैं ॥

जघन्य परीतासंख्यातका स्वरूप समझानेके लिये जो उपाय लिखा जाता है वह किसीने किया नहीं था, किंतु बड़े गणितका परिमाण समझानेकेलिये एक कल्पित उपायमात्र है ।

१. यद्यपि इसका पूर्वाद्द जीवकांड भी संक्षिप्त भाषाटीकासहित मुद्रित होनेवाला है उसके तीसरे अधिकारमें सब उपयोगी गणितका स्वरूप अच्छीतरह दिखलाया जायगा । परंतु अभी स्वाध्याय करनेके लिये थोड़ी संज्ञाओंका खुलासा यहांपर किया जाता है । यह गणितका भाग श्रीनट्टरुच्य स्याद्वादवारिधी विद्वच्छिरोमणि गोपालदासजी वैराग्यत जैनसिद्धांतदर्पणसे उद्धृत किया गया है ।

जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण दो राशि लिखना । एक विरलनराशि और दूसरी देय राशि । विरलनराशिका विरलन करना अर्थात् विरलनराशिका जितना प्रमाण है उतने एके लिखना और प्रत्येक एकेके ऊपर एक एक देयराशि रखकर समस्त देयराशियोंका परस्पर गुणन करनेसे जो गुणनफल हो उतना ही जघन्ययुक्तासंख्यातका प्रमाण है । **भावार्थ**—यदि जघन्यपरीतासंख्यातका प्रमाण चार ४ मानाजाय तो चारका विरलनकर १ १ १ १ प्रत्येक एकके ऊपर देयराशि चार चार रखकर $\frac{४}{१} \frac{४}{१} \frac{४}{१} \frac{४}{१}$ चारों चौकोंका परस्पर गुणनकरनेसे गुणनफल २५६ जघन्ययुक्तासंख्यातका प्रमाण होगा । इस ही जघन्ययुक्तासंख्यातको **आवली** भी कहते हैं, क्योंकि एक आवलीमें जघन्ययुक्तासंख्यातप्रमाण समय होते हैं । जघन्ययुक्तासंख्यातके वर्ग (एक राशिको उसहीसे गुणाकार करनेसे जो गुणनफल होता है उसको **वर्ग** कहते हैं जैसे पांचका वर्ग पंचीस है) को **जघन्यअसंख्यातासंख्यात** कहते हैं । अब आगे जघन्यपरीतान्तका प्रमाण कहते हैं—

जघन्यअसंख्यातासंख्यात प्रमाण तीन राशि अर्थात् १ विरलन २ देय ३ शलाका लिखना । विरलनराशिका विरलनकर प्रत्येक एकके ऊपर देयराशि रखकर समस्त देयराशियोंका परस्पर गुणाकार करना, और शलाका राशिमेंसे एक घटाना । इस पाये हुए गुणनफलप्रमाण एक विरलन और एक देय इसप्रकार दो राशि करना । विरलन राशिका विरलनकर प्रत्येक एकके ऊपर देयराशि रखकर समस्त देयराशियोंका परस्पर गुणाकार करना और शलाका राशिमेंसे एक और घटाना । इस दूसरीवार पाये हुए गुणनफलप्रमाण पुनः विरलन और देयराशि करना, और पूर्वोक्तानुसार समस्त देयराशियोंका परस्पर गुणाकार करना तथा शलाका राशिमेंसे एक और घटाना, इस ही अनुक्रमसे नवीन नवीन गुणनफलप्रमाण विरलन और देयके क्रमसे एक एकवार देयराशियोंका गुणाकार होनेपर शलाका राशिमेंसे एक एक घटाते २ जब शलाकाराशि समाप्त होजाय उससमय जो अंतिम गुणनफलरूप महाराशि होय उसप्रमाण फिर विरलन-देय-शलाका ये तीन राशि लिखनी । विरलनराशिका विरलनकर प्रत्येक एकके ऊपर देयराशि रख देयराशिका परस्पर गुणाकार करते २ पूर्वोक्त क्रमानुसार एकवार देयराशियोंका गुणाकार होनेपर शलाकाराशिमेंसे एक एक घटाते घटाते जब यह द्वितीयवार स्थापन की हुई शलाका राशि भी समाप्त होजाय उससमय इस अन्तकी गुणनफलरूप महाराशिप्रमाण पुनः विरलन-देय-शलाका, ये तीन राशि लिखनी । पूर्वोक्त क्रमानुसार जब यह तीसरीवार स्थापना कीहुई शलाका राशि भी समाप्त होजाय उस समय यह अंतिम गुणनफलरूप जो महाराशि हुई, वह असंख्यातासंख्यातका एक मध्यम भेद है ।

कथित क्रमानुसार तीन वार तीन तीन राशियोंके गुणनविधानको **शलाकात्रयनिष्ठापन** कहते हैं । आगे भी जहां “शलाकात्रयनिष्ठापन” ऐसा पद आवै वहां ऐसा ही विधान समझ लेना । इस महाराशिमें लोकप्रमाण धर्मद्रव्यके प्रदेश, लोकके प्रमाण अधर्मद्रव्यके प्रदेश, लोकप्रमाण एकजीवके प्रदेश, लोकप्रमाण लोकाकाशके प्रदेश, लोकसे असंख्यातगुणा अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकाधिक जीवोंका प्रमाण, और उससे भी असंख्यातलोकगुणा तथापि सामान्यपनेसे असंख्यातलोकप्रमाण प्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पतिकाधिक जीवोंका प्रमाण—ये छह राशि मिलाना । इस योगफलप्रमाण विरलन-देय-शलाका, ये तीन राशि स्थापनकर पूर्वोक्तानुसार शलाकात्रयनिष्ठापन करना । इसप्रकार करनेसे जो महाराशि उत्पन्न हो उसमें बीसकोड़ाकोड़ीसांगरप्रमाण कल्पकालके समय, असंख्यातलोकप्रमाण स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान (स्थितिवन्धको कारणभूत आत्माके परिणाम), इनसे भी असंख्यातगुणे तथापि असंख्यातलोकप्रमाण अनुभागबंधाध्यवसायस्थान, और इनसे भी असंख्यातगुणे तथापि असंख्यातलोकप्रमाण मन वचन काय योगोंके अविभाग प्रतिच्छेद (गुणोंके अंश), ये चार राशि मिलाना । इस दूसरे योगफलप्रमाण फिर विरलन-देय-शलाका

ये तीन राशि स्थापन करना और पूर्वोक्त क्रमानुसार शलाकात्रयनिष्ठापन करना । इसप्रकार शलाकात्रय-निष्ठापनकरनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसको **जघन्यपरीतानन्त** कहते हैं । जघन्यपरीतानन्तका विरलनकर प्रत्येक एकके ऊपर जघन्यपरीतानन्त रख सब जघन्यपरीतानन्तोंका परस्पर गुणाकार करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसको **जघन्ययुक्तान्त** कहते हैं । अभव्यजीवोंका प्रमाण जघन्ययुक्तान्त समान है । जघन्ययुक्तान्तके वर्गको **जघन्यअनंतान्त** कहते हैं ।

अब आगे केवलज्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोंके प्रमाणस्वरूप उत्कृष्ट अनंतान्तका स्वरूप कहते हैं—जघन्यअनंतान्तप्रमाण विरलन-देय-शलाका, ये तीन राशि स्थापन कर शलाकात्रयनिष्ठापन करना । इसप्रकार शलाकात्रयनिष्ठापन करनेसे जो महाराशि उत्पन्न हो वह अनंतान्तका एक मध्यमभेद है । [अनंतके दूसरे दो भेद हैं, एक सक्षयअनंत और दूसरा अक्षय अनंत । यहांतक जो संख्या हुई वह सक्षयअनंत है इससे आगे अक्षयअनंतके भेद हैं, क्योंकि इस महाराशिमें आगे छह राशि अक्षय अनंत मिलाई जाती हैं । नवीन वृद्धि न होनेपर भी खर्च करते २ जिस राशिका अंत नहीं आवै उसको **अक्षयअनंत** कहते हैं] इस महाराशिमें जीवराशिके अनंतवें भाग सिद्धराशि, सिद्धराशिसे अनन्तगुणी निगोदराशि, वनस्पतिकायराशि, जीवराशिसे अनंतगुणी पुद्गलराशि, पुद्गलसे भी अनंतगुणे तीनकालके समय और अलोकाकाशके प्रदेश ये छहराशि मिलानेसे जो योगफल हो उसप्रमाण विरलन-देय-शलाका, ये तीन राशि स्थापनकर शलाकात्रय निष्ठापन करना । इसप्रकार शलाकात्रय निष्ठापन करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसमें धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यके अगुरुलघुगुणके अनंतान्त अविभागप्रतिच्छेद मिलाकर योगफलप्रमाण विरलन-देय-शलाका, स्थापनकर फिर शलाकात्रयनिष्ठापन करना । इसप्रकार शलाकात्रयनिष्ठापन करनेसे मध्यम अनंतान्तका भेदरूप जो महाराशि उत्पन्न हुई उसको केवलज्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोंके समूहरूप राशिमेंसे घटाना और जो शेष बचै उसमें पुनः वही महाराशि मिलानेसे केवलज्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोंका प्रमाणस्वरूप उत्कृष्ट अनंतान्त होता है । उक्त महाराशिको केवलज्ञानमेंसे घटाकर फिर मिलानेका अभिप्राय यह है कि, केवलज्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोंका प्रमाण उक्त महाराशिसे बहुत बड़ा है । उस महाराशिको किसी दूसरी राशिसे गुणाकार करनेपर भी केवलज्ञानके प्रमाणसे बहुत कमती रहता है । इसलिये केवलज्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोंके प्रमाणका महत्त्व दिखलानेकेलिये उपर्युक्त विधान किया है । इसप्रकार संख्यामानके २१ भेदोंका कथन समाप्त हुआ ।

अब आगे उपमामानके आठ भेदोंका स्वरूप लिखते हैं—जो प्रमाण किसी पदार्थकी उपमा देकर कहा जाता है उसे **उपमामान** कहते हैं । उपमामानके ८ भेद हैं १ पत्य (यहां पत्य अर्थात् अनाज भरनेकी जो खास उसकी उपमा है) २ सागर (यहां लवण समुद्रकी उपमा है) ३ सूच्यंगुल ४ प्रतरांगुल ५ घनांगुल ६ जगच्छ्रेणी ७ जगत्प्रतर और ८ लोक । इनमेंसे पत्यके ३ भेद हैं—१ व्यवहारपत्य २ उद्धारपत्य और ३ अद्धारपत्य । व्यवहारपत्यका स्वरूप पूर्वाचार्योंने इसप्रकार कहा है, उसीको दिखलाते हैं—पुद्गलद्रव्यके सबसे छोटे खंडको (टुकड़ेको) **परमाणु** कहते हैं, अनंतान्त परमाणुओंके स्कंधको (समूहरूप पिंडको) 'अवसन्नासन्न' कहते हैं, ८ अवसन्नासन्नका एक 'सन्नासन्न,' ८ सन्नासन्नका एक 'तृटरेणु,' ८ तृटरेणुका एक 'त्रसरेणु,' ८ त्रसरेणुका एक 'रथरेणु,' ८ रथरेणुका एक 'उत्तम भोगभूमिवालोक' का वालाग्र भाग,' ८ उत्तम भोगभूमिवालोक' का वालाग्रका एक 'मध्यमभोगभूमिवालोक' का वालाग्र,' ८ मध्यम भोगभूमिवालोक' का वालाग्रका एक 'जघन्यभोगभूमिवालोक' का वालाग्र,' ८ जघन्य भोगभूमिवालोक' का वालाग्रका एक कर्मभूमिवालोक' का वालाग्र,' ८ कर्मभूमिवालोक' का वालाग्रकी एक 'लीख,' ८ लीखोंकी एक सरसों,' ८ सरसोंका एक 'जी,' और ८ जीका एक 'अंगुल' होता है । इस अंगुलको 'उत्सेधांगुल' कहते हैं । चारोंगतियोंके जीवोंके शरीर और देवोंके नगर तथा मंदिरादिकका परिमाण इसी अंगुलसे वर्णन किया जाता है । इस उत्सेधांगुलसे पांचवीं गुणा प्रमाणांगुल (भरत क्षेत्रके अवसर्पिणीकालके प्रथम चक्रवर्तीका अंगुल) है ।

कर्मबन्धादियत्र (१)

इस यन्त्रद्वारा श्रीगोम्मटसारके कर्मकाण्डसंबन्धी कर्मप्रकृतियोंके बन्धउदय-
सत्ताका गुणस्थानक्रमसे निर्णय होता है ।

गुणस्थान संख्या.	गुणस्थानका नाम.	बंधसंख्या. (२)	बन्धव्युच्छित्ति संख्या. (३)	उदय संख्या.	उदयव्युच्छित्ति संख्या.	सत्ता संख्या.	सत्ताव्युच्छित्ति संख्या.
प्रथम	मिथ्यात्व	११७ (४)	१६ (८)	११७(१८)	५ (२४)	१४८	०
द्वितीय	सासादन.	१०१	२५ (९)	१११(१९)	९ (२५)	१४५(३८)	०
तृतीय	सम्यग्मि.	७४ (५)	०	१००(२०)	१ (२६)	१४७(३९)	०
चतुर्थ	अविरतस.	७७ (६)	१० (१०)	१०४(२१)	१७ (२७)	१४८(४०)	१
पञ्चम	देशविरत.	६७	४ (११)	८७	८ (२८)	१४७(४१)	१
षष्ठ	प्रमत्तसंयत.	६३	६ (१२)	८१(२२)	५ (२९)	१४६(४२)	०
सप्तम	अप्रमत्तसं.	५९ (७)	१ (१३)	७६	४ (३०)	१४६(४३)	४
अष्टम	अपूर्वकरण	५८	३६ (१४)	७२	६ (३१)	१४२(४४)	०
नवम	अनिवृत्ति.	२२	५ (१५)	६६	६ (३२)	१४२(४५)	०
दशम	सूक्ष्मसां.	१७	१६ (१६)	६०	१ (३३)	१४२(४६)	०
एकादश	उपशान्त.	१	०	५९	२ (३४)	१४२(४७)	०
द्वादश	क्षीणकपाय.	१	०	५७	१६ (३५)	१०१(४८)	१६
त्रयोदश	संयोगकेवली	१	१ (१७)	४२ (२३)	३० (३६)	८५ (४९)	०
चतुर्दश	अयोगके.	०	०	१२	१२ (३७)	८५ (५०)	८५

१ जहांपर दोनों तरफसे अर्धचन्द्राकारका घेरा देकर जो संख्या लिखी है उस संख्याके क्रमसे उस स्थानका गुणस्थान टग बंधके नीचे टिप्पणीमें लिखा गया है । सब प्रकृतियोंका अर्थ और नंबर १६ वें पृष्ठमें लेकर २२ वें तक लिखा हुआ है सो देखलेना ।

२ जो अभेदभावमें १२२ उत्तरप्रकृति मानी गई हैं उनमेंसे भी १८ तथा १९ वीं संख्यावाली दो प्रकृति बंधके प्रमंगमें घट जाती है क्योंकि, बंधके समय दर्शनमोहनीय एक मिथ्यास्वरूप ही रहता है । उदाहरण १२२ का होता है और सत्ताकी अपेक्षा १४८ ही है । किसी कर्मका बंध उदय सत्त्व तो किसी गुणस्थानमें जो नहीं होता सो योग्यता न रहनेसे, और किसीकी पूर्व गुणस्थानमें व्युच्छित्ति होजानेसे बंध उदय अवसर सम्भव नहीं रहता । जैसे प्रथम गुणस्थानमें तीर्थंकरप्रकृति तथा आहारकयारीर आहारक आंगीकारकी योग्यता नहीं रहनेसे वहांपर बंध नहीं होता है ।

३ व्युच्छित्ति विना कर्मकी जिस गुणस्थानमें कही हो वहांतक ही उस कर्मका बंधादि होता है, उसके बाद नहीं होता इसविधे फिर ऊपर उनकी संख्या घटावनी चाहिये ।

४ १०-११-१२ वीं तीनों गुणस्थानकी ३ प्रकृति बंधमेंकी यहां योग्यता नहीं है । ९२-९३ गाथामें

५ इस गुणस्थानसे नरक, तिर्यगायुकी प्रथम व्युच्छित्ति भी होचुकी है तथा इस गुणस्थानमें किसी आ-
युका-बंध होत भी नहीं इसलिये वाकीकी दो आयु और भी घट जानेसे बंधयोग्य ७४ ही रहती हैं ।
९४ गाथामें

६ तीसरे गुणस्थानमें जो विना व्युच्छित्ति भी दो आयु बंधयोग्यताके अभाव होनेसे घटाई थीं वे दो
तथा एक तीर्थकर इन तीनोंका बंध यहांसे होनेसे ३ संख्या ७४ में बढजाती है ।

७ नं० ६०-८१ वाली दो प्रकृतियोंका यहां ही बंध होनेसे दोकी संख्या ५७ में और बढ जाती है ।

८ नं० १७-४४-४५-४९-७८-८७-१०८-५३-५४-५५-५६-१३२-१३३-१३५-१३४-११६
वाली सोलहोंकी यहां व्युच्छित्ति है । ९५ गाथामें ।

९ नं० २०-२१-२२-२३-११-१२-१०-४२-४६-१४३-१३८-१३९-१४०-७४-७५-७६-
७७-८३-८४-८५-८६-११९-११७-५०-१०९ वीं संख्यावाली पन्चीस प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति यहां
होती है । ९६ गाथामें

१० नं० २४-२५-२६-२७-४७-५१-५८-७९-८२-११० इन दशकी यहां व्युच्छित्ति है ।
९० गाथामें

११ नं० २८-२९-३०-३१ वीं ये चार यहां व्युच्छिन्न होती हैं । ९७ गाथामें

१२ नं० १६-३८-३९-१३६-१३७-१४१ वीं छहोंकी यहां व्युच्छित्ति है । ९८ गाथामें ।

१३ नं० ४८ वीं १ की यहां व्युच्छित्ति है । ९८ गाथामें ।

१४ नं० १३-१४-३६-३७-४०-४१-१३१-१३०-११८-५७-६१-६२-६०-८१-५९-८०-
७३-५२-१११-१०० आदि-९५ आदि-९३ आदि-८८ आदि-११२-११३-११४-११५-१२०-
१२१-१२२-१२३-१२४-१२५-१२६-१२७-१२८ वाली छत्तीसोंकी व्युच्छित्ति यहां होती है । ९९-
१०० गाथामें ।

१५ नं० ३२-३३-३४-३५-४३ वाली पांचोंकी व्युच्छित्ति यहां होती है । १०१ गाथामें ।

१६ नं० १-२-३-४-५-६-७-८-९-१४२-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८-१२९ वाली सोल-
होंकी व्युच्छित्ति यहां होती है । १०१ गाथामें ।

१७ नं० १५ वीं एक प्रकृति यहां व्युच्छिन्न होती है । १०२ गाथामें ।

१८ नं० १८-१९-६०-८१-१३१ वाली पांचोंके उदयकी यहां योग्यता नहीं होनेसे १२२ में घट
जाती है ।

१९ प्रथम गुणस्थानमें पांचकी व्युच्छित्ति होनेसे तथा १०८ वीं की योग्यता न होनेसे यहां १११ का
उदय है । २६३ गाथामें

२० दूसरे गुणस्थानमें १११ का उदय था उनमेंसे ९ की वहां ही व्युच्छित्ति हो चुकी सो ९ के घ-
टानेसे तथा यद्यपि किसी भी आनुपूर्वीका यहां उदय नहीं है परंतु नारकानुपूर्वीकी व्युच्छित्ति पूर्वमें हो-
नेसे नहीं गिननेपर भी तीन आनुपूर्वीके घटानेसे ९९ रही । ९९ में मिश्रका उदय होनेके कारण यहां ब-
ढानेसे १०० का उदय होता है । २६३ गाथामें ।

२१ नं० १०८-११०-१११ वीं चारों आनुपूर्वीकी तथा १८ वीं १ की यहां योग्यता होनेसे ५ बढा
देनेपर १०४ का उदय होता है । २६३ गाथामें

२२ नं० ६०-८१ वीं दोकी पहिले योग्यता नहीं थी किंतु यहां ही है इसलिये ८ घटनेपर भी दो
बढानेसे ८१ का उदय रहता है । २६३ गाथामें

२३ उपर्युक्त १६ व्युच्छिन्नोंको ५७ मेंसे घटानेपर ४१ होनी चाहिये परंतु जो १०७ वाली पहिले यो-
ग्यता न होनेसे उदय संख्यामेंसे घटा दी थी उसकी यहां योग्यता होनेसे ४१ में बढादी जाती है ।
२६३ गाथामें ।

२४ नं० १७-११६-१३५-१३३-१३४ वाली पांचोंकी यहां व्युच्छित्ति है । २६५ गाथामें ।

२५ नं० २०-२१-२२-२३-५३-५४-५५-५६-१३२ वीं नौकी व्युच्छित्ति यहां है । २६५ गाथामें ।

२६ नं० १९ वीं की व्युच्छित्ति यहां तीसरे गुणस्थानमें है । २६५ गाथामें ।

२७ नं० २४-२५-२६-२७-४५-४८-४९-५२-५९-८०-१०८-१०९-११०-१११-१३८-१४०-१४१ वीं सत्रहोंकी यहां व्युच्छित्ति है । २६६ गाथामें ।

२८ नं० २८-२९-३०-३१-४६-१४३-५०-११७ वीं आठोंकी यहां व्युच्छित्ति है । २६७ वें गाथामें ।

२९ नं० ११-१२-१०-६०-८१ वीं संख्यावाली पांचोंकी यहां व्युच्छित्ति है । २६७ वें गाथामें ।

३० नं० १८-८५-८६-८७- वीं संख्यावाली चारकी यहां व्युच्छित्ति होती है । २६८ वें गाथामें ।

३१ नं० ३६-३७-३८-३९-४०-४१ वीं छहोंकी यहां व्युच्छित्ति होती है । २६८ वें गाथामें ।

३२ नं० ३२-३३-३४-४२-४३-४४ वाली छहोंकी यहांपर व्युच्छित्ति होती है । २६९ वें गाथामें ।

३३ नं० ३५ वीं संख्यावाली प्रकृतिकी व्युच्छित्ति यहांपर हो जाती है । २६९ वें गाथामें ।

३४ नं० ८३-८४ वीं दोकी व्युच्छित्ति यहां होती है अर्थात् यहांसे ऊपर उदय नहीं है । २६९ वें गाथामें ।

३५ नं० १-२-३-४-५-६-७-८-९-१३-१४-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८ वीं सोलहकी यहां व्युच्छित्ति है । २७० वें गाथामें

३६ नं० १५ या १६ वीं एक तथा ५८-६१-६२-७९-११२-११३-११४-११५-११८-११९-१२३-७३-७४-७५-७६-७७-७८-८२-१२४-१२५-१२७-१३६-१३७-१३९-१३०-१००- आदि ९५- आदि ९३- आदि ८८ आदि वीं इन तीसोंकी यहां व्युच्छित्ति है । २७१ वें गाथामें ।

३७ नं० १५ या १६ वीं मेंसे एक तथा ४७-१४२-५१-५७-१२०-१२१-१२२-१२६-१२८-१२९-१३१ वाली इन चारहोंकी यहां व्युच्छित्ति है । २७२ वें गाथामें ।

३८ इस गुणस्थानसे नं० ६०-८१-१३१ वीं तीनोंके सत्त्वकी योग्यता नहीं है । ३३३ वें गाथामें ।

३९ इसमें नं० १३१ वीं प्रकृतिकी सत्ता रहनेकी ही योग्यता नहीं है । ३३३ वें गाथामें ।

४० क्षायिक सम्यग्दृष्टिकी अपेक्षा तो १४१ की ही यहां सत्ता है क्योंकि, नं० १७-१८-१९-२०-२१-२२-२३ वीं सातोंका क्षय हो चुका है । ३३५ वें गाथामें ।

४१ चौथेमें ४५ वीं प्रकृतिकी व्युच्छित्ति होनेसे यहां वह घट जाती है । ३३५ वें गाथामें

४२ पांचवेमें ४६ वीं की व्युच्छित्ति होनेसे वह यहां घटजाती है । ३३५ गाथामें ।

४३ यहां भी छठे गुणस्थानकीसी ही सत्ता है परंतु क्षायिक सम्यग्दृष्टिके ७ के घटनेसे १३९ का ही सत्त्व रहता है । ३३५ गाथामें ।

४४ सातवेंमें जिन १४६ का सत्त्व कहा है उनमेंसे उपशम श्रेणीवाले भी यहांपर नं० २०-२१-२२-२३ वीं प्रकृतियोंको घटा देते हैं, किंतु क्षायिक सम्यग्दृष्टिके उपशम श्रेणी होनेपर नं० १७-१८-१९ वीं तीन प्रकृति भी घट जाती हैं इसलिये सत्त्व १३९ का ही रहता है । और क्षपक श्रेणीवालेके तो सातवें गुणस्थानकी व्युच्छिन्न प्रकृति ७ (नं० १७-१८-१९-२०-२१-२२-२३) तथा ४८ वीं १ को १४६ मेंसे घटानेसे १३८ का ही सत्त्व रहता है । ३३६ वें गाथामें ।

४५ यहांपर भी आठवेंके समान ही व्यवस्था है । ३३६ वें गाथामें ।

४६ उपशम श्रेणीवाले उपशमसम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टिके आठवेंके समान ही यहां सत्त्व है । और क्षपक श्रेणीवालेके ३६ प्रकृतियोंकी (नं० ११-१२-१०-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१-३२-३३-३४-३६-३७-३८-३९-४०-४१-४२-४३-४४-४९-५०-५३-५४-५५-५६-१०८-१०९-११६-११७-१३५-१३२-१३३ वीं) नवमेंमें व्युच्छित्ति हो जानेसे (४४)वेंमें उक्त १३८ प्रकृतियोंमेंसे ३६ घटा देनेपर १०२ का ही सत्त्व है । ३३६ वें गाथामें ।

गौम्मटसारः ।

४७ क्षायिक सम्यग्दृष्टि उपशम श्रेणीवालेके दशवेमें संज्वलन लोभकी व्युच्छित्ति होनेसे १ सत्त्व रहता है । शेष विचार पूर्वोक्तप्रमाण है । ३३७ वें गाथामें ।

४८ यहां भी उपशमश्रेणीके क्षायिक सम्यग्दृष्टिके ग्यारहवें गुणस्थानके समान १०१ का ही सत्त्व ३३७ वें गाथामें ।

४९ वारहवेमें नं० १-२-३-४-५-६-७-८-९-१३-१४-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८ संख्यावाली सोलह प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति होनेसे १०१ मेंसे १६ घटा देनेपर ८५ का सत्त्व रहजाता ३३८—३३९ वें गाथामें ।

५० इसमें भी ८५ का ही सत्त्व है किंतु इसके द्विचरम समयमें ७२ की व्युच्छित्ति और चरम (अन्त) समयमें शेष १३ की व्युच्छित्ति होकर गुणास्थानातीत तिस्रपरमेष्ठी कर्ममलरहित होजाते हैं । ३४१ वें गाथामें । इति ॥





अथ गोम्मटसारस्थकर्मकाण्डके गाथाओंकी

अकारादिक्रमसे सूची ।



गाथा.	पृ.गा.	गाथा.	पृ. गा.
अ. अक्खाणं अणुभवनं	६११४	अद्भुदओ सुहुमोत्ति य	१५२।४५४
अत्थं देक्खिस्वय जाणदि	७।१५	अपं वंधतो बहु	१५६।४६९
अच्चरहिदादु पुवं	७।१६	अप्पदरा पुण तीसं	१५७।४७३
अप्पोवयारवेक्खं	३१।६१	अणसंजोजिदसम्मो	१५९।४७८
अणणोकम्मं मिच्छं	३५।७५	अणियट्टिकरणपढमा	१६१।४८३
अयदे विदियकसाया	४३।९७	अट्ठीससहस्सा	१६६।५०५
अवरो भिण्णमुहुत्तो	५३।१२६	अट्ठत्तीहिं सहिया	१६७।५०६
अरदी सोगे संढे	५४।१३०	अट्ठेव सहस्साइं	१६७।५०७
अजहण्णट्टिदिवंधो	६२।१५२	अट्ठ य सत्त य छक्क य	१६७।५०८
अणथीणंतियं	६८।१७१	अडचउरेक्कावीसं	१६८।५११
अवसेसा पयडीओ	७१।१८३	अडवीस दु हारदुगे	१७७।५४६
अविभागपडिच्छेदो	८४।२२३	अडवीसतिय दु साणे	१७९।५५१
अवरुक्खस्सेण हवे	८९।२४२	अविरदभंगे मिस्स य	१७९।५५३
अट्टसमयस्स थोवा	९०।२४३	अप्पपरोभयठाणे	१७९।५५५
अण्णोण्णगुणिदरासी	९१।२४९	अविरदसम्मो देसो	१८०।५५८
अणुभागाणं वंध	९४।२६०	अप्रणसंजोजिदमिच्छे	१८१।५६१
अयदे विदियकसाया	९६।२६६	अडवण्णा सत्तसया	१९३।६०८
अपमत्ते सम्मत्तं	९७।२६८	अट्टविहसत्तच्छ्वं	१९८।६३८
अवणिदतिप्पयडीणं	१००।२८०	अडछव्वीसं सोलस	२०४।६४९
अयदापुण्णे ण हि थी	१०२।२८७	अट्टसु एक्को वंधो	२०५।६५३
अविरदटाणं एक्कं	१०७।३०५	अणियट्ठीबंधतियं	२०५।६५४
अणुभयवचि वियल	१०९।३११	अडवीसदुगं वंधो	२१८।७००
अणसंजोगे मिच्छे	११४।३२६०	अपमत्ते य अपुत्त्वे	२१८।७०१
अणुदय तदियं णीचं	११९।३४१	अण्णाणदुगे वंधो	२२३।७२३
अभच्चसिद्धे णत्थि हु	१२३।३५५	अविरमणे वंधुदया	२२५।७२९
अण्णदरआउसहिया	१३१।३७८	अडवीसचऊ वंधा	२२५।७३१
अणियट्टिचरिमठाणा	१३४।३८९	अत्थि णवट्ट य दुदओ	२२७।७३८
अणियट्टिगुणद्वारे	१३५।३९२	अडवीसे तिगिणउदे	२३७।७८०
अट्टारस चउअट्टं	१३६।३९३	अडवीसमिबुणतीसे	२३७।७८१
असहायजिणत्तदि	१३७।३९८	अवरादीणं टाणं	२४१।७९१
अण्णोण्णम्भत्थं पुण	१४६।४३३	अणरहिदसहिदकूडे	२४३।७९६
अण्णत्तभठियस्सुदये	१४८।४३९	अरहंतसिद्धचेदिय	२४५।८०२
		अणुवदमहव्वदेहिं च	२४६।८०७

गीथा.	पृ. गा.	गाथा.	पृ. गा.
शुभपतिगदं पुध पुध	२७८१९३५	उवरिल्लपंचये पुण	२३९१७८८
इद्रसलायपमाणं	२७८१९३७	उम्मग्गदेसगो मग्ग	२४६१८०५
उ.			
उच्चसुच्चं देहं	३८१८४	उवसमखइयो मिस्सो	२४८१८९३
उवघादमसग्गमणं	२५१४४	उवसमभावो उवसम	२४९१८९६
उवसंतखीणमोहे	४५१९०२	उत्तरभंगा दुविहा	२५११८२३
उदयं पडि सत्तण्हं	६४१९५६	उदयेणक्खे चडिदे	२५८१८३४
उवघादहीणतीसे	६७१९६७	उगुवीसतियं तत्तो	२५५१८३९
उज्जोवो तमतमगे	६७१९६९	उवसामगेसु दुगुणं	२५६१८४३
उत्तरपयडीसु पुणो	७६१९९६	उडुतिरिच्छपदानं	२६११८६३
उक्कडजोगो सण्णी	८०१२१०	उभयधणे संमिलिदे	२७११९०२
उववादजोगठाणा	८२१२१९	उक्कस्सट्टिदिवंधो	२७९१९४०
उदयसुदीरणस्स य	९९१२७८	उवरिमगुणहाणीणं	२८०१९४४
उव्वेल्लिददेवदुगे	१२८१३८८	ऊ	
उव्वेल्लण विज्झादो	१४०१४०९	ऊणत्तीससयाहिय	१९२१६०५
उव्वेल्लणपयढीणं	१४११४१३	ऊणत्तीससयाइं	२६२१८६९
ए			
उगुदालतीससत्त य	१३३१४१८	एइंदियमादीणं	३७१८०
उदये संकममुदयेतं अ... ..	१४८१४४०	एयं पणकदि	५९११४४
उवसंतोत्ति सुराऊ	१५०१४४६	एयक्खेतोग्गढं	७२११८५
उदये संकममुदये	१५११४५०	एयसरीरोगाहिय	७२११८६
उगुवीसं अट्टारस	१५५१४६५	एयाणेयक्खेतद्रिय	७३११८७
उदयट्टाणं दोण्हं	१६०१४८२	एयंतवडुट्टाणा	८३१२२२
उदयट्टाणं पयडिं	१६३१४९०	एक्केके पुण वग्गे	८४१२२६
उवसामगा दु सेडिं	१८०१५५९	एदेसिं ठाणाणं	८६१२३२
उदधिपुधत्तं तु तसे	१९५१६१५	एदेसिं ठाणाओ	८९१२४१
उयरदबंधे चदुपं	१९९१६३२	एदेण कारणेण दु	९९१२७५
उच्चुव्वेल्लिदतेऊ	२००१६३६	एयं वा पणकाये	१०८१३०९
उच्चुव्वेल्लिद तेऊवाऊ	२०११६३७	एवं माणादितिए	११२१३२३
उदया चउवीसणा	२१७१६९९	एवं पंचतिरिक्खे	१२११३४७
उदओ तीसं सत्तं	२१८१७०२	एवं तिखु उवसमगे	१३३१३८५
उदया शुभिपण सगअड... ..	२२११७१३	एदे सत्तट्टाणा	१३३१३८६
उदया उणतीसतियं	२२३१७२४	एवं सत्तट्टाणं	१३६१३९५
उदओ सव्वं चउपण	२२३१७२६	एक्क य छक्केयारं	१६०१४८१
उदया शुभिपणवीसं	२२५१७३३	एक्क य छक्केयारं दस	१६२१४८८
उदया मदिं ष उइये	२२५१७३४	एकावण्णसहस्सं	१६३१४९३
उदया शुभिधीसचऊ	२२६१७३५	एयक्ख अपञ्जत्त	१७३१५३०
उदयंसट्टाणामि य	२२८१९३०	एक्कं व दो व तिग्गि व	१८७१५८४
उयरदबंधेसुदया	२२८१७४५	एणे शुभिवीसणं	१९०१५९५

गाथा.	पृ. गा.	गाथा.	पृ. गा.
एके एकं आज्	२०२१६४२	अंतोकोडाकोडिद्रिदिस्स...	६४१५७
एवमवधे बंधे	२०२१६४४	अंतरमुवरीवि पुणो	८५१२३०
एकाउस्स तिभंगा	२०३१६४५	अंगुलअसंखभागप्प	८८१२३९
एकुदयुवसंतसे	२१६१६९०	अंतरगा तदसंखे	९३१२५५
एगेममद्र एगे	२१६१६९४	अंगुल असंखभागंवि	१४६१४३४
एगुणतीसत्तिदयं	२१७१६९८	अंतिमठाणं सुहुमे	१७८१५४८
एगे वियले सयले	२२०१७११	अंतोमुहुत्तमेत्तो	२७०१८९९
एगेगं इगितीसे	२२७१७४१	अंतोमुहुत्तकालं	२७२१९०८
एवं खिगितीसे ण हि	२३४१७६७	अंतोमुहुत्तमेत्ते	२७३१९१०
एवं पण छव्वीसे	२३४१७७०	अंतोकोडाकोडि	२८११९४५
एवमंडसीदितिदए	२३५१७७६		
एकं च तिणिण पंच य	२४२१७९३	क	
एकारं दसगुणियं	२५९१८५२	कमत्तणेण ए	५१६
एकादी दुगुणकमा	२६०१८६०	केवलणाणं दंसण	५११०
एको चेव महप्पा	२६५१८८१	कम्मकयमोहवड्डिय	५१११
एकमिह कालसमये	२७३१९११	केवलणाणावरणं दंस	२४१३९
		कदलीघादसमेदं	३०१५८
		कम्मइवादणं	३२१६४
ओ		कम्मागमपरिजाणग	३२१६५
ओहिमणपज्जवाणं	३४१७१	कप्पिपथीसु ण तित्थं	४८१११२
ओही केवलदंसण	३५१७३	कम्मे उरालमिस्सं	५११११९
ओरालियवेगुव्विय	३७१८०	कम्मसरुवेणागय	६३११५५१(२७४)
ओधे वा आदेसे	४६११०५	कम्मे व अणा उदय,	११६१३३२
ओराले वा मिस्से	५०१११६	कम्मे वाणाहारे सत्तं	१२४१३५६
ओधं तसे ण थावर	१०९१३१०	किं वंधो उदयादो	१३७१३९९
ओधं कम्मे सरगदि	११११३१८	कम्माणं संबंधो	१४८१४३८
ओधं वा णेरइये	१२११३४६	कोहस्स य माणस्स य	१६२१४८६
ओधं देवे ण हि णिर	१२११३४८	कम्मं वा किण्हति ए	१७८१५४९
ओधं पंचखतसे	१२११३४९	कम्मोरालियमिस्सं	१८८१५८६
ओरालमिस्सजोगे	१२३१३५३	कम्ममुवसमम्मि उवसम	२४८१८१४
ओरालदुगे वज्जे	१४४१४२५	कम्मदयज कम्मिगुणो	२४८१८१५
ओक्कट्टणकरणं पुण	१५०१४४५	कालो सर्वं जणयदि	२६४१८७९
ओरालं दंडुगे	१८८१५८७	को करइ कंटयाणं	२६५१८८३
ओहिदुगे वंधतियं	२२५१७३०	को जाणइ णवभावे	२६६१८८६
ओरालमिस्स तसवह	२४०१४६०	को जाणइ सत्तचऊ	२६७१८८७
ओदयिया पुण भावा	२४९१८१८		
ओघादेसे संभव	२४९१८२०	ख	
		खीणकसाय दुचरिमे	९७११७०
अंतिमतियसंहडणं	१४१३२	खिव तस दुग्गदि दुस्सर	१०८१३०८
अंतोमुहुत्तपक्खं	२६१४६	खाइयसम्मो देसो	११५१३२९

गाथा.	पृ. गा.	गाथा.	पृ. गा.
खवर्ण वा उवसमणे	१२०।३४३	चत्तारि वारमुवसम	१९६।६१९
खीणोत्ति चारि उदया	१५४।४६१	चरिमे चदु तिदुगेकं	२०९।६६८
खाओवसमियभावो	२४९।८१७	चदुबंधे दो उदये	२१२।६७८
खाइयं अविरदसम्मे	२५३।८३१	चउरुदयुवसंतसे	२१५।६८९
ग		चारुसुदंसणधरणे	२२७।७३९
गदिआदि जीवभेदं	५।१२	चरिमदु वीसुणुदयो	२३१।७५७
गदिजादी उस्सासं	२७।५१	चदुपचइगो धंधो	२३९।७८७
गुडखंडसकरामिय	७२।१८४	चउवीसट्टारसयं	२४३।७९७
गदियादिसु जोग्गाणं	१०१।२८४	चक्खुण मिच्छसासण	२५३।८३०
गदिआणुआउ उदओ	१०१।२८५	चयधणहीणं दवं	२७१।९०३
गुणहाणिअणंतगुणं	१४६।४३५	चरिमं चरिमं खंडं	२८४।९५८
गयजोगस्स य चारे	१९१।५९८	छ	
गयजोगस्स दु तेरे	१९४।६११	छट्टे अथिरं असुहं	४३।९८
गुणसंजादप्पयाडिं	१९४।६१२	छण्हं पि अणुक्कस्सो	७९।२०७
गोम्मटजिणिंदवंदं	२४७।८११	छण्णोकसायणिदा	८०।२१३
गोम्मटसंगहसुत्तं कम्मा०	२८६।९६५	छसु सगविहमट्टविहं	१५२।४५२
गोम्मटसंगहसुत्तं	२८७।९६८	छव्वावीसे चदु इगि	१५६।४६७
गोम्मटसुत्तहिहणे	२८८।१७२	छट्टोत्ति चारि भंगा	२००।६३४
घ		छप्पुण उदये उवसं	२१५।६८८
घादीवि अघादिं घा	७।१७	छण्णवछत्तियसग इगि	२१६।६९३
घादिं व वेयणीयं	८।१९	छव्वावीसे तिणिणउ	२३६।७७८
घादीणीचमसादं	२५।४३	छप्पंचादेयंतं	२४४।७९९
घम्मे तित्थं वंधदि	४६।१०६	छण्णउदि चउसहस्ता	२७२।९०९
घादितिमिच्छकसाया	५२।१२४	ज	
घादीणं अजहण्णो	७०।१७८	जीरदि समयपवद्धं	३।५
घादितियाणं सगसग	७७।२०१	जंतेण कोइवं वा	११।२६
घोडणजोगोऽसण्णी	८१।२१६	जाणुगसरीर भवियं	२१।५५
घादीणं छदुमट्टा	१५३।४५५	जदि सत्तरिस्स एत्तिय	५९।१४५
च		जेद्दावाहोवट्टिय	६०।१४७
चरिम अपुण्णभवत्थो	८२।२१७	जेट्टे समयपवद्धे	७३।१८८
चत्तारि तिणिण कमसो	९०।२४६	जोगट्टाणा तिविहा	८२।२१८
चक्खुम्मि ण साहारण	११३।३२५	जोगा पयट्टिपदेसा	९८।२५७
चत्तारिवि सेत्ताई	११६।३३४	जुगवं संजोगित्ता	११७।३३६
चदुगदिमिच्छे चउरो	१२२।३५१	जह चक्खेण व चप्पी	१३५।३९७
चउछकदि चउअहं	१२६।३६३	जत्थ वरणेभिनंदो	१४०।८०८
चत्तारि तिणिण तिय चउ	१५२।४५३	जस्स च पायपसाये	१४७।४३३
चदुरेकं दु पप पंच व	१८०।५५६	जोगिम्मि अजोगिम्मि व	२६८।७०३
चदुगदिया एइंदो	१८९।५६३	जहत्तादे वंधत्तियं	२६९।७२८

गाथा.	पृ. गा.	गाथा.	पृ. गा.
जैहिं दु लखिस्रजंते	२४८१८१२	णभतिगिणभ इगि	११९१३४२
जीवत्तं भवत्तम	२४९१८१९	णिरयादिखु पयडिद्विदि	१२०१३४४
सोगिम्मि अजोगिगिम्मिय	२६३१८७३	णमिऊण वड्डुमाणं	१२५१३५८
जनु जदा जेग जहा	२६५१८८२	णारकळकुव्वेळे	१२८१३७०
जावदिग्या वयणवहा	२६८१८९४	णिरयतिरियाउ दोणिवि	१३३१३८४
जमहा उवरिमभावा	२७०१८९८	णत्थि अणं उवसमगे	१३५१३९१
जम्हि गुणा विस्संता	२८६१९६६	णवरि विसेसं जाणे	१४९१४४३
जेन विणिम्मियपडिमा	२८७१९६९	णमिऊण जेमिणाहं	१५२१४५१
जेगुम्मियसंभुवरिम	२८८१९७१	णवळक चडुक्कं च यं	१५४१४५९
ठ.		णव सासणोत्ति वंधो	१५४१४६०
ठिदि अणुभागपदेसा	४०१९१	णभचउवीसं वारस	१५७१४७२
ठिदि अणुभागणं पुण	१४५१४२९	णवसय सत्ततरिहिं	१६२१४८९
ठानमपुण्णेण जुदं	१७११५२२	णवणउदि सगसयाहिय	१६३१४९२
ठिदिगुणहाणियमाणं	२८२१९५१	णत्थि णउंसयवेदो	१६५१४९७
ण.		णिरया पुण्णा पण्हं	१७०१५१९
णानसस दंसणसस च	४१८	णिरयेण विणा तिण्हं	१७११५२३
णानसस० पडिदमिदि	९१२०	णरगइणामरगइणा	१७२१५२५
णववा याहु य तथा	१३१२८	णामसस णवधुवाणि य	१७२१५२६
णवगिण्णामुदिम	१४१३०	णेरयियाणं गमणं	१७५१५३८
णानाणरगवउरं	२४१४०	णामसस वंधटाणा	१७७१५४४
णोमं टण्णा दरियं	२८१५२	णिरयादिजुददाणे	१७९१५५२
णोआगमभायो पुण	३३१६६	णामधुवोदयवारस	१८८१५८८
णिरयायुग्ग अणिसा	३६१७८	णारयसणिमणुसस	१९३१६०७
णिरयादीय मदीणं	३६१७९	णऊदी चडुग्गदिम्मि य	१९७१६२१
णोआगमभायो पुण सग	३८१८६	णिरये वा इगिणउदी	१९७१६२३
णत्थि वण जेमिणं	३९१८७	णीनुजाणेकदरं	२००१६३५
णित्थेव होदि विो	४८१३११	णवरि य अपुण्वणवगे	२१२१६७७
ण इ यामणो अणुणो	४९१११५	णामसस य वंधोदय	२१६१६९२
णउदि य सणुणाममे	५३११२०	णामसस य वंधोदय गु०	२१७१६९५
णउदिदिया विणाउं	५७११३७	णिरयादिणामबंधा	२२११७१२
णउदि उवसमणं	७११२०९	णयणंनोदयसत्ता	२२७१७४०
णिरयसि चडुग्गो	८७१२३४	णामसस य वंधादिगु	२३८१७८४
णामपुण्णोदियणव	९३१२४८	णमिऊण अभावणंदि	२३८१७८५
णिरये उवसमणं	९५१२६२	णवरि विमेसं जाणे	२४३१८२९
णदा उवसदीया	९८१२७३	णत्थि मदी परदोदि य	२६६१८८४
णिरयणउ उवसदीय	१०१२११	णत्थि य मसवदय्या	२६६१८८५
णिरयणउ उवसदीय	१०१२३५	णमर गुणवदयणुणय	२६९१८९६
णिरयणउ उवसदीय	१०१२३६		

गाथा.	त.	पृ. गां.	गाथा.	पृ. गां.
तं पुण अट्टविहं वा	तिसु तेरं दस मिस्से	...
तेजाकम्मोहिं तिये	तेवण्णवसयाहिय	...
तित्थयरं उस्सासं	तेरससंयाणि सत्तरि	...
तव्वदिरित्तं दुविहं	तेवण्ण तिसदसहिय	...
तेजदु हारदु समचउ	तिण्णेगे एगेगं	...
तियउणवीसं छत्तिय	तेरस चारेयारं	...
तिरिये ओघो तित्था	तद्धाने एकारस	...
तिरिये व णरे णवरि हु	तिण्णेव दु वावीसे	...
तीसं कोडाकोडी तिघादि	तेवीसं पणवीसं	...
तित्थाहारणंतो	तसबंधेण हि संहदि	...
तण्णोकसायभागो	तित्थेणाहारदुगं	...
वीसण्हमणुकस्सो	तत्थासत्थो णारय	...
तह य असणी सणी	तत्थासत्थं एदि हु	...
तह सुहुम सुहुम जेदं	तत्थतणऽविरदसम्मो	...
तेहिं असंखेज्जगुणा	तेउदुगं तेरिच्छे	...
तदियेक्कवज्जमिपिं	तिविहो दु ठाणबंधो	...
तदियेक्कं मणुव्वदी	तदियो सणामसिद्धो	...
तीसं चारस उदयु	तेवीसट्टाणादो	...
तेउत्तिगुणतिरियखे	तित्थयरसत्तणारय	...
तिरिये ओघो सुरणर	तसमिस्से ताणि पुणो	...
तिरिय अपुणं वेगे	तत्थासत्था णारय	...
तम्मिस्से पुण्णजुदा	तिदु इगि णउदी णउदी	...
तित्थयरमाणमाया	तेउदुगे मणुव्वदुगं	...
तेउत्तिये रगुणोपं	तेरद्वज्ज देसे	...
तित्थाहारा जुगवं	...	(१९६) ११६।३३३	तिसु एक्के उदधो	...
तिरिये ण तित्थसत्तं	तेरदु पुवं वंसा	...
तिरियाउगदेवाउग	तिदुइगिवंधेइदये	...
तित्थाहारचउमं	तेरणवे पुवंसे	...
तिरपण्णदराउदुगं	तेणेवं तेरतिये	...
तित्थाहारे सहियं	तिदुइगिवंधे अउचउ	...
ते चोदसपरिहीणा	तेणतिये तिसुबंधो	...
तेजदुगं वण्णचउ	तेवीसादो वंधा	...
तिरिय दु जाइचउमं	तियपण्णवीसबंधे	...
तिरियेयारव्वोएण	ते णवत्तगसदरिजुदा	...
तिरियेयारं तीसे	तीसे अइवि वंधो	...
सतोपासाराय	तेणउदीए वंधा	...
तिग्गि दस अइ टाणा	तेदीसबंधेणे इगि	...
			तेउदरिमपंजुदये	...

गौम्मटसारः ।


गाथा	पृ. गा.	गाथा	पृ. गा.
पणमिय सिरसा णेमिं	१११	पण्णेकारं छक्कदि	१३६१३९
पयडी सील सहावो	२१२	पण्णरकसायभयदुग	१३८१४०
पडपडिहारसिमज्जा	९१२१	पडमकसायाणं च वि	१५११४४
पंचणव दोण्णि	१०१२२	पुव्विद्वैसुवि मिल्लिदे	१५९१४७
पयलापयल्लुदयेण य	१११२४	पुरिसोदयेण चडिदे वं०	१६११४८
पयल्लुदयेण य जीवो	१११२५	पणवंधगम्मि चारस	१६११४८
पंचणवदोण्णिल्लव्वी०	२३१३५	पणदाल छस्सयाहिय	१६५१५०
पंचणव०उदयपयडीओ... ..	२३१३६	पंचसहस्सा वेसय	१६६१५०
पंचणव०सत्तपयडीओ	२४१३८	पडमतियं च य पडमं	१६८१५१
पडमादिया कसाया	२६१४५	पुरिसोदयेण चडिदे अंति	१६८१५१
पडपडि० आहारं देह	३४१६९	पंचविधचट्टुविधेसु य	१६९१५१
पडविसं (य) पडुदी दव्वं	३४१७०	पुण्णेण समं सव्वे	१७२१५२
पंचणहं णिहाणं	३५१७२	पज्जत्तगव्विति चपमणु	१७३१५३
पयडिद्विदिअणुभाग	३९१८९	पुडवी आऊ तेऊ	१७४१५३
पडमुवसमिये सम्भे	४११९३	पंचक्खतसे सव्वं	१७७१५४
पुरिसं चट्टुसंजलणं	४४१९०१	पडिय मरियेक्कमेक्कू	१८६१५८
पुण्णिदरं विगिगिगले	४९१९१३	परघादमंगपुण्णो	१८९१५९
पॉंधिदिएसु ओधं	४९१९१४	पल्लसंखेज्जदिमं	१९६१६१
पण्णारसमुणत्तीसं	५०१११७	पणणव णव पण भंगा	२०३१६४
पुव्ववाणं कोडितिभा	६४११५८	पंचादि पंचवंधो	२०६१६५
परवादुगं तेज दु	६९११७५	पडमं पडमति चउपण	२०९१६६
पुवंधद्धा अंतो	७८१२०५	पणदो पणगं पणचट्टु	२१९१७०
पणविग्घे विवरीयं	७८१२०६	पुटवीयादीपंचसु	२२२१७१
परिणामजोगठाणा	८३१२२०	पडमचऊसीदिचऊ	२२३१७२
पल्लसंखेज्जदिमा	८४१२२४	परिहारे वंधतियं	२२४१७२
पुण्णतसजोगठाणं	९११२४७	पुव्वं व ण चउवीसं	२२८१७४
पण णव इणि सत्तरसं	९६१२६४	पणवीसे तिगिणउदे	२३६१७७
पंचेणारसवावीस	९९१२७७	पणवण्णा पण्णासा	२३९१७८
पण णव इणि सत्त	१००१२८१	पणचट्टु सुण्णं णवयं	२४०१७९
पंचेणारस० इगिणवदालं	१०११२८२	पडिणीगमंतराए	२४४१८०
पुंसंइणित्थिपुज्जुदा	१०५१२९६	पयडीए पणुकसाओ	२४६१८०
पुण्णेणारसजोगे	१२३१३५२	यापवधादोसु रदो	२४७१८१
पण्णार वार छक्क.	१२६१३६४	परिणामो दुहाणो	२५३१८३
		पुणरवि देसोत्ति गुणो	२५५१८३
		पुव्वं पंचदियदी	२५६१८४
		पत्तेपदा निच्छे	२६
		पिटपदा पंचेव व	२६
		पत्तेपदां उपरि	२६

१ स पुत्रकर्म ' विसय ' पाठ भी देखा था इत्यर्थे उक्तका अर्थ किये परंतु ' विस ' पाठ होनेसे उक्तका अर्थ ऐसा होता है कि कियेआदि वस्तु उक्तकाकारणका जोपर्यन्त प्रपञ्चमं है ।

गाथा	पृ. गा.	गाथा	पृ. गा.
भोगे सुरद्वीसं	१८२।५६७	मिच्छचउके छकं	१६६।५०३
भुजगारप्पदराणं	१८३।५७१	मिस्साविरदमणुस्सद्दा	१७५।५३७
भुजगारा अप्पदरा	१८६।५८०	मिच्छस्स ठाणभंगा	१८२।५६८
भुजगारे अप्पदरे	१८६।५८१	मिस्सम्मि तिअंगाणं	१८८।५८९
भोगभुमा देवाउं	२०१।६४०	मूलत्तरपयडीणं वंधो	१९८।६२७
भव्वे सव्वमभव्वे	२२५।७३२	मिस्से अपुव्वजुगले	१९९।६२९
भयदुगरहियं पढमं	२४२।७५४	मिच्छादिगोदभंगा	२०१।६३८
भूदानुकेपवदजो	२४४।८०१	मोहस्स य वंधोदय	२०५।६५२
भविदराणण्णदरं	२५९।८५६	मणि वचि वंधुदयसा	२२२।७१८
म			
मूलण्हपहा अग्गी	१५।३३	मिच्छत्तं अविरमण	२३८।७८६
मूलत्तरपयडीणं	३३।६७	मिच्छे पण मिच्छत्तं	२४०।३६०
मूलत्तरं णामादिचउं	३३।६८	मिच्छत्ताणण्णदरं	२४३।७९५
मिच्छत्तडुंडसंढा	४२।९५	मिच्छो हु महारंभो	२४५।८०४
मरणूणम्मि णियत्ती	४४।९९	मणवयणकायवक्को	२४६।८०८
मिस्साविरदे उच्चं	४७।१०७	मिच्छतिये तिचउके	२५०।८२१
मज्जे थोदसलागा	६१।१४९	मिच्छदुगे मिस्सतिये	२५१।८२४
मणुओरालदुवज्जं	६६।१६६	मिच्छदुगयदचउके	२५४।८३३
मिच्छस्संतिमणवयं	६७।१६८	मिच्छादिठाणभंगा	२५५।८४०
मोहे मिच्छत्तादी	७७।२०२	मिच्छतिये मिस्सपदा	२५७।८४६
मज्जे जीवा बहुगा	९०।२४४	मिच्छे अट्टदयपदा	२५७।८४७
मिच्छे मिच्छादावं	९६।२६५	मिच्छे परिणामपदा	२५७।८८४
मिच्छमणंतं मिस्सं	१०३।२९२	मिच्छादीणं दुत्तिदुसु	२६१।८६४
मणुचे ओधो थावर	१०५।२९८	मिच्छाइट्ठिप्पहुदिं	२६२।८६६
मिच्छमपुण्णं छेदो	१०५।२९९	मणवयणकायदाणग	२६७।८८८
मणुसिणिएत्थीसहिदा	१०६।३०२	मिच्छे वग्गसलाय	२७५।९२५
मणुसोधं वा भोगे	१०६।३०२	मिच्छत्तस्स य उत्ता	२७७।९३३
मूलोधं पुंवेदे	१११।३२०	र	
मिस्साहारस्सयया (११४क्षे१)	१८१।५६०	रिणमंगोवंगतसं	१०८।३०७
मिच्छे सम्मिस्साणं	१४१।४१२	रागजमं तु पमत्ते	२५२।८२६
मिच्छणिगिवीससयं	१४५।४२७	रुवहियडवीससया	२५६।८४१
मिच्छतियसोलसाणं	१५०।४४७	रुज्जण्णोण्णम्भ	२७६।९२९
मिच्छस्स य मिच्छोत्ति य	१५३।४४९	रुज्जणद्दाणद्धे	२७७।९३०
मिस्सूणपमत्तंते	१५३।४५६	रसवंधज्जवसाण	२८५।९६३
मिच्छादुवसंतोत्ति य	१५५।४६२	ल	
मिच्छे मिस्सं सणुणे	१५८।४७६	लोहस्स सुहुमसत्तरसा	५८।१४०
मिच्छदुगे मिस्सतिए	१६३।४९१	लद्धीणिव्वतीणं	८९।२४०
मिच्छे सासण अयदे	१६४।४९५	लघुकरणं इच्छंतो	१८३।५७०
		लोहेक्कुदधो सुहुमे	२०६।६५९

गाथा	पृ. गा.	गाथा	पृ. गा.
सगपञ्जतीपुण्ये	८३१२२१	सामण्य अवत्तव्वो	१५७।४७०
व्वे जीवपदेसे	८५।२२८	सत्तावीसहियसयं	१५७।४७१
परिसायामेणुवरिं	८६।२३१	सासण अयदपमत्ते	१६४।४९६
पहुमगलद्धिजहणं	८६।२३३	सामण्यतित्थकेवलि	१७०।५२०
सण्णिसुववादवरं	८८।२३७	संठाणे संहडणे	१७३।५३२
सिद्धिसंखेज्जदिमा	९२।२५२	सण्णिसस मणुस्ससस य	१७४।५३६
पहुमणिगोद अप० पञ्जत्त	९३।२५६	सण्णीवि तहा सेसे	१७६।५४१
सिद्धिसंखेज्जदिमा जो	९४।२५८	सण्णाणे चरिमपणं	१७८।५४७
समयद्विदिगो बंधो	९८।२७४	सासणपमत्तवज्जं	१८०।५५७
सत्तरसेक्कारखचदु	९९।२७६	सव्वपरट्टाणेण य	१८६।५७९
सत्तरसेक्कारखतिय	१०१।२८२	सव्वापञ्जत्ताणं	१८७।५८५
संखाउगणरतिरिये	१०२।२८६	सामण्यसयलवियलवि	१८९।५९४
सुरगदि दु जसादेज्जं	१०५।२९७	सुरणिरयविसेसणरे	१९०।५९६
साणे तेसिं छेदो	१०९।३१३	संठाणे संहडणे	१९१।५९९
साणे थीवेदछिदी	१११।३१९	सण्णिम्मि मणुस्सम्मि य	१९१।६०१
सण्णाणपंचयादी	११३।३२४	सामण्यकेवलिसस	१९३।६०६
साणे सुराउ सुरगदि	११३।३२६	सव्वं तित्थाहारुभऊणं	१९४।६१०
साणं सगुणोघं	११५।३३०	सत्थत्तादाहारं	१९५।६१३
सोल्लेक्किगिच्छकं	११८।३३७	सम्मत्तं देसजमं	१९६।६१८
सिद्धिसंखेज्जसाया	११८।३३९	सुरणरसम्मि पढमो	१९७।६२०
सोमे तिहुवणमहियो	१२४।३५७	सीदादि चउट्टाणा	१९७।६२२
सव्वं तिगेग सव्वं	१२५।३६०	समविसमट्टाणाणि य	१९८।६२५
सासणमिस्से देसे	१२६।३६१	सादासादेक्कदरं	२००।६३३
सत्तियं आसाणे	१२९।३७२	सुरणिरया णरतिरियं	२०१।६३९
साणे पण इगि भंगा	१३०।३७५	सगसगदीणमाउं	२०२।६४१
सुरणिरयाऊ तित्थं	१३८।४०२	सव्वाउबंधभंगे	२०३।६४७
सत्ताल धुवावि य	१३९।४०४	सत्तरसं णवयतियं	२०६।६५६
सुरणर तिरियोरालिय	१३९।४०६	सगचउ पुव्वंवंसा	२०८।६६३
सम्मं मिच्छं मिस्सं	१४१।४११	सत्तपदे बंधुदया	२१०।६६९
सहुमस्स बंधघादी	१४३।४१९	सव्वं सयलं पढमं	२१०।६७०
सत्थगदी तसदसयं	१४३।४२०	सत्तरसादि अडादी	२१०।६७१
सत्तहं गुणसंक्रम	१४३।४२२	सत्तरसे अउचदुवी	२१३।६८१
सम्मविहीणुव्वेत्ते	१४४।४२४	सत्तुदये अडवीसे	२१५।६८७
सम्मत्तूणुव्वेत्तण	१४४।४२६	सत्तेव अपञ्जता	२१९।७०५
सव्वस्सेकं रुवं	१४६।४३०	सण्णिम्मि सव्वबंधो	२२०।७०९
सक्रमणाकरणगा	१४९।४४१	सत्ता वाणउदितियं	२२१।७१४
सोत्ति अट्टसत्ता	१५३।४५७	सव्वं तिवीसच्छकं	२२२।७१९
सगसंभवधुववधे	१५६।४६६	सत्तं तिणउदिपहुदी	२२९।७४८

गाथा	पृ. गा.	गाथा	पृ. गा.
सत्तं दुणउदिणउदी	२३०।७५२	सव्वसलायाणं	२७६।९२७
सत्ते बंधुदया चदु	२३०।७५३	सव्वासिं पयडीणं	२७७।९३२
सीदादि चउसु बंधा	२३१।७५८	समयपवद्धपमाणं	२८०।९४२
सगवीसचउक्कुदये	२३३।७६५	सत्तं समयपवद्धं	२८०।९४३
सगवीसे तिगिणउदे	२३६।७७९	संखेजसहस्साणिव	२८१।९४६
सुण्णं पमादरहिदे	२४०।५६०	सव्वुवरि मोहणीये	२८१।८४७
सुहुमे सुहुमो लोहो	२४०।६६०	सिद्धंतुदयतडुग्गय	२८७।९६७
सच्चाणुभयं वयणं	२४१।७६०	ह.	
सोलस बिसदं कमसो	२४३।७९८	हस्सरदि उच्चपुरिसे	५४।१३२
सत्तरसं दसगुणिदं	२५९।८५४	हारदुहीणा एवं	१०६।३०३
सिद्धेसु सुद्धभंगा	२६३।८७४	हारदु सम्मं मिस्सं	१२२।३५०
सच्छंददिट्ठीहिं वियप्पियाणि	२६७।८८९	हस्सरदि पुरिसगोददु	१३९।४०७
संजोगमेवेति वदंति तण्णा	२६८।८९२	हारं अधापवत्तं	१४६।४३१
सइउट्टिया पसिद्धी	२६८।८९३	होति अणियट्ठिणो ते	२७३।९१२
सिद्धे विमुद्धणिलये	२७४।९१३	हेट्ठिमखंडुक्कस्सं	२८४।९५९



इति गाथानुक्रमणिका ।

अथ गोम्मतसारके कर्मकाण्डकी विषयसूची ।

गाथा	पृ. गा.	गाथा	पृ. गा.
मङ्गलाचरण ग्रंथप्रतिज्ञा	१११	संन्यासमरणके भेद	३१५९
प्रकृतिसमुत्कीर्तनाधिकारः १		भावनिक्षेपकर्मका स्वरूप और भेद ...	३२१६४
प्रकृतिस्वरूपवर्णन	२१२	कर्मविशेषमें नामादिनिक्षेप	३३१६७
कर्मनोकर्मग्रहणकरनेका कारण	२१३	मूल और उत्तरप्रकृतियोंके नोकर्मद्रव्य ...	३४१६९
कर्मनोकर्मके परमाणुओंकी संख्या ...	३१४	नोआगमभावकर्मका स्वरूप	३८१८६
कर्मके सामान्यादि भेद	४१६	बन्धोदयसत्त्वाधिकारः २	
घाति अघाति कर्मसंज्ञा	४१९	मंगलाचरणवक्तव्यप्रतिज्ञा	३९१८७
कर्मोंके घाति अघाति होनेमें युक्ति ...	८१९०	स्तवका लक्षण	३९१८८
अघातिकर्मोंका कार्य	५१११	कर्मकी बंधअवस्थाके भेद	३९१८९
कर्मोंके पाठश्रमकी सार्थकता	७११५	प्रकृतिबंधका गुणस्थानोंमें नियम ...	४११९२
आठकर्मोंके स्वभावका दृष्टान्त	९१२१	तीर्थंकरप्रकृतिके बंधमें विशेष नियम ...	४११९३
कर्मोंकी उत्तरप्रकृति (विशेषभेद) ...	१०१२२	प्रकृतियोंकी बंधव्युच्छित्ति संख्या ...	४२१९४
पांच निद्राओंका कार्य	१०१२३	बंधव्युच्छित्तिकी संख्या गुणस्थानक्रमसे ...	४२१९५
मिथ्यात्वके तीनभेदोंका कारण	१११२६	बंध और अवंधप्रकृतियोंकी संख्या	
पांच शरीरोंके संयोगी भेद	१२१२७	गुणस्थानक्रमसे	४५११०३
आंगोपांगोंके नाम	१३१२८	बंधव्युच्छित्तिआदिकी संख्या मार्गणाओंके	
छहसंहननवालोंके उत्पत्तिस्थान	१३१२९	क्रमसे	४६११०५
आतपका लक्षण	१५१३३	प्रकृतिबंधमें सादि आदि भेदोंका स्वरूप	
कर्मोंकी प्रकृतियोंका शब्दार्थ	१६१८०	तथा स्वामी	५२११२२
नामकर्मकी प्रकृतियोंका अभेदसे अंतर्भाव	२२१२४	प्रकृतियोंके विरोधी अविरोधी भेद ...	५३११२५
बंधयोग्य प्रकृतियोंकी संख्या	२३१३५	स्थितिबंधका स्वरूप	५४११२७
उदयप्रकृतियोंकी संख्या	२३१३६	स्थितिके उत्कृष्टादि भेद	५४११२८
सत्त्वप्रकृतियोंकी संख्या	२४१३८	उत्कृष्टस्थिती आदिके कारण-स्वामी ...	५६११३४
घातियाकर्मोंके भेद	२४१४९	जघन्यादि स्थितिभेदोंको चौदह जीव-	
अघातियाकर्मोंके भेद	२५१४९	भेदोंमें कथन	६१११४८
कपायोंका कार्य तथा संस्कारकाल ...	२६१४५	जघन्यस्थितिबंधके स्वामी	६२११५१
पुद्गलविपाकी प्रकृति	२६१४७	स्थितिभेदोंमें सादि आदि भेद	६३११५३
भवविपाकी क्षेत्रविपाकी जीवविपाकी प्रकृ-		स्थितिकी आवाधाका लक्षण	६३११५५
तियोंकी संख्या	२७१४८	आवाधाका उदयकी अपेक्षा कथन ...	६४११५६
नामादि चार निक्षेपोंसे कर्मके भेद उसमें		आवाधाका उदीरणाकी अपेक्षा कथन	
नामनिक्षेप कर्म	२८१५२	कर्मोंके निषेकका स्वरूप	६५११६०
स्थापनारूपकर्म	२९१५३	निषेकका क्रम	६५११६१
द्रव्यनिक्षेपरूपकर्म तथा भेद	२९१५४	अनुभागबंधका स्वरूप	६६११६३
कदलीघातमरणका स्वरूप	३०१५७	अनुभागके उत्कृष्टादिभेदोंके स्वामी ...	६६११६४

गाथा	पृ. गा.	गाथा	पृ. गा.
जघन्य अनुभागबंधके स्वामी ...	६८१७०	सत्त्वप्रकृतियोंका गत्यादिमार्गणाओंमें	
अनुभागबंधके सादि आदि भेद ...	७०१७८	कथन	१२०१३४५
ध्रुवप्रकृतियोंमें सादि आदि भेद ...	७०१७९	मंगलाचरणपूर्वक अधिकार पूर्ण ...	१२४१३५७
अनुभागबंधका घातियाकर्मोंमें		सत्त्वस्थानभंगाधिकार ३	
दृष्टान्तद्वारा कथन	७११८०	मंगलाचरणपूर्वक कथन प्रतिज्ञा ...	१२५१२५८
अनुभागका अघातियाकर्मोंमें दृष्टान्त-		स्थान और भंग कहनेकी रीति ...	१२५१३५९
द्वारा कथन	७२१८४	आयुके बंधाबंधकी अपेक्षा गुणस्थानोंमें	
प्रदेशबंधका स्वरूप	७२१८५	सत्त्वस्थानका कथन... ..	१२६१३६२
कर्मप्रदेशों (परमाणुओं) का मूलप्रकृतियों-		स्थानोंके भंगों (भेदों) की संख्या ...	१२६१३६४
में वटवारा	७४१९२	मिथ्यात्वगुणस्थानके स्थानोंकी प्रकृतियोंकी	
कर्मपरमाणुओंका उत्तरप्रकृतियोंमें विभागका		संख्या	१२७१३६५
कथन	७७१२००	मिथ्यात्वगुणस्थानमें भंगसंख्या ...	१२८१३६७
प्रदेशबंधके उत्कृष्टादि भेदोंके सादिआदिक		सासादनादि गुणस्थानोंमें स्थान और	
भेदोंका कथन	७९१२०७	भंगोंकी संख्या	१२९१३७२
उत्कृष्ट प्रदेशबंधके स्वामी	८०१२११	सत्त्वस्थानके पढनेका फल	१३६१३९५
जघन्यप्रदेशबंधके स्वामी	८११२१५	कनकनन्दिकथित सत्त्वस्थानाधिकार है	१३६१३९६
प्रकृति प्रदेशबंधके कारण योगस्थानोंका		अपनेको चक्रवर्तीपनेकी सिद्धि ...	१३७१३९७
स्वरूप संख्याभेद तथा स्वामी ...	८२१२१८	त्रिचूलिका अधिकार ४	
योगस्थानोंका ८४ स्थानोंसे अल्पबहुत्व-		मंगलाचरणपूर्वक कथनप्रतिज्ञा	१३७१३९८
कथन प्रतिज्ञासहित... ..	८६१२३२	तीनचूलिकाओंमेंसे नवप्रश्नचू... ..	१३७१३९९
कर्मोंके उदयका कथन... ..	९५१२६१	पंचभागहार चूलिका	१४०१४०८
उदयव्युत्पत्तिका कथन	९५१२६३	दशकरणचूलिका मंगलपूर्वक	१४७१४३६
केवलीभगवानके सातादिके उदयसे इन्द्रि-		दशकरणोंका स्वरूप	१४८१४३८
यजन्त्य सुखदुःखका अभाव युक्तिसहित	९८१२७३	दशकरणोंका गुणस्थानोंमें यथासंभव ...	१४९१४४१
उदयप्रकृतियोंकी गुणस्थानक्रमसे संख्या	९९१२७६	स्थानसमुत्कीर्तनाधिकार ५	
अनुदयप्रकृतियोंकी संख्या	९९१२७७	मंगलाचरणपूर्वक कथन प्रतिज्ञा ...	१५२१४५१
उदयप्रकृतियोंकी उदीरणामें विशेषताका		बंधादिस्थानोंका प्रकृतिसंख्यासहित गुण-	
कथन	९९१२७८	स्थानोंमें कथन	१५२१४५२
उदीरणाकी व्युत्पत्ति	१००१२८१	मोहनीकर्मके उदयस्थानोंकी तथा प्रकृति-	
उदीरणा अनुदीर्णारूप प्रकृतियोंकी संख्या		योंकी संख्याका उपयोग-योग-संयम-लेख्या	
गुणस्थानोंमें	१०११२८२	और सम्यत्त्वकी अपेक्षासे कथन... ..	१६३१४९०
उदयादि तीनभेदोंका गति आदि चौदह		मोहनीयके सत्त्वस्थानोंका कथन ...	१६७१५०८
मार्गनोंमें कथन	१०११२८४	नामकर्मके ४१ जीवपदोंका कथन ...	१७०१५१९
मत्त्वप्रकृतियोंका स्वरूप गुणस्थानक्रमसे	११६१३३३	नामकर्मके बंधादिस्थान तथा भंग,	
सत्त्वव्युत्पत्तिका कथन	११८१३३७	गुणस्थान और मार्गणाओंकी अपेक्षा	१७११५२१
सत्त्व और असत्त्वप्रकृतियोंकी संख्या		बंधोदयसत्त्वके त्रिसंयोगी भंग ...	१९८१६२७
गुणस्थानक्रमसे	११९१३४२	बंधोदयसत्त्वस्थानोंका चौदह जीवसमासों-	
		की अपेक्षा कथन	२१९१७०४

गाथा	पृ. गा.
बंधोदयसत्त्वस्थानोंका चौदहमार्गणाओं की अपेक्षा कथन	२२०।७१०
बंधादि त्रिसंयोगका एक आधार और दो आधेयकी अपेक्षा कथन ...	२२७।७४०
बंधादिस्थानोंमें दो आधार एक आधेयकी अपेक्षा कथन... ..	२३२।७६०
नामकर्मके संयोगीभेद पूर्ण	२३८।७८४

प्रत्ययाधिकार ६

मंगलाचरणपूर्वकवक्तव्यप्रतिज्ञा	२३८।७८५
आस्रवोंका स्वरूप भेदसहित	२३८।७८६
मूलउत्तर प्रत्ययोंका गुणस्थानोंमें कथन	२३९।७८७
प्रत्ययोंकी व्युच्छित्ति तथा अनुदय ...	२४०।११०
आस्रवोंके विशेषों (भेदों) का कथन ...	२४१।७५१
कर्मोंके बंधके कारण परिणामोंका कथन	२४४।८००

भावचूलिकाधिकार ७

मंगलचरणवक्तव्यप्रतिज्ञा	२४७।८११
भावोंके नाम भेदसहित	२४८।८१३
भावोंकी उत्पत्तिका कारण	२४८।८१४
भावोंके भेदोंके नाम	२४९।८१६
उत्तरभावोंके भेद दूमरीतरहसे	२५१।८२३
भावोंके स्थानभंग और पदभंगोंका गुणस्थानोंकी अपेक्षा कथन	२५५।८४०
एकान्तमतके भेदोंका स्वरूप	२६४।८७६
एकान्तभेदोंके भेदोंका स्वरूप	२६४।८७७
एकान्तमतोंका झगड़ा मेंटनेकी युक्ति सांराशसहित	२६८।८९४
एकान्तमतोंके मिथ्या होनेका कारण युक्तिसहित	२६९।८९५

त्रिकरणचूलिकाधिकार ८

मंगलाचरण गुरुकेलिये... ..	२६९।८९६
तीनकरणोंका स्वरूप	२७०।८९७

गाथा	पृ. गा.
अधःकरणका अंकोंके संकेतसे कथन ...	२७०।९००
अधःकरणके कालका प्रमाण	२७२।९०८
अपूर्वकरणमें अंकोंकी सहनानी ...	२७२।९०९
अपूर्वकरणके कालका प्रमाण	२७३।९१०
अनिवृत्तिकरणकी सहनानी तथा कालका प्रमाण	२७३।९११

कर्मस्थितिरचनाधिकार ९

मंगलचरणवक्तव्यप्रतिज्ञा	२७४।९१३
कर्मस्थितिरचनाका प्रकार	२७४।९१४
कर्मस्थितिरचनाकी अंकसंहृष्टि	२७५।९२३
कर्मस्थितिरचनाकी अर्थसंहृष्टि	२७५।९२४
सत्तारूपत्रिकोणयंत्ररचनाके जोड़ देनेकी विधि	२८०।९४४
स्थितिके भेदोंका कथन	२८२।९४५
स्थितिके कारण कषायाध्यवसाय-स्थानोंका मूलप्रकृतियोंमें कथन ...	२८१।९४७
स्थिति बंधाध्यवसायस्थानोंका प्रमाण ...	२८२।९४९
अध्यवसायस्थानोंमें अनुकृष्टिविधान ...	२८३।९५४
स्थिति संबंधी अनुभागबंधाध्यवसायस्थानोंका कथन	२८५।९६३

ग्रंथकर्ताकी प्रशस्ति ।

ग्रंथकरनेका प्रयोजन	२८६।९६५
अजितसेनगुरुको नमस्कार	२८६।९६६
चामुण्डरायको बुद्धिवर्धक आशीर्वाद ...	२८७।९६७
दक्षिणकुक्कट नामसे प्रतिद्ध जिनके प्रतिविंवको जयशब्द	२८७।९६८
चामुण्डरायको विशेष आशीर्वाद ...	२८८।९६९
चामुण्डरायने कर्णाटकी वृत्ति बनाई इसपर आशीर्वाद देते- हुए अपने समाचारोंकी पूर्णता ...	२८८।९७२

समाप्तयेयं कर्मकाण्डस्य विषयानुक्रमणिका ।





श्रीनेमिचन्द्राय नमः ।

अथ छायाभाषाटीकोपेतः

गोम्मतसारः ।



(कर्मकाण्डम्)

मङ्गलाचरण.

दोहा ।

परमभये सव खंडिकें, करमकांड समुदाय ।
सहज अखंडित ज्ञानमय, जयवन्ते जिनराय ॥ १ ॥
विघ्नहरनमंगलकरन, नमौ सिद्धसुखकार ।
नेमिचंद्रजिन जगतपति, साधुवचनगुणधार ॥ २ ॥
जीवकांडकौ जानिकें ज्ञानकांडमय होइ ।
निजस्वरूपमें रमिरहै शिवपद पावै सोइ ॥ ३ ॥

पहले जीवकाण्डमें जीवका विस्तारसे स्वरूप कहा अब जीवसे अनादिसंबंध रखनेवाले कर्मका विस्तारसे कथन करनेकेलिये कर्मकाण्ड महाअधिकारको आरंभ करते हैं, उसमेंभी आचार्य प्रथम अपने इष्टदेवको नमस्कार करते हुए जो कुछ कहना है उसकी प्रतिज्ञा करते हैं;—

पणमिय सिरसा नेमि गुणरयणविभूषणं महावीरं ।
सम्मत्तरयणणिलयं पयडिसमुक्कित्तणं वोच्चं ॥ १ ॥
प्रणम्य शिरसा नेमि गुणरत्नविभूषणं महावीरम् ।
सम्यक्त्वरत्ननिलयं प्रकृतिसमुत्कीर्तनं वक्ष्यामि ॥ १ ॥

अर्थ—मैं नेमिचन्द्र आचार्य, ज्ञानादिगुणरूपी रत्नोंके आभूषणोंको धारण करनेवाले, मोक्षरूपी महालक्ष्मीको देनेवाले, सम्यक्त्वरूपीरत्नके स्थान ऐसे श्रीनेमिनाथ तीर्थकरको

१. भाषाटीकाकार पं० टोडरमहजीका मङ्गलाचरण । २. इस गायामें महावीर तीर्थकरको नमस्कार करना महावीरपदसे सूचित होता है जब महावीरतीर्थकरका अर्थ करें तब नेमिका अर्थ धर्मरूपी रथके चलानेके कारणस्वरूप पहिचैकी तरह ऐसा होता है ।

मस्तक नवाकर ज्ञानावरणादि कर्मोंकी मूल, उत्तर दोनों प्रकृतियोंके व्याख्यान करनेवाला प्रकृतिसमुत्कीर्तननामा अधिकार कहताहूँ ॥ १ ॥

अब प्रकृति क्या है ? ऐसा प्रश्न होनेपर आचार्य कहते हैं;—

पयडी सील सहावो जीवंगाणं अणाइसंबंधो ।

कणयोवले मलं वा ताणत्थित्तं सयं सिद्धं ॥ २ ॥

प्रकृतिः शीलं स्वभावः जीवाङ्गयोरनादिसम्बन्धः ।

कनकोपले मलं वा तयोरस्तित्वं स्वयं सिद्धम् ॥ २ ॥

अर्थ—कारणकेविना वस्तुका सहजस्वभाव होवै उसे प्रकृति शील वा स्वभाव इन तीनों नामोंसे कहते हैं । जैसे आगका स्वभाव ऊपरको जाना, पवनका तिरछा वहना, जलका नीचे गमन करना आदि । और यह स्वभाव जीव तथा अङ्ग (कर्म) का है, इन दोनोंमेंसे जीवका स्वभाव रागादिरूप परिणमने (होजाने) का है और कर्मका स्वभाव रागादिरूप परिणमावनेका है । तथा इन दोनोंका संबंध अनादिकालसे सोनेसे मिले हुए पाषाण (मैल) की तरह है । और इन जीव, कर्मका अस्तित्व (होना) अपने आप सिद्ध (प्रतीतिगोचर) है ॥ **भावार्थ**—जिस तरह भांग अथवा शराबका स्वभाव बावला कर देनेका और इसके पीनेवाले जीवका स्वभाव बावला होजानेका है, उसी तरह जीवका स्वभाव रागद्वेषादि कषायरूप होजानेका तथा कर्मका स्वभाव रागादिकषाय स्वरूप परिणमावनेका है, सो जबतक दोनोंका संबंध है तभीतक विकाररूप परिणाम होता है । और वह संबंध अभीका नहीं अनादिकालका है जैसे खानिकासोना अनादिकालसेही कीट कालिमारूप मैलसे मिलाहुआ है वैसे यह जीवभी कर्मोंसे अनादिकालसे स्वतः संबंधवाला है किसीने संबंध किया नहीं । इसजीवका तो अस्तित्व (होना) “अहम्” (मैं) ऐसी प्रतीति होनेसे प्रसिद्ध है तथा कर्मका होना “कोई दरिद्री (भिखारी) कोई धनवान्” इत्यादि विचित्रपना प्रत्यक्ष देखनेसे सिद्ध है इसकारण जीव और कर्म दोनोंही अनुभवसिद्ध हैं ॥ २ ॥

आगे यह संसारीजीव कर्म और नोकर्म (कर्मके सहायक) को किसतरह अपने साथ संबंध करलेता है सो कहते हैं;—

देहोदयेण सहिओ जीवो आहरदि कम्म णोकम्मं ।

पडिसमयं सवंगं तत्तायसपिंडओव जलं ॥ ३ ॥

देहोदयेन सहितो जीव आहरति कर्म नोकर्म ।

प्रतिसमयं सर्वाङ्गं तप्तायःपिंडमिव जलम् ॥ ३ ॥

१. कर्मके सम्बन्धसेही जीवके रागद्वेषरूप परिणाम होते हैं इसलिये मुख्यपने कर्मको ही प्रकृति नामसे कहा है । २ कोई ऐसा मानते हैं कि जीव तो पहलेसे ही शुद्ध है परंतु कर्म पीछेसे लगते हैं इस भ्रमके दूरकरनेको सोनेमें मैलकी तरह आत्मा और कर्मका अनादिसम्बन्ध कहा ।

अर्थ—यह जीव योगसहित होके औदारिक आदि शरीरनामा कर्मके उदयसे ज्ञाना-
वरणादि आठ कर्मरूप होनेवालीं कर्मवर्गणाओंको तथा औदारिक आदि चार शरीररूप
(औदारिक १ वैक्रियिक २ आहारक ३ तैजस ४) होनेवालीं नोकर्मवर्गणाओंको हरस-
मय चारों तरफसे ग्रहण (अपने साथ संबन्ध) करता है जैसे कि आगसे तपा हुआ
लोहेका गोला पानीको सब ओरसे अपनी तरफ खींचता है । भावार्थ—जब यह आत्मा
शरीर सहित होता हुआ मन वचन कायकी प्रवृत्ति करता है तभी इसके कर्मोंका बंध
होता है मन वचन कायकी क्रिया रोकनेसे कर्मबंध नहीं होता ॥ ३ ॥

अब कहते हैं कि कर्म तथा नोकर्मरूप होनेवाले कितने पुद्गलपरमाणुओंको ग्रहण
करता है;—

सिद्धाणंतिमभागं अभवसिद्धादणंतगुणमेव ।

समयप्रवद्धं बंधदि जोगवसादो दु विसरित्थं ॥ ४ ॥

सिद्धानन्तिमभागं अभव्यसिद्धादनन्तगुणमेव ।

समयप्रवद्धं वध्नाति योगवशात्तु विसदृशम् ॥ ४ ॥

अर्थ—यह आत्मा, सिद्धजीवराशिके जो कि अनन्तनन्तप्रमाण कही है अनंतमेभाग
और अभव्यजीवराशि जो जघन्ययुक्तानंत प्रमाण है उससे अनंतगुणे समयप्रवद्धको अर्थात्
एक समयमें बंधनेवाले परमाणुसमूहको, बांधता है (अपने साथ संबन्ध करता है) । परंतु
मन वचन कायकी प्रवृत्तिरूप योगोंकी विशेषतासे (कमती बढ़ती होनेसे) कभी थोड़े कभी
बहुत परमाणुओंका बंध करता है । सारांशः—परिणामोंमें कपायकी अधिकता तथा मन्दता
होनेसे आत्माके प्रदेश अधिक वा कम संकंप (चलायमान) होते हैं तत्र कर्म परमाणु
भी ज्यादा अथवा कम बंधते हैं जैसे अधिक चीकनी दीवालपर धूलि अधिक लगती है
कम चीकनीपर कम ॥ ४ ॥

अब कर्मपरमाणुओंके बंधका प्रमाण कहकर उनके उदय तथा सत्त्वका (मौजूद रह-
नेका) प्रमाण कहते हैं;—

जीरदि समयप्रवद्धं पओगदो णेगसमयवद्धं वा ।

गुणहाणीण दिवद्धं समयप्रवद्धं हवे सत्तं ॥ ५ ॥

जीर्यते समयप्रवद्धं प्रयोगतः अनेकसमयवद्धं वा ।

गुणहाणीनां द्वद्धं समयप्रवद्धं भवेत् सत्त्वम् ॥ ५ ॥

अर्थ—समय समयमें कर्मपरमाणुओंका एक एक समयप्रवद्ध फल देकर खिर जाता है
अथवा तपश्चरणरूप अतिशयवाली क्रियाके होनेसे अनेक बंधेहुए समयप्रवद्ध झड़

जाते हैं और कुछ कम डेढ गुणहानिआयामकर गुणाकार किया हुआ समयप्रवद्ध सत्ता (वर्तमान) अवस्थामें रहता है । इसका कथन आगे कर्मकी अवस्थाके अधिकारमें कहेंगे वहांपर गुणहानिआयाम वगैरःका खुलासा किया जाइगा ॥ ५ ॥

आगे कर्मके सामान्यादि भेद वा भेदोंके भेद दो गाथाओंसे कहते हैं;—

कम्मत्तणेण एकं दव्वं भावोत्ति होदि दुविहं तु ।

पोगगलपिंडो दव्वं तस्सत्ती भावकम्मं तु ॥ ६ ॥

कर्मत्वेन एकं द्रव्यं भाव इति भवति द्विविधं तु ।

पुद्गलपिण्डो द्रव्यं तच्छक्तिः भावकर्म तु ॥ ६ ॥

अर्थ—वह कर्म कर्मसामान्यपनेसे एक है भेद नहीं है । लेकिन द्रव्य तथा भावके भेदसे दोप्रकार है । उसमें ज्ञानावरणादिरूप पुद्गलद्रव्यका पिंड द्रव्यकर्म है, और उस द्रव्यपिंडमें फल देनेकी शक्ति वह भावकर्म है । अथवा कार्यमें कारणका व्यवहार होनेसे उस शक्तिसे उत्पन्न हुए अज्ञानादि वा क्रोधादि परिणाम वे भी भावकर्म हैं ॥ ६ ॥

तं पुण अट्टविहं वा अडदालसयं असंखलोगं वा ।

ताणं पुण घादित्ति अ-घादित्ति य होंति सण्णाओ ॥ ७ ॥

तत् पुनरष्टविधं वा अष्टचत्वारिंशच्छतमसंख्यलोकं वा ।

तेषां पुनः घातीति अघातीति च भवतः संज्ञे ॥ ७ ॥

अर्थ—वह सामान्यकर्म आठ प्रकार है अथवा एकसौ अडतालीस वा असंख्यात लोक-प्रमाण भेदवाला है । उन आठ कर्मोंकीं घातिया तथा अघातिया ये दोसंज्ञा हैं ॥ ७ ॥

अब आठभेदोंके नाम तथा घातिया और अघातिया कौन २ हैं ऐसा दो गाथाओंसे दिखाते हैं;—

णाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेयणीयमोहणियं ।

आउगणामं गोदंतरायमिदि अट्ट पयडीओ ॥८॥

ज्ञानस्य दर्शनस्य च आवरणं वेदनीयमोहनीयम् ।

आयुष्कनाम गोत्रान्तरायमिति अष्ट प्रकृतयः ॥ ८ ॥

अर्थ—ज्ञानका आवरण और दर्शनका आवरण अर्थात् ज्ञानावरण १ दर्शनावरण २ और वेदनीय ३ मोहनीय ४ आयु ५ नाम ६ गोत्र ७ अन्तराय ८ ये आठ कर्मोंकी मूल प्रकृतियां (स्वभाव) हैं ॥ ८ ॥

आवरणमोहविग्घं घादी जी-वगुणघादणत्तादो ।

आउगणामं गोदं वेयणियं तह अघादित्ति ॥ ९ ॥

आवरणमोहविघ्नं घाति जीवगुणघातनत्वात् ।

आयुष्कनाम गोत्रं वेदनीयं तथा अघातीति ॥ ९ ॥

अर्थ—ज्ञानावरण १ दर्शनावरण २ मोहनीय ३ अन्तराय ४ ये चार घातियाकर्म हैं क्योंकि जीवके अनुजीवी गुणोंको घातते (नाश करते) हैं । और आयु १ नाम २ गोत्र ३ वेदनीय ४ ये चार अघाती कर्म हैं जली हुई जेवड़ीकी तरह इनके रहनेसे गुणका नाश नहीं होता ॥ ९ ॥

आगें उनजीवके गुणोंको कहते हैं जिनको कि ये कर्म घातते हैं;—

केवलणाणं दंसणमणंतविरियं च खयियसम्मं च ।

खयियगुणे मदियादी खओवसमिए य घादी दु ॥ १० ॥

केवलज्ञानं दर्शनमनन्तवीर्यं च क्षायिकसम्यक्तवं च ।

क्षायिकगुणान् मत्यादीन् क्षायोपशमिकांश्च घातीनि तु ॥ १० ॥

अर्थ—केवलज्ञान १ केवलदर्शन २ अनन्तवीर्य ३ और क्षायिकसम्यक्त्व ४ च शब्दसे क्षायिकचारित्र तथा क्षायिकदानादि, इन क्षायिकभावोंको तथा मतिज्ञानआदि जो मति १ श्रुत २ अवधि ३ मनःपर्ययज्ञान ४ इन क्षायोपशमिकभावोंको ये ज्ञानवरणादि चार घातियाकर्म घातते हैं अर्थात् जीवके इन सब गुणोंको प्रगट नही होने देते इसवास्ते ये घातियाकर्म कहलाते हैं ॥ १० ॥

अब अघातिया कर्मोंका कार्य कहते हुए पहले आयुकर्मका कर्तव्य कहते हैं;—

कम्मकयमोहवड्डियसंसारमिह य अणादिजुत्तमिह ।

जीवस्स अवट्टाणं करेदि आजु हल्लिच्च णरं ॥ ११ ॥

कर्मकृतमोहवर्धितसंसारे च अनादियुक्ते ।

जीवस्यावस्थानं करोति आयुः हलीव नरम् ॥ ११ ॥

अर्थ—कर्मकरि किया हुआ, मोहसे अर्थात् अज्ञान, असंयम और मिथ्यात्वसे वृद्धिको प्राप्त हुआ जो अनादि संसार है उसमें आयुकर्म उदय होके मनुष्यादि चार गतियोंमें जीवकी स्थिति करता है । जैसे कि काठका यंत्र (खोडा) “जोकि राजाओंके यहां अपराधीके पांवको भीतर बंद रखनेकेलिये होता है” अपने छेदमें जिसका पग आया होय उसकी उस छेदमें ही स्थिति करता है वाहिर नही निकलने देता इसी प्रकार आयुकर्म जिस गति (शरीर) में उदय हुआ उसी गतिमें जीवको ठहराता है ॥ ११ ॥

अब नामकर्मका कार्य कहते हैं;—

गदिआदि जीवभेदं देहादी पोग्गलाण भेदं च ।

गदियंतरपरिणमनं करेदि णामं अणेयविहं ॥ १२ ॥

गत्यादि जीवभेदं देहादि पुद्गलानां भेदं च ।

गत्यन्तरपरिणमनं करोति नाम अनेकविधम् ॥ १२ ॥

अर्थ—गति आदि अनेकतरहका नामकर्म, नारकी वगैरः जीवकी पर्यायोंके भेदोंको, औदारिक शरीर आदि पुद्गलके भेदोंको तथा एक गतिसे दूसरी गतिरूप परिणमन होनेको अनेकतरह करता है अर्थात् चित्रकारकी तरह अनेक कार्योंको करता है भावार्थ—जीवमें जिनका फलहो ऐसी जीवविपाकी, पुद्गलमें जिनका फल हो ऐसी पुद्गलविपाकी, क्षेत्रविपाकी, तथा “च” से भवविपाकी ऐसी चार तरहकी प्रकृतियोंरूप परिणमन नामकर्म करता है ॥ १२ ॥

आगे गोत्रकर्मके कार्यको कहते हैं;—

सन्तानक्रमेणागयजीवाचरणस्स गोदमिदि सण्णा ।

उच्चं णीचं चरणं उच्चं णीचं हवे गोदं ॥ १३ ॥

सन्तानक्रमेणागतजीवाचरणस्य गोत्रमिति संज्ञा ।

उच्चं नीचं चरणं उच्चैर्नीचैर्भवेत् गोत्रम् ॥ १३ ॥

अर्थ—कुलकी परिपाटीके क्रमसे चला आया जो जीवका आचरण उसकी गोत्र संज्ञा है अर्थात् उसे गोत्र कहते हैं । उस कुलपरंपरामें उंचा (उत्तम) आचरण होय तो उसे उच्च गोत्र कहते हैं जो निच आचरण होय वह नीचगोत्र कहा जाता है । जैसे एक कहावत है कि—शियालका वच्चा वचपनसे सिंहिनीने पाला और सिंहके वच्चोंके साथ खेलाकरता था, एक दिन खेलते हुए सब वच्चे किसी जंगलमें गये वहां हाथियोंका समूह देखकर जो सिंहिनीके वच्चे थे वे तो हाथीके सामने हुए लेकिन वह शियाल जिसमें कि अपने कुलका डरपोकपनेका संस्कार था हाथीको देख भागनेलगा । तब वे सिंहके वच्चे अपना बड़ाभाई समझ उसके साथ पीछे लौटके माताके पास आए और उस शियालकी शिकायतकी कि हमको शिकारसे इसने रोका । तब सिंहिनीने उस शियालके वच्चेसे एक श्लोक कहा उसका मतलब यह है कि अब हे बेटा तू यहांसे भाग जा नहीं तो तेरी जान नही बचैगी । श्लोक ॥ शूरोसि कृतविद्योसि दर्शनीयोसि पुत्रक । यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ॥ १ ॥ अर्थात् हे पुत्र तू शूरीवीर है विद्यावान् है देखने योग्य (रूपवान्) है परन्तु जिस कुलमें तू पैदा हुआ है उस कुलमें हाथी नही मारे जाते भावार्थ—कुलका संस्कार अवश्य आजाता है चाहे वह विद्यादिगुणोंकर सहित हो उस पर्यायमें संस्कार नही मिटता ॥ १३ ॥

आगे वेदनीय कर्मके कार्यको कहते हैं;—

अक्खाणं अणुभवनं वेयणियं सुहसरूवयं सादं ।

दुक्खसरूवमसादं तं वेदयदीदि वेदणियं ॥ १४ ॥

अक्षणामनुभवनं वेदनीयं सुखस्वरूपं सातम् ।

दुःखस्वरूपमसातं तद्वेदयतीति वेदनीयम् ॥ १४ ॥

अर्थ—इन्द्रियोंको अपने रूपादि विषयका अनुभवकरना वेदनीय है उसमें दुःखरूप अनुभवकरना असाता वेदनीय है और सुखरूप अनुभव करना साता वेदनीय है उस सुखदुखका अनुभव जो करावै जनावै वह वेदनीयकर्म है ॥१४॥

आगे आवरणका क्रम दिखानेके लिये जीवके गुणोंको कहते हैं;—

अर्थं देक्खिय जाणदि पच्छा सदहदि सत्तभङ्गीहिं ।

इदि दंसणं च णाणं सम्मत्तं होंति जीवगुणा ॥१५॥

अर्थ दृष्ट्वा जानाति पश्चात् श्रद्धधाति सप्तभङ्गीभिः ।

इति दर्शनं च ज्ञानं सम्यक्तवं भवन्ति जीवगुणाः ॥ १५ ॥

अर्थ—संसारी जीव पदार्थको देखकर जानता है पीछे सात भङ्ग (भेद) वालीं नयोसे निश्चयकर श्रद्धान करता है इसप्रकार क्रमसे दर्शन ज्ञान और समत्त्व ये तीन जीवके गुण होते हैं । भावार्थ—देखना दर्शन, जानना ज्ञान, तथा श्रद्धान करना सम्यक्तत्व है ॥ १५ ॥

अब इन जीवगुणोंके आवरणका शास्त्रमें जो क्रम कहा है उसे युक्तिपूर्वक कहते हैं;—

अञ्भरहिदादु पुवं णाणं ततो हि दंसणं होदि ।

सम्मत्तमदो विरियं जीवाजीवगतमिदि चरिमे ॥१६॥

अभ्यर्हितात् पूर्वं ज्ञानं ततो हि दर्शनं भवति ।

सम्यक्तत्वमतो वीर्यं जीवाजीवगतमिति चरमे ॥ १६ ॥

अर्थ—आत्माके सब गुणोंमें ज्ञानगुण पूज्य है इस कारण पहले कहा है । “क्योंकि व्याकरणमें भी ऐसा नियम है कि पूज्य हो उसको पहले कहना” उसके पीछे दर्शन कहा है । और उसके बाद सम्यक्तत्व कहा है । तथा वीर्य है वह शक्तिरूप जीव और अजीव दोनोंमें पाया जाता है, जीवमें तो ज्ञानादि शक्तिरूप और अजीव पुद्गलमें शरीरादिककी शक्तिरूप इसकारण वह सबके पीछे कहा गया है इसी प्रकार इनगुणोंके आवरण करनेवाले ज्ञानावरण दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय, इन चारों कर्मोंका क्रम जानना ॥ १६ ॥

अब यहांपर प्रश्न है कि उन आठकर्मोंमें अन्तराय जो घातियाकर्म है वह अघातिया-ओंके अन्तमें क्यों कहा ? उसका उत्तर आचार्य कहते हैं,—

घादीवि अघादिं वा णिस्सेसं घादणे असक्कादो ।

णामतियणिमित्तादो विग्घं पडिदं अघादिचरिमम्हि ॥१७॥

घात्यपि अघातीव निःशेषं घातने अशक्यात् ।

नामत्रयनिमित्ताद् विघ्नं पठितमघातिचरमे ॥ १७ ॥

अर्थ—अन्तरायकर्म घातिया है तथापि अघातियाकर्मोंकी तरह समस्तपनेसे जीवके गुणोंके घातनेको समर्थ नहीं है । और नाम, गोत्र, वेदनीय इनतीनों कर्मोंके निमित्तसे यह अपना कार्य करता है इसकारण अघातियाकर्मोंके अन्तमें कहा है ॥ १७ ॥

अब अन्यकर्मोंका क्रम कहते हैं;—

आउवलेण अवट्टिदि भवस्स इदि णाममाउपुव्वं तु ।

भवमस्सिय णीचुच्चं इदि गोदं णामपुव्वं तु ॥ १८ ॥

आयुर्वलेण अवस्थितिः भवस्य इति नाम आयुःपूर्वं तु ।

भवमाश्रित्य नीचोच्चमिति गोत्रं नामपूर्वं तु ॥ १८ ॥

अर्थ—आयुकर्मके बलसे (सहायतासे) नामकर्मका कार्य चारगतिरूप शरीरकी स्थिति है इसलिये आयुकर्मको पहले कहकर नाम कर्म कहा । और शरीरके आधारसे नीचपना वा उत्कृष्टपना होता है इसकारण नामकर्मको गोत्रके पहले कहा है । भावार्थ—नामकर्मसे शरीर मिलता है परन्तु वह आयुके विना ठहर नहीं सकता । और शरीर है तब ऊंच नीच व्यवहार है । इसलिये आयु, नाम, गोत्रकर्म क्रमसे कहे हैं ॥ १८ ॥

आगे यहां प्रश्न होता है कि वेदनीयकर्म अघातिया है उसको घातियाओंके बीचमें क्यों कहा ! इस प्रश्नका उत्तर गाथामें कहते हैं;—

घादिंव वेयणीयं मोहस्स वलेण घाददे जीवं ।

इदि घादीणं मज्झे मोहस्सादिम्मिह पठिदं तु ॥ १९ ॥

घातिवन् वेदनीयं मोहस्य वलेण घातयति जीवम् ।

इति घातीनां मध्ये मोहस्यादौ पठितं तु ॥ १९ ॥

अर्थ—वेदनीयकर्म, घातियाकर्मोंकी तरह मोहनीयकर्मके भेद जो राग द्वेष हैं उनके उदयके बलसे ही जीवोंका घात करता है अर्थात् इन्द्रियोंके रूपादिविषयोंमें रति (प्रीति) अरति (द्वेष) होनेसे जीवको सुख तथा दुःख स्वरूप साता और असाताका अनुभव कराके अपने ज्ञानादि गुणोंमें उपयोग नहीं करने देता परस्वरूपमें लीन कराता है । इस कारण अर्थात् घातियाकी तरह होनेसे घातियाओंके मध्यमें तथा मोहकर्मके पहिले इस वेदनीयकर्मका पाठ किया गया है । भावार्थ—जबतक रागद्वेष रहते हैं तभीतक यह जीव किसीको बुरा और किसीको भला समझता है । एक वस्तु किसीको बुरी मालूम पड़ती है वही वस्तु किसीको अच्छी । जैसे कि—कटुकरसवाला नीमका पत्ता मनुष्यको अप्रिय लगता है वही पत्ता ऊंटको प्रिय, वस्तु कुछ खोटी या भली नहीं जो वस्तु ही होवै तो दोनोंको एकसी मालूम पड़नी चाहिये । इसकारण यह सिद्ध हुआ कि मोहनीयकर्मरूप रागद्वेषके होनेसे ही इन्द्रियोंसे उत्पन्न सुख तथा दुःखका अनुभव होता है मोहनीय कर्मके विना वेदनीयकर्म “राजाके विना निर्बलकी तरह” कुछ नहीं करसकता ॥ १९ ॥

इसतरह कर्मोंका पाठक्रम सिद्ध हुआ उसीको अब इकट्ठाकरके दिखलाते हैं;—

णाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेयणीयमोहणियं ।

आउगणामं गोदंतरायमिदि पठिदमिदि सिद्धं ॥२०॥

ज्ञानस्य दर्शनस्य चावरणं वेदनीयमोहनीयम् ।

आयुष्कनाम गोत्रान्तरायमिति पठितमिति सिद्धम् ॥२०॥

अर्थ—ज्ञानावरण १ दर्शनावरण २ वेदनीय ३ मोहनीय ४ आयु ५ नाम ६ गोत्र ७ अन्तराय ८ इस प्रकार जो पाठका क्रम है वह पहले पाठक्रमकी तरह सिद्ध हुआ ॥ २० ॥

अब इन आठकर्मोंके स्वभावका दृष्टान्त कहते हैं;—

पडपडिहारसिमज्जाहलिचित्तकुलालभंडयारीणं ।

जह एदेसिं भावा तहवि य कम्मा मुणेयव्वा ॥ २१ ॥

पटप्रतीहारासिमद्यहलिचित्रकुलालभाण्डागारिकाणामं ।

यथा एतेषां भावा तथैव च कर्माणि मन्तव्यानि ॥ २१ ॥

अर्थ—पट अर्थात् देवताके मुख ऊपर वस्त्र १ प्रतीहार अर्थात् राजद्वारपर बैठा हुआ ज्यौड़ीवान २ असि (शहत लपेटी तलवारकी धार) ३ शराव ४ काठका यंत्र ५ चतेरा ६ कुंभार ७ भंडारी (खजानची) ८ इन आठोंके जैसे अपने कार्यकरनेके भाव होते हैं उसी तरह क्रमसे कर्मोंके भी स्वभाव समझना ॥ २१ ॥

अब कुछ शब्दार्थ लेकर आठकर्मोंका अर्थ करते हैं वह यह है—ज्ञानको जो आवरै ढँकै वह ज्ञानावरण है, इसका स्वभाव देवताके मुख पर वस्त्र होना कहा है । वह इसप्रकार है कि, देवताके मुंह पर ढंका हुआ कपड़ा देवताके विशेषज्ञानको नहीं होने देता उसी तरह ज्ञानावरण कर्म ज्ञानको आच्छादित है विशेषज्ञान नहीं होने देता । दर्शनको आवरै अर्थात् वस्तुको नहीं देखने देवै वह दर्शनावरण है, इसका स्वभाव दरवानियाके समान कहा है, जैसे दरवानिया राजाको देखने नहीं देता देखनेसे रोक लेता है वैसे ही यह कर्म भी वस्तुका दर्शन नहीं होने देता । तीसरा वेदनीयकर्म जो सुखदुःखका वेदन अर्थात् अनुभव करावै इसका स्वभाव सहत लपेटी तलवारकी धार समान है, पहले चखनेसे कुछ सुख पीछे जीभके दो टुकड़े होनेसे दुःख अत्यन्त होता है, इसी तरह साता और असातासे उत्पन्न हुए सुख दुःख हैं । जो मोहै अर्थात् असावधान (अचेत) करै वह मोहनीय कर्म है इसका स्वभाव मदिरा वगैरः जो नशा करनेवाली वस्तुएं हैं उन सरीखा है, जैसे शराव वगैरः पदार्थ, पीनेसे जीवको अचेत वा असावधान कर देते हैं उसको अपने स्वरूपका कुछविचार नहीं रहता, इसी तरह मोहनीयकर्म आत्मज्ञो बेभान बना देता है उसको अपने स्वरूपका विचारही नहीं रहता । और जो एति अर्थात्

अर्थ—अन्तरायकर्म घातिया है तथापि अघातियाकर्मोंकी तरह समस्तपनेसे जीवके गुणोंके घातनेको समर्थ नहीं है । और नाम, गोत्र, वेदनीय इनतीनों कर्मोंके निमित्तसे यह अपना कार्य करता है इसकारण अघातियाकर्मोंके अन्तमें कहा है ॥ १७ ॥

अब अन्यकर्मोंका क्रम कहते हैं;—

आउवलेण अवट्टिदि भवस्स इदि णाममाउपुव्वं तु ।

भवमस्सिय णीचुच्चं इदि गोदं णामपुव्वं तु ॥ १८ ॥

आयुर्वलेन अवस्थितिः भवस्य इति नाम आयुःपूर्वं तु ।

भवमाश्रित्य नीचोच्चमिति गोत्रं नामपूर्वं तु ॥ १८ ॥

अर्थ—आयुकर्मके बलसे (सहायतासे) नामकर्मका कार्य चारगतिरूप शरीरकी स्थिति है इसलिये आयुकर्मको पहले कहकर नाम कर्म कहा । और शरीरके आधारसे नीचपना वा उत्कृष्टपना होता है इसकारण नामकर्मको गोत्रके पहले कहा है । भावार्थ—नामकर्मसे शरीर मिलता है परन्तु वह आयुके विना ठहर नहीं सकता । और शरीर है तब ऊंच नीच व्यवहार है । इसलिये आयु, नाम, गोत्रकर्म क्रमसे कहे हैं ॥ १८ ॥

आगे यहां प्रश्न होता है कि वेदनीयकर्म अघातिया है उसको घातियाओंके बीचमें क्यों कहा ? इस प्रश्नका उत्तर गाथामें कहते हैं;—

घादिव वेयणीयं मोहस्स वलेण घाददे जीवं ।

इदि घादीणं मज्झे मोहस्सादिम्मिह पठिदं तु ॥ १९ ॥

घातिवत् वेदनीयं मोहस्य बलेन घातयति जीवम् ।

इति घातीनां मध्ये मोहस्यादौ पठितं तु ॥ १९ ॥

अर्थ—वेदनीयकर्म, घातियाकर्मोंकी तरह मोहनीयकर्मके भेद जो राग द्वेष हैं उनके उदयके बलसे ही जीवोंका घात करता है अर्थात् इन्द्रियोंके रूपादिविषयोंमें रति (प्रीति) अरति (द्वेष) होनेसे जीवको सुख तथा दुःख स्वरूप साता और असाताका अनुभव कराके अपने ज्ञानादि गुणोंमें उपयोग नहीं करने देता परस्वरूपमें लीन कराता है । इस कारण अर्थात् घातियाकी तरह होनेसे घातियाओंके मध्यमें तथा मोहकर्मके पहिले इस वेदनीयकर्मका पाठ किया गया है । भावार्थ—जबतक रागद्वेष रहते हैं तभीतक यह जीव किसीको बुरा और किसीको भला समझता है । एक वस्तु किसीको बुरी मालूम पड़ती है वही वस्तु किसीको अच्छी । जैसे कि—कटुकरसवाला नीमका पत्ता मनुष्यको अप्रिय लगता है वही पत्ता ऊंटको प्रिय, वस्तु कुछ खोटी या भली नहीं जो वस्तु ही होवै तो दोनोंको एकसी मालूम पड़नी चाहिये । इसकारण यह सिद्ध हुआ कि मोहनीयकर्मरूप रागद्वेषके होनेसे ही इन्द्रियोंसे उत्पन्न सुख तथा दुःखका अनुभव होता है मोहनीय कर्मके विना वेदनीयकर्म “राजाके विना निर्बलकी तरह” कुछ नहीं करसकता ॥ १९ ॥

इसतरह कर्मोंका पाठक्रम सिद्ध हुआ उसीको अब इकट्ठाकरके दिखलाते हैं;—

णाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेयणीयमोहणियं ।

आउगणामं गोदंतरायमिदि पठिदमिदि सिद्धं ॥२०॥

ज्ञानस्य दर्शनस्य चावरणं वेदनीयमोहनीयम् ।

आयुष्कनाम गोत्रान्तरायमिति पठितमिति सिद्धम् ॥२०॥

अर्थ—ज्ञानावरण १ दर्शनावरण २ वेदनीय ३ मोहनीय ४ आयु ५ नाम ६ गोत्र ७ अन्तराय ८ इस प्रकार जो पाठका क्रम है वह पहले पाठक्रमकी तरह सिद्ध हुआ ॥ २० ॥

अब इन आठकर्मोंके स्वभावका दृष्टान्त कहते हैं;—

पडपडिहारसिमज्जाहलिचित्तकुलालभंडयारीणं ।

जह एदेसिं भावा तहवि य कम्मा मुणेयव्वा ॥ २१ ॥

पटप्रतीहारासिमघहलिचित्रकुलालभाण्डागारिकाणाम् ।

यथा एतेषां भावा तथैव च कर्माणि मन्तव्यानि ॥ २१ ॥

अर्थ—पट अर्थात् देवताके मुख ऊपर वस्त्र १ प्रतीहार अर्थात् राजद्वारपर बैठा हुआ ब्यौड़ीवान २ असि- (शहत लपेटी तलवारकी धार) ३ शराब ४ काठका यंत्र ५ चतेरा ६ कुंभार ७ भंडारी (खजानची) ८ इन आठोंके जैसे अपने कार्यकरनेके भाव होते हैं उसी तरह क्रमसे कर्मोंके भी स्वभाव समझना ॥ २१ ॥

अब कुछ शब्दार्थ लेकर आठकर्मोंका अर्थ करते हैं वह यह है—ज्ञानको जो आवरै ढँकै वह ज्ञानावरण है, इसका स्वभाव देवताके मुख पर वस्त्र होना कहा है । वह इसप्रकार है कि, देवताके मुंह पर ढंका हुआ कपड़ा देवताके विशेषज्ञानको नहीं होने देता उसी तरह ज्ञानावरण कर्म ज्ञानको आच्छादित है विशेषज्ञान नहीं होने देता । दर्शनको आवरै अर्थात् वस्तुको नहीं देखने देवै वह दर्शनावरण है, इसका स्वभाव दरवानियाके समान कहा है, जैसे दरवानिया राजाको देखने नहीं देता देखनेसे रोक लेता है वैसे ही यह कर्म भी वस्तुका दर्शन नहीं होने देता । तीसरा वेदनीयकर्म जो सुखदुःखका वेदन अर्थात् अनुभव करावै इसका स्वभाव सहत लपेटी तलवारकी धार समान है, पहले चखनेसे कुछ सुख पीछे जीभके दो टुकड़े होनेसे दुःख अत्यन्त होता है, इसी तरह साता और असातासे उत्पन्न हुए सुख दुःख हैं । जो मोहै अर्थात् असावधान (अचेत) करै वह मोहनीय कर्म है इसका स्वभाव मदिरा वगैरः जो नशा करनेवाली वस्तुएं हैं उन सरीखा है, जैसे शराब वगैरः पदार्थ, पीनेसे जीवको अचेत वा असावधान कर देते हैं उसको अपने स्वरूपका कुछविचार नहीं रहता, इसी तरह मोहनीयकर्म आत्माको बेभान बना देता है उसको अपने स्वरूपका विचारही नहीं रहता । और जो एति अर्थात्

अर्थ—अन्तरायकर्म घातिया है तथापि अघातियाकर्मोंकी तरह समस्तपनेसे जीवके गुणोंके घातनेको समर्थ नहीं है । और नाम, गोत्र, वेदनीय इनतीनों कर्मोंके निमित्तसे यह अपना कार्य करता है इसकारण अघातियाकर्मोंके अन्तमें कहा है ॥ १७ ॥

अब अन्यकर्मोंका क्रम कहते हैं;—

आउवलेण अवट्टिदि भवस्स इदि णाममाउपुव्वं तु ।

भवमस्सिय णीचुच्चं इदि गोदं णामपुव्वं तु ॥ १८ ॥

आयुर्वलेण अवस्थितिः भवस्य इति नाम आयुःपूर्वं तु ।

भवमाश्रित्य नीचोच्चमिति गोत्रं नामपूर्वं तु ॥ १८ ॥

अर्थ—आयुकर्मके बलसे (सहायतासे) नामकर्मका कार्य चारगतिरूप शरीरकी स्थिति है इसलिये आयुकर्मको पहले कहकर नाम कर्म कहा । और शरीरके आधारसे नीचपना वा उत्कृष्टपना होता है इसकारण नामकर्मको गोत्रके पहले कहा है । भावार्थ—नामकर्मसे शरीर मिलता है परन्तु वह आयुके बिना ठहर नहीं सकता । और शरीर है तब ऊंच नीच व्यवहार है । इसलिये आयु, नाम, गोत्रकर्म क्रमसे कहे हैं ॥ १८ ॥

आगे यहां प्रश्न होता है कि वेदनीयकर्म अघातिया है उसको घातियाओंके बीचमें क्यों कहा ! इस प्रश्नका उत्तर गाथामें कहते हैं;—

घादिं व वेयणीयं मोहस्स वलेण घाददे जीवं ।

इदि घादीणं मज्झे मोहस्सादिंमिह पठिदं तु ॥ १९ ॥

घातिवत् वेदनीयं मोहस्य वलेण घातयति जीवम् ।

इति घातीनां मध्ये मोहस्यादौ पठितं तु ॥ १९ ॥

अर्थ—वेदनीयकर्म, घातियाकर्मोंकी तरह मोहनीयकर्मके भेद जो राग द्वेष हैं उनके उदयके बलसे ही जीवोंका घात करता है अर्थात् इन्द्रियोंके रूपादिविषयोंमें रति (प्रीति) अरति (द्वेष) होनेसे जीवको सुख तथा दुःख स्वरूप साता और असाताका अनुभव कराके अपने ज्ञानादि गुणोंमें उपयोग नहीं करने देता परस्वरूपमें लीन कराता है । इस कारण अर्थात् घातियाकी तरह होनेसे घातियाओंके मध्यमें तथा मोहकर्मके पहिले इस वेदनीयकर्मका पाठ किया गया है । भावार्थ—जबतक रागद्वेष रहते हैं तभीतक यह जीव किसीको बुरा और किसीको भला समझता है । एक वस्तु किसीको बुरी मालूम पड़ती है वही वस्तु किसीको अच्छी । जैसे कि—कटुकरसवाला नीमका पत्ता मनुष्यको अप्रिय लगता है वही पत्ता ऊंटको प्रिय, वस्तु कुछ खोटी या भली नहीं जो वस्तु ही होवै तो दोनोंको एकसी मालूम पड़नी चाहिये । इसकारण यह सिद्ध हुआ कि मोहनीयकर्मरूप रागद्वेषके होनेसे ही इन्द्रियोंसे उत्पन्न सुख तथा दुःखका अनुभव होता है मोहनीय कर्मके बिना वेदनीयकर्म “राजाके बिना निर्बलकी तरह” कुछ नहीं करसकता ॥ १९ ॥

इसतरह कर्मोंका पाठक्रम सिद्ध हुआ उसीको अब इकट्ठाकरके दिखलाते हैं;—

णाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेयणीयमोहणियं ।

आउगणामं गोदंतरायमिदि पढिदमिदि सिद्धं ॥२०॥

ज्ञानस्य दर्शनस्य चावरणं वेदनीयमोहनीयम् ।

आयुष्कनाम गोत्रान्तरायमिति पठितमिति सिद्धम् ॥२०॥

अर्थ—ज्ञानावरण १ दर्शनावरण २ वेदनीय ३ मोहनीय ४ आयु ५ नाम ६ गोत्र ७ अन्तराय ८ इस प्रकार जो पाठका क्रम है वह पहले पाठक्रमकी तरह सिद्ध हुआ ॥ २० ॥

अब इन आठकर्मोंके स्वभावका दृष्टान्त कहते हैं;—

पडपडिहारसिमज्जाहलिचित्तकुलालभंडयारीणं ।

जह एदेसिं भावा तहवि य कम्मा मुणेयव्वा ॥ २१ ॥

पटप्रतीहारासिमद्यहलिचित्रकुलालभाण्डागारिकाणाम् ।

यथा एतेषां भावा तथैव च कर्माणि मन्तव्यानि ॥ २१ ॥

अर्थ—पट अर्थात् देवताके मुख ऊपर वस्त्र १ प्रतीहार अर्थात् राजद्वारपर बैठा हुआ ज्यौड़ीवान २ असि (शहत लपेटी तलवारकी धार) ३ शराव ४ काठका यंत्र ५ चतेरा ६ कुंभार ७ भंडारी (खजानची) ८ इन आठोंके जैसे अपने कार्यकरनेके भाव होते हैं उसी तरह क्रमसे कर्मोंके भी स्वभाव समझना ॥ २१ ॥

अब कुछ शब्दार्थ लेकर आठकर्मोंका अर्थ करते हैं वह यह है—ज्ञानको जो आवरै ढँकै वह ज्ञानावरण है, इसका स्वभाव देवताके मुख पर वस्त्र होना कहा है । वह इसप्रकार है कि, देवताके मुंह पर ढंका हुआ कपड़ा देवताके विशेषज्ञानको नहीं होने देता उसी तरह ज्ञानावरण कर्म ज्ञानकों आच्छादित है विशेषज्ञान नहीं होने देता । दर्शनको आवरै अर्थात् वस्तुको नहीं देखने देवै वह दर्शनावरण है, इसका स्वभाव दरवानियाके समान कहा है, जैसे दरवानिया राजाको देखने नहीं देता देखनेसे रोक लेता है वैसे ही यह कर्म भी वस्तुका दर्शन नहीं होने देता । तीसरा वेदनीयकर्म जो सुखदुःखका वेदन अर्थात् अनुभव करावै इसका स्वभाव सहत लपेटी तलवारकी धार समान है, पहले चखनेसे कुछ सुख पीछे जीभके दो टुकड़े होनेसे दुःख अत्यन्त होता है, इसी तरह साता और असातासे उत्पन्न हुए सुख दुःख हैं । जो मोहै अर्थात् असावधान (अचेत) करै वह मोहनीय कर्म है इसका स्वभाव मदिरा वगैरः जो नशा करनेवाली वस्तुएं हैं उन सरीखा है, जैसे शराव वगैरः पदार्थ, पीनेसे जीवको अचेत वा असावधान कर देते हैं उसको अपने स्वरूपका कुछविचार नहीं रहता, इसी तरह मोहनीयकर्म आत्माको बेभान बना देता है उसको अपने स्वरूपका विचारही नहीं रहता । और जो एति अर्थात्

पर्यायधारण करनेके निमित्त प्राप्त होवै वह आयुर्कर्म है, इसका स्वभाव लोहेकी सांकल वा काठके यंत्रके समान है, जैसे सांकल अथवा काठकायंत्र पुरुषको अपनेस्थानमें ही स्थित रखता है दूसरी जगह नहीं जाने देता, ठीक उसीप्रकार आयुर्कर्म मनुष्यादि पर्यायमें स्थित (मौजूद) रखता है दूसरी जगह नहीं जाने देता। फिर नाना अर्थात् अनेक तरहके मिनोति अर्थात् कार्य बनवै वह नामकर्म है यह चतेरेकी तरह है, जैसे चतेरा अनेक प्रकारके चित्राम (तसबीर) बनाता है उसी प्रकार नामकर्म नारक आदि अनेकरूप धारण कराता है। सातवां गोत्रकर्म जोकि गमयति अर्थात् ऊंच नीचपनेको प्राप्त करै, इसका कुंभारके समान स्वभाव है, जैसे कुंभार मट्टीके बासन छोटे बड़े बनाता है वैसेही यह गोत्रकर्मभी जीवकी ऊंच तथा नीच अवस्था करता है। अन्तरायकर्म वह है जो “अन्तरं एति” अर्थात् दाता तथा पात्रमें आपसमें अन्तर प्राप्त करै। इसका स्वभाव भंडारी सरीखा है जैसे भंडारी (खजानची) दूसरेको दान देनेमें विघ्न करता है देनेसे रोकता है, उसी तरह अन्तरायकर्म दानलाभादिमें विघ्न करता है। इस तरह इन आठ मूल-कर्मोंका शब्दार्थ करके स्वरूप कहा ॥

अब इन कर्मोंकी उत्तरप्रकृतियोंकी [विशेषभेदोंकी] उत्पत्तिका क्रम कहते हैं;—

**पंच णव दोष्णि अष्टावीसं चउरो कमेण तेणउदी ।
तेउत्तरं सयं वा दुगपणगं उत्तरा होंति ॥ २२ ॥**

पञ्च नव द्वौ अष्टाविंशतिः चत्वारः क्रमेण त्रिनवतिः ।
त्र्युत्तरं शतं वा द्विकपञ्चकमुत्तरा भवन्ति ॥ २२ ॥

अर्थ—ज्ञानावरण आदि आठकर्मोंके प्रत्येकभेद क्रमसे पांच, नौ, दो, अट्ठाईस, चार, तिरानवै अथवा एकसौतीन, दो, पांच होते हैं ऐसा जानना। भावार्थ—ज्ञानावरणके मतिज्ञानावरण १ श्रुतज्ञानावरण २ अवधिज्ञानावरण ३ मनःपर्ययज्ञानावरण ४ केवलज्ञानावरण ये ५ भेद। दर्शनावरणके चक्षुदर्शनावरण १ अचक्षुदर्शनावरण २ अवधिदर्शनावरण ३ केवलदर्शनावरण ४ और स्त्यानगृद्धि ५ निद्रानिद्रा ६ प्रचलाप्रचला ७ निद्रा ८ प्रचला ९ ये पांचनिद्रा इस प्रकार नौ भेद हैं ॥ २२ ॥

अब दर्शनावरणकी भेदमें पांचनिद्राका कार्य तीन गाथाओंसे कहते हैं;—

**थीणुदयेणुट्टविदे सोवदि कम्मं करेदि जप्पदि य ।
णिहाणिहुदयेण य ण दिट्ठिमुग्घादिदुं सक्को ॥ २३ ॥**
स्त्यानगृद्धुदयेन उत्थापिते स्वपिति कर्म करोति जल्पति च ।
निद्रानिद्रोदयेन च न दृष्टिमुद्घाटयितुं शक्यः ॥ २३ ॥

अर्थ—स्त्यानगृद्धिदर्शनावरणकी कर्मके उदय कर उठाया हुआ भी सोता रहै उस नींदमें

ही अनेक कार्य करै तथा कुछ बोलै भी परन्तु सावधानी न होय ॥ और निद्रानिद्राकर्मके उदयसे अनेक तरहसे सावधान कियाहुआ भी आखोंको नहीं उघाड़ सकता है ॥ २३ ॥

पयलापयलुदयेण य वहेदि लाला चलंति अंगाइं ।

णिहुदये गच्छंतो ठाइ पुणो वइसइ पडेई ॥ २४ ॥

प्रचलाप्रचलोदयेन च वहति लाला चलन्ति अङ्गानि ।

निद्रोदये गच्छन् तिष्ठति पुनः विशति पतति ॥ २४ ॥

अर्थ—प्रचलाप्रचलाकर्मके उदयसे मुखसे लार वहतीहै और हाथ वगैरः अंग चलते हैं, स्थिर नहीं रहते । तथा निद्राकर्मके उदय होनेसे गमन करता हुआ खड़ा होजावै बैठ-जावै गिरपडै इत्यादि क्रिया करता है ॥ २४ ॥

पयलुदयेण य जीवो ईसुम्मीलिय सुवेइ सुत्तोवि ।

ईसं ईसं जाणदि मुहुं मुहुं सोवदे मंदं ॥ २५ ॥

प्रचलोदयेन च जीव ईषदुन्मील्य स्वपिति सुप्तोपि ।

ईषदीषज्जानाति मुहुर्मुहुः स्वपिति मन्दम् ॥ २५ ॥

अर्थ—प्रचलाकर्मके उदयसे यह जीव कुछ एक आखोंको उघाड़कर सोता है, और सोता हुआभी थोड़ा थोड़ा जानता है बार बार मन्द (थोड़ा) शयन करता है । यह निद्रा श्वानके समान है सब निद्राओंसे उत्तम है ॥ इस प्रकार दर्शनावरणीयकर्मके कुछ भेदों का कार्य कहा ॥ २५ ॥

वेदनीयकर्म सातावेदनीय १ असातावेदनीय २ दो भेदस्वरूप है । मोहनीयकर्म भी साधारण रीतिसे दो प्रकारका है—दर्शनमोहनीय १ चारित्रमोहनीय २ इनमें दर्शनमोहनीय बंधकी अपेक्षा मिथ्यात्वरूप एक ही है और उदय तथा सत्ताकी अपेक्षा मिथ्यात्व १ सम्यग्मिथ्यात्व २ सम्यक्त्वप्रकृति ३ इन तीन स्वरूप है ॥

आगे ये तीन भेद किस तरह हो जाते हैं? इसका उत्तर कहते हैं;—

जंतेण कोद्वं वा पढमुवसमसम्मभावजंतेण ।

मिच्छं दव्वं तु तिधा असंखगुणहीणदव्वकमा ॥ २६ ॥

यत्रेण कोद्वं वा प्रथमोपशमसम्यक्त्वभावयत्रेण ।

मिथ्यात्वं द्रव्यं तु त्रिधा असंख्यगुणहीनद्रव्यक्रमात् ॥ २६ ॥

अर्थ—यत्र अर्थात् घरटीकरि दलेहुए कोदोंकीतरह प्रथमोपशमसम्यक्त्वपरिणामरूप यत्रसे मिथ्यात्वरूपी कर्मद्रव्य क्रमसे असंख्यात गुणा कम होता हुआ तीन प्रकार हो जाता है । भावार्थ—जैसे कोदों—धान्यविशेष दलनेपर भुसी, तंडुल और कण ऐसे तीन रूप होजाता है उसीतरह मिथ्यात्वरूप कर्मद्रव्य भी उपशमसम्यक्त्वरूपी यत्रकेद्वारा मिथ्यात्व,

१. सम्यक्त्वके भेदोंमेंसे उपशमसम्यक्त्व दो प्रकार है—प्रथमोपशमसम्यक्त्व १ द्वितीयोपशमसम्यक्त्व २।

सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन तीन स्वरूप परिणमन करता है । इस कारण एक मिथ्यात्व-रूप दर्शनमोहनीयकर्मके तीन भेद कहे हैं ॥ २६ ॥

चारित्रमोहनीयके दो भेद हैं एक कषायवेदनीय दूसरा नोकषायवेदनीय, उनमें कषाय-वेदनीय १६ प्रकार है, उसको क्षयहोनेके क्रमसे कहते हैं—अनन्तानुबन्धीक्रोध १ मान २ माया ३ लोभ ४, अप्रत्याख्यान (अप्रत्याख्यानावरण) क्रोध ५ मान ६ माया ७ लोभ ८, प्रत्याख्यान (प्रत्याख्यानावरण) क्रोध ९ मान १० माया ११ लोभ १२, संज्वलनक्रोध १३ मान १४ माया १५ लोभ १६। और नोकषायवेदनीयके नव भेद हैं—पुरुषवेद १ स्त्रीवेद २ नपुंसकवेद ३ रति ४ अरति ५ हास्य ६ शोक ७ भय ८ जुगुप्सा ९। आयुर्कर्म चारतरहका है—नरकायु १ तिर्यचआयु २ मनुष्य ३ देवआयु ४। तथा नामकर्म पिंड (भेदवाली) और अपिंड (भेद रहित) प्रकृतियोंसे व्यालीस प्रकार है, उन दोनों प्रकृतियोंमें पिंड (भेदवाली) प्रकृति १४ हैं—गति १ (नरक १ तिर्यच २ मनुष्य ३ देवगति ४) जाति २ (एकेन्द्री १ दोइन्द्री २ तेइन्द्री ३ चौइन्द्री ४ पंचेन्द्रीजाति ५) शरीरनाम ३ (औदारिक १ वैक्रियिक २ आहारक ३ तैजस ४ कार्मणशरीर ५) ॥

अब इन पांचशरीरोंके भी संयोगी (मिलेहुए) भेद कहते हैं;—

तेजाकम्महिं तिए तेजा कम्मणेण कम्मणा कम्मं ।

कयसंजोगे चदुचदुचदुदुग एकं च पयडीओ ॥ २७ ॥

तैजसकार्मणाभ्यां त्रये तैजसं कार्मणेन कार्मणेन कार्मणं ।

कृतसंयोगे चतुश्चतुश्चतुद्विकमेकं च प्रकृतयः ॥ २७ ॥

अर्थ—तैजसशरीर और कार्मण शरीरके साथ औदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीरका आपसमें संबंध करनेसे चार, चार और चार इसतरह मिलकर १२ भेद होते हैं । तथा कार्मणशरीरके साथ तैजसशरीरके मिलनेसे दो भेद और कार्मणशरीरके साथ कार्मणका संबंध होनेसे एक भेद इसतरह सब मिलकर १५ भेद होते हैं । इनका खुलासा यह है—औदारिकऔदारिक १ औदारिकतैजस २ औदारिककार्मण ३ औदारिकतैजसकार्मण ४ वैक्रियिकवैक्रियिक ५ वैक्रियिकतैजस ६ वैक्रियिककार्मण ७ वैक्रियिकतैजसकार्मण ८ आहारकआहारक ९ आहारकतैजस १० आहारककार्मण ११ आहारकतैजसकार्मण १२ तैजसतैजस १३ तैजसकार्मण १४ कार्मणकार्मण १५ इस प्रकार पंद्रह भेद हुए । इनमेंसे पांच जो “ औदारिकऔदारिक, वैक्रियिकवैक्रियिक, आहारकआहारक, तैजसतैजस, कार्मणकार्मण ” हैं वह पहले कहे हुए पांच शरीरोंमें शामिल हो जाते हैं । इस कारण मुख्य यहां १० भेद हुए । जैसे चक्रवर्ती जब विक्रियाकरके १ कम ९६००० छयानवैहजार शरीर बनाता है तब औदारिकसे औदारिकशरीर बनाता है उसको औदारिकऔदारिक

कहते हैं । इसीतरह देवके वैक्रियिकसे वैक्रियिक होता है उसे वैक्रियिकवैक्रियिक कहते हैं, इसप्रकार और भेदभी समझलेना ॥ २७ ॥

बन्धन नामकर्म ४ (औदारिकशरीरबंधन १ वैक्रियिकबंधन २ आहारकबंधन ३ तैजसबंधन ४ कार्माणशरीरबंधन ५) । संघातनामकर्म ५ (औदारिकशरीरसंघात १ वैक्रियिकसंघात २ आहारकसंघात ३ तैजससंघात ४ कार्माणशरीरसंघात ५) शरीरसंस्थाननामकर्म ६ (समचतुरस्रसंस्थान १ न्यग्रोधपरिमण्डल २ स्वाति ३ कुब्ज ४ वामन ५ हुंडसंस्थान ६) । शरीरआंगोपांग नामकर्म ७ (औदारिकशरीर आंगोपांग १ वैक्रियिक आंगोपांग २ आहारकशरीर आंगोपांग ३) तैजस तथा कार्माणके आंगोपांग नहीं हैं ।

अब आंगोपांग कौन २ हैं यह कहते हैं;—

गलया बाहू य तथा णियंबपुट्टी उरो य सीसो य ।

अट्टेव दु अंगाइं देहे सेसा उवंगाइं ॥ २८ ॥

नलकौ बाहू च तथा नितम्बपृष्ठे उरश्च शीर्षं च ।

अष्टैव तु अङ्गानि देहे शेषाणि उपाङ्गानि ॥ २८ ॥

अर्थ—दो पग, दो हाथ, कमरिके पीछेका भाग (चूतड़), पीठ, हृदय, और मस्तक ये शरीरमें आठ अंग हैं और दूसरे नेत्र कान वगैरः सब उपाङ्ग कहेजाते हैं ॥ २८ ॥

संहनननामकर्म ८ (वज्रवृषभनाराच १ वज्रनाराच २ नाराच ३ अर्द्धनाराच ४ कीलित ५ असंप्राप्तासृपाटिकासंहनन ६) ॥

आगे ये छहसंहननवाले जीव किस २ संहननसे कौन २ गतिमें उत्पन्न होते हैं यह कहते हैं;—

सेवट्टेण य गम्मइ आदीदो चटुसु कप्पजुगलोत्ति ।

तत्तो दुजुगलजुगले खीलियणारायणद्धोत्ति ॥ २९ ॥

सृपाटेन च गम्यते आदितः चतुर्षु कल्पयुगल इति ।

ततः द्वियुगलयुगले कीलितनाराचार्द्ध इति ॥ २९ ॥

अर्थ—सृपाटिकासंहननवाले जीव स्वर्गगतिमें जो उत्पन्न हों तो पहले—सौधर्मयुगल (सौधर्म, ऐशानस्वर्ग २) से चौथे लांतवयुगल (लांतव १ कापिष्ठस्वर्ग २) तक चार युगलोंमें उत्पन्न होते हैं । फिर चौथे युगलके बाद दो दो युगलोंमें क्रमसे कीलितसंहननवाले और अर्द्धनाराचसंहननवाले जीव जन्म धारते हैं अर्थात् पांचवें तथा छठे स्वर्गयुगलमें कीलितसंहननवाले और सातवें तथा आठवें स्वर्गयुगलमें सृपाटिकासंहननवाले जन्म लेते हैं ॥ २९ ॥

णवगेविजाणुदिसणुत्तरवारीसु जांति ते णियमा ।
 तिदुगेगे संप्रडणे णारायणमादिगे कमसो ॥ ३० ॥
 नवभ्रैवेयिकानुदिशानुत्तरवासिषु गान्ति ते नियमान् ।
 त्रिद्विकैकेन संहननेन नाराचादिकेन क्रमशः ॥ ३० ॥

अर्थ—नाराच आदि तीन संहननसे अर्थात् नाराच, वज्रनाराच, वज्रवृषभनाराच इन् तीनसंहननोंके उदयसे ये जीव नवभ्रैवेयिकमें, वज्रनाराच, वज्रवृषभनाराच दो संहननवाले नव अनुदिशविमानोंमें तथा वज्रवृषभनाराच संहननवाले पांच अनुत्तरविमानोंमें उत्पन्न होतेहैं । इस प्रकार स्वर्गमें जन्मलेनेकी मर्यादा कही ॥ ३० ॥

सण्णी छस्संहडणो वज्जदि भेघं तदो परं चापि ।
 सेवट्टादीरहिदो पण पणचदुरेगसंहडणो ॥ ३१ ॥
 संघी पट्संहननो वज्जति भेवां ततः परं चापि ।
 स्रपाटादिरहितः पथमीं पथाननुभेकसंहननः ॥ ३१ ॥

अर्थ—छह संहननवाले संनी (मनसहित) जीव यदि नरकमें जन्मलेयें तो भेवानाम तीसरे नरकपर्यन्त जाते हैं, और स्रपाटिकासंहननरहित पांच संहननवाले अरिष्टा नाम पांचवीं नरककी पृथ्वीतक उपजते हैं, चारसंहननवाले अर्थात् अर्द्धनाराचपर्यंतवाले पांचवींके बाद जो मघवी नाम छठी पृथिवी है वहांतक, और आदिके वज्रवृषभनाराचसंहननवाले सातवीं माघवी नाम पृथिवीतक उत्पन्न होते हैं ॥ ३१ ॥

अंतिमतियसंहडणस्सुदओ पुण कम्मभूमिमहिलाणं ।
 आदिमतिगसंहडणं णत्थित्ति जिणेहिं णिद्विट्ठं ॥ ३२ ॥
 अन्तिमत्रयसंहननस्सोदयः पुनः कर्मभूमिमहिलानाम् ।
 आदिमत्रिकसंहननं नास्तीतिजिनैर्निर्दिष्टम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—अन्तके तीन अर्द्धनाराचादिसंहननोंका उदय कर्मभूमिकी स्त्रियोंके होता है और आदिके तीन वज्रवृषभनाराचादिसंहनन कर्मभूमिकी स्त्रियोंके होते ही नहीं ऐसा जिनेन्द्र-देवने कहा है ॥ ३२ ॥

वर्ण नामकर्म ९ (काला १ नीला २ लाल ३ पीला ४ सफेद ५) । गंध नामकर्म १० (सुगंध १ दुर्गंध २) । रस नामकर्म ११ (तीखा अथवा चरपरा १ कडुआ २ कसैला ३ खट्टा ४ मीठा ५) । स्पर्श नामकर्म १२ (कठोर १ कोमल २ भारी ३ हलका ४ रूखा ५ चिकना ६ ठंडा ७ गर्म ८) । आनुपूर्वी नामकर्म १३ (नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी १ तिर्यच-गतिप्रायोग्यानुपूर्वी २ मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी ३ देवगतिप्रायोग्य आनुपूर्वी ४) इस प्रकार तेरह ये और उद्योतके पीछे विहायोगति नामकर्म (प्रशस्तविहायोगति १ अप्रशस्तविहायो-गति २) ये सब १४ पिंडप्रकृतियां हैं । और २८ अपिंडप्रकृतियां हैं वे इस प्रकार हैं—

अगुरुलघुक १ उपघात २ परघात ३ उच्च्रास ४ आतप ५ उद्योत ६ ।

यहां पर कोई भ्रम करै कि, आतपप्रकृतिका उदय अग्निकायमें भी होना चाहिये, क्योंकि जो संताप करै अर्थात् उष्णपनेसे जलावै वह आताप है इस भ्रमके दूर करनेके लिये आगसे भिन्न आतपका लक्षण गाथामें कहते हैं;—

मूलुणहपहा अग्गी आदावो होदि उण्हसहियपहा ।

आइचे तेरिच्छे उण्हूणपहा हु उज्जोओ ॥ ३३ ॥

मूलोष्णप्रभा अग्निः आतापो भवति उष्णसहितप्रभा ।

आदित्ये तिरश्चि उष्णोनप्रभा हि उद्योतः ॥ ३३ ॥

अर्थ—आग है वह मूलसे ही उष्ण प्रभासहित है इसकारण उसके स्पर्शनामकर्मका भेद उष्णस्पर्शनामकर्मका उदय जानना । और जिसकी प्रभा (किरणोंका फैलाव) ही उष्ण होवै उसको आतप कहते हैं, इस आतपनामकर्मका उदय सूर्यके बिम्ब (विमान) में उत्पन्न-हुए बादरपर्याप्त पृथ्वीकायके तिर्यंचजीवोंके समझना । तथा जो उष्ण रहित प्रभा है उसको उद्योत नियमसे जानना ॥ ३३ ॥

“ विहायोगति नामकर्म ” जोकि पिंड प्रकृतियोंमें गिनाया है । त्रस नामकर्म ७ बादर नामकर्म ८ पर्याप्त नामकर्म ९ प्रत्येकशरीर नामकर्म १० स्थिर नामकर्म ११ शुभ नामकर्म १२ सुभग नामकर्म १३ सुखर नामकर्म १४ आदेय नामकर्म १५ यशस्कीर्ति नामकर्म १६ निर्माण नामकर्म १७ तीर्थकर नामकर्म १८ स्थावर नामकर्म १९ सूक्ष्म नामकर्म २० अपर्याप्त नामकर्म २१ साधारणशरीर नामकर्म २२ अस्थिर नामकर्म २३ अशुभ नामकर्म २४ दुर्भग नामकर्म २५ दुःखर नामकर्म २६ अनादेय नामकर्म २७ अयशस्कीर्ति नामकर्म २८ इस रीतिसे पिंड प्रकृति १४ तथा अपिंड (जुदी जुदी) प्रकृतियां २८ सब मिलकर नामकर्मकी ४२ प्रकृतियां है । यदि सब भेद अलग २ बोले जावें तो ९३ अथवा शरीर नामकर्मकेमिले हुए दश भेद जोड़नेसे १०३ प्रकृतियां है, इसी अपेक्षासे कोई आचार्य सब कर्मोंकी १५८ प्रकृतियां कहते हैं । जो इन भेदोंको पांच शरीरमें ही गर्भित करलें तो १४८ ही प्रकृतियां हैं ॥ गोत्रकर्म है उसके दो भेद हैं—ऊंच गोत्र तथा नीच गोत्र । अन्तराय-कर्मके पांच भेद हैं—दानान्तराय १ लाभान्तराय २ भोगान्तराय ३ उपभोगान्तराय ४ वीर्यान्तराय ५ । इस तरह कर्मके आठ मूलभेदोंके १४८ उत्तरभेद कहे ॥

अब कहते हैं कि—इन प्रकृतियोंका और आत्माका दूध, पानीकी तरह आपसमें एकरूप होना यही बंध है । और जैसे योग्यपात्रमें रक्खे हुए अनेक तरहके रस बीज फूल तथा फल सब मिलकर मदिरा (शराव) भावको प्राप्त होते हैं उसीप्रकार कर्मरूप होने-योग्य कर्मणवर्गणानामके पुद्गलद्रव्य योग और क्रोधादिकषायके निमित्तकारणसे कर्मभावको

प्राप्त होते हैं जभी कर्मपनेकी सामर्थ्य प्रगट होती है। और इस जीवकर एक समयमें होने-वाले अपने एकही परिणामसे ग्रहण (संबंध) किये कर्मयोग्य पुद्गल, ज्ञानावरणादि अनेक-भेदरूप होके परिणमते हैं। जैसे एकवार ही खाया हुआ एक ग्रास (गस्ता) रूप अन्न है, वह रस लोही मांस आदि अनेक धातुरूप परिणमता है उस प्रकार ।

अत्र इन सब कर्मोंके भेदोंका शब्दार्थ करते हुए कार्य कहते हैं; क्योंकि कर्मोंके निमित्तसे ही जीवकी अनेक दशायें होती हैं, इस कारण सब प्रकृतियोंका स्वरूप जानना बहुत जरूरी है ।

मतिज्ञानको जो आवरण करै अथवा जिसद्वारा मतिज्ञान आवरण कियाजाय अर्थात् ढंका जाय वह मतिज्ञानावरण कर्म १ है । श्रुतज्ञानको जो आवरण करै वह श्रुतज्ञानावरण २ है । अवधिज्ञानको आवरण करै वह अवधिज्ञानावरण ३ है । मनःपर्ययज्ञानको जो आवरण करै वह मनःपर्ययज्ञानावरण ४ है । और केवलज्ञानको “ आवृणोति ” ढंके वह केवलज्ञानावरण ५ है । इस प्रकार ज्ञानावरणके पांच भेदोंका स्वरूप कहा ॥

“ आवृणोति आत्रियते अनेनेति आवरणम् ” ऐसी व्युत्पत्ति है अर्थात् जो आवरण करै या जिससे आवरण कियाजाय वह आवरण है, जो चक्षुसे दर्शन नहीं होने देवै वह चक्षु-दर्शनावरण कर्म ६ है । चक्षु (नेत्र) के सिवाय दूसरी चार इन्द्रियोंसे दर्शन (सामान्यज्ञान) नहीं होने देवै वह अचक्षुदर्शनावरणीय ७ है । अवधिद्वारा दर्शन न होनेदेवै वह अवधि-दर्शनावरण ८ है । केवलदर्शन अर्थात् त्रिकालमें रहनेवाले सब पदार्थोंका दर्शन उसका आवरण करै अर्थात् दर्शन नहीं होने देवै उसे केवलदर्शनावरण ९ कहते हैं। “ स्त्याने स्वापे गृध्यते दीप्यते सा स्त्यानगृद्धिः (निद्राविशेषः) दर्शनावरणः ” धातुशब्दोंके व्याकरणमें अनेक अर्थ होनेसे यहां “ स्त्यै ” धातुका सोना और “ गृधू ” धातुका दीप्ति अर्थ समझलेना । इस कारण यह अर्थ हुआ कि, जो सोवनेमें प्रकाश करै अर्थात् जिसके उदय होनेसे यह जीव नींदमें ही उठकर बहुत पराक्रमका कार्य करै पीछे भान नहीं रहै कि क्या कियाथा उसे स्त्यानगृद्धि दर्शनावरण १० कहते हैं । जिसके उदयसे निद्राकी ऊंची प्रवृत्ति होवै अर्थात् आँखके पलक भी नहीं उघाडसकै उसे निद्रानिद्रा कर्म ११ कहते हैं। “ यदुदयात् या क्रिया आत्मानं पुनः पुनः प्रचलयति तत्प्रचलाप्रचलादर्शनावरणम् ” जिसकर्मके उदयसे क्रिया आत्माको बार २ चलावै अर्थात् शोक, अथवा खेद या मद (नशा) आदिसे हुई जो निद्राकी अवस्था उसमें बैठते हुए भी शरीरके अङ्ग बहुत चलायमान होवै कुछ सावधानी न रहै वह प्रचलाप्रचलादर्शनावरणकर्म १२ है । जिसके उदयसे मद खेद आदिक दूरकरनेकेलिये केवल सोवना वह निद्रादर्शनावरण १३ है । जिसके उदयसे शरीरकी क्रिया आत्माको चलावै अर्थात् निद्रामें कुछ काम करै उसकी यादभी कुछ रहै कुत्तेकी तरह अल्पनिद्रा होवै वह प्रचलादर्शनावरणकर्म १४ है । इसतरह दर्शनावरणकर्मके नव भेद कहे ॥ जिसके उदयसे

देवादिगतिमें शारीरिक तथा मानसिक सुखकी प्राप्ति रूप जो साता उसको 'वेदयति' भोग-वावै अथवा "वेद्यते अनेन" जिसकर भोगै वह सातावेदनीय कर्म १५ है। जिसके उदयका फल अनेकप्रकार नरकादिकगतिजन्य जो दुःख उसको भोगवावै वह असातावेदनीयकर्म १६ है, इस रीतिसे वेदनीय कर्म दो प्रकार कहा ॥ दर्शनमोहनीयकर्म बंधकी अपेक्षासे एक प्रकार है तौभी उदय, सत्ताकी अपेक्षा तीन तरहका कहा है। उसमें जिसके उदयसे मिथ्या (खोटा) दृष्टि (श्रद्धान) होवै अर्थात् सर्वज्ञ-कथित वस्तुके यथार्थ स्वरूपमें रुचि न होवै, न उद्यम करै और हित अहितका विचार नहीं करै वह मिथ्यात्वनाम दर्शनमोहनीय १७ है। जिसकर्मके उदयसे सम्यक्त्वगुणकाभी मूलसे घात न होवै परंतु परिणामोंमें कुछ चलायमानपना तथा मलिनपना होवै जैसे यह मंदिर मेरा यह उसका, "शांतिनाथ" शांतिकरनेवाले "पार्व्वनाथ" रक्षाकरनेवाले, इत्यादि मलिनपना श्रद्धानमें होना उसे सम्यक्त्वप्रकृति दर्शनमोहनीयकर्म १८ कहते हैं, इस प्रकृतिवाला सम्यग्दृष्टि ही कहलाता है। जिसकर्मके उदयसे परिणामोंमें वस्तुका यथार्थ श्रद्धानपना और अयथार्थ श्रद्धानपना दोनों ही दही और गुड़के मिले स्वादकी तरह मिले हुए हों उसे सम्यग्मिथ्यात्व दर्शनमोहनीयकर्म १९ कहते हैं। इन परिणामोंको दोनोंमेंसे किसीके भी नहीं कहसकते। इस प्रकार दर्शनमोहनीयके तीन भेद कहे ॥ चारित्रमोहनीके दो भेद कहे हैं, उनमेंसे कषाय वेदनीय सोलह प्रकार है उसको कहते हैं—“कषन्ति हिंसन्तीति कषायाः” जो गुणका घात करै अर्थात् ढंके प्रगट नहीं होने देवें उनको कषाय कहते हैं। वे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार हैं इनकी भी चार २ अवस्था हैं। हर एक अवस्था क्रमसे कहते हैं—अनन्त जो संसार उसका कारण हो वह भी अनन्त कहा जाता है जैसे प्राणका कारण अन्नको प्राण कहना सो यहां पर मिथ्यात्व परिणाम अनन्त कहा गया है उसके साथ जो रहै अर्थात् सम्यक्त्वपरिणाम को घातै वह अनन्तानुबन्धी क्रोध २० मान २१ माया २२ लोभ २३ भेदवाली कषाय जानना ॥ “अ” माने थोड़े भी प्रत्याख्यान (त्याग) को जो आवरता होवै अर्थात् जिसके उदयसे थोड़ा व्रतभी नहीं धारण करसकै उसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध २४ मान २५ माया २६ लोभ २७ चारित्रमोहनीय कर्म कहते हैं। जिसके उदयसे प्रत्याख्यान अर्थात् सर्वथा त्यागका आवरण होवै महाव्रत नहीं पालसकै उसे प्रत्याख्यानावरण क्रोध २८ मान २९ माया ३० लोभ ३१ कषायवेदनीय जानना ॥ जिसके उदयसे “सं” एक रूप होकर “ज्वलति” संयम प्रकाश करै अर्थात् कषाय अंशसे मिला हुआ संयम रहै, कषाय रहित निर्मल संयम जो यथाख्यात वह न होसकै उसे संज्वलन क्रोध ३२ मान ३३ माया ३४ लोभ ३५ कषाय वेदनीय

१ इसमें कोदों चावलका भी दृष्टान्त घटाया है जैसे कोदों चावल मादक (नशा करनेवाले) हैं जो वे पानीसे धोडाले जावें तो कुछ मादकशक्ति रह जाती है कुछ चली जाती है। इसी प्रकार मिथ्यात्वपरिणाम भी उपशम सम्यक्त्वरूप जलसे शुद्ध किये जावें तो उनमें कुछ मिलावट रहजाती है।

कहते हैं । यह कर्म यथाख्यातचारित्रको घातता है ॥ अब नोकषायवेदनीय नौ प्रकार है उसे कहते हैं—नो माने ईषत् [थोड़ा] जो कषाय हो प्रबल नहीं होवै उसे नोकषाय कहते हैं उसका जो अनुभवकरावै वह “ नोकषायवेदनीयकर्म ” है । जिसके उदयसे अपनी हास्य प्रगट होवै वह हास्य कर्म ३६ है । जिसके उदयसे देश धन पुत्रादिमें विशेष प्रीति होवै उसे रति कर्म ३७ कहते हैं । जिसके उदयसे देश आदिमें अप्रीति हो उसको अरति कर्म ३८ कहते हैं । जिसके उदयसे इष्टके वियोग होनेपर क्लेश हो वह शोक कर्म ३९ है । जिसके उदयसे उद्वेग (चित्तमें घवराहट) हो उसे भय कर्म ४० कहते हैं । जिसके उदयसे अपने दोषको ढँकना दूसरेके दोष प्रगट कर ग्लानि करना वह जुगुप्सा कर्म ४१ है । जिसके उदयसे स्त्रीसंबंधी भाव (मृदुस्वभावका न होना, मायाचारकी अधिकता नेत्रविभ्रम आदिद्वारा पुरुषके साथ रमनेकी इच्छा) हों उसको स्त्रीवेद कर्म ४२ कहते हैं । जिसके उदयसे स्त्रीमें रमण करनेकी इच्छा रूप परिणाम हों उसे पुरुषवेद कर्म ४३ कहते हैं । और जिसकर्मके उदयसे स्त्री तथा पुरुष दोनोंमें रमण करनेकी इच्छा हो उसको नपुंसकवेद कर्म ४४ कहते हैं । इस तरह नव भेद नोकषायके और १६ भेद कषायके सब मिलकर २५ भेद चारित्रमोहनीयके तथा ३ भेद दर्शनमोहनीयके, कुल २८ भेद मोहनीयकर्मके हुए ।

आयुर्कर्म चार प्रकार है उसे दिखाते हैं—जो कर्म आत्माको नारक १ तिर्यच २ मनुष्य ३ तथा देवके शरीरमें प्राप्त करै अर्थात् नारकादि शरीरमें रोक रखवै उसे क्रमसे नरकायु ४५ तिर्यचायु ४६ मनुष्यायु ४७ देवायुर्कर्म ४८ कहते हैं ।

नामकर्मके भेदोंको दिखाते हैं:—जिसके उदयसे यहजीव एकपर्यायसे दूसरी पर्यायको “ गच्छति ” प्राप्त हो वह गति नामकर्म १ है उसके चार भेद कहे हैं; जिसकर्मके उदयसे यह जीव नारकी आकार १ तिर्यचाकार २ मनुष्यके शरीराकार ३ देवशरीराकार होवै उसको नरकगति ४९ तिर्यचगति ५० मनुष्यगति ५१ तथा देवगति कर्म ५२ कहते हैं । और जो उन गतियोंमें अव्यभिचारी और सादृश्य धर्मसे जीव इकट्ठे किये जावें वह जाति नामकर्म २ है अर्थात् एकेन्द्री दोइंद्री आदि जीव समान स्वरूप हैं तौभी आपसमें एक दूसरेसे मिलते नहीं यह तो अव्यभिचारीपना, और नहीं मिलते हुए भी एकेन्द्रियपना सत्रमें सरीखा है यह हुआ सादृश्यपना ये दोनोंधर्म एकेन्द्रियादि जीवोंमें हैं । वह जाति ५ प्रकार है; जिसके उदयसे यह आत्मा एकेन्द्री १ वे इन्द्री २ ते इन्द्री ३ चौ इन्द्री ४ पंचेन्द्री ५ कहा जाय उसे एकेन्द्रीजाति ५३ वेइन्द्रीजाति ५४ तेइन्द्रीजाति ५५ चौइन्द्रीजाति ५६ तथा पंचेन्द्रीजाति नामकर्म ५७ समझना । जिसके उदयसे शरीर रचा जावै अर्थात् वनै उसे शरीर नामकर्म ३ कहते हैं वह पांच प्रकार है, जिसके उदयसे औदारिकशरीर १ वैक्रियिकशरीर २ आहारकशरीर ३ तैजसशरीर ४ कर्मणशरीर

(कर्मपरमाणुओंका समूहरूप) ५ उत्पन्न हो उसे औदारिक शरीर नाम ५८ वैक्रियिकशरीर ५९ आहारकशरीर ६० तैजसशरीर ६१ तथा कर्मणशरीरनामकर्म ६२ कहते हैं । और शरीर नामकर्मके उदय वशसे जो आहार-वर्णारूप पुद्गलके स्कन्ध इस जीवने ग्रहण किये थे उन पुद्गलस्कन्धोंके प्रदेशों (हिस्सों) का आपसमें संबंध (मिलना) होना जिस कर्मके उदयसे हो उसे बंधननाम कर्म ४ कहते हैं; उसके औदारिकशरीर-बन्धन ६३ वैक्रियिकशरीरबन्धन ६४ आहारकशरीरबन्धन ६५ तैजसशरीरबंधन ६६ कर्मणशरीरबंधन ६७ इसरीतिसे पांच भेद हैं । जिसके उदयसे औदारिक आदि शरीरोंके परमाणु आपसमें मिलकर छिद्र रहित एक होजावें उसे संघातनामकर्म ५ कहते हैं; यह भी औदारिकसंघात ६८ वैक्रियिकसंघात ६९ आहारकसंघात ७० तैजससंघात ७१ कर्मणशरीरसंघात ७२ इस तरह पांच प्रकार है । जिसकर्मके उदयसे शरीरका आकार (शकल) बने उसे संस्थान नामकर्म ६ कहते हैं वह छःप्रकार है—जिसके उदयसे शरीरका आकार ऊपर नीचे तथा बीचमें समान (चौकोर) हो वह समचतुरस्रसंस्थान ७३ कर्म है जिसके उदयसे न्यग्रोधके (वड़के) वृक्ष सरीखा “ऊपरसे मोटा नाभिके नीचेसे पतला” शरीरका आकार हो वह न्यग्रोधपरिमण्डल-संस्थान ७४ है, जिसके उदयसे खातिके (सर्पकी बाँमी) समान आकार हो अर्थात् ऊपरसे पतला और नाभिसे नीचे मोटा हो उसे खातिसंस्थान ७५ कहते हैं, जिसकर्मके उदयसे कुबड़ा शरीर हो उसे कुब्जकसंस्थान ७६ कहते हैं, जिसके उदयसे बौना शरीर हो वह वामन संस्थान ७७ है, जिसकर्मके उदयसे शरीरके अंगोपाग किसी खास शकलके न हों भयानक बुरे आकार बनें उसे हुंडक संस्थान नामकर्म ७८ कहते हैं । जिसके उदयसे अंगोपांगका भेद हो वह आंगोपांग ७ कर्म है उसके तीन भेद हैं— औदारिकआंगोपांग ७९ वैक्रियिकआंगोपांग ८० आहारकआंगोपांग ८१ । जिसके उदयसे हांडोंके बंधनमें विशेषपना हो उसे संहनन नामकर्म ८ कहते हैं, वह छःप्रकार है—जिसकर्मके उदयसे ऋषभ (वेठन) नाराच (कीला) संहनन (हांडोंका समूह) वज्रके समान हो अर्थात् इन तीनोंका किसी शस्त्रसे छेदन भेदन न होसकै उसे वज्रर्षभनाराचसंहनन नामकर्म ८२ कहते हैं, जिस कर्मके उदयसे वज्रके हाड और वज्रकी कीली हों परंतु वेठन वज्रके न हों ऐसा शरीर हो वह वज्रनाराचसंहनन ८३ है, जिसकर्मके उदयसे शरीरमें वज्ररहित (साधारण) वेठन और कीलीसहित हाड हों उसे नाराच संहनन कर्म ८४ कहते हैं, जिसके उदयसे हाडोंकी संधियां आधी कीलित हों वह अर्धनाराच संहनन ८५ है, जिस कर्मके उदयसे हाड परस्पर कीलित हों उसे कीलित संहनन ८६

१ औदारिक आदिशब्दोंका अर्थ जीवकांडकी योगमार्गणामें गाथासूत्रोंसे स्वयं आचार्यने कहा है इस-कारण यहां लिखनेकी जरूरत नहीं है ।

कहते हैं, जिसकर्मके उदयसे जुदे २ हाड नसोंसे बंधे हों परस्पर (आपसमें) कीले हुए न हों वह असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन ८७ है, क्योंकि “ असंप्राप्तानि (आपसमें नहीं मिले हों) सृपाटिकावत् संहननानि यस्मिन् (सर्पकी तरह हाड़ जिसमें) तत् (वह) असंप्राप्तसृपाटिकासंहननम् (असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन शरीर है) ” ऐसा शब्दार्थ है ॥ जिसके उदयसे शरीरमें रंग हो वह वर्ण नामकर्म ९ है उसके पांचभेद हैं—कृष्णवर्ण नामकर्म ८८ नीलवर्ण नामकर्म ८९ रक्तवर्ण (लालरंग) नामकर्म ९० पीतवर्ण (पीलारंग) नामकर्म ९१ खेतवर्ण (सफेदरंग) नामकर्म ९२ ॥ जिसके उदयसे शरीरमें गंध हो उसे गंधनामकर्म १० कहते हैं वह दोतरहका है—सुरभिगंध (अच्छीवास) नामकर्म ९३ असुरभिगंध (खोटी वास) नामकर्म ९४ । जिसके उदयसे शरीरमें रस हो उसे रस नामकर्म ११ कहते हैं वह पांच प्रकार है—तिक्तरस (तीखा—चरपरा नामकर्म ९५ कटुक (कड़ुआ) नामकर्म ९६ कषाय (कसैला) नामकर्म ९७ आम्ल (खट्टा) नामकर्म ९८ मधुररस (मीठा) नामकर्म ९९ । जिसके उदयसे शरीरमें स्पर्श हो वह स्पर्श नामकर्म १२ है उसके आठ भेद हैं—कर्कशस्पर्श (जो छूनेसे कठिन हो) नामकर्म १०० मृदु (कोमल) नामकर्म १०१ गुरु (भारी) नामकर्म १०२ लघु (हलका) नामकर्म १०३ शीत (ठंडा) नामकर्म १०४ उष्ण (गरम) नामकर्म १०५ स्निग्ध (चिकनाई) नामकर्म १०६ रूक्ष (रूखापना) नामकर्म १०७ । जिसकर्मके उदयसे मरणके पीछे और जन्मसे पहिले अर्थात् विग्रहगतिमें (बीचकी अवस्थामें) मरणसे पहलेके शरीरके आकार आत्माके प्रदेश रहें अर्थात् पहले आकारका नाश न हो उसे आनुपूर्व्य नामकर्म १३ कहते हैं वह चार प्रकार है—जिसकर्मके उदयसे नरकगति प्राप्त होनेके सन्मुख मनुष्यपर्यायवाले जीवके शरीरका आकार विग्रहगतिमें मनुष्याकार रहै उसे नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य नामकर्म १०८ कहते हैं, इसीप्रकार तिर्यचगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य नामकर्म १०९ मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य नामकर्म ११० देवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य नामकर्म १११ भी जानना । जिसकर्मके उदयसे लोहेके गोलेकी तरह भारी और आककी रुईकी तरह हलका न हो ऐसा शरीर मिलै उसे अगुरुलघु नामकर्म ११२ कहते हैं । जिसके उदयसे “ उपेत्य घातः उपघातः आत्मघात इत्यर्थः ” अपने अंगोंसे अपना घात हो अर्थात् जिसके बड़े सींग, लम्बे स्तन अथवा मोटा पेट इत्यादि अपने घातक अंग हों उसे उपघात नामकर्म ११३ कहते हैं । जिसके उदयसे दूसरेका घात हो अर्थात् जिसके तीक्ष्ण सींग, नख, सर्प आदिकी दाढ इत्यादि परके घात करनेवाले शरीरके अवयव हों उसे परघात नामकर्म ११४ कहते हैं । जिसकर्मके उदयसे श्वासोच्छ्वास हों उसे उच्छ्वास नामकर्म ११५ कहते हैं । जिसके उदयसे परको आताप करनेवाला शरीर हो वह आताप नामकर्म ११६ है इसका उदय सूर्यके विम्बमें उत्पन्न हुए पृथ्वीकायिकजीवोंके है । जिसकर्मके उदयसे

उद्योतरूप (आतापरहित प्रकाशरूप) शरीर हो उसे उद्योत नामकर्म ११७ कहते हैं इसका उदय चंद्रमाके विंबमें और आगिया (जुगुनू) जीवके है । जिसकर्मके उदयसे आकाशमें गमन हो उसे विहायोगति नामकर्म १४ कहते हैं उसके दो भेद हैं—प्रशस्तविहायोगति (शुभगमन) नामकर्म ११८ अप्रशस्तविहायोगति (अशुभगमन) नामकर्म ११९ । जिसके उदयसे दो इन्द्रियादि जीवोंकी जातिमें जन्म हो उसे त्रसनामकर्म १२० कहते हैं । जिसके उदयसे ऐसा शरीर हो कि दूसरे को रोकै और दूसरेसे आप रुकै उसे वादर नामकर्म १२१ कहते हैं । जिसके उदयसे अपने २ योग्य आहारादि (आहार १ शरीर २ इन्द्रिय ३ श्वासोच्छ्वास ४ भाषा ५ मनःपर्याप्ति ६) पर्याप्ति पूर्ण करै वह पर्याप्तिनामकर्म १२२ है । जिसके उदयसे एक शरीरका एक ही जीव स्वामी हो उसे प्रत्येकशरीर नामकर्म १२३ कहते हैं । जिसके उदयसे शरीरके रसादिक धातु और वातादि उपधातु अपने २ ठिकाने (स्थिर) रहें उसको स्थिर नामकर्म १२४ कहते हैं । इससे ही शरीरमें रोग शान्त रहता है । जिसकर्मके उदयसे मस्तक वगैरह शरीरके अवयव सुंदर हों उसे शुभ नामकर्म १२५ कहते हैं । जिसकर्मके उदयसे दूसरे जीव अपनेसे प्रीति करै उसको सुभग नामकर्म १२६ कहते हैं । जिसके उदयसे स्वर (आवाज़) अच्छा हो उसे सुस्वर नामकर्म १२७ कहते हैं । जिसके उदयसे कान्ति सहित शरीर हो उसको आदेय नामकर्म १२८ कहते हैं । जिसके उदयसे अपना पुण्यगुण जगतमें प्रगट हो अर्थात् संसारमें जीवकी तारीफ हो उसे यशस्कीर्ति नामकर्म १२९ कहते हैं । जिसके उदयसे शरीरके अंगोपांगोंकी ठीक २ रचना हो उसे निर्माण नामकर्म १३० कहते हैं, वह दो प्रकार है—जो जातिनामकर्मकी अपेक्षासे नेत्रादिक इन्द्रियें जिस जगह होनी चाहिये उसी जगह उन इन्द्रियोंकी रचना करै वह स्थाननिर्माण १ है, और जितना नेत्रादिकका प्रमाण (माप) चाहिये उतने ही प्रमाण (मापके वरोचर) बनावै वह प्रमाणनिर्माण २ है । जो श्रीमत् अर्हतपदका कारण हो वह तीर्थकर नामकर्म १३१ है । जिसके उदयसे एकेन्द्रियमें (पृथिवी १ जल २ तेज ३ वायु ४ वनस्पतिकाय ५ में) जन्म हो उसे स्थावर नामकर्म १३२ कहते हैं । जिसके उदयसे ऐसा सूक्ष्म शरीर हो जो कि, न तो किसीको रोकै और न किसीसे रुकै उसे सूक्ष्म नामकर्म १३३ कहते हैं । जिसके उदयसे कोई भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो अर्थात् लब्धपर्याप्तिक अवस्था हो उसको

१. रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदः प्रवर्तते । मेदतोस्थि ततो मज्जं मज्जाच्छुक्रस्ततः प्रजा ॥ १ ॥ अर्थात् रससे लोही, लोहीसे मांस, मांससे मेद, मेदसे हाड, हाडसे मिर्जी, मिर्जासे वीर्य, वीर्यसे संतान होती है इसतरह सात धातु हैं ये सात धातु ३० दिनमें पूर्ण होते हैं । २. वातपित्तं तथा श्लेष्मा शिरा स्नायुश्च चर्म च । जटरामिरिति प्राज्ञैः प्रोक्ताः सप्तोपधातवः ॥ अर्थात् वात १ पित्त २ कफ ३ तिरा ४ स्नायु ५ चाम ६ पेटकी आग ७ ये सात उपधातु हैं ।

अपर्याप्ति नामकर्म १३४ कहते हैं । जिसकर्मके उदयसे एक शरीरके अनेक जीव स्वामी हों उसको साधारण नामकर्म १३५ कहते हैं । जिसके उदयसे धातु और उपधातु अपने २ ठिकाने न रहें अर्थात् चलायमान होकर शरीरको रोगी रक्खें उसको अस्थिर नामकर्म १३६ कहते हैं । जिसकर्मके उदयसे शरीरके मस्तकादि अवयव सुंदर न हों उसको अशुभ नामकर्म १३७ कहते हैं । जिसकर्मके उदयसे रूपादिक गुण सहित होनेपरभी दूसरे जीव प्रीति न करैं अर्थात् वैर रक्खें उसको दुर्भग नामकर्म १३८ कहते हैं । जिसके उदयसे अच्छा स्वर न हो उसको दुःस्वर नामकर्म १३९ कहते हैं । जिसके उदयसे प्रभा (कान्ति) रहित शरीर हो वह अनादेय नामकर्म १४० है । जिस कर्मके उदयसे संसारमें जीवकी तारीफ़ न हो उसे अयशःकीर्ति नामकर्म १४१ कहते हैं । इसप्रकार सब मिलकर ९३ भेद नामकर्मके हुए ॥

गोत्रकर्मके दो भेद हैं—जिसके उदयसे लोक पूजित (मान्य) कुलमें जन्म हो उसे उच्चगोत्र कर्म १४२ कहते हैं । जिसकर्मके उदयसे लोक निंदित कुलमें जन्म हो उसे नीचगोत्र कर्म १४३ कहते हैं ।

अन्तरायकर्मके पांच भेद हैं—जिसके उदयसे देना चाहै परंतु दे नहीं सकै वह दानांतराय कर्म १४४ है । जिसके उदयसे लाभ (फ़ायदा) की इच्छा करै लेकिन लाभ नहीं हो उसे लाभांतराय कर्म १४५ कहते हैं । जिसकर्मके उदयसे पुष्पादिक अन्नादिक भोगरूप वस्तुको भोगना चाहें परंतु भोग न सकै वह भोगान्तराय कर्म १४६ है । जिसके उदयसे स्त्रीवगैरः उपभोग्य वस्तुका उपभोग न करसकै उसे उपभोगांतराय कर्म १४७ कहते हैं । जिसकर्मके उदयसे अपनी शक्ति (बल) प्रगट करना चाहें परंतु शक्ति प्रगट न हो उसे वीर्यान्तराय कर्म १४८ कहते हैं ॥ इसप्रकार १४८ उत्तर प्रकृतियोंका शब्दार्थ कहा ।

अब नामकर्मकी उत्तरप्रकृतियोंमें अभेद विवक्षासे जो प्रकृतियां जिनमें शामिल होसक्ती हैं उनको दिखाते हैं;—

देहे अविणाभावी बंधनसंघाद इदि अवंधुदया ।

वण्णचउक्केऽभिण्णे गहिदे चत्तारि बंधुदये ॥ ३४ ॥

देहे अविनाभाविनौ बन्धनसंघातौ इति अवन्धोदयौ ।

वर्णचतुष्केऽभिन्ने ग्रहीते चतस्रः बन्धोदययोः ॥३४॥

अर्थ—शरीर नामकर्ममें अपना अपना बंधन और संघात ये दोनों अविनाभावी हैं अर्थात् शरीरके विना ये दोनों नहीं होसकते; इसकारण पांच बंधन और पांच संघात ये दश प्रकृतियां बंध तथा उदयस्वरूप नहीं हैं अर्थात् कर्मकी बन्ध और उदय अवस्थामें ये दश प्रकृतियां जुड़ी नहीं गिनीजातीं शरीर-नाम प्रकृतिमें हीं शामिल हो जाती हैं । तथा

वर्ण १ गंध २ रस ३ स्पर्श ४ इन चारमें ही अभेद की विवक्षासे इनके बीस भेद शामिल होजाते हैं इसकारण बन्ध और उदय अवस्थामें चार ही भेद माने हैं ॥ ३४ ॥

ऐसा होनेपर बंध, उदय, तथा सत्तारूप प्रकृतियां कितनी हुईं ? इसका उत्तर आचार्य चार गाथाओंसे कहते हुए प्रथम बंधरूप प्रकृतियां गिनाते हैं;—

पंच णव दोणिण छवीसमवि य चउरो कमेण सत्तट्ठी ।

दोणिण य पंच य भणिया एदाओ बंधपयडीओ ॥ ३५ ॥

पञ्च नव द्वौ षड्विंशतिरपि च चतस्रः क्रमेण सप्तषष्टिः ।

द्वौ च पञ्च च भणिता एता बन्धप्रकृतयः ॥ ३५ ॥

अर्थ—ज्ञानावरणकी पांच, दर्शनावरणकी ९ वेदनीयकी २ मोहनीयकी २६ हैं क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति बन्धमें नहीं है यह पहले भी कह चुके हैं, तथा आयु-कर्मकी ४ और नामकर्मकी ६७ हैं क्योंकि पहले गाथामें १०+१६=२६ प्रकृतियां अभेद विवक्षासे बंध अवस्थामें नहीं हैं ऐसा कह आये हैं सो ९३ में २६ कम करनेसे ९३-२६ =६७ ही बाकी रहजाती हैं, गोत्रकर्मकी २ अंतरायकर्मकी ५ ये सब बंध होने योग्य प्रकृतियां हैं ॥ ३५ ॥

अब उदय प्रकृतियोंको कहते हैं;—

पंच णव दोणिण अट्टावीसं चउरो कमेण सत्तट्ठी ।

दोणिण य पंच य भणिया एदाओ उदयपयडीओ ॥ ३६ ॥

पञ्च नव द्वौ अष्टाविंशतिः चतस्रः क्रमेण सप्तषष्टिः ।

द्वौ च पञ्च च भणिता एता उदयप्रकृतयः ॥ ३६ ॥

अर्थ—पांच, नौ, दो, अट्टाईस, चार, सड़सठ, दो और पांच ये सब उदय प्रकृतियां हैं, मोहनीयकी पहली छवीस प्रकृतियोंमें सम्यग्मिथ्यात्व १ और सम्यक्त्व प्रकृति ये दो भी उदय अवस्थामें शामिल करनेसे अट्टाईस प्रकृतियां होजाती हैं ॥ ३६ ॥

आगे बंधरूप तथा उदयरूप प्रकृतियोंकी भेदविवक्षा और अभेदविवक्षासे संख्या कहते हैं;—

भेदे छादालसयं इदरे वंधे हवंति बीससयं ।

भेदे सव्वे उदये वावीससयं अभेदमिह ॥ ३७ ॥

भेदे षट्त्वारिंशच्छतमितरे वन्धे भवन्ति विंशशतम् ।

भेदे सर्वे उदये द्वाविंशशतमभेदे ॥ ३७ ॥

अर्थ—बन्ध अवस्थामें, भेदविवक्षासे (भेदसे कहनेकी इच्छासे) १४६ प्रकृतियां हैं; क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्व तथा सम्यक्त्व प्रकृति ये दोनों इस बंधअवस्थामें नहीं गिनी जातीं । और अभेदकी विवक्षासे १२० प्रकृतियां कहीं हैं क्योंकि २६ प्रकृतियां दूसरे भेदोंमें शामिल करदी गई हैं । उदय अवस्थामें, भेदविवक्षासे सब १४८ प्रकृतियां हैं; क्योंकि

पूर्वकी दो प्रकृतियां भी यहां शामिल की गई हैं । तथा अभेद विवक्षासे १२२ प्रकृतियां कही हैं क्योंकि २६ भेद दूसरे भेदोंमें गर्भित होजाते हैं यह पहलेही कह चुके हैं ॥ ३७ ॥

आगे सत्तारूप प्रकृतियोंकी संख्या कहते हैं;—

पंच णव दोणिण अट्ठावीसं चउरो कमेण तेणउदी ।

दोणिण य पंच य भणिया एदाओ सत्तपयडीओ ॥ ३८ ॥

पञ्च नव द्वौ अष्टाविंशतिः चत्वारः क्रमेण त्रिनवतिः ।

द्वौ च पञ्च च भणिता एताः सत्त्वप्रकृतयः ॥ ३८ ॥

अर्थ—पांच, नौ, दो, अट्ठाईस, चार, तिरानवै, दो और पांच इसतरह सब १४८ सत्तारूप (मौजूदरहने योग्य) प्रकृतियां कही हैं ॥ ३८ ॥

घातिकर्म जो पहले कहेथे उनके सर्वघाती और देशघातीकी अपेक्षा दो भेद हैं उनदोनोंमें अब सर्वघातीके भेदोंको कहते हैं;—

केवलणाणावरणं दंसणच्छकं कसायवारसयं ।

मिच्छं च सवघादी सम्मामिच्छं अबंधहि ॥ ३९ ॥

केवलज्ञानावरणं दर्शनषट्कं कषायद्वादशकम् ।

सिध्यात्वं च सर्वघातीनि सम्यग्मिध्यात्वमवन्धे ॥ ३९ ॥

अर्थ—केवलज्ञानावरण १ केवलदर्शनावरण और पांचनिद्रा इस प्रकार दर्शनावरणके छःभेद तथा अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ ये बारह कषाय और मिथ्यात्व मोहनीय सब मिलकर २० प्रकृतियां सर्वघाती हैं । तथा सम्यग्मिध्यात्वप्रकृति बन्धरहित अवस्थामें अर्थात् उदय और सत्ता अवस्थामें जुदी ही जातिकी सर्वघाती है ॥ ३९ ॥

अब देशघाती प्रकृतियोंको कहते हैं;—

णाणावरणचउकं तिदंसणं सम्मगं च संजलणं ।

णव नोकसाय विग्घं छवीसा देसघादीओ ॥ ४० ॥

ज्ञानावरणचतुष्कं त्रिदर्शनं सम्यक्त्वं च संज्वलनम् ।

नव नोकपाया विघ्नं पड्विंशतिः देशघातीनि ॥ ४० ॥

अर्थ—ज्ञानावरणके चार भेद (केवलज्ञानावरणको छोड़कर) दर्शनावरणके तीन भेद जो छःभेदोंके सिवाय हैं, सम्यक्त्वप्रकृति, संज्वलन—क्रोधादिचार, हास्यादि नोकषाय नव, और अंतरायके पांच भेद इसतरह छवीस देशघातीकर्म हैं; क्योंकि इनके उदय होनेपर भी जीवका गुण प्रगट रहता है ॥ ४० ॥

इसप्रकार घातीयाकर्मोंके दोभेद कहकर अब अघातिया कर्मोंके प्रशस्त १ तथा अप्रशस्त २ जो दो भेद हैं उनमें प्रशस्तप्रकृतियोंको दो गाथाओंसे कहते हैं;—

सादं तिण्णेवाऊ उच्चं णरसुरदुगं च पंचिंदी ।
 देहा वंधणसंघादंगोवंगाइं वण्णचओ ॥ ४१ ॥
 समचउरवज्जरिसहं उवघादूणगुरुल्लक सग्गमणं ।
 तसवारसट्टसट्ठी वादालमभेददो सत्था ॥ ४२ ॥ जुम्मं ।
 सातं त्रीण्येवायूंषि उच्चं नरसुरद्विकं च पञ्चेन्द्रियम् ।
 देहा बन्धनसंघाताङ्गोपाङ्गानि वर्णचतुष्कम् ॥ ४१ ॥
 समचतुरस्रवज्रर्षभमुपघातोनागुरुषट्कं सद्रमनम् ।
 त्रसद्वादशाष्टषष्टिः द्वाचत्वारिंशद्भेदतः शस्ताः ॥ ४२ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—सातावेदनीय १ तिर्यंच, मनुष्य, देवायु ३ उच्चगोत्र १ मनुष्यगति १ मनुष्य-
 गत्यानुपूर्वी २ देवगति ३ देवगत्यानुपूर्वी ४ पंचेन्द्रीजाति १ शरीर पांच, वंधन ५ संघात
 ५ अंगोपांग तीन, शुभ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श इनचारके २० भेद, समचतुरस्रसंस्थान १
 वज्रर्षभनाराच संहनन १ और उपघातके विना अगुरुलघु आदि छह, प्रशस्तविहायोगति
 १ त्रस आदिक वारह इसप्रकार ६८ प्रकृतियां भेदविवक्षासे प्रशस्त (पुण्यरूप) कहीं हैं ।
 और अभेद विवक्षासे अर्थात् भेदोंके भेद न करनेसे पहली रीतिके अनुसार २६ कम होनेपर
 ४२ ही पुण्य प्रकृतियां हैं ॥ ४१ । ४२ ॥

अब अप्रशस्त कर्मप्रकृतियोंकी संख्या दो गाथाओंसे दिखाते हैं;—

घादी णीचमसादं णिरयाऊ णिरयतिरियदुग जादी-
 संठाणसंहदीणं चटुपणपणगं च वण्णचओ ॥ ४३ ॥
 उवघादमसग्गमणं थावरदसयं च अप्पसत्था हु ।
 वंधुदयं पडि भेदे अडणउदि सयं दुचदुरसीदिदरे ॥ ४४ ॥ जुम्मं ।
 घातीनि नीचमसातं निरयायुः निरयतिर्यग्विकं जाति- ।
 संस्थानसंहतीनां चतुःपञ्चपञ्चकं च वर्णचतुष्कम् ॥ ४३ ॥
 उपघातमसद्रमनं स्थावरदशकं च अप्रशस्ता हि ।
 बन्धोदयं प्रति भेदे अष्टनवतिः शतं द्वि-चतुरशीतिरितरे ॥ ४४ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—चारों घातियाकर्मकी प्रकृतियां, नीचगोत्र, असातावेदनीय, नरकायु, नरकगति,
 नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यंचगति, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रियादिजाति ४ समचतुरस्रको छोड़कर
 पांच संस्थान, पहले संहननके सिवाय पांच संहनन, अशुभ वर्ण रस गंध स्पर्श चार अथवा
 इनके बीस भेद, उपघात; अप्रशस्त विहायोगति, और स्थावर आदिक दस ये जो अप्रशस्त
 (पाप) प्रकृतियां हैं वे भेदविवक्षासे बन्धरूप ९८ हैं, और उदयरूप १०० हैं । तथा

१. वर्णादि चार अथवा भेद करनेसे २० पुण्य तथा पापरूपभी हैं इस कारण दोनों ही भेदोंमें गिने जाते
 हैं इसी कारण १४८ में २० भेद अधिक जोड़नेसे १६८ भेद होजाते हैं ।

अभेदविवक्षासे बन्धयोग्य ८२ हैं; क्योंकि वर्णादिक चारके सोलह भेद कम हो जाते हैं, और उदयरूप ८४ प्रकृतियां हैं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

आगे अनन्तानुबन्धी आदि चार कषायोंका कार्य दिखाते हैं;

पढमादिया कसाया सम्मत्तं देससयलचारित्तं ।

जहखादं घादंति य गुणणामा होंति सेसावि ॥ ४५ ॥

प्रथमादिकाः कषायाः सम्यक्त्वं देशसकलचारित्रम् ।

यथाख्यातं घातयन्ति च गुणणामानो भवन्ति शेपा अपि ॥ ४५ ॥

अर्थ—पहली अनन्तानुबन्धी आदिक चार कषाय अर्थात् अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्या-
नकषाय, प्रत्याख्यानकषाय, और संज्वलनकषाय हैं वे क्रमसे सम्यक्त्वको, देशचारित्रको,
सकलचारित्रको और यथाख्यातचारित्रको घातती हैं अर्थात् सम्यक्त्व वगैरः को प्रगट नहीं
होने देती इसकारण जैसा नाम वैसेही गुणवालीं हैं और इनके सिवाय दूसरी प्रकृतियां हैं
वे भी सार्थक (नामके अनुसार अर्थवालीं) हैं इन सबका शब्दार्थ पहले हो चुका है ॥४५॥

अब इन कषायोंकी वासनाका (संस्कारका) काल कहते हैं;—

अंतोमुहुत्त पक्षं छम्मासं संखऽसंखणंतभवं ।

संजलणमादियाणं वासणकालो दु णियमेण ॥ ४६ ॥

अन्तर्मुहूर्तः पक्षः षण्मासाः संख्यासंख्यानन्तभवाः ।

संज्वलनाद्यानां वासनाकालः तु नियमेन ॥ ४६ ॥

अर्थ—संज्वलन वगैरः अर्थात् संज्वलन, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, अनन्तानुबन्धी
चार कषायोंकी वासनाका काल क्रमसे अंतर्मुहूर्त, पक्ष (पंद्रहदिन), एकमहीना, छः
महीने और संख्यातेभव, असंख्यातेभव तथा अनंतभव है ऐसा निश्चय कर समझना ।
अभिप्राय यह है कि, किसीने क्रोध किया पीछे दूसरे काममें लगगया वहांपर क्रोधका उदय
तो नहीं परंतु जिस पुरुषपर क्रोध किया था उसपर क्षमाभी नहीं की, इसप्रकार जो क्रोधका
संस्कार चित्तमें बैठगया उसी वासनाका काल यहांपर कहागया है ॥ ४६ ॥

आगे ये प्रकृतियां, पुद्गलविपाकी (पुद्गल—शरीरमें जिनका फल हो), भवविपाकी,
क्षेत्रविपाकी, जीवविपाकी इसरीतिसे चार प्रकार हैं उनमेंसे पुद्गलविपाकी प्रकृतियोंकी
संख्या कहते हैं;—

देहादी फासंता पण्णासा णिमिणतावज्जुगलं च ।

थिरसुहपत्तेयदुगं अगुरुतियं पोग्गलविवाई ॥ ४७ ॥

देहादयः स्पर्शान्ताः पञ्चाशत् निर्माणातापयुगलं च ।

स्थिरशुभप्रत्येकद्विकमगुरुत्रयं पुद्गलविपाकिन्यः ॥ ४७ ॥

अर्थ—पांच शरीरोंसे लेकर स्पर्शनामतक ५० तथा निर्माण, आताप, उद्योत, स्थिर

शुभ और प्रत्येकका जोड़ा अर्थात् स्थिर, अस्थिर वगैरः छः तथा अगुरु लघु आदिक तीन ये सब ६२ प्रकृतियां पुद्गलविपाकी हैं अर्थात् इनका फलरूप उदय पुद्गलमें ही होता है ॥४७॥
अब भव-क्षेत्र-जीवविपाकी प्रकृतियोंको कहते हैं;—

आऊणि भवविवाई खेत्तविवाई य आणुपुव्वीओ ।

अट्टत्तरि अवसेसा जीवविवाई सुणेयव्वा ॥ ४८ ॥

आयूंषि भवविपाकीनि क्षेत्रविपाकीनि च आनुपूर्वाणि ।

अष्टसप्ततेरवशिष्टा जीवविपाकिन्यः सन्तव्याः ॥ ४८ ॥

अर्थ—नरकादिक चार आयु भवविपाकी हैं अर्थात् मनुष्यादिपर्यायोंमेंही इन प्रकृतियों फल होता है, चार आनुपूर्वी प्रकृतियां क्षेत्रविपाकी हैं क्योंकि परलोकको गमन करते हुए जीवके मार्गमें इनका उदय होता है, और वाकी जो अठत्तरि प्रकृतियां हैं वे सब जीवविपाकी जानना अर्थात् नारक आदि जीवकी पर्यायमेंही इनका उदय (फल) होता है ॥ ४८ ॥

अब उन्हीं अठत्तरि प्रकृतियोंको गिनाते हैं;—

वेदणियगोद्घादीणेकावण्णं तु णामपयडीणं ।

सत्तावीसं चेदे अट्टत्तरि जीवविवाई (ओ) ॥ ४९ ॥

वेदनीयगोत्रघातिनामेकपञ्चाशत्तु नामप्रकृतीनाम् ।

सप्तविंशतिश्चैता अष्टसप्ततिः जीवविपाकिन्यः ॥ ४९ ॥

अर्थ—वेदनीयकी २ गोत्रकी २ घातियाकर्मोंकी ४७ इसप्रकार ५१ और सत्ताईस नामकर्मकी इसतरह ५१+२७=७८ प्रकृतियां जीवविपाकी हैं ॥ ४९ ॥

आगे नामकर्मकी सत्ताईस प्रकृतियोंकी संख्या दिखाते हैं;—

तित्थयरं उस्सासं वादरपज्जत्तसुस्सरादेज्जं ।

जसत्तसविहायसुभगदु चउगइ पणजाइ सगवीसं ॥ ५० ॥

तीर्थकरमुच्छ्वासं वादरपर्याप्तसुस्सरादेयम् ।

यशस्वसविहायस्सुभगद्वयं चतुर्गतयः पञ्चजातयः सप्तविंशतिः ॥ ५० ॥

अर्थ—तीर्थकर प्रकृति, उच्छ्वास, वादर-पर्याप्त-सुस्वर-आदेय-यशस्कीर्ति-त्रस-विहायो-गति-सुभग इनका जोड़ा अर्थात् वादर-सूक्ष्म आदिक; नरकादि चार गति, एकेन्द्रियादि पांच जाति इसप्रकार सत्ताईस नामकर्मकी प्रकृतियां जीवविपाकी जानना ॥ ५० ॥

अब उन्हीं सत्ताईस प्रकृतियोंको क्रमसे दिखाते हैं;—

गदि जादी उस्सासं विहायगदि तसत्तियाण जुगलं च ।

सुभगादिचउज्जुगलं तित्थयरं चेदि सगवीसं ॥ ५१ ॥

गतिः जातिः उच्छ्वासं विहायोगतिः त्रसत्रयाणां युगलं च ।
सुभगादिचतुर्युगलं तीर्थकरं चेति सप्तविंशतिः ॥ ५१ ॥

अर्थ—चार गति, पांच जाति, उच्छ्वास, विहायोगति, त्रस-त्रादर-पर्याप्त इन तीनका जोड़ा (त्रस, स्थावर वगैरः), सुभग-सुस्वर-आदेय-यशस्कीर्ति इन चारका जोड़ा (सुभग, दुर्भग आदि) और तीर्थकर प्रकृति इस प्रकार क्रमसे सत्ताईसकी गिनती कही ॥ ५१ ॥

अब यहां मध्यम रुचिवाले श्रोताओंको विशेष समझनेकेलिये नामादिक चार निक्षेपोंसे कर्मका स्वरूप चौंतीस गाथाओंसे कहते हैं, क्योंकि विना चार निक्षेपोंके वस्तुका स्वरूप यथार्थ समझमें नहीं आता;—

णामं ठवणा दवियं भावोत्ति चउव्विहं हवे कम्मं ।

पयडी पावं कम्मं मलंति सण्णा हु णाममलं ॥ ५२ ॥

नाम स्थापना द्रव्यं भाव इति चतुर्विधं भवेत् कर्म ।

प्रकृतिः पापं कर्म मलमिति संज्ञा हि नाममलम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—नाम, स्थापना, द्रव्य, भावके भेदसे कर्मभी चार तरहका है। उन चारोंमें नाम-स्वरूप जो संज्ञाकर्म उसकी प्रकृति, पाप, कर्म, मल ये चार संज्ञा हैं अर्थात् कर्मके चार नाम हैं ॥ ५२ ॥

अब इन चार निक्षेपोंका प्रकरणवशसे स्वरूप कहते हैं। क्योंकि इनका स्वरूप जाने-विना वस्तुका किस तरह व्यवहार होता है यह नहीं मालूम होता—जो युक्तिसे सुयुक्त-मार्ग होते हुए कार्यके वशसे नाम, स्थापना, द्रव्य और भावमें पदार्थका व्यवहार करना उसे निक्षेप कहते हैं। वह नामादि चार प्रकार है। जिस वस्तुमें जो गुण नहीं है उसको उस नामसे कहना उसे नामनिक्षेप कहते हैं। जैसे किसीने अपने लड़केका नाम ऋषभ देव तीर्थकर रक्खा परंतु उसमें ऋषभदेवके गुण नहीं हैं ॥ स्थापनानिक्षेप वह है कि साकार तथा निराकार (मनुष्यादि शरीरका आकार न हो किसी शकलका पिंड हो) ऐसे काठ पत्थर चित्राम (मूर्ति) वगैरः में ये वेही ऋषभदेव तीर्थकर हैं इसप्रकार अपने परिणामोंसे स्थापना करनी ॥ इन दोनोंमें इतनाही भेद है कि, नाममें मूलपदार्थकी तरह सत्कार आदिककी प्रवृत्ति नहीं होती और स्थापनामें मूलपदार्थ सरीखा आदर सत्कार किया जाता है ॥

जो पदार्थ आगामी (होनेवाली) पर्यायकी योग्यता रखता हो उसको द्रव्यनिक्षेप

१ “अतद्गुणेषु भावेषु व्यवहारप्रसिद्धये । यत्संज्ञाकर्म तन्नाम नरेच्छावशवर्तनात्” ॥ १ ॥ साकारे वा निराकारे काष्ठादौ यन्निवेशनम् । सोयमित्यवधानेन स्थापना सा निगद्यते ॥ २ ॥ आगामिगुणयोग्योर्धो द्रव्यं न्यासस्य गोचरः । तत्कालपर्यायाक्रान्तं वस्तु भावो निगद्यते ॥ ३ ॥ इसप्रकार चार निक्षेपोंका स्वरूप कहा है ।

कहते हैं। जैसे—राजाके पुत्रको राजा कहना अथवा केवल ज्ञान अवस्थाको प्राप्त होने-वाले ऋषभदेवको गृहस्थादि अवस्थामें तीर्थंकर कहना ॥ वर्तमानपर्याय सहित वस्तुको भावनिक्षेप कहते हैं। जैसे राज्यकार्य करते हुएको राजा कहना ॥ इस तरह चार निक्षे-पोका स्वरूप कहा ॥

आगे स्थापनारूप कर्मको कहते हैं;—

सरिसासरिसे द्रव्ये मदिणा जीवद्वियं खु जं कम्मं ।

तं एदंत्ति पदिट्ठा ठवणा तं ठावणाकम्मं ॥ ५३ ॥

सदृशासदृशे द्रव्ये मतिना जीवस्थितं खलु यत्कर्म ।

तदेतदिति प्रतिष्ठा स्थापना तत्स्थापनाकर्म ॥ ५३ ॥

अर्थ—सदृश अर्थात् कर्मसरीखा अथवा कर्मके समान न हो ऐसे किसी द्रव्यमें अपनी बुद्धिसे ऐसी स्थापना करना कि जो जीवमें कर्म मिले हुए हैं वे येही हैं इसीको स्थापना कर्म कहते हैं ॥ ५३ ॥

आगे द्रव्यनिक्षेपरूप कर्मका स्वरूप दिखाते हैं;—

द्रव्ये कम्मं दुविहं आगमणोआगमंति तप्पढमं ।

कम्मागमपरिजाणुगजीवो उवजोगपरिहीणो ॥ ५४ ॥

द्रव्ये कर्म द्विविधमागमनोआगममिति तत्प्रथमम् ।

कर्मागमपरिज्ञायकजीव उपयोगपरिहीनः ॥ ५४ ॥

अर्थ—द्रव्यनिक्षेपरूप कर्म दो प्रकार है—एक आगमद्रव्यकर्म दूसरा नोआगमद्र-व्यकर्म इन दोनोंमें जो कर्मका स्वरूप कहनेवाले शास्त्रका जाननेवाला परंतु वर्तमानकालमें उस शास्त्रमें उपयोग (ध्यान) नही रखनेवाला जीव है वह पहला—आगमद्रव्य-कर्म है ॥ ५४ ॥

अब दूसरा नोआगमद्रव्यकर्म कहते हैं;—

जाणुगसरीर भवियं तव्वदिरित्तं तु होदि जं विदियं ।

तत्थ सरीरं तिविहं तियकालगयंति दो सुगमा ॥ ५५ ॥

ज्ञायकशरीरं भावि तत्र्यतिरित्तं तु भवति चट्ठितीयम् ।

तत्र शरीरं त्रिविधं त्रयकालगतमिति द्वे सुगमे ॥ ५५ ॥

अर्थ—जो दूसरा नोआगमद्रव्यकर्म है वह 'ज्ञायकशरीर' १ 'भावि' २ 'तद्वच-तिरित्त' ३ के भेदसे तीन प्रकार है। उनमेंसे ज्ञायकशरीर (कर्मस्वरूपके जाननेवाले जीवका शरीर) भूत, वर्तमान, भावी इसतरह तीन कालोंकी अपेक्षा तीन प्रकार है। उन तीनोंमेंसे वर्तमान तथा भावीशरीर इन दोनोंका अर्थ समझनेमें सुगम है ऋटिन नही

क्योंकि वर्तमानशरीरको धारण करताही है और आगामीकालमें भावि शरीरको धारण करैगा ही ॥ ५५ ॥

आगे भूतशरीर (जिसको छोड़कर आया है वह शरीर) के भेद दिखलाते हैं;—

भूदं तु चुदं चइदं चदंति तेधा चुदं सपाकेण ।
पडिदं कदलीघादपरिचागेणूणयं होदि ॥ ५६ ॥
भूतं तु च्युतं च्यावितं त्यक्तमिति त्रेधा च्युतं स्वपाकेन ।
पतितं कदलीघातपरित्यागेनोनं भवति ॥ ५६ ॥

अर्थ—भूतज्ञायकशरीर, च्युत १ च्यावित २ त्यक्त ३ के भेदसे तीन तरहका है । उनमें जो दूसरे किसी कारणके विना आयुके पूर्ण होनेपर नष्ट होजाय वह च्युतशरीर है यह च्युतशरीर कदलीघात (अकालमृत्यु) और संन्यास इन दोनों अवस्थाओंसे रहित है ॥ ५६ ॥ अब कदलीघातमरणका लक्षण कहते हैं;—

विसवेयणरक्तक्खयभयसत्थग्गहणसंकिलेसेहिं ।
उस्सासाहाराणं णिरोहदो छिज्जेदे आऊ ॥ ५७ ॥
विषवेदनारक्तक्षयभयशस्त्रघातसंक्लेशैः ।
उच्छासाहारयोः निरोधतः छिद्यते आयुः ॥ ५७ ॥

अर्थ—विष भक्षणसे अथवा विषवाले जीवोंके काटनेसे; रक्तक्षय अर्थात् लोही जिसमें सूखता जाता है ऐसे रोगसे अथवा लोहीके संबंधसे यहां धातुक्षयभी समझलेना इस कारण धातुक्षयसे, भय करनेवाली वस्तुके दर्शनसे उत्पन्न हुए भयसे, शस्त्रों (तलवार आदि हथियारों) के घातसे, संक्लेश अर्थात् शरीर वचन तथा मनद्वारा आत्माको अधिक पीड़ा पहुंचानेवाली क्रिया करनेसे, श्वासोच्छ्वासके रुकजानेसे और आहार (खाना पीना) नहीं करनेसे इस जीवकी आयु कम होजाती है इन कारणोंसे जो मरण हो अर्थात् शरीर छूटै उसे कदलीघातमरण अथवा अकालमृत्यु कहते हैं ॥ ५७ ॥

आगे च्यावित और त्यक्त-भूतज्ञायकशरीरका लक्षण कहते हैं;—

कदलीघादसभेदं चागविहीणं तु चइदमिदि होदि ।
घादेण अघादेण व पडिदं चागेण चत्तमिदि ॥ ५८ ॥

१ अधिक दौड़नेसे जो अधिक श्वासें चलतीं हैं वहां कायकी क्रिया तथा मनकी कियारूप संक्लेश परिणाम होते हैं । इस कारण अधिक श्वासका चलनाभी अकालमौतका निमित्त कारण है । इस एकही दृष्टांतको देखकर अज्ञानी लोक एकांतसे श्वासके ऊपर ही आयुके कमती बढ़ती होनेका अनुमान कर श्वासके कमती बढ़ती चलनेसे आयु घट बढ़ जाती है ऐसा निश्चय श्रद्धानकर लेते हैं, उनके भ्रम दूर करनेके लिये आठ कारण गिनाये हैं । क्योंकि यदि एकहीके ऊपर विश्वास किया जाय तो शस्त्रके लगनेसे श्वास चलना तो अधिक नहीं मालूम पड़ता वहांपरभी अधिक श्वास चलने चाहिये ॥

कदलीघातसमेतं त्यागविहीनं तु त्यक्तमिति भवति ।

घातेन अघातेन वा पतितं त्यागेन त्यक्तमिति ॥ ५८ ॥

अर्थ—जो ज्ञायकका भूत शरीर कदलीघातसहित नष्ट होगया हो परंतु संन्यासविधिसे रहित हो उसे च्यावितशरीर कहते हैं । और जो कदलीघातसहित अथवा कदलीघातके विना संन्यासरूप परिणामोंसे शरीर छोड़ दिया हो उसे त्यक्त कहते हैं ॥ ५८ ॥

अब त्यक्तशरीर (संन्याससहित शरीर) के चार भेद दिखाते हैं;—

भक्तपङ्गणाङ्गिणिपाउग्गविधीहिं चत्तमिदि तिविहं ।

भक्तपङ्गणा तिविहा जहण्णमज्झिमवरा य तथा ॥ ५९ ॥

भक्तप्रतिज्ञाङ्गिणीप्रायोग्यविधिभिः त्यक्तमिति त्रिविधम् ।

भक्तप्रतिज्ञा त्रिविधा जघन्यमध्यमवरा च तथा ॥ ५९ ॥

अर्थ—त्यक्तशरीर भक्तप्रतिज्ञा १ इंगिनी २ और प्रायोग्यविधिसे ३ तीन प्रकार है । उनमें भक्तप्रतिज्ञा जघन्य १ मध्यम २ तथा उत्कृष्टके ३ भेदसे तीन तरहकी है ॥ ५९ ॥

आगे इन जघन्यआदिभेदोंका काल कहते हैं;—

भक्तपङ्गणाइविही जहण्णमंतोमुहुत्तयं होदि ।

वारसवरिसा जेट्ठा तम्मज्जे होदि मज्झिमया ॥ ६० ॥

भक्तप्रतिज्ञादिविधिः जघन्योऽन्तर्मुहूर्त्तको भवति ।

द्वादशवर्षा ज्येष्ठः तन्मध्ये भवति मध्यमकः ॥ ६० ॥

अर्थ—भक्तप्रतिज्ञा अर्थात् भोजनकी प्रतिज्ञा कर जो संन्यासमरण हो उसके कालका प्रमाण जघन्य (कमसे कम) अन्तर्मुहूर्त्त है । और उत्कृष्ट (ज्यादासे ज्यादा) वारह वर्ष प्रमाण है । तथा मध्यके भेदोंका काल एक २ समय बढ़ता हुआ अंतर्मुहूर्त्तसे लेकर वारह वर्षके बीचके जितने भेद हैं उसीप्रमाण समझना ॥ ६० ॥

अब इंगिनीमरण और प्रायोपगमन (प्रायोग्यविधि) मरणका लक्षण कहते हैं;—

अप्पोवयारवेक्खं परोवयारुणमिङ्गिणीमरणं ।

सपरोवयारहीणं मरणं पाओवगमणमिदि ॥ ६१ ॥

आत्मोपकारापेक्षं परोपकारोन्मिङ्गिणीमरणम् ।

स्वपरोपकारहीनं मरणं प्रायोपगमनमिति ॥ ६१ ॥

अर्थ—अपने शरीरकी टहल आपही अपने अंगोंसे करै किसी दूसरेसे रोगादिका उपचार न करवै ऐसे विधानसे जो संन्यास धारण कर करै उस मरणको इंगिनीमरण संन्यास कहते हैं । और जिसमें अपना तथा दूसरेकाभी उपचार (सेवा) न होवै अर्थात् अपनी टहल न तो आप करै न दूसरेसेही करवै ऐसे संन्यासमरणको प्रायोपगमन कहते हैं ॥ ६१ ॥

आगे जो आगमद्रव्यकर्मका दूसरा भेद भावी है उसे कहते हैं;—

भवियंति भवियकाले कम्मागमजाणगो स जो जीवो ।

जाणुगसरीरभवियं एवं होदित्ति णिद्धिट्ठं ॥ ६२ ॥

भविष्यति भाविकाले कर्मागमज्ञायकः स यो जीवः ।

ज्ञायकशरीरभावि एवं भवतीति निर्दिष्टम् ॥ ६२ ॥

अर्थ—जो कर्मके स्वरूपको कहनेवाले शास्त्रका जाननेवाला आगे होवैगा वह जीव ज्ञायकशरीर भावि है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ ६२ ॥

अब तीसरा भेद जो तद्व्यतिरिक्त है उसे कहते हैं;—

तव्वदिरित्तं दुविहं कम्मं णोकम्ममिदि तर्हिं कम्मं ।

कम्मस्वरूपेणागय कम्मं दव्वं हवे णियमा ॥ ६३ ॥

तद्व्यतिरिक्तं द्विविधं कर्म नोकर्मेति तस्मिन् कर्म ।

कर्मस्वरूपेणागतं कर्म द्रव्यं भवेत् नियमात् ॥ ६३ ॥

अर्थ—तद्व्यतिरिक्त जो आगमद्रव्यकर्म, कर्म १ और नोकर्म २ के भेदसे दो प्रकार है । उनमें ज्ञानावरणादि मूलप्रकृतिरूप अथवा उनके भेद मतिज्ञानावरणादि उत्तरप्रकृतिस्वरूप परिणमता हुआ जो कर्मणवर्णणारूप पुद्गल द्रव्य वह कर्मतद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्य-कर्म नियमसे होता है ऐसा जानना ॥ ६३ ॥

आगे नोकर्मतद्व्यतिरिक्तका स्वरूप और भावनिक्षेपरूपकर्मके भेद दिखाते हैं;—

कम्महव्वादणं दव्वं णोकम्मदव्वमिदि होदि ।

भावे कम्मं दुविहं आगमणोआगमंति हवे ॥ ६४ ॥

कर्मद्रव्यादन्यद्रव्यं नोकर्मद्रव्यमिति भवति ।

भावे कर्म द्विविधमागमनोआगममिति भवेत् ॥ ६४ ॥

अर्थ—कर्मस्वरूप द्रव्यसे भिन्न जो द्रव्य है वह नोकर्म-तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्य-कर्म है । और भावनिक्षेपस्वरूप कर्म आगम १ तथा नोआगमके २ भेदसे दोप्रकार कहा है ॥ ६४ ॥

अब आगमभावनिक्षेपकर्मका स्वरूप कहते हैं;—

कम्मागमपरिजाणगजीवो कम्मागममिह उवजुत्तो ।

भावागमकम्मोत्ति य तस्स य सण्णा हवे णियमा ॥ ६५ ॥

कर्मागमपरिज्ञायकजीवः कर्मागमे उपयुक्तः ।

भावागमकर्मेति च तस्य च संज्ञा भवेन्नियमात् ॥ ६५ ॥

अर्थ—जो जीव कर्मस्वरूपके कहनेवाला आगम (शास्त्र) का जाननेवाला और वर्तमानसमयमें भी उसी शास्त्रका चिन्तवन (विचार) रूप उपयोगसहित हो उस जीवका नाम भावागमकर्म अथवा आगमभावकर्म निश्चयसे कहा जाता है ॥ ६५ ॥

आगे नोआगमभावनिक्षेपकर्मको कहते हैं;—

णोआगमभावो पुण कम्मफलं भुञ्जमाणो जीवो ।
इदि सामणं कम्मं चउव्विहं होदि णियमेण ॥ ६६ ॥

नोआगमभावः पुनः कर्मफलं भुञ्जमानकः जीवः ।

इति सामान्यं कर्म चतुर्विधं भवति नियमेन ॥ ६६ ॥

अर्थ—फिर, कर्मके फलको भोगनेवाला जो जीव वह नोआगम भावकर्म है । इस तरहसे सामान्यकर्म निक्षेपोंकी अपेक्षा चारप्रकार नियमसे जानना ॥ ६६ ॥

आगे कर्मके विशेष भेद जो मूलप्रकृति तथा उत्तरप्रकृतियां हैं उनमें नामादि चार भेद दिखाते हैं;—

मूलुत्तरपयडीणं णामादी एवमेव णवरिं तु ।
सगणामेण य णामं ठवणा दवियं हवे भावो ॥ ६७ ॥

मूलोत्तरप्रकृतीनां नामादय एवमेव नवरि तु ।

स्वकनाम्ना च नाम स्थापना द्रव्यं भवेत् भावः ॥ ६७ ॥

अर्थ—कर्मकी मूलप्रकृति ८ तथा उत्तर प्रकृति १४८ इन दोनोंके जो नामादि चार निक्षेप हैं उनका स्वरूप सामान्यकर्मकी तरह समझना । परंतु इतनी विशेषता है कि, जिस प्रकृतिका जो नामादि हो उसी अपने नाम आदिकी अपेक्षासे नाम १ स्थापना २ द्रव्य ३ तथा भाव ४ निक्षेप होते हैं ऐसा जानना ॥ ६७ ॥

अब कुछ औरभी विशेषता दिखाते हैं;—

मूलुत्तरपयडीणं णामादि चउव्विहं हवे सुगमं ।
वज्जित्ता णोकम्मं णोआगमभावकम्मं च ॥ ६८ ॥

मूलोत्तरप्रकृतीनां नामादि चतुर्विधं भवेत्सुगमम् ।

वर्जयित्वा नोकर्मं नोआगमभावकर्मं च ॥ ६८ ॥

अर्थ—मूलप्रकृति तथा उत्तरप्रकृतियोंके नामादिक चारभेदोंका स्वरूप समझना सरल है, परंतु द्रव्य तथा भावनिक्षेपके भेदोंमेंसे नोकर्म तथा नोआगमभावकर्मका स्वरूप समझना कठिन है ॥ ६८ ॥

अब उन दोनोंको अर्थात् नोकर्म और नोआगमभावकर्मको मूल-उत्तर, दोनों प्रकृतियोंमें पटित करते हुए पहले नोकर्मको मूलप्रकृतियोंमें जोड़ते हैं;—

आगे जो आगमद्रव्यकर्मका दूसरा भेद भावी है उसे कहते हैं;—

भवियंति भवियकाले कम्मागमजाणगो स जो जीवो ।

जाणुगसरीरभवियं एवं होदित्ति णिद्धिट्ठं ॥ ६२ ॥

भविष्यति भाविकाले कर्मागमज्ञायकः स यो जीवः ।

ज्ञायकशरीरभावि एवं भवतीति निर्दिष्टम् ॥ ६२ ॥

अर्थ—जो कर्मके स्वरूपको कहनेवाले शास्त्रका जाननेवाला आगे होवैगा वह जीव ज्ञायकशरीर भावि है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ ६२ ॥

अब तीसरा भेद जो तद्व्यतिरिक्त है उसे कहते हैं;—

तव्वदिरित्तं दुव्विहं कम्मं णोकम्ममिदि तहिं कम्मं ।

कम्मसरूवेणागय कम्मं दव्वं हवे णियमा ॥ ६३ ॥

तद्व्यतिरिक्तं द्विविधं कर्म नोकर्मेति तस्मिन् कर्म ।

कर्मस्वरूपेणागतं कर्म द्रव्यं भवेत् नियमात् ॥ ६३ ॥

अर्थ—तद्व्यतिरिक्त जो आगमद्रव्यकर्म, कर्म १ और नोकर्म २ के भेदसे दो प्रकार है । उनमें ज्ञानावरणादि मूलप्रकृतिरूप अथवा उनके भेद मतिज्ञानावरणादि उत्तरप्रकृतिस्वरूप परिणमता हुआ जो कर्मणवर्गणारूप पुद्गल द्रव्य वह कर्मतद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्य-कर्म नियमसे होता है ऐसा जानना ॥ ६३ ॥

आगे नोकर्मतद्व्यतिरिक्तका स्वरूप और भावनिक्षेपरूपकर्मके भेद दिखाते हैं;—

कम्मद्व्वाद्दणं दव्वं णोकम्मदव्वमिदि होदि ।

भावे कम्मं दुव्विहं आगमणोआगमंति हवे ॥ ६४ ॥

कर्मद्रव्यादन्यद्रव्यं नोकर्मद्रव्यमिति भवति ।

भावे कर्म द्विविधमागमनोआगममिति भवेत् ॥ ६४ ॥

अर्थ—कर्मस्वरूप द्रव्यसे भिन्न जो द्रव्य है वह नोकर्म-तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्य-कर्म है । और भावनिक्षेपस्वरूप कर्म आगम १ तथा नोआगमके २ भेदसे दो प्रकार कहा है ॥ ६४ ॥

अब आगमभावनिक्षेपकर्मका स्वरूप कहते हैं;—

कम्मागमपरिजाणगजीवो कम्मागममिह उवजुत्तो ।

भावागमकम्मोत्ति य तस्स य सण्णा हवे णियमा ॥ ६५ ॥

कर्मागमपरिज्ञायकजीवः कर्मागमे उपयुक्तः ।

भावागमकर्मेति च तस्य च संज्ञा भवेन्नियमात् ॥ ६५ ॥

अर्थ—जो जीव कर्मस्वरूपके कहनेवाला आगम (शास्त्र) का जाननेवाला और वर्तमानसमयमें भी उसी शास्त्रका चिन्तवन (विचार) रूप उपयोगसहित हो उस जीवका नाम भावागमकर्म अथवा आगमभावकर्म निश्चयसे कहा जाता है ॥ ६५ ॥

आगे नोआगमभावनिक्षेपकर्मको कहते हैं;—

नोआगमभावो पुण कम्मफलं भुंजमाणो जीवो ।

इदि सामणं कम्मं चउव्विहं होदि णियमेण ॥ ६६ ॥

नोआगमभावः पुनः कर्मफलं भुञ्जमानकः जीवः ।

इति सामान्यं कर्म चतुर्विधं भवति नियमेन ॥ ६६ ॥

अर्थ—फिर, कर्मके फलको भोगनेवाला जो जीव वह नोआगम भावकर्म है । इस तरहसे सामान्यकर्म निक्षेपोंकी अपेक्षा चारप्रकार नियमसे जानना ॥ ६६ ॥

आगे कर्मके विशेष भेद जो मूलप्रकृति तथा उत्तरप्रकृतियां हैं उनमें नामादि चार भेद दिखाते हैं;—

मूलोत्तरपयडीणं णामादी एवमेव णवरिं तु ।

सगणामेण य णामं ठवणा दवियं हवे भावो ॥ ६७ ॥

मूलोत्तरप्रकृतीनां नामादय एवमेव नवरि तु ।

स्वकनाम्ना च नाम स्थापना द्रव्यं भवेत् भावः ॥ ६७ ॥

अर्थ—कर्मकी मूलप्रकृति ८ तथा उत्तर प्रकृति १४८ इन दोनोंके जो नामादि चार निक्षेप हैं उनका स्वरूप सामान्यकर्मकी तरह समझना । परंतु इतनी विशेषता है कि, जिस प्रकृतिका जो नामादि हो उसी अपने नाम आदिकी अपेक्षासे नाम १ स्थापना २ द्रव्य ३ तथा भाव ४ निक्षेप होते हैं ऐसा जानना ॥ ६७ ॥

अब कुछ औरभी विशेषता दिखाते हैं;—

मूलोत्तरपयडीणं णामादि चउव्विहं हवे सुगमं ।

वज्जित्ता णोकम्मं णोआगमभावकम्मं च ॥ ६८ ॥

मूलोत्तरप्रकृतीनां नामादि चतुर्विधं भवेत्सुगमम् ।

वर्जयित्वा नोकर्म नोआगमभावकर्म च ॥ ६८ ॥

अर्थ—मूलप्रकृति तथा उत्तरप्रकृतियोंके नामादिक चारभेदोंका स्वरूप समझना सरल है, परंतु द्रव्य तथा भावनिक्षेपके भेदोंमेंसे नोकर्म तथा नोआगमभावकर्मका स्वरूप समझना कठिन है ॥ ६८ ॥

अब उन दोनोंको अर्थात् नोकर्म और नोआगमभावकर्मको मूल-उत्तर, दोनों प्रकृतियोंमें घटित करते हुए पहले नोकर्मको मूलप्रकृतियोंमें जोड़ते हैं;—

पडपडिहारसिमज्जा आहारं देह उच्चणीचंगं ।

भंडारी मूलाणं णोकम्मं दवियकम्मं तु ॥ ६९ ॥

पटप्रतीहारासिमघानि आहारं देह उच्चनीचाङ्गम् ।

भाण्डारी मूलानां नोकर्म द्रव्यकर्म तु ॥ ६९ ॥

अर्थ—द्रव्यनिक्षेपकर्मका जो एक भेद 'नोकर्मतद्व्यतिरिक्त' नोआगमभावकर्म है उसीको यहां नोकर्म शब्दसे समझना । और जिस प्रकृतिके फल देनेमें जो निमित्त-कारण हो (सहायता करता हो) वही उस प्रकृतिका नोकर्म जानना इस अभिप्रायको धारण कर कहते हैं।—ज्ञानावरणादि ८ मूलप्रकृतियोंके नोकर्म द्रव्यकर्म क्रमसे, वस्तुके चारोंतरफ़ लगा हुआ कनातका कपड़ा १ द्वारपाल २ शहत लपेटी तलवारकी धार ३ शराव ४ अन्नादि आहार ५ शरीर ६ ऊंचानीचा शरीर ७ भंडारी ८ ये आठ जानना ॥ ६९ ॥ आगे उत्तरप्रकृतियोंके नोकर्म कहते हैं;—

पडविसयपहुदि दव्यं मदिसुदवाघादकरणसंजुत्तं ।

मदिसुदवोहाणं पुण णोकम्मं दवियकम्मं तु ॥ ७० ॥

पटविषयप्रभृति द्रव्यं मतिश्रुतव्याघातकरणसंयुक्तम् ।

मतिश्रुतवोधयोः पुनः नोकर्म द्रव्यकर्म तु ॥ ७० ॥

अर्थ—वस्त्रआदि वस्तुको टंकनेवाले मतिज्ञानावरणके नोकर्म द्रव्यकर्म हैं, और इन्द्रियोंके रूपादिविषय वगैरः श्रुतज्ञान (शास्त्रज्ञान व एक पदार्थसे दूसरे पदार्थका ज्ञान) को नहीं होने देते इसकारण श्रुतज्ञानावरणकर्मके नोकर्म हैं अर्थात् जो विषयोंमें मग्न रहता है उसे शास्त्रके विचार करनेमें रुचि नहीं होती इसलिये (शास्त्रज्ञान अथवा अपने आत्माके स्वरूपका विचार करनेमें बाधा करनेवाले होनेसे) इन्द्रियके विषयोंको नोकर्म कहा है ॥ ७० ॥

अब अवधिज्ञानावरण और मनःपर्ययज्ञानावरणके नोकर्म दिखाते हैं,—

ओहिमणपज्जवाणं पडिघादणिमित्तसंक्किलेसयरं ।

जं वज्झट्टं तं खलु णोकम्मं केवले णत्थि ॥ ७१ ॥

अवधिमनःपर्यययोः प्रतिघातनिमित्तसंक्लेशकरः ।

यः बाह्यार्थः स खलु नोकर्म केवले नास्ति ॥ ७१ ॥

अर्थ—अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान इन दोनोंके घात करनेका निमित्त कारण जो संक्लेशरूप (खेदरूप) परिणाम उसको करनेवाली जो बाह्य वस्तु वह अवधिज्ञानावरण तथा मनःपर्ययज्ञानावरणका नोकर्म है । और केवलज्ञानावरणका नोकर्म द्रव्यकर्म कोई वस्तु नहीं है क्योंकि केवलज्ञान क्षायिक (कर्मोंके क्षयसे प्रगट) है इसलिये उस केवलज्ञानका घात करनेवाले क्लेशरूप परिणामोंको कोईभी वस्तु उत्पन्न नहीं कर सकती ॥७१॥

अब दर्शनावरणके भेदोंके नोकर्म कहते हैं;—

पंचणहं णिहाणं माहिसदहिपहुदि होदि णोकम्मं ।

वाघादकरपडादी चक्खुअचक्खूण णोकम्मं ॥ ७२ ॥

पञ्चानां निद्राणां माहिषदधिप्रभृति भवति नोकर्म ।

व्याघातकरपटादि चक्षुरचक्षुषोः नोकर्म ॥ ७२ ॥

अर्थ—पांच निद्राओंका नोकर्म, भैंसका दही लहसन खलि इत्यादिक निद्राकी अधिकता करनेवाली वस्तुएं हैं । और चक्षु तथा अचक्षुदर्शनके रोकनेवाले वस्त्र वगैरह द्रव्य चक्षुदर्शनावरण और अचक्षुदर्शनावरणकर्मके नोकर्म द्रव्यकर्म हैं ॥ ७२ ॥

ओहीकेवलदंसणणोकम्मं ताण णाणभंगो व ।

सादेदरणोकम्मं इट्ठानिट्ठणपाणादी ॥ ७३ ॥

अवधिकेवलदर्शननोकर्म तयोः ज्ञानभङ्गो वा ।

सातेतरनोकर्म इष्टानिष्टान्नपानादि ॥ ७३ ॥

अर्थ—अवधिदर्शनावरण और केवलदर्शनावरणका नोकर्म अवधिज्ञानावरण तथा केवलज्ञानावरणका जो नोकर्म कहा है वही जानना । और सातावेदनीय तथा असातावेदनीयका नोकर्म अपनेको रुचनेवाली खानेपीने वगैरहकी वस्तु तथा अपनेको नहीं रुचै ऐसी वस्तु क्रमसे जानना ॥ ७३ ॥

अब मोहनीयकर्मके भेदोंके नोकर्म दिखाते हैं,—

आयदणाणायदणं सम्मे मिच्छे य होदि णोकम्मं ।

उभयं सम्मामिच्छे णोकम्मं होदि णियमेण ॥ ७४ ॥

आयतनानायतनं सम्यक्त्वे मिथ्यात्वे च भवति नोकर्म ।

उभयं सम्यग्मिथ्यात्वे नोकर्म भवति नियमेन ॥ ७४ ॥

अर्थ—छह आयतन अर्थात् जिन १ जिनमंदिर २ जिनागम ३ जिनागमके धारण करनेवाले ४ तप ५ तपके धारक ६ ये सम्यक्त्वप्रकृतिके नोकर्म हैं । और ६ अनायतन अर्थात् कुदेव १ कुदेवका मंदिर २ कुशास्त्र ३ कुशास्त्रके धारक ४ खोटी तपस्या ५ खोटीतपस्याके करनेवाले ६ ये मिथ्यात्वप्रकृतिके नोकर्म हैं । तथा आयतन और अनायतन दोनों मिलेहुए सम्यग्मिथ्यात्वदर्शनमोहनीयके नोकर्म हैं । ऐसा निश्चय कर समझना ॥ ७४ ॥

अणणोकम्मं मिच्छन्तायदणादी हु होदि सेसाणं ।

सगसगजोग्गं सत्थं सहायपहुदी हवे णियमा ॥ ७५ ॥

अननोकर्म मिथ्यात्वायतनादि हि भवति शेषाणाम् ।

स्वकस्वकयोग्यं शास्त्रं सहायप्रभृति भवेत् नियमात् ॥ ७५ ॥

अर्थ—अनन्तानुबंधीकषायके नोकर्म मिथ्याआयतन अर्थात् कुदेव वगैरह छह अना-
यतन हैं । और बाकी बची हुई बारह कषायोंके नोकर्म, देशचारित्र—सकलचारित्र तथा
यथाख्यातचारित्रके घातनेवाले काव्य—नाटक—कोकवगैरः शास्त्र और पापी जार (कुशीली)
पुरुषोंकी सहायता इत्यादिक नियमसे होते हैं ॥ ७५ ॥

थीपुंसदशरीरं ताणं णोकम्म दव्वकम्मं तु ।

वेलंक्को सुपुत्तो हस्सरदीणं च णोकम्मं ॥ ७६ ॥

स्त्रीपुंषण्डशरीरं तेषां नोकर्म द्रव्यकर्म तु ।

विडम्बकः सुपुत्रः हास्यरत्योः च नोकर्म ॥ ७६ ॥

अर्थ—स्त्रीवेदका नोकर्म स्त्रीका शरीर, पुरुषवेदका नोकर्म पुरुषका शरीर है और
नपुंसकवेदका नोकर्म द्रव्यकर्म, उन दोनोंका कुछ कुछ चिन्हरूप नपुंसकका शरीर है ।
हास्यकर्मके नोकर्म विदूषक वा बहुरूपिया जो कि हँसी ठट्टा करनेके पात्र हैं वे हैं ।
रतिकर्मका नोकर्म अच्छा गुणवान पुत्र है क्योंकि गुणवान पुत्रपर अधिक प्रीति होती है ॥७६॥

इष्टानिष्टवियोग—जोगं अरदिस्स मुदसुपुत्तादी ।

सोगस्स य सिंहादी णिंदिददव्वं च भयजुगले ॥ ७७ ॥

इष्टानिष्टवियोगयोगः अरतेः मृतसुपुत्रादयः ।

शोकस्य च सिंहादयः निन्दितद्रव्यं च भययुगले ॥७७ ॥

अर्थ—अरतिकर्मका नोकर्मद्रव्य इष्टका (प्रियवस्तुका) वियोग होना और अनिष्ट
अर्थात् अप्रियवस्तुका संयोग (प्राप्ति) है । शोकका नोकर्मद्रव्य सुपुत्र स्त्री वगैरहका
मरना है । और सिंह आदिक भयके करनेवाले पदार्थ भयकर्मके नोकर्म द्रव्य हैं । तथा
निंदित वस्तु जुगुप्साकर्मकी नोकर्मद्रव्य है ॥ ७७ ॥

अब, आयुर्कर्मके भेदोंके तथा नामकर्मके भेदोंके नोकर्म कहते हैं;—

णिरयायुस्स अणिट्टाहारो सेसाणमिष्टमण्णादी ।

गदिणोकम्मं दव्वं चउग्गदीणं हवे खेत्तं ॥ ७८ ॥

निरयायुषः अनिष्टाहारः शेषाणामिष्टमन्नादयः ।

गतिनोकर्म द्रव्यं चतुर्गतीनां भवेत् क्षेत्रम् ॥ ७८ ॥

अर्थ—अनिष्ट आहार अर्थात् नरककी विषरूपमट्टी आदि नरकायुका नोकर्मद्रव्य है । और
वाकी तिर्यचआदि तीन आयुर्कर्मोंका नोकर्म इन्द्रियोंको प्रिय लगे ऐसा अन्न पानी वगैरः है ।
और गतिनामकर्मका नोकर्म द्रव्य चारगतियोंका क्षेत्र (स्थान) है ॥ ७८ ॥

णिरयादीण गदीणं णिरयादी खेत्तयं हवे णियमा ।

जाईए णोकम्मं दव्विंदियपोग्गलं होदि ॥ ७९ ॥

निरयादीनां गतीनां निरयादि क्षेत्रकं भवेत् नियमात् ।

जातेः नोकर्म द्रव्येन्द्रियपुद्गलो भवति ॥ ७९ ॥

अर्थ—नरकादि चार गतियोंका नोकर्मद्रव्य नियमसे नरकादि गतियोंका अपना अपना क्षेत्र है । और जातिकर्मका नोकर्म द्रव्येन्द्रियरूप पुद्गलकी रचना है ॥ ७९ ॥

एइंदियमादीणं सगसगदव्विदियाणि णोकम्मं ।

देहस्स य णोकम्मं देहुदयजदेहखंधाणि ॥ ८० ॥

एकेन्द्रियादीनां स्वकस्वकद्रव्येन्द्रियाणि नोकर्म ।

देहस्य च नोकर्म देहोदयजदेहस्कंधाः ॥ ८० ॥

अर्थ—एकेन्द्रिय आदिक पांच जातियोंके नोकर्म अपनी २ द्रव्येन्द्रियें हैं । और शरीर नामकर्मका नोकर्मद्रव्य अपने २ उदयसे उत्पन्न हुए शरीरके स्कंधरूप पुद्गल जानना ॥ ८० ॥

ओरालियवेगुव्वियआहारयतेजकम्मणोकम्मं ।

ताणुदयजउदेहा कम्मि विस्संचयं णियमा ॥ ८१ ॥

औदारिकवैगूर्विकाहारकतेजःकर्मनोकर्म ।

तेषामुदयजचतुर्देहा कर्मणि विश्रसोपचयो नियमात् ॥ ८१ ॥

अर्थ—औदारिक,—वैक्रियिक—आहारक—तैजस शरीरनामकर्म इनका नोकर्मद्रव्य अपने २ उदयसे प्राप्त हुई शरीरवर्गणा हैं । क्योंकि उन वर्गणाओंसेही शरीर बनता है । और कार्माणका नोकर्मद्रव्य विस्रसोपचयरूप (स्वभावसे कर्म होनेयोग्य उम्मेदवार) परमाणू हैं ॥ ८१ ॥

बंधणपहुदिसमणियसेसाणं देहमेव णोकम्मं ।

णवरि विसेसं जाणे सगखेत्तं आणुपुव्वीणं ॥ ८२ ॥

बन्धनप्रभृतिसमन्वितशेषाणां देहमेव नोकर्म ।

नवरि विशेषं जानीहि स्वकक्षेत्रमानुपूर्वीणाम् ॥ ८२ ॥

अर्थ—शरीरबंधननामकर्मसे लेकर जो पुद्गलविपाकी प्रकृति और पहले कही हुई प्रकृतियोंसे वाकीवचीं जीवविपाकी प्रकृतियां हैं उनका नोकर्म शरीरही है क्योंकि उन प्रकृतियोंसे उत्पन्न हुए सुखादिरूप कार्यका कारण शरीर है । परंतु क्षेत्रविपाकी चार आनुपूर्वी प्रकृतियोंका नोकर्मद्रव्य अपना २ क्षेत्रही है इतनी विशेष बात जाननी ॥ ८२ ॥

थिरजुम्मस्स थिराथिररसरुहिरादीणि सुहजुगस्स सुहं ।

असुहं देहावयवं सरपरिणदपोग्गलाणि सरे ॥ ८३ ॥

स्थिरयुग्मस्य स्थिरास्थिररसरुधिरादयः शुभयुगस्य शुभः ।

अशुभो देहावयवः स्वरपरिणतपुद्गलाः स्वरे ॥ ८३ ॥

अर्थ—स्थिरकर्मका नोकर्म अपने २ ठिकाने स्थिर रस लोही वगैरः हैं, और अस्थिर प्रकृतिके अपने २ ठिकानेसे चलायमान रस लोही आदिक नोकर्म हैं । शुभप्रकृतिके नोकर्मद्रव्य शुभ शरीरके अवयव हैं, तथा अशुभ प्रकृतिके नोकर्मद्रव्य शरीरके अशुभ (देखनेमें सुन्दर न हों) अवयव हैं । स्वर नामकर्मका नोकर्म सुस्वर (अच्छा स्वर) दुःस्वररूप परिणमे पुद्गल परमाणू हैं ॥ ८३ ॥

अब गोत्रकर्म तथा अंतरायकर्मके भेदोंके नोकर्म दिखाते हैं;—

उच्चस्सुच्चं देहं नीचं नीचस्य होदि णोकम्मं ।

दानादिचउक्काणं विघगणगपुरिसपहुदी हु ॥ ८४ ॥

उच्चस्योच्चं देहं नीचं नीचस्य भवति नोकर्म ।

दानादिचतुर्णां विघ्नकनगपुरुषप्रभृतयो हि ॥ ८४ ॥

अर्थ—उच्चगोत्रका नोकर्मद्रव्य लोकपूजितकुलमें उत्पन्न हुआ शरीर है । और नीच गोत्रका नीचकुल (लोकनिन्दित कुल) में प्राप्त हुआ शरीर नोकर्म है । दानादि चारक अर्थात् दान १ लाभ २ भोग ३ उपभोगान्तराय ४ कर्मका नोकर्मद्रव्य दानादिकमें विघ्न करनेवाले पर्वत, नदी, पुरुष, स्त्री वगैरः जानने ॥ ८४ ॥

विरियस्स य णोकम्मं रुक्खाहारादि बलहरं दव्वं ।

इदि उत्तरपयडीणं णोकम्मं दव्वकम्मं तु ॥ ८५ ॥

वीर्यस्य च नोकर्म रुक्खाहारादि बलहरं द्रव्यम् ।

इति उत्तरप्रकृतीनां नोकर्म द्रव्यकर्म तु ॥ ८५ ॥

अर्थ—वीर्यांतराय कर्मका नोकर्म रूखा आहार पान वगैरः बलके नाश करनेवाले पदार्थ हैं । इसप्रकार उत्तरप्रकृतियोंके नोकर्म द्रव्यकर्म कहेगये हैं ॥ ८५ ॥

अब नोआगमभावकर्मको कहते हैं;—

णोआगमभावो पुण सगसगकम्मफलसंजुदो जीवो ।

पोग्गलविवाइयाणं णत्थि खु णोआगमो भावो ॥ ८६ ॥

नोआगमभावः पुनः स्वकस्वककर्मफलसंयुतो जीवः ।

पुद्गलविपाकिनां नास्ति खलु नोआगमो भावः ॥ ८६ ॥

अर्थ—फिर, जिस २ कर्मका जो २ फल है उस अपने अपने फलको भोगता हुआ जो जीव है वह उस २ कर्मका नोआगमभावकर्म जानना । और पुद्गलविपाकी प्रकृतियोंका नोआगमभावकर्म नहीं है क्योंकि जीवविपाकी प्रकृतियोंकी सहायताविना साताजन्य सुखादिककी उत्पत्ति नहीं होती ॥ इसतरह सामान्यकर्मकी मूल उत्तर दोनों प्रकृतियोंके चार निक्षेप कहे ॥ ८६ ॥

इति प्रकृतिसमुत्कीर्तननामा प्रथमोधिकारः ॥ १ ॥

अब बंध-उदय-सत्त्वनामा दूसरे अधिकारको कहनेवाले आचार्य मंगलाचरणपूर्वक कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं;—

णमिऊण णेमिचंदं असहायपरक्कमं महावीरं ।

बंधुदयसत्तजुत्तं ओघादेसे थवं वोच्छं ॥ ८७ ॥

नत्वा नेमिचन्द्रमसहायपराक्रमं महावीरम् ।

बन्धोदयसत्त्वयुक्तमोघादेशे स्तवं वक्ष्यामि ॥ ८७ ॥

अर्थ—मैं नेमिचन्द्र आचार्य, कर्मरूप वैरीके जीतनेमें असहाय (किसी दूसरेकी सहायता नहीं) पराक्रमवाले तथा महावीर अर्थात् वंदनेवालोंको मनवांछित फलके देनेवाले ऐसे नेमिनाथतीर्थकररूपी चंद्रमाको नमस्कारकरके गुणस्थान और मार्गणास्थानोंमें कर्मोंका बंध-उदय-सत्त्वका कहनेवाला जो स्तवरूप ग्रन्थ (जिसमें सर्वांग अर्थका विस्तार हो) है उसे अब कहूंगा ॥ ८७ ॥

अब स्तवका लक्षण कहते हैं;—

सयलंगेकंगेकंगहियार सवित्थरं ससंखेवं ।

वण्णणसत्थं थयथुइधम्मकहा होइ णियमेण ॥ ८८ ॥

सकलाङ्गैकाङ्गैकाङ्गमधिकारं सविस्तरं ससंक्षेपम् ।

वर्णनशास्त्रं स्तवस्तुतिधर्मकथा भवति नियमेन ॥ ८८ ॥

अर्थ—वस्तुके सर्वांगसंबंधी अर्थ विस्तारसहित अथवा संक्षेपतासे जिसमें कहा जावै ऐसे शास्त्रको स्तव कहते हैं । और एक अंग (अंश) का अर्थ विस्तारसे अथवा संक्षेपसे जिसमें हो उस शास्त्रको स्तुति कहते हैं । तथा एक अंगके अधिकारका अर्थ (पदार्थ) विस्तारसे वा संक्षेपसे जिसमें कहाजाय उसे वस्तु कहते हैं । और प्रथमानुयौगादि शास्त्रोंको निश्चयसे धर्मकथा कहते हैं ॥ ८८ ॥

इसलिये (स्तव कहनेसे) यहांपर बंध-उदय-सत्ताका सब तरहसे विस्तारपूर्वक कथन किया जाइगा ॥

आगे कर्मकी बंधआदि तीन अवस्थाओंमेंसे पहले बंध अवस्थाको कहते हैं,—

पयडिड्ढिदिअणुभागप्पदेसबंधोत्ति चदुविहो बंधो ।

उक्कस्समणुक्कस्सं जहण्णमजहण्णगंत्ति पुधं ॥ ८९ ॥

प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबन्ध इति चतुर्विधो बन्धः ।

उत्कृष्टोनुत्कृष्टः जघन्योऽजघन्यक इति पृथक् ॥ ८९ ॥

अर्थ—प्रकृतिबंध १ स्थितिवंध २ अनुभागबंध ३ प्रदेशबंध ४ इसतरह बंधके चार भेद हैं । और फिर हरएक बंधके उत्कृष्ट १ अनुत्कृष्ट २ जघन्य ३ और अजघन्य ४ इसतरह चार भेद हैं ॥ ८९ ॥

अब चार तरहके बंधोंका स्वरूप कहते हैं—प्रकृति अर्थात् स्वभावरूप बंध जैसे नीमका स्वभाव कड़ुआपना इसीतरह ज्ञानावरण कर्मकी प्रकृति (स्वभाव) ज्ञानको ढंकना (रोकना) इत्यादिक कर्मोंके स्वभावका आत्माके साथ संबंध होकर प्रगट होना प्रकृतिबंध है । और आत्माके साथ कर्मोंके रहनेकी मर्यादा (मियाद) को स्थितिबंध कहते हैं । कर्मोंके फल देनेकी शक्तिकी हीनता वा अधिकताको अनुभागबंध कहते हैं । बंधनेवाले कर्मोंकी संख्याको प्रदेशबंध कहते हैं ॥

आगे उत्कृष्टादिकेभी भेद कहते हैं;—

सादिअणादी ध्रुव अद्भुवो य बंधो दु जेट्टमादीसु ।

णाणेगं जीवं पडि ओघादेसे जहाजोगं ॥ ९० ॥

साद्यनादी ध्रुवः अध्रुवश्च बन्धस्तु ज्येष्ठादिषु ।

नानैकं जीवं प्रति ओघादेशे यथायोग्यम् ॥ ९० ॥

अर्थ—उत्कृष्ट आदिक भेदोंकेभी सादि (कभी २ बंध) १ अनादिबंध (अनादि-कालसे बंधका अभाव न हुआ हो) २ ध्रुवबंध ३ अर्थात् निरंतर बंध हुआ करै । अध्रुव-बंध ४ अर्थात् अंतर सहित बंध इसप्रकार चार भेद हैं । और यह बंध नानाजीवोंकी अपेक्षा अथवा एक जीवकी अपेक्षासे गुणस्थान और मार्गणास्थानोंमें यथासंभव जानना ॥ ९० ॥

ठिदिअणुभागपदेसा गुणपडिवण्णेषु जेसिमुक्कस्सा ।

तेसिमणुक्कस्सो चउव्विहोऽजहण्णेवि एमेव ॥ ९१ ॥

स्थित्यनुभागप्रदेशा गुणप्रतिपन्नेषु येपामुत्कृष्टाः ।

तेपामनुत्कृष्टः चतुर्विध अजघन्येपि एवमेव ॥ ९१ ॥

अर्थ—गुणप्रतिपन्न अर्थात् मिथ्यादृष्टि सासादनादिक ऊपर ऊपरके गुणस्थानवर्ती जीवोंमें जिन कर्मोंका स्थिति-अनुभाग-प्रदेशबंध उत्कृष्ट है उन्हीं कर्मोंका अनुत्कृष्ट स्थिति, अनुभाग, प्रदेशबंध है । वह सादिवंधादिके भेदसे चार तरहका है । इसीतरह अजघन्यभी चार प्रकारहै अर्थात् जिन कर्मोंका स्थिति-अनुभाग-प्रदेशबंध ऊपर २ के गुणस्थानोंमें जघन्य पाया जाता है उन्हीं कर्मोंका अजघन्यबंध चार प्रकारका होता है ॥ ९१ ॥

इनका लक्षण आगे कहेंगे कुछ थोड़ासा यहांपरभी दिखादेते हैं—जैसे उपशमश्रेणी चढनेवाला जीव सूक्ष्मसांपराय (दसवां) गुणस्थानवर्ती हुआ वहांपर उत्कृष्ट ऊंच-गोत्रका अनुभाग बंध कर पीछे उपशांतकपाय (ग्यारवां) गुणस्थान वर्ती हुआ । फिर वहांसे उतरके सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें आया, वहां पर अनुत्कृष्ट ऊंचगोत्रका अनुभागबंध किया उस जगह इस अनुत्कृष्ट उच्चगोत्रके अनुभागको सादि बंध कहते हैं क्योंकि पहले इस बंधका अभाव था फिर उत्पत्ति (सद्भाव) हुई । और सूक्ष्म-सांपरायसे नीचे रहनेवाले जीवोंके वह बंध अनादि है । अभव्यजीवोंके वह बंध ध्रुव है ।

तथा उपशमश्रेणीवालेके अनुत्कृष्ट बंधको छोड़कर जो उत्कृष्ट बंध होता है वह अध्रुवबन्ध है। इसप्रकार अनुत्कृष्ट उच्चगोत्रके अनुभागबंधमें चार भेद दिखलाये ॥ अब अजघन्यके चार भेद कहते हैं—जैसे कोई मिथ्यादृष्टि जीव सातवें नरककी पृथ्वीमें प्रथमोपशम-सम्यक्त्वके सन्मुख हुआ। वहां पर मिथ्यादृष्टि (पहला) गुणस्थानके अंतसमयमें जघन्य नीचगोत्रका अनुभागबंध किया। फिर सम्यग्दृष्टि हुआ उसके बाद फिर मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्यादृष्टि हुआ वहां अजघन्य नीचगोत्रके अनुभागको बांधता है। उस जगह इस अजघन्य नीचगोत्रके अनुभागबंधको सादि कहना। फिर उसी मिथ्यादृष्टि जीवके उस अंतके समयसे पहले जो बंध है वह अनादि है, अभव्य जीवके वह बंध ध्रुव है, और जहां अजघन्यको छोड़ जघन्यको प्राप्त हुआ वहांपर वह बंध अध्रुव है। इसतरह अजघन्य नीचगोत्रके अनुभागबंधमें सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुव चार भेद कहे ॥ इसीप्रकार जहां जैसा संभव हो वैसा अन्य बंधोंमें भी सादिवगैरः चार भेद समझलेना। प्रकृतिबंधमें उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट-अजघन्य-जघन्य ये भेद नहीं हैं, तीनमेंही हैं ॥

आगे गुणस्थानोंमें प्रकृतिबंधका नियम कहते हैं;—

सम्मेव तित्थबंधो आहारदुगं प्रमादरहितेषु ।

मिस्सूणे आउस्स य मिच्छादिसु सेसबंधो दु ॥ ९२ ॥

सम्यक्त्वे एव तीर्थबन्ध आहारद्विकं प्रमादरहितेषु ।

मिश्रोने आयुषश्च मिथ्यात्वादिषु शेषबन्धस्तु ॥ ९२ ॥

अर्थ—असंयतसे लेकर अपूर्वकरणके (८ वैके) छठे भागतक सम्यग्दृष्टिकेही तीर्थकर प्रकृतिका बंध होता है। अप्रमत्त (सातवें) गुणस्थानसे अपूर्वकरणके छठे भागतक आहारकशरीर और आहारक आज्ञोपांग प्रकृतियोंका बंध होता है। और मिश्र गुणस्थान तथा निर्वृत्यपर्याप्तअवस्थाको प्राप्त मिश्रकाययोग इन दोनोंके सिवाय मिथ्यादृष्टिसे लेकर अप्रमत्तगुणस्थानतकही आयुर्कर्मका बंध होता है। तथा वाकीवर्ची प्रकृतियोंका बंध मिथ्यादृष्टि वगैरः गुणस्थानोंमें अपनी २ बंधकी व्युच्छित्तितक होता है ॥ ९२ ॥

अब तीर्थकरप्रकृतिके बंधका विशेष नियम दिखाते हैं;—

पढसुवसमिये सम्मे सेसतिये अविरदादिचत्तारि ।

तित्थयरबंधपारंभया णरा केवल्लिदुगंते ॥ ९३ ॥

१ व्युच्छित्ति नाम विछुड़नेका है—जैसे दो मनुष्य एक नगरमें रहतेथे, उनमेंसे एक पुरुष दूसरी जगह गया, वहांपर किसीने पूछा कि तुम कहां विछुड़े थे तब उसने कहा कि, मैं अमुक नगरमें विछुड़ा था अर्थात् उससे जुदा हुआ था। इस जगह जहां संयोग हुआ वहीं विछुड़ना (जुदा होना) भी हुआ। इसीतरह अपने २ गुणस्थानके अंतसमयमें कर्मोंका बंधसे विछुड़ना अर्थात् फिर आगेको बंध नहीं होना सब जगह समझ लेना।

प्रथमोपशमे सम्यक्त्वे शेषत्रये अविरतादिचत्वारः ।

तीर्थकरबन्धप्रारम्भका नराः केवलद्विकान्ते ॥ ९३ ॥

अर्थ—प्रथमोपशमसम्यक्त्वमें अथवा बाकीकी द्वितीयोपशमसम्यक्त्व-क्षायोपशमसम्यक्त्व और क्षायिकसम्यक्त्वअवस्थामें असंयतसे लेकर अप्रमत्तगुणस्थानतक चार गुणस्थानोंवाले मनुष्यही, केवली (हितोपदेशी सर्वज्ञ) तथा श्रुतकेवली (द्वादशाङ्गके पारगामी) के निकट तीर्थकरप्रकृतिके बंधका आरंभ करते हैं ॥ ९३ ॥

आगे चौदहगुणस्थानोंमें कर्मप्रकृतियोंकी बंधकी व्युच्छिति (आगेको बंधका नहीं होना) की संख्या कहते हैं,—

सोलस पणवीस णमं दस चउ छक्केक बंधवोच्छिण्णा ।

दुग तीस चदुरपुव्वे पण सोलस जोगिणो एक्को ॥ ९४ ॥

षोडश पञ्चविंशतिः नभः दश चतस्रः षडेकैकं बन्धव्युच्छिन्नाः ।

द्विके त्रिंशत् चतस्रः अपूर्वे पञ्च षोडश योगिनः एका ॥ ९४ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि नामवाले पहले गुणस्थानके अन्तसमयमें सोलह प्रकृतियां बंध होनेसे व्युच्छिन्न होती हैं (विछुड़ जाती हैं) अर्थात् पहले गुणस्थानतकही उनका बंध होता है, पहलेसे आगेके गुणस्थानोंमें बंध नहीं होता । इसीप्रकार दूसरे गुणस्थानमें २५ प्रकृतियोंकी व्युच्छिति होती है । तीसरेमें शून्य अर्थात् किसी प्रकृतिकी व्युच्छिति नहीं होती, चौथेमें दशकी पांचवेंमें चारकी, छठेमें छहकी, सातवेंमें एक प्रकृतिकी व्युच्छिति होती है । आठवें अपूर्वकरणगुणस्थानके सातभागोंमेंसे पहले भागमें दोकी तथा दूसरे भागसे पांचवें भागतक शून्य, छठे भागमें तीसकी, सातवें भागमें चार प्रकृतियोंकी बंधसे व्युच्छिति होती है । नवमेमें पांचकी, दसवेंमें सोलहकी, ग्यारवें बारवें गुणस्थानमें शून्य, तेरवें सयोगकेवली गुणस्थानमें एक प्रकृतिकी बंधव्युच्छिति होती है । चौदवें गुणस्थानमें बंधभी नहीं और व्युच्छिति भी नहीं होती, क्योंकि बंधका कारण योगका अभाव है ॥ ९४ ॥

अब उन व्युच्छिन्न प्रकृतियोंके नाम गुणस्थानके क्रमसे आठ गाथाओं द्वारा दिखाते-हुए पहलेगुणस्थानकी सोलहप्रकृतियोंको कहते हैं;—

मिच्छत्तहुंडसंढाऽसंपत्तेयक्खथावरादावं ।

सुहुमतियं वियलिंदी णिरयदुणिरयाउगं मिच्छे ॥ ९५ ॥

मिथ्यात्वहुण्डपण्डासंप्राप्तैकाक्षस्थावरातपः ।

सूक्ष्मत्रयं विकलेन्द्रियं निरयद्विनिरयायुक्कं मिथ्यात्वे ॥ ९५ ॥

अर्थ—मिथ्यात्व १ हुण्डकसंस्थान २ नपुंसकवेद ३ असंप्राप्तासृपाटिका संहनन ४ एकेन्द्रिय ५ स्वावर नाम ६ आतप ७ सूक्ष्मादि तीन (सूक्ष्म ८ अपर्याप्त ९ साधारण

१०) विकलेन्द्री तीन अर्थात् दो इन्द्री ११ ते इन्द्री १२ चौ इन्द्री १३, नरकगति १४ नरकगत्यानुपूर्वी १५ नरकायु १६ ये सोलह प्रकृतियां मिथ्यात्वगुणस्थानके अंतसमयमें बंधसे व्युच्छिन्न होजाती हैं अर्थात् मिथ्यात्वसे आगेके गुणस्थानोंमें इनका बंध नहीं होता ॥ ९५ ॥

आगे दूसरे गुणस्थानके अंतमें प्रकृतियोंकी व्युच्छित्तिकी संख्या दिखाते हैं;—

विदियगुणे अणथीणतिदुभगतिसंठाणसंहदिचउकं ।

दुग्गमणित्थीणीचं तिरियदुग्ज्जोवतिरियाऊ ॥ ९६ ॥

द्वितीयगुणे अन-स्त्यानत्रयदुर्भगत्रयसंस्थानसंहतिचतुष्कम् ।

दुर्गमनस्त्रीनीचं तिर्यग्द्विकोद्योततिर्यगायुः ॥ ९६ ॥

अर्थ—दूसरे सासादनगुणस्थानके अंतसमयमें अनंतानुबंधी क्रोधादिचार, स्त्यानगृ-द्धि १ निद्रानिद्रा १ प्रचलाप्रचला १ ये तीन, दुर्भग १ दुःस्वर १ अनादेय १ ये तीन न्यग्रोधादि चार संस्थान, वज्रनाराचादि चार संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, स्त्रीवेद, नीच-गोत्र, तिर्यग्गति १ तिर्यग्गत्यानुपूर्वी २ ये दो, उद्योत, और तिर्यंचायु' इन पच्चीस प्रकृतियोंक-व्युच्छित्ति होती है ॥ ९६ ॥ मिश्रगुणस्थानमें किसी प्रकृतिकी व्युच्छित्ति नहीं होती ।

अब चौथे और पांचवें गुणस्थानमें संख्या कहते हैं;—

अयदे विदियकसाया वज्जं ओरालमणुदुमणुवाऊ ।

देसे तदियकसाया णियमेणिह वंधवोच्छिण्णा ॥ ९७ ॥

अयते द्वितीयकषाया वज्रमोरालमनुष्यद्विमानवायुः ।

देशे तृतीयकषाया नियमेनेह बन्धव्युच्छिन्नाः ॥ ९७ ॥

अर्थ—चौथे असंयतगुणस्थानमें दूसरी अपत्याख्यानावरणक्रोधादि चार कषाय, वज्री र्षभनाराचसंहनन, औदारिक शरीर, औदारिक आंगोपांग, मनुष्यगति १ मनुष्यागत्यानुपूर्वी २ ये दो, मनुष्यायु, ये दसप्रकृतियां बंधसे व्युच्छिन्न होती हैं। और पांचवें देशत्रतगुणस्था-नमें तीसरी प्रत्याख्यानावरणी क्रोधादि चार कषायें बंधसे व्युच्छिन्न नियमसे होती हैं ॥ ९७ ॥

अब छठे और सातवें गुणस्थानमें व्युच्छित्तिकी संख्या कहते हैं;—

छट्ठे अथिरं असुहं असादमजसं च अरदिसोगं च ।

अपमत्ते देवाऊणिदुवणं चैव अत्थित्ति ॥ ९८ ॥

पष्ठे अस्थिरमशुभमसात्तमयशश्च अरतिशोकं च ।

अप्रमत्ते देवायुर्निष्ठापनं चैव अस्तीति ॥ ९८ ॥

अर्थ—छठे गुणस्थानके अंतिमसमयमें अस्थिर, अशुभ, असातावेदनीय, अयशस्कीर्ति

अरति और शोक इन छह प्रकृतियोंका बंधसे विछुड़ना होता है । और सातवें अप्रमत्त-
गुणस्थानमें एक देवायुप्रकृतिकी व्युच्छित्ति होती है ॥ ९८ ॥

आगे आठवें अपूर्वकरणगुणस्थानके सात भागोंमेंसे पहले, छठे, सातवें भागमेंही बंधकी
व्युच्छित्तिकी संख्या दिखाते हैं;—

मरणूणम्हि णियट्ठीपढमे णिद्दा तहेव प्रयला य ।

छट्ठे भागे तित्थं णिमिणं सग्गमणपंचिंदी ॥ ९९ ॥

तेजदुहारदुसमचउसुरवण्णगुरुगचउकतसणवयं ।

चरमे हस्सं च रदी भयं जुगुच्छा य बंधवोच्छिण्णा ॥ १०० ॥ जुम्मं ।

मरणोने निवृत्तिप्रथमे निद्रा तथैव प्रचला चं ।

पष्ठे भागे तीर्थं निर्माणं सद्दमनपञ्चेन्द्रियम् ॥ ९९ ॥

तेजोद्विकाहारद्विसमचतुरस्रसुरवर्णागुरुकचतुष्कत्रसनवकम् ।

चरमे हास्यं च रतिः भयं जुगुप्सा च बन्धव्युच्छिन्ना ॥ १०० ॥ युग्मम् ।

अर्थ—निवृत्ति अर्थात् आठवें अपूर्वकरणके मरणअवस्थारहित प्रथमभागमें निद्रा
और प्रचला इन दो प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति होती है । और छठे भागके अंतसमयमें तीर्थ-
करप्रकृति, निर्माण, प्रशस्तविहायोगति, पंचेद्रीजाति, तैजस १ कार्माण २ ये दो, आहा-
रकशरीर १ आहारक आंगोपांग २, समचतुरस्रसंस्थान, देवगति १ देवगत्यानुपूर्वी २
वैक्रियिकशरीर ३ वैक्रियिक आंगोपांग ४ ये चार, वर्णादि चार, अगुरुलघु १ उपघात
२ परघात ३ उच्छ्वास ४ ये चार और त्रसादि नौ' इन तीस प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति
होती है । और अंतके सातवें भागमें हास्य, रति, भय और जुगुप्सा ये चार प्रकृतियां
बंधसे विछुड़ती हैं ॥ ९९ ॥ १०० ॥

अब नवमें तथा दसवें गुणस्थानके अंतसमयमें बंधव्युच्छित्तिकी संख्या कहते हैं;—

पुरिसं चदुसंजलणं कमेण अणियट्ठिपंचभागेसु ।

पढमं विग्घं दंसणचउजसउच्चं च सुहुमंते ॥ १०१ ॥

पुरुषः चतुस्संज्वलनः क्रमेण अनिवृत्तिपञ्चभागेषु ।

प्रथमं विघ्नः दर्शनचतुर्यशउच्चं च सूक्ष्मान्ते ॥ १०१ ॥

१ जो श्रेणी चढ़नेके सम्मुख नहीं हुआ ऐसे स्वस्थान अप्रमत्तके अंतसमयमें व्युच्छित्ति होती है, दूसरे
सातिशय अप्रमत्तके बंधही नहीं होता तो व्युच्छित्तिभी नहीं । २ कर्मोंके पाठक्रमसे गिन लेना इसीतरह
दूसरी जगहभी गिनती करलेना ॥ ३ इस गाथामें “अन्ते” ऐसा शब्द कहा है वह अंतमें रक्खे हुए
दीपककी तरह समझना ॥ जैसे—अंतिमस्थानमें रक्खा हुआ दीपक भीतरकी जगहमेंभी प्रकाश करता है
वैसे “अन्ते” शब्दभी सब व्युच्छित्तियोंको अंतसमयमें होना जाहिर करता है ।

अर्थ—नववें अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके पांच भागोंमें क्रमसे पहले भागमें पुरुषवे-
दकी व्युच्छित्ति, वाकीके चार भागोंमें संज्वलन क्रोधादि चार कषायोंकी व्युच्छित्ति जानना ।
और दसवें सूक्ष्मसांपराय (कषाय=लोभकषायवाले) गुणस्थानके अंतसमयमें पहला
ज्ञानावरण अर्थात् मतिज्ञानावरणादि पांच, अंतरायके भेद पांच, चक्षुदर्शनावरणादि चार,
यशस्कीर्ति, और उच्च गोत्र इसप्रकार १६ प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति होती है ॥ १०१ ॥

अब तेरवें गुणस्थानके अंतमें बंधव्युच्छिन्न प्रकृतिको दिखाते हैं;—

उवसंतखीणमोहे जोगिग्भिह य समयियद्विदी सादं ।

णायव्वो पयडीणं बंधस्संतो अणंतो य ॥ १०२ ॥

उपशान्तक्षीणमोहे योगिनि च समयिकस्थितिः सातम् ।

ज्ञातव्यः प्रकृतीनां बन्धस्यान्त अनन्तश्च ॥ १०२ ॥

अर्थ—उपशांतमोह नामके ग्यारवें गुणस्थानमें, बारवें क्षीणमोह गुणस्थानमें और
तेरवें सयोगकेवली गुणस्थानमें एक समयकी स्थितिवाला एक सातावेदनीय प्रकृतिका ही
बंध होता है, इसकारण तेरवें गुणस्थानके अंतसमयमें सातावेदनीय प्रकृतिकी ही व्युच्छित्ति
होती है । ‘और चौदवेंमें बंधका कारण योगका अभाव होनेसे बंधभी नहीं तथा व्युच्छि-
त्तिभी नहीं होती’ इसप्रकार प्रकृतियोंके बंधका अन्त अर्थात् व्युच्छित्ति जानना । तथा
बंधका अनंत अर्थात् बंध और “च” शब्दसे अबंधभी जानना ॥ १०२ ॥

आगे बंध और अबंधका स्वरूप दो गाथाओंसे कहते हुए बंधकी संख्या कहते हैं;—

सत्तरसेकग्गसयं चउसत्तत्तरि सगट्टि तेवट्टी ॥

बंधा णवट्टवण्णा दुवीस सत्तारसेकोधे ॥ १०३ ॥

सप्तदशैकाग्रशतं चतुः—सप्तसप्ततिः सप्तषष्टिः त्रिषष्टिः ।

बन्धा नवाष्टपञ्चाशत् द्वाविंशतिः सप्तदश एकौधे ॥ १०३ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदिक गुणस्थानोंमें क्रमसे एकसौ सत्रह, एकसौ एक, ७४,
७०, ६७, ६३, ५९, ५८, २२, १७, १, १, १, इसप्रकार प्रकृतियोंका बंध तेरह
गुणस्थानतक होता है, चौदवेंमें बंध नहीं होता । यहांपर ऐसा समझना कि बंधयोग्य
प्रकृतियां पहले १२० कहीं हैं उनमें “सम्मेव तिस्थ” इस ९२ वें गाथाके अनुसार मिथ्या-
दृष्टिमें तीन प्रकृतियोंका बंध न होनेसे १२०-३=११७ बाकी रहीं । द्वितीयादि गुण-
स्थानोंमें भी व्युच्छित्तिप्रकृतियोंको घटानेसे बंधकी संख्या इस गाथाके अनुसार निकल
आती है ॥ १०३ ॥

१ जैसे पहले गुणस्थानकी व्युच्छित्ति प्रकृतियां १६ हैं और ३ प्रकृतियां अबंध हैं तो १६+३=१९
प्रकृतियां दूसरे गुणस्थानमें अबंधरूप हुईं, अर्थात् १९ का बंध नहीं होता है, इसीतरह और गुणस्थानोंमें
भी लगालेना ।

अब अबंधप्रकृतियोंको गुणस्थानोंमें क्रमसे दिखाते हैं;—

तिय उणवीसं छत्तियतालं तेवणण सत्तवण्णं च ।

इगिदुगसट्ठी विरहिय सय तियउणवीससहिय वीससयं ॥ १०४ ॥

त्रयमेकोनविंशतिः षट्त्रिकचत्वारिंशत् त्रिपञ्चाशत् सप्तपञ्चाशच्च ।

एकद्वाषष्टिः द्विरहितं शतं त्र्येकोनविंशतिसहितं विंशतिशतम् ॥ १०४ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदिक चौदह गुणस्थानोंमें क्रमसे तीन, १९, ४६, ४३, ५३, ५७, ६१, ६२, दोरहित सौ अर्थात् ९८, तीनसहित सौ अर्थात् १०३, ११९ तीन जगह, और १२० प्रकृतियोंका अबंध है अर्थात् इन ऊपर लिखित प्रकृतियोंका बंध नहीं होता अर्थात् पहले—गुणस्थानमें तीर्थंकर १ आहारक शरीर २ आहारक आंगोपाङ्ग ३ इन तीनका बंध पहलें ९२ वें गाथामें कहे हुए नियमसे नहीं होता, और द्वितीयादि गुणस्थानोंमें व्युच्छित्ति प्रकृतियोंको पहली अबंध प्रकृतियोंमें जोड़नेसे ऊपर लिखी हुई संख्या निकल आती है ॥ १०४ ॥

आगे चौदह मार्गणाओंमें पहले कहे गये बंधव्युच्छित्ति, बंध, अबंध इन तीनोंका वर्णन करते हुए पहले नरकगतिमें तीन गाथाओंसे तीनोंको कहते हैं;—

ओधे वा आदेसे णारयमिच्छमिह चारि वोच्छिण्णा ।

उवरिस वारस सुरचउ सुराउ आहारयमबंधा ॥ १०५ ॥

ओधे इव आदेशे नारकमिथ्यात्वे चतस्रो व्युच्छिन्नाः ।

उपरितना द्वादश सुरचतुष्कं सुरायुराहारकमबन्धाः ॥ १०५ ॥

अर्थ—मार्गणाओंमें व्युच्छित्ति वगैरः तीन अवस्था गुणस्थानके समान जानना । परन्तु विशेष यह है कि नरकगतिमें मिथ्यात्वगुणस्थानके अन्तमें मिथ्यात्वादि चार प्रकृतियोंकी ही व्युच्छित्ति होती है । और सोलहमेंसे आदिकी चार प्रकृतियों के विना एकेन्द्री आदि बारह, देवगति १ देवगत्यानुपूर्वी २ वैक्रियिकशरीर ३ वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग ४ ये चार, देवायु, आहारकशरीर १ आहारक आंगोपाङ्ग २, ये सब उन्नीस प्रकृतियां अबंध हैं, अर्थात् नरकगतिके मिथ्यात्वगुणस्थानमें १९ प्रकृतियोंका बंध नहीं होता, इसकारण बंधयोग्य १२० प्रकृतियोंमेंसे बाकी बचीं १०१ प्रकृतियोंका बंध होता है ॥ १०५ ॥

अब नरकगतिमें घर्मादिनरकोंकी अपेक्षा कुछ भेद दिखाते हैं;—

घम्ममे तित्थं बंधदि वंसामेघाण पुण्णगो चेव ।

छट्ठोत्ति य मणुवाऊ चरिमे मिच्छेव तिरियाऊ ॥ १०६ ॥

१ मार्गणाओंके नाम तथा स्वरूप इसके पूर्वार्ध जीवकाण्डमेंसे समझलेना । २ प्रकृतियोंकी संख्याका क्रम पहले लिखागया है उसके अनुसार १२ प्रकृतियां गिन लेना, ऐसेही सर्व जगह पहले लिखा हुआ क्रम याद रखना चाहिये ।

धर्मे तीर्थं बध्नाति वंशामेघयोः पूर्णकश्चैव ।

षष्ठ इति च मानवायुः चरमे मिथ्यात्वे एव तिर्यगायुः ॥ १०६ ॥

अर्थ—धर्मा नामके पहले नरककी पृथिवीमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्थाओंमें तीर्थकर प्रकृतिका बंध होता है । और वंशानाम दूसरे तथा मेघानाम तीसरे नरकमें पर्याप्त-जीव ही तीर्थकर प्रकृतिको बांधता है । मघवीनाम छठे नरकतकही मनुष्यायुका बंध होता है । और अंतके माघवी नाम सातवें नरकमें मिथ्यात्वगुणस्थानमेंही तिर्यच आयुका बंध होता है ॥ १०६ ॥

मिस्साविरदे उच्चं मणुवदुगं सत्तमे हवे बंधो ।

मिच्छा सासणसम्मा मणुवदुगुच्चं ण बंधति ॥ १०७ ॥

मिश्राविरते उच्चं मनुष्यद्वयं सप्तमे भवेत् बन्धः ।

मिथ्यात्विनः सासादनसम्यत्तवा मनुष्यद्विकोच्चं न बध्नन्ति ॥ १०७ ॥

अर्थ—सातवें नरकमें मिश्रगुणस्थान और अविरतनामके चौथे गुणस्थानमें ही उच्चगोत्र, मनुष्यगति १ मनुष्यगत्यानुपूर्वी २, इनतीन प्रकृतियोंका बंध है । और मिथ्यात्वगुणस्थानवाले तथा सासादनसम्यत्तवी दूसरे गुणस्थानवाले जीव उच्च और मनुष्यद्विक जो तीन प्रकृतियां ऊपर भी कह आये हैं इन तीनोंको नहीं बांधते ॥ १०७ ॥

अव तिर्यचगतिमें व्युच्छित्ति वगैरः कहते हैं;—

तिरिये ओघो तित्थाहारूणो अविरदे छिदी चउरो ।

उवरिमळणहं च छिदी सासणसम्मे हवे णियमा ॥ १०८ ॥

तिरश्चि ओघः तीर्थाहारो न अविरते छित्तिः चत्वारः ।

उपरिमषणां च छित्तिः सासादनसम्यत्तवे भवेन्नियमात् ॥ १०८ ॥

अर्थ—तिर्यचगतिमें व्युच्छित्ति वगैरः गुणस्थानोंकी तरह समझना । परंतु इतनी विशेषता है कि तीर्थकर और आहारक शरीर १ आहारक आंगोपांग २, इनतीनोंका बंध नहीं होता इसकारण बंध योग्य ११७ प्रकृतियां हैं । और चौथे अविरतगुणस्थानमें अप्रत्याख्यान क्रोधादि ४ की व्युच्छित्ति है, तथा दूसरे सासादनसम्यत्तवगुणस्थानमें चारसे आगेकी वज्रर्षभनाराच आदि ६ प्रकृतियां जो दसमेंसे बची हैं उनकी व्युच्छित्ति नियमसे होती है ॥ १०८ ॥

सामणतिरियपंचिंदियपुण्णगजोणिणीसु एमेव ।

सुरणिरयाउ अपुण्णे वेगुव्वियल्लक्कमवि णत्थि ॥ १०९ ॥

सामान्यतिर्यकरूपञ्चेन्द्रियपूर्णकयोनिनीपु एवमेव ।

सुरनिरयायुरपूर्णं वैगूर्विकपट्टमपि नास्ति ॥ १०९ ॥

अर्थ—पांचतरहके तिर्यचोंमें सबभेदोंका समुदायरूप सामान्यतिर्यच, पंचेंद्रीतिर्यच,

पर्याप्ततिर्यच, स्त्रीवेदरूप तिर्यच, इन चार तरहके तिर्यचोंमें ऊपर लिखित रीतिसे व्युच्छि-
त्ति आदिक समझना । तथा पांचवें लब्धअपर्याप्तक तिर्यचमें देवायु, नरकायु, और
देवगति १ देवगत्यानुपूर्वी २ नरकगति ३ नरकगत्यानुपूर्वी ४ वैक्रियिकशरीर ५ वैक्रियि-
क आंगोपांग ६ ये वैक्रियिकषट्क, इसप्रकार आठ प्रकृतियोंका अबंध है अर्थात् बंध नहीं
होता ॥ १०९ ॥

आगे मनुष्यगतिमें व्युच्छित्ति आदिकको दिखाते हैं;—

तिरियेव णरे णवरि हु तित्थाहारं च अत्थि एमेव ।

सामण्णपुण्णमणुसिणिणेर अपुण्णे अपुण्णेव ॥ ११० ॥

तिर्यगिव नरे नवरि हि तीर्थाहारं चास्ति एवमेव ।

सामान्यपूर्णमनुष्यिणीनरे अपूर्णे अपूर्णे इव ॥ ११० ॥

अर्थ—मनुष्यगतिमें व्युच्छित्ति वगैरः की रचना तिर्यचगतिकी तरह जानना । विशेष-
ता इतनी है कि तीर्थकर, आहारकद्विक इन तीनकाभी बंध होता है, इसकारण बंध योग्य
१२० प्रकृतियां हैं । और सामान्य (सब भेदोंका समुदायरूप) मनुष्य, पर्याप्तमनुष्य,
स्त्रीवेदरूपमनुष्यिणी मनुष्य इनतीनोंकी व्युच्छित्ति आदिकी रचना मनुष्यगतिकीसी है ।
तथा लब्धपर्याप्तकी रचना तिर्यचलब्धपर्याप्तकी तरह समझना ॥ ११० ॥

अब देवगतिमें व्युच्छित्ति वगैरः को कहते हैं;—

णिरयेव होदि देवे आईसाणोत्ति सत्त वाम छिदी ।

सोलस चैव अबंधा भवणतिण्णत्थि तित्थयरं ॥ १११ ॥

निरय इव भवति देवे आईशान इति सप्त वामे छित्तिः ।

षोडश चैव अबन्धाः भवनत्रये नास्ति तीर्थकरम् ॥ १११ ॥

अर्थ—देवगतिमें व्युच्छित्ति आदिक नरकगतिके समान जानना, परंतु इतना विशेष
है कि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें दूसरे ईशानस्वर्गतक पहलेगुणस्थानकी १६ प्रकृतियोंमेंसे
मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति होती है । और बाकी बची हुई सूक्ष्मादि नौ
तथा देवगति १ देवगत्यानुपूर्वी २ वैक्रियिक शरीर ३ वैक्रियिक आंगोपांग ४ ये सुरच-
तुष्क, देवायु, आहारक शरीर, और आहारक आंगोपांग, ये सात सब ९+७ मिलाकर
१६ प्रकृतियां अबंधरूप हैं अर्थात् इन सोलहका बंध नहीं होता, इसकारण बंध योग्य
१०४ प्रकृतियां हैं । तथा भवनत्रिकदेवोंमें (भवनवासीदेव १ व्यंतर २ ज्योतिषीदेवोंमें ३)
तीर्थकर प्रकृति नहीं है अर्थात् तीर्थकर प्रकृतिका बंध नहीं होता ॥ १११ ॥

कप्पित्थीसु ण तित्थं सदरसहस्सारगोत्ति तिरियदुगं ।

तिरियाऊ उज्जोवो अत्थि तदो णत्थि सदरचऊ ॥ ११२ ॥

कल्पस्त्रीषु न तीर्थं शतारसहस्रारक इति तिर्यगिद्विकम् ।

तिर्यगायुरुद्योतः अस्ति ततः नास्ति शतारचतुष्कम् ॥ ११२ ॥

अर्थ—कल्पवासिनी स्त्रियोंमें तीर्थकर प्रकृतिका बंध नहीं होता । और तिर्यचगति १ तिर्यचगत्यानुपूर्वी २ ये दो, तिर्यचायु, तथा उद्योत ये चार प्रकृतियोंका बंध ग्यारवें, बारवें शतार, सहस्रार नामके स्वर्गतकही होता है । इसके अर्थात् सहस्रारके ऊपर आनतादि स्वर्गोंमें रहनेवालोंके इन चार प्रकृतियोंका बंध नहीं होता । इन चार प्रकृतियोंका दूसरा नाम 'शतारचतुष्क' भी है क्योंकि शतार युगलतक ही इनका बंध होता है ॥ ११२ ॥

अब इन्द्रियमार्गणामें बंधव्युच्छित्ति आदिकको कहते हैं;—

पुण्णिदरं विगिगिगले तत्थुप्पण्णो हु सासणो देहे ।

पज्जति णवि पावदि इदि णरतिरियाउगं णत्थि ॥ ११३ ॥

पूर्णेतरमिवैकविकले तत्रोत्पन्नो हि सासादनो देहे ।

पर्याप्तिं नापि प्राप्नोति इति नरतिर्यगायुष्कं नास्ति ॥ ११३ ॥

अर्थ—एकेन्द्रिय तथा विकलत्रय अर्थात् दो इंद्री, ते इंद्री, चौ इंद्रीमें लब्धिअपर्याप्तक अवस्थाकी तरह बंध योग्य १०९ प्रकृतियां समझना; क्योंकि तीर्थकर, आहारकद्रय, देवायु, नरकायु, और वैक्रियिक षट् इसतरह ग्यारह प्रकृतियोंका बंध नहीं होता । और एकेन्द्रिय तथा विकलत्रयमें उत्पन्न हुआ जीव सासादन गुणस्थानमें देह (शरीर) पर्याप्तिको नहीं पूरा करसकता है, क्योंकि सासादनका काल थोड़ा और निर्वृति अपर्याप्त अवस्थाका काल बहुत है । इसकारण इस गुणस्थानमें मनुष्यायु तथा तिर्यचायुका भी बंध नहीं होता है ॥ ११३ ॥

अब पंचेन्द्रियमें तथा पृथ्वीकाय वगैरः पांच भेदोंमें दिखाते हैं;—

पंचेदियेसु ओघं एयक्खे वा वणप्फदीयंते ।

मणुवदुगं मणुवाऊ उच्चं ण हि तेउवाउम्हि ॥ ११४ ॥

पञ्चेन्द्रियेषु ओघः एकाक्ष इव वनस्पत्यन्ते ।

मनुष्यद्वयं मनुष्यायुरुच्चं न हि तेजोवायौ ॥ ११४ ॥

अर्थ—पंचेद्री जीवोंके व्युच्छित्ति आदिक गुणस्थानकी तरह समझना, कुछ विशेषता नहीं है । और कायमार्गणामें पृथ्वीकायादि वनस्पतिकायपर्यंतमें एकेन्द्रियकी तरह व्युच्छित्ति आदिक जानना । विशेष यह है कि तेजकाय तथा वायुकायमें मनुष्यगति १ मनुष्यगत्यानुपूर्वी २, मनुष्यायु और उच्चगोत्र इन चार प्रकृतियोंका भी बंध नहीं होता है । गुणस्थान एक मिथ्यादृष्टि ही है ॥ ११४ ॥

आगे एक गुणस्थान होनेके कारणको तथा योगमार्गणामें व्युच्छित्ति आदिकको कहते हैं;—

ण हि सासणो अपुण्णे साहारणसुहुमगे य तेउदुगे ।

ओघं तस मणवयणे ओराले मणुवगइभंगो ॥ ११५ ॥

न हि सासादन अपूर्णे साधारणसूक्ष्मके च तेजोद्वये ।

ओघः त्रसे मनोवचने औराले मनुष्यगतिभङ्गः ॥ ११५ ॥

अर्थ—लब्धि अपर्याप्तक अवस्थामें, साधारण शरीरसहित जीवोंमें, सब सूक्ष्मकायवा-
लोंमें, और तेजोकाय १ वायुकायवालोंके २ सासादननामा दूसरा गुणस्थान नहीं होता ।
इसका कारण कालका थोड़ा होना पहले कहचुके हैं, इसलिये तेजकाय तथा वायुकाय-
वालोंके एक मिथ्यादृष्टि ही गुणस्थान कहा है । और त्रसकायकी रचना गुणस्थानोंकी
तरह समझनी । योगमार्गणामें मनोयोग तथा वचनयोगकी रचना गुणस्थानोंकी तरह
जाननी और औदारिक काययोगमें मनुष्यगतिकी तरह रचना जानना ॥ ११५ ॥

ओराले वा मिस्से ण हि सुरणिरयाउहारणिरयदुगं ।

मिच्छदुगे देवचओ तित्थं ण हि अविरदे अत्थि ॥ ११६ ॥

ओराल इव मिश्रे न हि सुरनिरयायुराहारनिरयद्वयम् ।

मिथ्यात्वद्वये देवचतुष्कं तीर्थं न हि अविरते अस्ति ॥ ११६ ॥

अर्थ—औदारिकमिश्रकाययोगमें औदारिककाययोगवत् रचना जानना । विशेष
बात यह है कि देवायु, नरकायु, आहारकशरीर १ आहारक आंगोपांग २, नरकगति १
नरकगत्यानुपूर्वी २, इन छह प्रकृतियोंका बंध नहीं होता अर्थात् ११४ का बंध होता है ।
उसमें भी मिथ्यात्व तथा सासादन इन दो गुणस्थानोंमें देवचतुष्क और तीर्थकर इन ५
प्रकृतियोंका बंध नहीं होता । अविरतनामा चौथे गुणस्थानमें तो इनका अवश्य बंध
होता है ॥ ११६ ॥

पणारसमुनतीसं मिच्छदुगे अविरदे छिदी चउरो ।

उवरिमपणसट्ठीवि य एकं सादं सजोगिम्हिं ॥ ११७ ॥

पञ्चदशैकोनत्रिंशत् मिथ्यात्वद्विके अविरते छित्तयः चतस्रः ।

उपरिमपञ्चषष्टिरपि च एकं सातं सयोगिनि ॥ ११७ ॥

अर्थ—औदारिकमिश्रकाययोगमें मिथ्यात्व और सासादन इन दो गुणस्थानोंमें १५
तथा २९ प्रकृतियोंकी बंध व्युच्छित्ति क्रमसे जानना । और चौथे अविरत गुणस्थानमें
ऊपरकी चार तथा ६५ दूसरीं सब ६९ प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति होती है । तथा तेरवें
सयोगीकेवलीके एक सातवेदनीयकी ही व्युच्छित्ति जानना ॥ ११७ ॥

देवे वा वेगुब्बे मिस्से णरतिरिथआउगं णत्थि ।

छट्टगुणं वाहारे तम्मिस्से णत्थि देवाऊ ॥ ११८ ॥

देव इव वैगूर्वे मिश्रे नरतिर्यगायुष्कं नास्ति ।

षष्टगुणमिवाहारे तन्मिश्रे नास्ति देवायुः ॥ ११८ ॥

अर्थ—वैक्रियिक काययोगमें देवगतिके समान जानना । और वैक्रियिकमिश्रकाय-

योगमें सौधर्म—ऐशान संबंधी अपर्याप्त देवोंके समान कही है । परंतु इस मिश्रमें मनुष्यायु और तिर्यंचायुका बंध नहीं होता । और आहारक काययोगमें छठे गुणस्थानकी रचनाके समान जानना । लेकिन आहारकमिश्रयोगमें देवायुका बंध नहीं होता है ॥ ११८ ॥

कम्मे उरालमिस्सं वा णाउदुगंपि णव छिदी अयदे ।

वेदादाहारोत्ति य सगुणट्टाणाणमोघं तु ॥ ११९ ॥

कर्मणि औरालिकमिश्रं वा नायुद्धिकमपि नव छित्तिरयते ।

वेदादाहार इति च स्वगुणस्थानानामोघस्तु ॥ ११९ ॥

अर्थ—कार्माणकाययोगीकी रचना औदारिकमिश्रकी तरह जानना । परंतु विग्रहगतिमें आयुका बंध न होनेसे मनुष्यायु तथा तिर्यंचायु इन दोनोंका भी बंध नहीं है । चौथे असंयत गुणस्थानमें नौ प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति होती है । और वेदमार्गणासे लेकर आहार मार्गणातक अपने २ गुणस्थानोंमें साधारण कथन है वैसा जानना ॥ ११९ ॥

अब सम्यक्त्वमार्गणा तथा लेश्यामार्गणाकी रचनामेंसे शुभ लेश्याओंमें और आहारमार्गणमें कुछ विशेषता दो गाथाओंसे दिखाते हैं;—

णवरि य सव्वुवसम्मे णरसुरआऊणि णत्थि णियमेण ।

मिच्छस्संतिम णवयं वारं ण हि तेउपम्मेसु ॥ १२० ॥

सुके सदरचउकं वामंतिमवारसं च ण व अत्थि ।

कम्मेव अणाहारे बंधस्संतो अणंतो य ॥ १२१ ॥ जुम्मं ।

नवरि च सर्वोपशमे नरसुरायुषी नास्ति नियमेन ।

मिथ्यात्वस्यान्तिमं नवकं द्वादश न हि तेजःपद्मयोः ॥ १२० ॥

शुक्लायां शतारचतुष्कं वामान्तिमद्वादश च न वा अस्ति ।

कम्म इव अनाहारे बन्धस्यान्त अनन्तश्च ॥ १२१ ॥ युग्मम् ॥

अर्थ—विशेषता यह है कि सम्यक्त्वमार्गणमें सब ही अर्थात् दोनों ही उपशमसम्यक्त्वो जीवोंके मनुष्यायु और देवायुका बंध नहीं है यह निश्चयकर जानना । और लेश्यामार्गणमें तेजोलेश्यावालेके मिथ्यात्व गुणस्थानकी अंतकी नौ तथा पद्मलेश्यावालेके मिथ्यात्वगुणस्थानकी अंतकी वारह प्रकृतियोंका बंध नियमसे नहीं होता । शुक्ललेश्यावालेके शतारचतुष्क “ तिर्यंचगति वगैरः जो ११२ वेंमें कह चुके हैं ” और वाम अर्थात् मिथ्यादृष्टि गुणस्थानकी वारह, सब मिलकर १६ प्रकृतियोंका बंध नहीं होता है । और आहारमार्गणमें अनाहारक अवस्थामें कार्माण योगकीसी बंधव्युच्छित्ति आदिक तीनकी रचना समझ लेना ॥ इसप्रकार बंधकी व्युच्छित्ति, बंध और “ च ” शब्दसे अबंध इन तीनोंका स्वरूप जानना ॥ १२० ॥ १२१ ॥

१ बंधव्युच्छित्ति आदि तीनोंका खुलासा बंधादिके नकशामें लिखाजायगा यहांपर ग्रन्थके बटुजानकें भयसे नहीं लिखा ।

आगे मूलप्रकृतियोंके सादि वगैरः बंधके भेदोंको विशेषपनेसे कहते हैं;—

सादि अणादी ध्रुव अद्भुवो य बंधो दु कम्मच्छकस्स ।
तदियो सादियसेसो अणादिध्रुवसेसगो आऊ ॥ १२२ ॥

सादिरनादिः ध्रुव अध्रुवश्च बंधस्तु कर्मपट्टस्य ।

तृतीयः सादिकशेष अनादिध्रुवशेषक आयुः ॥ १२२ ॥

अर्थ—छह कर्मोंका प्रकृतिबंध सादि १ अनादि २ ध्रुव ३ अध्रुव ४ रूप चारों प्रकारका होता है । परंतु तीसरे वेदनीय कर्मका सादिबंधसे बाकी जो तीन बंध उन तीनस्वरूपही बंध होता है सादि बंध नहीं होता । और आयुर्कर्मका अनादि, ध्रुव बंधके सिवाय अर्थात् सादि और अध्रुव दो प्रकारकाही बंध होता है ॥ १२२ ॥

आगे इन बंधोंका स्वरूप कहते हैं;—

सादी अबंधबंधे सेट्ठिअणारूढगे अणादी हु ।
अभव्वसिद्धमिह ध्रुवो भवसिद्धे अद्भुवो बंधो ॥ १२३ ॥

सादिः अबन्धबन्धे श्रेण्यनारोहके अनादिर्ह ।

अभव्यसिद्धे ध्रुवो भवसिद्धे अध्रुवो बन्धः ॥ १२३ ॥

अर्थ—जिसकर्मके बंधका अभाव होकर फिर वही कर्म बँधै उसे सादिवंध कहते हैं । जैसे किसी जीवके दसवें गुणस्थानतक ज्ञानावरणकी पांच प्रकृतियोंका बंध था, जब वह जीव ग्यारवेंमें गया तब बंधका अभाव हुआ, पीछे ग्यारवें गुणस्थानसे पड़कर फिर दसवेंमें आया तब ज्ञानावरणादि पांच प्रकृतियोंका पुनः बंध हुआ, ऐसा बंध सादि कहलाता है । और जो गुणस्थानोंकी श्रेणीपर ऊपरको नहीं चढ़ा अर्थात् बंधका अभाव नहीं हुआ वह अनादिवंध है । जैसे ज्ञानावरणका बंध दसवेंतक है सो दसवें गुणस्थानवाला ग्यारवेंमें जबतक प्राप्त नहीं हुआ वहांपर अनादि बंध है, क्योंकि अनादिकालसे बंध चला आता है । जिस बंधका आदि तथा अंत न हो वह ध्रुवबंध है—यह बंध अभव्यजीवके होता है । जिस बंधका अंत आजावै उसे अध्रुवबंध कहते हैं । यह अध्रुवबंध भव्यजीवोंके होता है ॥ १२३ ॥

आगे उत्तर प्रकृतियोंमें इन चार बंधोंकी विशेषता दिखाते हैं;—

घादितिमिच्छकसाया भयतेजगुरुदुगणिमिणवण्णचओ ।

सत्तेत्तालधुवाणं चदुधा सेसाणयं तु दुधा ॥ १२४ ॥

घातित्रिमिथ्यात्वकषाया भयतेजोऽगुरुद्विकनिर्माणवर्णचतुष्कम् ।

सप्तचत्वारिंशद्भुवाणां चतुर्धा शेषाणां तु द्विधा ॥ १२४ ॥

अर्थ—मोहनीयके विना तीन घातियाकर्मोंकी १९ प्रकृतियां, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भयका जोड़ा अर्थात् भय १ जुगुप्सा २, तैजस १ कार्माण २, अगुरुलघु १ उपघात,

निर्माण, वर्णादि चार ये ४७ प्रकृतियां भ्रुव हैं । इनका चारों प्रकार बंध होता है । (जब तक इनके बंधकी व्युच्छित्ति (विछुड़ना) न हो तबतक इन प्रकृतियोंका समय २ प्रति-बंध निरंतर होता है इसकारण इनकी भ्रुव कहते हैं) और इनके विना जो वाकी वचीं वेदनीयकी २ मोहनीयकी ७ आयुकी ४ और नामकर्मकी गति आदिक ५८ गोत्र कर्मकी २ ये ७३ प्रकृतियां अभ्रुव हैं । इनके सादि और अभ्रुव दोही बंध होते हैं । इनका किसी समय बंध होता है, किसी समय किसीका बंध नहीं भी होता ॥ १२४ ॥

आगे इन प्रकृतियोंके अप्रतिपक्षी १ सप्रतिपक्षी २ (विरोधी) ये दो भेद कहते हैं;—

सेसे तित्थाहारं परघादचउक्क सव्वआऊणि ।

अप्पडिवक्खा सेसा सप्पडिवक्खा हु वासट्ठी ॥ १२५ ॥

शेषासु तीर्थाहारं परघातचतुष्कं सर्वायूषि ।

अप्रतिपक्षा शेषाः सप्रतिपक्षा हि द्वाषष्टिः ॥ १२५ ॥

अर्थ—पहले कहींहुई ४७ भ्रुवप्रकृतियोंसे वाँकी वची हुई ७३ प्रकृतियोंमेंसे तीर्थकर, आहारकशरीरद्वय अर्थात् आहारकशरीर आहारक आंगोपांग, परघात आदि चार और सब (चारों) आयु, ये ग्यारह प्रकृतियां अप्रतिपक्षी हैं अर्थात् इनकी कोई प्रकृति विरोधी नहीं है । जिस समयमें इनका बंध होता है उस समय अपना २ बंध होता है । यदि न होवै तो नहीं हो । जैसे तीर्थकर प्रकृतिका बंध जिस समय होना चाहे उससमय तीर्थकर प्रकृतिका बंध होता है न होना चाहे तब नहीं होता । इस प्रकृतीकी कोई विरोधी नहीं जोकि रोक लेवै । और ७३ मेंसे ११ घट जानेसे वाकी रहीं ६२ प्रकृतियां हैं उनमें आपसमें विरोधीपना होनेसे वे सप्रतिपक्षी कही जाती हैं । जैसे कि सातावेदनीय, असातावेदनीय ये दोनों आपसमें प्रतिपक्षी हैं सो जिससमय साताका बंध होता है उससमय असाताका नहीं होता । इसीतरह रति अरति आदि परस्पर विरोधी प्रकृतियोंमें भी सप्रतिपक्षीपना समझ लेना ॥ १२५ ॥

आगे अभ्रुव प्रकृतियोंका पहले सादि तथा अभ्रुव ये दो प्रकारका ही बंध कहा उसका कारण युक्तिपूर्वक कहते हैं;—

अवरो भिण्णमुहुत्तो तित्थाहाराण सव्वआऊणं ।

समओ छावट्ठीणं बंधो तम्हा दुधा सेसा ॥ १२६ ॥

अवरो भिन्नमुहूर्तः तीर्थाहाराणां सर्वायुषाम् ।

समयः पट्पटीनां बन्धः तस्मात् द्विधा शेषाः ॥ १२६ ॥

अर्थ—तीर्थकर, आहारकद्वय, नरकादि चार आयु इन सातोंके निरंतर बंध होनेका जघन्यकाल अंतर्मुहूर्त है । और शेष छ्यासठि प्रकृतियोंके निरंतर बंध होनेका काल एक

समय (क्षण) है अर्थात् जिसका किसीएक समयमें बंध हुआ फिर दूसरे समयमें उस प्रकृतिका बंध होवै नहीं भी होवै। इसकारण ध्रुवसे वाकी रहीं १३ अध्रुव प्रकृतियोंके साथ बंध तथा अध्रुव बंध दोही भेद कहेगये हैं यह सिद्ध हुआ ॥ १२६ ॥ इसप्रकार प्रकृति बंध समाप्त हुआ ॥

आगे स्थितिवंधको कहते हुए आचार्य प्रथम ही मूलप्रकृतियोंकी उत्कृष्टस्थिति कहते हैं;—

तीसं कोडाकोडी तिघादितदियेसु वीस णामदुगे ।

सत्तरि मोहे सुद्धं उवही आउस्स तेतीसं ॥ १२७ ॥

त्रिंशत् कोटीकोट्यः त्रिघातिवृत्तीयेषु विंशतिर्नामद्वये ।

सप्ततिर्मोहे शुद्ध उदधिः आयुषः त्रयस्त्रिंशत् ॥ १२७ ॥

अर्थ—तीन घातियाओंकी अर्थात् ज्ञानावरण १ दर्शनावरण २ अंतरायकी औ तीसरे वेदनीयकर्मकी बंध होनेकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागरके प्रमाण है नाम और गोत्र इन दोनोंका समय वीस कोड़ाकोड़ी सागर है । मोहनीयकर्मकी बंधरूप रहनेकी स्थिति (कालकी मर्यादा) सत्तरि कोड़ाकोड़ी सागर है । और आयुर्कर्मकी स्थिति तेतीस सागर ही की जानना अर्थात् अधिकसे अधिक ऊपर लिखे हुए कालतक कर्म आत्मासे बंधरूप रहते हैं । फिर अपना फल देकर पुराने खिरजाते हैं नवीन बंधरूप ही रहते हैं ॥ १२७ ॥

अब उत्तरप्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिको ६ गाथाओंसे दिखाते हैं;—

दुक्खतिघादीणोधं सादिच्छीमणुदुगे तदद्धं तु ।

सत्तरि दंसणमोहे चरित्तमोहे य चत्तालं ॥ १२८ ॥

संठाणसंहदीणं चरिमस्सोधं दुहीणमादित्ति ।

अट्टरसकोडकोडी वियलाणं सुहुमतिण्हं च ॥ १२९ ॥

अरदीसोगे संढे तिरिक्खभयणिरयतेजुरालदुगे ।

वेगुव्वादावदुगे णीचे तसवण्णअगुरुत्ति चउक्के ॥ १३० ॥

इगिपंचेंदियथावरणिभिणासग्गंमणअथिरल्लक्काणं ।

वीसं कोडाकोडीसागर णामाणमुक्कस्सं ॥ १३१ ॥

हस्सरदिउच्चपुरिसे थिरल्लक्के सत्थगमणदेवदुगे ।

तस्सद्धमंतकोडाकोडी आहारतित्थयरे ॥ १३२ ॥

सुरणिरयाऊणोधं णरंतिरियाऊण तिण्णिण पल्लाणि ।

उक्कस्सट्ठिदिवंधो सण्णीपज्जत्तगे जोगे ॥ १३३ ॥ कुलयं ।

दुःखत्रिघातिनामोघः सातस्त्रीमनुष्यद्विके तदर्धं तु ।
 सप्ततिः दर्शनमोहे चारित्रमोहे च चत्वारिंशत् ॥ १२८ ॥
 संस्थानसंहतीनां चरमस्योघः द्विहीनमादीति ।
 अष्टादशकोटीकोटिः विकलानां सूक्ष्मत्रयाणां च ॥ १२९ ॥
 अरतिशोके षण्ठे तिर्यग्भयनिरयतेजउरालद्वये ।
 वैगूर्विकातपद्विके त्रसवर्णागूर्विति चतुष्के ॥ १३० ॥
 एकपञ्चेन्द्रियस्थावरनिर्माणासद्गमनास्थिरषट्कानाम् ।
 विंशं कोटीकोटिसागरः नामानामुत्कृष्टम् ॥ १३१ ॥
 हास्यरत्युच्चपुरुषे स्थिरषट्के शस्तगमनदेवद्विके ।
 तस्यार्धमन्तःकोटीकोटिः आहारतीर्थकरे ॥ १३२ ॥
 सुरनिरयायुषोरोघः नरतिर्यगायुषोः त्रीणि पल्यानि ।
 उत्कृष्टस्थितिवन्धः संज्ञिपर्याप्तके योग्ये ॥ १३३ ॥ कुलकम् ।

अर्थ—उत्तरप्रकृतियोंमेंसे दुःख अर्थात् असाता वेदनीय १ और ज्ञानावरण २ दर्श-
 नावरण २ अन्तराय ३ ये तीनघातियाकर्मोंकी १९ प्रकृतियां, सब मिलकर २० प्रकृति-
 योंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध ओघ अर्थात् सामान्यमूलप्रकृतिकी तरह तीस कोड़ाकोड़ीसागर
 प्रमाण है । सातावेदनीय, स्त्रीवेद, मनुष्यगति १ मनुष्यगत्यानुपूर्वी २ ये दो, इस तरह
 चार प्रकृतियोंका तो उससे आधा अर्थात् पंद्रहकोड़ाकोड़ी सागर है । दर्शनमोहनीयरूप
 जो एक मिथ्यात्व उसका सत्तर कोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण है । और चारित्रमोहनीयरूप
 सोलह कषायोंका चालीस कोड़ाकोड़ी सागर है ॥ १२८ ॥ और ६ संस्थान तथा संहन-
 नमें चरम अर्थात् अन्तका हुंडसंस्थान और सृपाटिकासंहनन इन दोनोंका मूलप्रकृतिकी
 तरह बीस कोड़ाकोड़ी सागर है । और वाकीके ४ संस्थान तथा ४ संहननोंमें दो दो
 सागर कम पहले पहलेतक करना, अर्थात् वामनसंस्थान और कीलितसंहननका १८,
 कुब्जसंस्थान और अर्धनाराचसंहननका १६ सातिसंस्थान और नाराचसंहननका १४
 न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान और वज्रनाराचसंहननका १२ समचतुरस्रसंस्थान और वज्रर्षभ-
 नाराचसंहननका १० कोडाकोड़ीसागर प्रमाण है । विकलेन्द्री अर्थात् दोइंद्री तेइंद्री
 चौइंद्री, और सूक्ष्मादि तीन इस तरह ६ प्रकृतियोंका अठारह कोडाकोड़ी सागर प्रमाण
 स्थितिवन्ध है ॥ १२९ ॥ अरति, शोक, नपुंसकवेद, तिर्यच-भय-नरक-तैजस-औदारिक
 इन पांचका जोड़ा अर्थात् तिर्यचगति १ तिर्यचगत्यानुपूर्वी २ इत्यादि, वैक्रियिक-आतप
 इन दोका जोड़ा, नीचगोत्र, त्रस-वर्ण-अगुरुलघु इन तीनोंकी चौकड़ी अर्थात् त्रस १
 वादर २ पर्याप्त ३ प्रत्येक ४ इत्यादि, ॥ १३० ॥ एकेन्द्री, पंचेद्री, स्थावर, निर्माण,
 असद्गमन अर्थात् अप्रशस्तविहायोगति, और अस्विरादि छह इसतरह ४१ नामप्रकृति-
 योंका बीसकोड़ाकोड़ीसागर उत्कृष्टस्थितिवन्ध है ॥ १३१ ॥ हास्य, रति, उच्चगोत्र, पुरुष-

वैद, स्थिरआदिक छह, शस्त गमन अर्थात् प्रशस्तविहायोगति, देवद्विक अर्थात् देवगति १ देवगत्यानुपूर्वी २ इन तेरह प्रकृतियोंका उससे आधा अर्थात् दस कोड़ाकोडी सागर प्रमाण है । आहारकशरीर, आहारक आंगोपांग और तीर्थकरप्रकृति इनतीनोंका अंतकोड़ाकोडी अर्थात् कोड़िसे ऊपर और कोड़ाकोड़िसे नीचे इतने सागरप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबंध है ॥ १३२ ॥ देवायु और नरकायु इन दोनोंका मूलप्रकृतिकी तरह ३३ सागर प्रमाण है, और मनुष्यायु तथा तिर्यंचायु इन दोनोंका तीनपल्यप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबंधकहा है । यह उत्कृष्टस्थितिबंध सैनी पंचेंद्री पर्याप्तके होता है उसमें भी योग्य जीवके होता है हरएकके नहीं होता ॥ १३३ ॥

आगे तीन आयुके सिवाय शुभ-अशुभप्रकृतियोंकी उत्कृष्टस्थितिके कारण संक्लेश परिणामही हैं ऐसा कहते हैं;—

सव्वट्ठिदीणमुक्कस्सओ दु उक्कस्ससंकिलेसेण ।

विपरीदेण जहण्णो आउगतियवज्जियाणं तु ॥ १३४ ॥

सर्वस्थितीनामुत्कृष्टकस्तु उत्कृष्टसंक्लेशेण ।

विपरीतेन जघन्य आयुष्कत्रयवर्जितानां तु ॥ १३४ ॥

अर्थ—तीन आयु अर्थात् तिर्यंच-मनुष्य-देवायुके विना अन्य सब ११७ प्रकृतियोंका उत्कृष्टस्थितिबंध यथासंभव उत्कृष्ट संक्लेश (कषायसहित) परिणामोंसे होता है । और जघन्यस्थितिबंध विपरीतपरिणामोंसे अर्थात् संक्लेशसे उलटे उत्कृष्टविशुद्धपरिणामोंसे होता है । तीन आयुप्रकृतियोंका इससे विपरीत अर्थात् उत्कृष्ट विशुद्धपरिणामोंसे उत्कृष्टस्थितिबंध होता है तथा जघन्यस्थितिबंध उत्कृष्ट संक्लेशपरिणामोंसे होता है ॥ १३४ ॥

आगे उत्कृष्टस्थितिबंधके करनेवाले (स्वामीको) को कहते हैं;—

सव्वुक्कस्सट्ठिदीणं मिच्छाइट्ठी दु बंधगो भणिदो ।

आहारं तित्थयरं देवाउं वा विमोत्तूणं ॥ १३५ ॥

सर्वोत्कृष्टस्थितीनां मिथ्यादृष्टिस्तु बन्धको भणितः ।

आहारं तीर्थकरं देवायुषं वा विमुच्य ॥ १३५ ॥

अर्थ—आहारकद्विक, तीर्थकर और देवायु इन चार प्रकृतियोंके सिवाय बाकी ११६ प्रकृतियोंकी उत्कृष्टस्थितियोंको मिथ्यादृष्टि जीवही बांधनेवाला होता है । इस कथनसे यह बात सिद्ध हुई कि इन आहारकादि चार प्रकृतियोंके उत्कृष्टस्थितिका बंध सम्यग्दृष्टिके ही होता है ॥ १३५ ॥

अब उन चारप्रकृतियोंके बंधस्वामियोंमें भी विशेषपना दिखाते हैं;—

देवाउगं प्रमत्तो आहारयमप्पमत्तविरदो दु ।

तित्थयरं च मणुस्सो अविरदसम्मो समज्जेइ ॥ १३६ ॥

देवायुषं प्रमत्त आहारकमप्रमत्तविरतस्तु ।

तीर्थकरं च मनुष्य अविरतसम्यक् समर्जयति ॥ १३६ ॥

अर्थ—देवायुकी उत्कृष्टस्थितिको छठे प्रमत्तगुणस्थानवाला बांधता है । आहारकको अर्थात् आहारकशरीर १ आहारक आंगोपांग २ इन दोनोंकी उत्कृष्ट स्थितिको सातवें अप्रमत्तगुणस्थानवाला बांधता है । और उत्कृष्टस्थितिवाली तीर्थकरप्रकृतिको चौथेगुणस्थानवाला असंयमीसम्यग्दृष्टि मनुष्य ही उपार्जन करता है अर्थात् बांधता है ॥ १३६ ॥

आगे ११६ प्रकृतियोंके बांधनेवाले “ जो १३५ वीं गाथामें कहेथे” मिथ्यादृष्टियोंके भी भेद दो गाथाओंसे कहते हैं;—

णरतिरिया सेसाउं वेगुच्चियल्लक्कवियलसुहुमतिथं ।

सुरणिरया ओरालियतिरियदुगुज्जोवसंपत्तं ॥ १३७ ॥

देवा पुण एइंदियआदावं थावरं च सेसाणं ।

उक्कस्ससंकिलिट्ठा चटुगदिया ईसिमज्झिमया ॥ १३८ ॥ जुम्मं ।

नरतिर्यश्चः शेषायुषं वैगूर्विकषट्ठविकलसूक्ष्मत्रयम् ।

सुरनिरया औदारिकतिर्यग्द्वयोद्योतासंप्राप्तम् ॥ १३७ ॥

देवा पुनरेकेन्द्रियातपं स्थावरं च शेषाणाम् ।

उत्कृष्टसंक्लिष्टा चतुर्गतिका ईपन्मध्यमकाः ॥ १३८ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—देवायुसे शेष नरकादि तीन आयु, वैक्रियिकषट्ठ (नरकगति आदि ६), दो इंद्री आदि तीन विकलेंद्री, सूक्षादि तीन इस तरह १५ प्रकृतियोंका उत्कृष्टस्थितिवंध मनुष्य और तिर्यच मिथ्यादृष्टि करते हैं । और औदारिकशरीरद्वय (औदारिकशरीर १ औदारिक आंगोपांग २), तिर्यचगति १ तिर्यचगत्यानुपूर्वी २ ये दो, उद्योत और असंप्राप्तसृष्टिकासंहनन इन प्रकृतियोंको उत्कृष्टस्थितिसहित देव और नारकी मिथ्यादृष्टि जीव बांधते हैं ॥ १३७ ॥ एकेंद्री, आतप, और स्थावर इन तीनप्रकृतियोंका उत्कृष्टस्थितिवंध मिथ्यादृष्टि देव करते हैं । और बाकी वचीं ९२ प्रकृतियोंको उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाले तथा ईपन्मध्यमसंक्लेश परिणामवाले चारोंगतियोंके जीव बांधते हैं ॥ १३८ ॥

१. सातवें गुणस्थानके चढ़नेको सन्मुख हुआ प्रमत्तगुणस्थानवाला । २. छठे गुणस्थानमें उतरनेको सन्मुख हुआ ऐसा अप्रमत्तवाला । ३. नरकमें जानेकेलिये सन्मुख हुआ अर्थात् नरकमें जानेवाला ऐसा अविरतसम्यग्दृष्टि । ४ कषायरूप परिणाम तीव्र, मंद, मध्यमके भेदसे असंख्याते हैं, उनमेंसे तीव्र कषायरूप परिणामोंको उत्कृष्टसंक्लेश कहते हैं, मंद (थोड़ी) कषाय अवस्थारूप परिणामोंको ईपत्संक्लेश और न बहुत न थोड़ी ऐसी मध्यमकषायअवस्थारूप परिणामोंको मध्यमसंक्लेशपरिणाम कहते हैं ।

आगे मूलप्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबंध कहते हैं;—

वारस य वेयणीये णामागोदे य अट्ट य मुहुत्ता ।

भिण्णमुहुत्तं तु ठिदी जहण्णयं सेसपंचण्हं ॥ १३९ ॥

द्वादश च वेदनीये नामगोत्रे च अष्ट च मुहूर्ताः ।

भिन्नमुहूर्तस्तु स्थितिः जघन्या शेषपञ्चानाम् ॥ १३९ ॥

अर्थ—वेदनीयकर्मकी जघन्यस्थिति १२ मुहूर्त है और नाम तथा गोत्रकर्म इनदो-
नोंकी आठ मुहूर्त है, तथा बाकीबचे पांचकर्मोंकी जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है ॥ १३९ ॥

अब उत्तरप्रकृतियोंका जघन्यस्थितिबंध चार गाथाओंसे कहते हैं;—

लोहस्स सुहुमसत्तरसाणं ओघं दुगेकदलमासं ।

कोहतिये पुरिसस्स य अट्ट य वस्सा जहण्णठिदी ॥ १४० ॥

लोभस्य सूक्ष्मसप्तदशानामोघः द्विकैकदलमासः ।

क्रोधत्रये पुरुषस्य च अष्ट च वर्षाणि जघन्यस्थितिः ॥ १४० ॥

अर्थ—लोभप्रकृति और दसवें सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानमें बंधहोनेवाली १७ प्रकृतियोंका
जघन्यस्थितिबंध मूलप्रकृतियोंकी तरह समझना अर्थात् इन प्रकृतियोंमेंसे यशस्कीर्ति और
उच्चगोत्रका आठ आठ मुहूर्त, सातावेदनीयका १२ मुहूर्त; पांच ज्ञानावरण, चार दर्शना-
वरण, पांच अंतराय इन १४ का और लोभप्रकृतिका एक २ अंतर्मुहूर्त जानना । क्रोधा-
दितीनका अर्थात् क्रोध, मान, मायाका दो महीने—एक महीना तथा दलमास (पंद्रहदिन)
क्रमसे जघन्यस्थितिबंध है, और पुरुषवेदकी आठवर्षप्रमाण जघन्यस्थिति है ॥ १४० ॥

तित्थाहाराणंतोकोडाकोडी जहण्णठिदिवंधो ।

खवगे सगसगबंधच्छेदनकाले हवे णियमा ॥ १४१ ॥

तीर्थाहाराणामन्तःकोटीकोटिः जघन्यस्थितिवन्धः ।

क्षपके स्वकस्वकबन्धच्छेदनकाले भवेत् नियमात् ॥ १४१ ॥

अर्थ—तीर्थकर और आहारकका जोड़ा इन ३ प्रकृतियोंका जघन्यस्थितिबंध अंतः
कोड़ाकोड़ीसागर प्रमाण है । क्षपकश्रेणीवालेके यह जो जघन्यस्थितिबंध है वह अपनी २
बंधव्युच्छित्तिके समयमें नियमसे होता है ॥ १४१ ॥

भिण्णमुहुत्तो णरतिरियाऊणं वासदससहस्साणि ।

सुरणिरयआउगाणं जहण्णओ होदि ठिदिवंधो ॥ १४२ ॥

भिन्नमुहूर्तः नरतिर्यगायुषोः वर्षदशसहस्राणि ।

सुरनिरयायुषोः जघन्यकः भवति स्थितिवन्धः ॥ १४२ ॥

अर्थ—मनुष्यायु और तिर्यचआयुका जघन्यस्थितिवंध अंतर्मुहूर्त है । देवायु और नरकायुका दशहजार वर्ष प्रमाण जघन्यस्थितिवंध होता है ॥ १४२ ॥

सेसाणं पञ्चतो वादरएइंदियो विसुद्धो य ।

बंधदि सव्वजहणं सगसगउक्कस्सपडिभागे ॥ १४३ ॥

शेषाणां पर्याप्तो वादरैकेन्द्रियो विशुद्धश्च ।

वध्नाति सर्वजघन्यं स्वकस्वकोत्कृष्टप्रतिभागे ॥ १४३ ॥

अर्थ—पहले कही हुई २९ प्रकृतियोंसे बाकी बचीं ९१ प्रकृतियां उनमेंभी वैक्रियिकपट्ट और मिथ्यात्व इन सातप्रकृतियोंके विना ८४ प्रकृतियोंकी सब जघन्यस्थितियोंको वादर-पर्याप्त यथायोग्यविशुद्धपरिणामोंको धारणकरनेवाला एकेंद्री जीव ही अपनी २ स्थितिके प्रतिभागमें अर्थात् गणितके अनुसार त्रैराशिकविधिसे भागकरके जो जो प्रमाण होवै उस प्रमाण बांधता है ॥ १४३ ॥

आगे उसी जघन्यस्थितिकी विधिको दिखाते हैं;—

एयं पणकदि पणं सयं सहस्सं च मिच्छवरबंधो ।

इगिविगलाणं अवरं पल्लासंखूणसंखूणं ॥ १४४ ॥

एकं पञ्चकृतिः पञ्चाशत् शतं सहस्रं च मिथ्यात्ववरबंधः ।

एकविकलानामवरः पत्यासंख्योनसंख्योनम् ॥ १४४ ॥

अर्थ—एकेंद्री और विकल चार अर्थात् दोइन्द्री, ते इंद्री, चौइंद्री, असंज्ञीपंचेंद्री जीव मिथ्यात्वकर्मकी उत्कृष्टस्थितिका बंध एक सागर, २५ सागर, ५० सागर, १०० सागर, प्रमाण क्रमसे करते हैं । और जघन्यस्थितिको एकेंद्री जीव अपनी उत्कृष्टस्थिति-मेंसे पत्यके असंख्यातवें भाग हीन (कम) जो प्रमाण रहै उतनी बांधता है । और दोइन्द्री आदि विकल चार अपनी २ स्थितिमेंसे पत्यके संख्यातवें भाग हीनकर जो प्रमाण आवै उतनी बांधते हैं ॥ १४४ ॥

आगे संज्ञीपंचेंद्रीकी उत्कृष्टस्थितिकी अपेक्षासे एकेंद्रियजीवोंके उत्कृष्ट वा जघन्यस्थि-तिबंधका प्रमाण त्रैराशिकगणितसे निकालकर कहते हैं;—

जदि सत्तरिस्स एत्तियमेत्तं किं होदि तीसियादीणं ।

इदि संपाते सेसा-णं इगिविगलेसु उभयठिदी ॥ १४५ ॥

यदि सप्ततेः एतावन्मात्रं किं भवति त्रिंशदादीनाम् ।

इति संपाते शेषाणामेकविकलेपूभयस्थितिः ॥ १४५ ॥

अर्थ—जो सत्तरि कोड़ाकोड़ीसागरकी उत्कृष्टस्थितिवाला मिथ्यात्वकर्म एकेंद्रीजीवके

एकसागरप्रमाण बँधै तो तीसआदिककोड़ाकोड़ी सागरकीस्थितिवाले बाकीके कर्म एकेंद्री जीवके कितने प्रमाण बंधसकता है, इसप्रकार संपात (त्रैराशिक) विधिसे एकेन्द्रीजीवकी उत्कृष्टस्थिति^३ अर्थात् एकसागरके सातभागमेंसे तीनभाग प्रमाण हुई । इसीतरह दोइन्द्री आदि विकलजीवोंकेभी संज्ञी पंचेंद्रीकी उत्कृष्टस्थितिके हिसाबसे कर्मोंकी उत्कृष्टस्थिति निकालना । और जघन्यस्थितिसे जघन्यस्थिति एकेंद्रियादि असंज्ञीपंचेंद्री तक त्रैराशिकसे निकाललेना । इस तरह दोनों (उत्कृष्ट जघन्य) स्थितियां त्रैराशिकसे निकाललेना ॥ १४५ ॥

अब जघन्यस्थितिमें कुछ विशेषता दिखाते हैं;—

सण्णि असण्णिचउक्के एगे अंतोमुहुत्तमावाहा ।

जेट्टे संखेजगुणा आवलिसंखं असंखभागहियं ॥ १४६ ॥

संज्ञिनि असंज्ञिचतुष्के एके अंतर्मुहूर्त आवाधा ।

ज्येष्ठे संख्येयगुणा आवलिसंख्यमसंख्यभागाधिकम् ॥ १४६ ॥

अर्थ—सैनीजीव, असंज्ञीकी चौकड़ी अर्थात् असंज्ञिपंचेंद्री १ चौइंद्री २ तेइंद्री ३ दोइंद्री ४, और एकेंद्रीजीवकी प्रकृतियोंकी जघन्य आवाधा (जिसको आगे १५५ वेंमें कहेंगे) अंतर्मुहूर्त प्रमाण है । यद्यपि आपसमें संख्यातगुणी २ कमती है तौ भी अंतर्मुहूर्तमें सब गिनती आजाती है, क्योंकि अंतर्मुहूर्तके बहुतभेद हैं । इसकारण सामान्यसे अंतर्मुहूर्तही काल कहा । और ज्येष्ठ अर्थात् उत्कृष्ट आवाधा सैनीजीवमें तो अपनी जघन्यसे संख्यातगुणी जानना । असंज्ञिचतुष्कमें अपनी जघन्यसे आवलिके संख्यातवें भाग अधिक तथा एकेन्द्रियमें अपनी जघन्य आवाधाके कालसे आवलीके असंख्यातवें भाग अधिक समझना ॥ १४६ ॥

इसप्रकार सब मनमें रखकर जघन्यस्थितिबंधको सिद्धकरनेकेलिये गणितका सूत्र कहते हैं;—

जेट्टावाहोवट्टियजेट्टं आवाहकंडयं तेण ।

आवाहवियप्पहदेणेगूणेणूणजेट्टमवरठिदी ॥ १४७ ॥

ज्येष्ठावाधोद्वर्तितज्येष्ठमावाधाकाण्डकं तेन ।

आवाधाविकल्पहतेन एकोनेन ऊनजेष्ठमवरस्थितिः ॥ १४७ ॥

अर्थ—एकेंद्रियादि जीवोंकी उत्कृष्ट आवाधासे भाजित (भाग की गई) जो अपने २ कर्मोंकी उत्कृष्टस्थिति उसके प्रमाण (माप) कालको आवाधाकाण्डक कहते

हैं अर्थात् उतने २ स्थितिके भेदोंमें एकसरीखा आवाधाका प्रमाण जानना । उस अपने २ आवाधाकाण्डके प्रमाणसे अपने २ आवाधाके भेदोंको गुणनेसे जो प्रमाण हो उसमें एक २ घटाकर जितना प्रमाण आवै उतना कम जो अपनी २ उत्कृष्टस्थिति है वह अपनी २ जघन्यस्थिति जानना । जैसे एकेंद्री जीवके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट आवाधाका प्रमाण आवलिके असंख्यातवें भागकर अधिक अंतर्मुहूर्त है उसका भाग मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थिति १ सागरमें दिया जो लब्ध आया वह आवाधाकाण्डक नामका प्रमाण है । इस आवाधाकाण्डकसे पूर्वकथित एकेंद्रीके आवाधाके भेदोंकर गुणाकार करनेसे जो प्रमाण हो उसमेंसे एक कम करै उतने प्रमाणको मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थिति १ सागरमें घटानेसे जो प्रमाण वचै वह मिथ्यात्वकी जघन्यस्थितिका प्रमाण जानना । इसीप्रकार दो इंद्री आदिमें भी गणित समझलेना । विस्तार भयसे अधिक नहीं लिखा है ॥ १४७ ॥

अब जीवोंके चौदह भेदोंमें जघन्य और उत्कृष्टस्थितिवंधको जुदा २ करके दिखलाते हैं;—

वासूप-वासूअ-वरट्टिदीओ सूवाअ-सूवाप-जहण्णकालो ।

वीवीवरो वीविजहण्णकालो सेसाणमेवं वयणीयमेदं ॥ १४८ ॥

वासूप-वासूअ-वरस्थितिः सूवाअ-सूवाप-जघन्यकालः ।

वीवीवरः वीविजघन्यकालः शेषाणामेवं वक्तव्यमेतत् ॥ १४८ ॥

अर्थ—वासूप अर्थात् वादर—सूक्ष्मपर्याप्त और वासूअ अर्थात् वादर—सूक्ष्मअपर्याप्त येदोनों मिलकर चार तरहके जीवोंके कर्मोंकी उत्कृष्टस्थिति तथा सूक्ष्म—वादरअपर्याप्त और सूक्ष्म—वादरपर्याप्त जीवोंके कर्मोंकी जघन्यस्थिति, वीवीवरः अर्थात् दोइंद्रीपर्याप्त और दोइंद्री अपर्याप्त इनदोनोंकी उत्कृष्टकर्मस्थिति तथा दोइंद्री अपर्याप्त और दोइंद्रीपर्याप्त इनदोनोंका जघन्यकाल इसप्रकार दोइंद्रीकी स्थितिके चार भेद होते हैं । इसीतरह तेइंद्रीसेलेकर संज्ञीपंचेन्द्रीतक स्थितिके चार २ भेद जानना । सब मिलकर ८+४+४+४+४=२८ भेद चौदहतरहके जीवोंकी अपेक्षा स्थितिके हुए ॥ १४८ ॥

ऐसा सब कथन मनमें धारणकर स्थितिकी शलाका (हिस्सा) ओंको जाननेकेलिये गाथासूत्र कहते हैं;—

मज्झे धोवसलागा हेट्टा उवरिं च संखगुणिदकमा ।

सघजुदी संखगुणा हेट्टुवरिं संखगुणमसण्णित्ति ॥ १४९ ॥

मध्ये श्लोकशलाका अधस्तननुपरि च संख्यगुणितक्रमाः ।

सर्वयुतिः संख्यगुणा अधस्तनोपरि संख्यगुणा असंज्ञीति ॥ १४९ ॥

अर्थ—जीवोंकी २४ तरहको स्थितिके भेदोंकी संख्यास्वरूप जो शलाका हैं वे मध्यभागमें थोड़ी हैं अर्थात् मध्यभेदोंकी संख्या थोड़ी है । और नीचे भाग तथा ऊपर-भागके भेदोंकी संख्या पहलेसे संख्यातगुणी क्रमसे जानना । तथा सबका जोड़ अर्थात् सब मिलकर संख्यातगुणी भेदोंकी संख्या है । इस तरह नीचे भागसे लेकर ऊपरभाग तक असंज्ञी पंचेन्द्रीजीवोंतक ही संख्यातगुणी शलाका जाननी अर्थात् एकेन्द्रीसे लेकर असंज्ञी-पंचेन्द्री तक स्थितिके भेद संख्याते हैं ॥ १४९ ॥

अब संज्ञीजीवोंकी स्थितिके चार भेदोंमें कुछ विशेषता दिखाते हैं,—

सण्णस्स डु हेट्ठादो ठिदिठाणं संखगुणिदसुवरुवरिं ।

ठिदिआयामोवि तहा सगठिदिठाणं व आवाहा ॥ १५० ॥

संज्ञिनः हि अधस्तनात् स्थितिस्थानं संख्यगुणितमुपर्युपरि ।

स्थित्यायामोपि तथा स्वकस्थितिस्थानं व आवाधा ॥ १५० ॥

अर्थ—संज्ञी (मनसहित) पंचेन्द्रीके चार भेदोंमें नीचेसे लेकर अर्थात् संज्ञीपर्याप्तके जघन्यस्थितिवंधसे ऊपर २ चौथे भेदतक स्थितिके स्थान (भेदोंका प्रमाण) संख्यातगुणे क्रमसे जानने । और स्थितिका कालभी संख्यातगुणा है तथा स्थितिके स्थानप्रमाण आवाधाकाल होता है ऐसा समझना ॥ १५० ॥

आगे जघन्यस्थितिवंधके स्वामी (करनेवाले) को कहते हैं;—

सत्तरसपंचतित्थाहाराणं सुहुमवादरापुट्ठो ।

छ्वेगुव्वमसण्णी जहण्णमाऊण सण्णी वा ॥ १५१ ॥

सप्तदशपञ्चतीर्थाहाराणां सूक्ष्मवादरापूर्वः ।

पट्टैर्गूर्वमसंज्ञी जघन्यमायुषां संज्ञी वा ॥ १५१ ॥

अर्थ—ज्ञानावरणादि १७ प्रकृतियोंकी जघन्यस्थितिको दसवें सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान-वाला बांधता है । पुरुषवेदादिक पांचकी जघन्यस्थिति वादर अर्थात् नवमें गुणस्थान-वाला, तीर्थंकरप्रकृति तथा आहारकद्रव्य इन तीनकी जघन्यस्थितिको आठवें अपूर्वकरण-गुणस्थानवाला, और वैक्रियिकषट्क जो देवगति आदि छह हैं उनकी जघन्यस्थितिको असैनीपंचेन्द्रीजीव तथा आयुर्कर्मकी जघन्यस्थितिको संज्ञी अथवा असंज्ञी दोनों ही बांधते हैं ॥ १५१ ॥

आगे जघन्यादिस्थितिके भेदोंमें जो साद्यादिभेद संभव होसकते हैं उनको कहते हैं;—

अजहण्णट्ठिदिवंधो चउच्चिहो सत्तमूलपयडीणं ।

सेसतिये दुवियप्पो आयुचउक्केवि दुवियप्पो ॥ १५२ ॥

अजघन्यस्थितिबन्धः चतुर्विधः सप्तमूलप्रकृतीनाम् ।

शेषत्रये द्विविकल्प आयुश्चतुष्केपि द्विविकल्पः ॥ १५२ ॥

अर्थ—आयुके विना सात मूलप्रकृतियोंका अजघन्यस्थितिवंध सादि आदिकके भेदसे चार तरहका है । और वाकीके उत्कृष्ट वगैरः तीनबंधोंके सादि, अध्रुव ये दोही भेद हैं । तथा आयुकर्मके उत्कृष्टादिक चार भेदोंमें भी स्थितिवंध सादि, अध्रुव ये दोप्रकारका है ॥ १५२ ॥

अब उत्तरप्रकृतियोंमें विशेषता दिखाते हैं;—

संजलणसुहुमचोदस-घादीणं चटुविधो दु अजहण्णो ।

सेसतिया पुण दुविहा सेसाणं चटुविधावि दुधा ॥ १५३ ॥

संज्वलनसूक्ष्मचतुर्दशघातिनां चतुर्विधस्तु अजघन्यः ।

शेषत्रयः पुनः दुविधाः शेषाणां चतुर्विधापि द्विधा ॥ १५३ ॥

अर्थ—संज्वलनकषायकी चौकड़ी, दसवें सूक्ष्मसांपरायकी मतिज्ञानावरणादि घातिया-कर्मोंकी १४ प्रकृतियां, इन १८ प्रकृतियोंका अजघन्यस्थितिवंध सादिआदिकके भेदसे चारप्रकार है, और वाकीके जघन्यादितीनभेदोंके सादि, अध्रुव ये दोही भेद हैं । शेष प्रकृतियोंके जघन्यादिक चार भेदोंके भी सादि, अध्रुव दो भेद हैं ॥ १५३ ॥

सव्वाओ दु ठिदीओ सुहासुहाणंपि होंति असुहाओ ।

माणुसतिरिक्खदेवाउगं च मोत्तूण सेसाणं ॥ १५४ ॥

सर्वास्तु स्थितयः शुभाशुभानामपि भवन्ति अशुभाः ।

मनुष्यतिर्यग्देवायुष्कं च मुत्तवा शेषाणाम् ॥ १५४ ॥

अर्थ—मनुष्य, तिर्यच, देवायुके सिवाय वाकी सब शुभ तथा अशुभ प्रकृतियोंकी स्थितियाँ अशुभरूप ही हैं, क्योंकि संसारका कारण हैं । इसीलिये इन प्रकृतियोंको बहुतकषायी जीव ही उत्कृष्टस्थितिसे बांधता है ॥ १५४ ॥

पहले जो आवाधा कही थी उसका अब लक्षण कहते हैं;—

कम्मसरूपेणागतद्रव्यं ण य एदि उदयरूपेण ।

रूपेणुदीरणस्स व आवाहा जाव ताव हवे ॥ १५५ ॥

कर्मस्वरूपेणागतद्रव्यं न च एति उदयरूपेण ।

रूपेणोदीरणाया वा आवाधा यावत्तावद्भवेत् ॥ १५५ ॥

अर्थ—कार्मणशरीरनामा नामकर्मके उदयसे योगद्वारा आत्मानें कर्मस्वरूपसे परिणमता हुआ जो पुद्गलद्रव्य वह जबतक उदयरूप (फल देने स्वरूप) अथवा उदीरणा (विना समयके कर्मका पाक होना) स्वरूप न हो तब तक उस फलको आवाधा कहते हैं ॥ १५५ ॥

अब उस आवाधाको उदयकी अपेक्षा मूलप्रकृतियोंमें बतलाते हैं;—

उदयं पडि सत्तण्हं आवाहा कोडकोडि उवहीणं ।

वाससयं तप्पडिभागेण य सेसट्टिदीणं च ॥ १५६ ॥

उदयं प्रति सप्तानामावाधा कोटीकोटिः उदधीनाम् ।

वर्षशतं तत्प्रतिभागेन च शेषस्थितीनां च ॥ १५६ ॥

अर्थ—आयुर्कर्मके सिवाय सात कर्मोंकी आवाधा उदयकी अपेक्षा एक कोड़ाकोड़ी-सागर प्रमाण स्थितीकी सौवर्ष प्रमाण जानना, और बाकी स्थितियोंकी उसके अनुसार त्रैराशिकविधिसे भाग देते हुए जो प्रमाण आवै उतनी जानना ॥ १५६ ॥

आगे अंतःकोड़ाकोड़ीसागर प्रमाण स्थितीकी आवाधा कहते हैं;—

अंतोकोडाकोडिट्टिदिस्स अंतोमुहुत्तमावाहा ।

संखेज्जगुणविहीणं सव्वजहण्णट्टिदिस्स हवे ॥ १५७ ॥

अन्तःकोटीकोटिस्थितेः अन्तर्मुहूर्त आवाधा ।

संख्यातगुणविहीनः सर्वजघन्यस्थितेः भवेत् ॥ १५७ ॥

अर्थ—अंतः कोड़ाकोड़ी सागर स्थितीकी अन्तर्मुहूर्त आवाधा है, और सब जघन्य-स्थितियोंकी उससे संख्यातगुणी कम (संख्यातवें भाग) आवाधा होती है ॥ १५७ ॥

अब शेष (वचे) आयुर्कर्मकी आवाधा कहते हैं;—

पुव्वाणं कोडितिभा—गादासंखेप अद्ध वोत्ति हवे ।

आउस्स य आवाहा ण ट्टिदिपडिभागमाउस्स ॥ १५८ ॥

पूर्वाणां कोटिभिर्भागादासंक्षेपाद्धा वा इति भवेत् ।

आयुपञ्च आवाधा न स्थितिप्रतिभाग आयुषः ॥ १५८ ॥

अर्थ—आयुर्कर्मकी आवाधा कोड़पूर्वका तीसरा भागसे लेकर असंक्षेपाद्धा प्रमाण अर्थात् जिससे थोड़ा काल कोई न हो ऐसे आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । कुछ स्थितिके अनुसार भाग कीहुई नहीं है, अर्थात् जैसे अन्य कर्मोंमें स्थितिके अनुसार भाग करनेसे आवाधाका प्रमाण होता है, इसतरह इस आयुर्कर्ममें नहीं है ॥ १५८ ॥

आगे उदीरणाकी अपेक्षा आवाधा कहते हैं;—

आवलियं आवाहा उदीरणमासिज्ज सत्तकम्माणं ।

परभवियआउगस्स य उदीरणा णत्थि णियमेण ॥ १५९ ॥

आवलिकमावाधा उदीरणामाश्रित्य सप्तकर्मणाम् ।

परभवीयायुष्कस्य च उदीरणा नास्ति नियमेन ॥ १५९ ॥

अर्थ—सात कर्मोंकी आवाधा उदीरणाकी अपेक्षासे एक आवली मात्र है, और परम-वकी आयु जो बांधलीनी है उसकी उदीरणा निश्चय कर नहीं होती । अर्थात् वर्तमान आयुकी उदीरणा तो हो सकती है परंतु आगामी आयुकी नहीं होती ॥ १५९ ॥

अब कर्मोंके निषेकका स्वरूप कहते हैं;—

आवाहृणियकम्मट्टिदी णिसेगो दु सत्तकम्माणं ।

आउरस णिसेगो पुण सगट्टिदी होदि णियमेण ॥ १६० ॥

आवाधोनितकर्मस्थितिः निषेकस्तु सप्तकर्मणाम् ।

आयुपः निषेकः पुनः स्वकस्थितिः भवति नियमेन ॥ १६० ॥

अर्थ—अपनी २ कर्मोंकी स्थितीमें आवाधाका काल घटानेसे जो काल शेष रहै उसके समयोंके प्रमाण सात कर्मोंके निषेक (समय २ में जो कर्म खिरैं उनके समूहरूप निषेक) जानना । और आयुकर्मका निषेक अपनी २ स्थिति है ऐसा नियमसे समझना ॥ १६० ॥

अब निषेकका क्रम दिखाते हैं;—

आवाहं वोलाविय पढमणिसेगम्मि देय बहुगं तु ।

तत्तो विसेसहीणं विदियस्सादिमणिसेओत्ति ॥ १६१ ॥

आवाधां वा अपलाप्य प्रथमनिषेके देयं बहुकं तु ।

ततो विशेषहीनं द्वितीयस्यादिमनिषेक इति ॥ १६१ ॥

अर्थ—आवाधा कालको छोड़कर जो अनंतर (उसके बाद) का समय है वहां पहली गुणहानिके प्रथम निषेकमें बहुत द्रव्य देना अर्थात् बहुत कर्मपरमाणू फल देकर खिरजाते हैं (दूर हो जाते हैं) । और दूसरे निषेकसे लेकर दूसरी गुणहानिके प्रथमनिषेकपर्यंत विशेषकर अर्थात् चयकर हीन (कम) कर्मपरमाणू फल देकर दूर होजाते हैं ॥ १६१ ॥

विदिये विदियणिसेगे हाणी पुव्विल्लहाणिअद्धं तु ।

एवं गुणहाणिं पडि हाणी अद्धद्वयं होदि ॥ १६२ ॥

द्वितीये द्वितीयनिषेके हानिः पूर्वहान्यर्थं तु ।

एवं गुणहानिं प्रति हानिः अर्धार्धं भवति ॥ १६२ ॥

अर्थ—द्वितीय गुण हानिके दूसरे निषेकमें पहली गुणहानिके चयसे आधाचय तीसरी गुणहानिके पहले निषेकतक घटाना इसप्रकार तीसरीसे लेकर सब छह गुणहानियोंतक आधा आधा चय कम कर्मपरमाणुद्रव्य समझना ॥ १६२ ॥

इस कथनको आगे विस्तारसे कहेंगे परंतु नाममात्र यहांपरभी दिखादेते हैं—जैसे कर्मकी परमाणु ६३००, आवाधाके विना स्थितिका प्रमाण ४८ समय, एक एक गुणहानि ८ समय प्रमाण, सब स्थिति ४८ समयकी ६ नानागुणहानि, दो गुणहानिका आयाम (काल) १६, अन्योन्याभ्यन्तराशि ६४ सब इतनी संज्ञा मनमें धारण कर लेना, इन सब गुणहानियोंसे प्रथम गुणहानिमें परमाणू ३२०० खिरते हैं । द्वितीयादिक गुणहानिमें आधे २ खिरते हैं, इत्यादि कथन विन्तारभयसे अधिक नहीं लिखा है । इसप्रकार स्थितिवंधका प्रकरण समाप्त हुआ ॥

आगे अनुभागबन्धको तेईस गाथाओंसे कहते हैं;—

सुहपयडीण विसोही तिव्वो असुहाण संकिलेसेण ।

विपरीदेण जहण्णो अणुभागो सव्वपयडीणं ॥ १६३ ॥

शुभप्रकृतीनां विशुद्ध्या तीव्र अशुभानां संक्लेशेन ।

विपरीतेन जघन्य अनुभागः सर्वप्रकृतीनाम् ॥ १६३ ॥

अर्थ—सातावेदनीयादिक शुभ (पुण्य) प्रकृतियोंका अनुभागबंध विशुद्धपरिणामोंसे उत्कृष्ट होता है । असातावेदनीय आदि अशुभ प्रकृतियोंका अनुभागबंध क्लेशरूप परिणामोंसे उत्कृष्ट होता है । और विपरीतसे (इसऊपर कहे गयेसे उलटा करनेपर) जघन्य अनुभाग बंध होता है अर्थात् शुभप्रकृतियोंका संक्लेश (तीव्र कषायरूप) परिणामोंसे और अशुभप्रकृतियोंका विशुद्ध (मंद कषायरूप) परिणामोंकर जघन्य अनुभागबंध होता है इसप्रकार सब प्रकृतियोंका अनुभागबंध जानना ॥ १६३ ॥

आगे तीव्र अनुभागबन्धके खामीको दिखाते हैं;—

वादालं तु पसत्था विसोहिगुणमुक्कडस्स तिव्वाओ ।

वासीदि अप्पसत्था मिच्छुक्कडसंकिलिट्ठस्स ॥ १६४ ॥

द्वाचत्वारिंशत्तु प्रशस्ता विशुद्धिगुणोत्कटस्य तीव्राः ।

व्यशीतिः अप्रशस्ता मिथ्योत्कटसंक्लिष्टस्य ॥ १६४ ॥

अर्थ—पहले कहीगई ४२ पुण्य प्रकृतियां हैं उनका उत्कृष्ट अनुभागबंध विशुद्धप-
नारूप गुणकी उत्कृष्टतावाले जीवके होता है । और असातादिक ८२ अशुभप्रकृतियां
मिथ्यादृष्टि, उत्कृष्ट क्लेशरूप परिणामवाले जीवके तीव्र (उत्कृष्ट) अनुभाग लेकर
बंधती हैं ॥ १६४ ॥

आदाओ उज्जोओ मणुवतिरिक्खाउगं पसत्थासु ।

मिच्छस्य होंति तिव्वा सम्माइट्ठिस्स सेसाओ ॥ १६५ ॥

आतप उद्योत मानवतिर्यगायुष्कं प्रशस्तासु ।

मिथ्यस्य भवन्ति तीव्राः सम्यग्दृष्टेः शेषाः ॥ १६५ ॥

अर्थ—उन ४२ प्रशस्तप्रकृतियोंमेंसे आतप, उद्योत, मनुष्यायु और तिर्यंचायु इन
चारका उत्कृष्ट अनुभागबंध विशुद्धमिथ्यादृष्टिके होता है । और शेष ३८ प्रकृतियोंका
विशुद्धसम्यग्दृष्टिके तीव्र अनुभागबंध होता है ॥ १६५ ॥

मणुऔरालदुवज्जं विसुद्धसुरणिरयविरिदे तिव्वा ।

देवाउ अप्पमत्ते खवगे अवसेसवत्तीसा ॥ १६६ ॥

मनुष्यौदारिकद्विवज्जं विशुद्धसुरनिरयाविरते तीव्राः ।

देवायुरप्रमत्ते क्षपके अवशेषद्वान्निंशत्त ॥ १६६ ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टिकी ३८ प्रकृतियोंमेंसे मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वां, औदारिकशरीर तथा उसके आंगोपांग, वज्रवृषभनाराचसंहनन इन पांचोंका तीत्र अनुभागबंध अनंतानुबंधी कपायके विसंयोजन करनेमें (अप्रत्याख्यानादिरूप परिणामावनेमें) तीन करण करता हुआ अनिवृत्तिकरणके अन्तसंमयमें विशुद्ध देव वा नारकी असंयतसम्यग्दृष्टि करता है । और देवायुको अप्रमत्तगुणस्थानवाला तीत्र अनुभागसहित बांधता है । बाकी ३२ प्रकृतियोंका तीत्र अनुभागबंध क्षपकश्रेणीवाले जीवके होता है ॥ १६६ ॥

उपघादहीणतीसे अपुच्चकरणस्स उच्चजससादे ।

संमेलिदे हवंति हु खवगस्सऽवसेसवत्तीसा ॥ १६७ ॥

उपघातहीनत्रिंशत् अपूर्वकरणस्य उच्चयशःसातम् ।

संमेलिते भवन्ति हि क्षपकस्यावशेषद्वात्रिंशत् ॥ १६७ ॥

अर्थ—अपूर्वकरणके छठे भागमें ३० व्युच्छित्ति प्रकृतियोंमेंसे एक उपघात प्रकृतिको छोड़ बाकी २९ प्रकृतियां और उच्च गोत्र, यशस्कीर्ति, सातवेदनीय ये तीन प्रकृतियां, इसप्रकार शेष सब ३२ प्रकृतियां क्षपकश्रेणीवालेके पूर्व कहीं थीं वे जानना ॥ १६७ ॥

मिच्छस्संतिमणवयं णरतिरियाऊणि वामणरतिरिये ।

एइंदियआदावं थावरणामं च सुरमिच्छे ॥ १६८ ॥

मिथ्यात्वस्यान्तिमनवकं नरतिर्यगायुपी वामनरतिरश्चि ।

एकेन्द्रियमातापं स्यावरत्ताम च सुरमिथ्ये ॥ १६८ ॥

अर्थ—मिथ्यात्वगुणस्थानकी व्युच्छित्ति प्रकृतियोंमेंसे अंतकी सूक्ष्मादि नव प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबंध संक्षेप परिणामवाले मिथ्यादृष्टि मनुष्य वा तिर्यच करते हैं, और मनुष्यायु, तिर्यचायुको विशुद्ध (मंदकपाय) परिणामवाले मनुष्य वा तिर्यच उत्कृष्ट अनुभागको बांधते हैं । तथा मिथ्यादृष्टि देव संक्षेपपरिणामोंसे एकेन्द्री और स्यावर प्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभाग बांधता है, और विशुद्धपरिणामोंसे अपनी आयुके छह महीने बाकी रहनेपर आताप प्रकृतिका तीत्र अनुभागबंध करता है ॥ १६८ ॥

उज्जोवो तमतमगे सुरणारयमिच्छगे असंपत्तं ।

तिरियदुगं सेसा पुण चदुगदिमिच्छे किलिट्टे य ॥ १६९ ॥

उद्योतः तमन्तमके सुरनारफनिथ्यके अन्नंप्राप्तम् ।

तिर्यद्विकं शेषाः पुनः चतुर्गतिमिथ्ये छिट्टे च ॥ १६९ ॥

अर्थ—सातवें तमन्तमके नामा नरकमें उपगतसम्यक्त्वके सम्मुख हुआ विशुद्ध मिथ्या-दृष्टि नारकीजीव उद्योत प्रकृतिका और देव, नारकी मिथ्यादृष्टि जीव अन्नंप्राप्तनृपाटिका संहनन, तिर्यच गति, तिर्यचगत्यानुपूर्वां इन तीनोंका उत्कृष्ट अनुभाग बांधते हैं । और

बाकी रहीं ६८ प्रकृतियोंको चारोंगतिके संक्लेश परिणामवाले मिथ्यादृष्टि जीव उक्तप्र अनुभागसहित बांधते हैं ॥ १६९ ॥

अब जघन्य अनुभागबन्धके स्वामियोंको कहते हैं;—

वण्णचउक्कमसत्थं उवघादो खवगघादि पणवीसं ।

तीसाणमवरबंधो सगसगवोच्छेदटाणमिह ॥ १७० ॥

वर्णचतुष्कमशस्तमुपघातः क्षपकघाति पञ्चविंशतिः ।

त्रिंशतामवरबन्धः स्वकस्वकव्युच्छेदस्थाने ॥ १७० ॥

अर्थ—अशुभ वर्णादि चार, उपघात और क्षय होनेवाली घातियाकर्मोंकी पच्चीस अर्थात् ज्ञानावरण ५ अंतराय ५ दर्शनावरण ४ निद्रा, प्रचला, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, संज्वलन ४ इन सब ३० प्रकृतियोंका अपनी अपनी बंधव्युच्छित्तिके ठिकाने-पर जघन्य अनुभागबंध होता है ॥ १७० ॥

अणथीणतियं मिच्छं मिच्छे अयदे हु विदियकोधादी ।

देसे तदियकसाया संजमगुणपच्छिदे सोलं ॥ १७१ ॥

अन-स्थानत्रयं मिथ्यात्वं मिथ्ये अयते हि द्वितीयक्रोधादयः ।

देशे तृतीयकषायाः संयमगुणप्रस्थिते षोडश ॥ १७१ ॥

अर्थ—अनंतानुबंधी कषाय ४ स्त्यानगृह्यादिक ३ मिथ्यात्व ये आठ, मिथ्यादृष्टिमें और दूसरी अप्रत्याख्यानकषाय ४ असंयतमें, तीसरी प्रत्याख्यानकषाय ४ देशसंयत (पांचवे) गुणस्थानमें; इसप्रकार १६ प्रकृतियोंको इन गुणस्थानोंमें जो संयमगुणके धारनेको सन्मुख हुआ है ऐसा विशुद्ध परिणामवाला जीव जघन्य अनुभागसहित बांधता है ॥ १७१ ॥

आहारमप्पमत्ते प्रमत्तसुद्धे य अरदिसोगाणं ।

णरतिरिये सुहुमतियं विचलं वेगुव्वच्छकाओ ॥ १७२ ॥

आहारमप्रमत्ते प्रमत्तसुद्धे च अरतिशोकयोः ।

नरतिरश्चि सूक्ष्मत्रयं विकलं वैगूर्वषट्कम् ॥ १७२ ॥

अर्थ—आहारकशरीर और आहारक आंगोपांग ये दो प्रकृतियां शुभ होनेसे प्रमत्त गुणस्थानके सन्मुख हुए संक्लेशपरिणामवाले अप्रमत्तगुणस्थानवालेके तथा अरति, शोक ये दो प्रकृतियां अशुभ होनेसे अप्रमत्तगुणस्थानके सन्मुख हुआ ऐसे विशुद्ध प्रमत्तगुणस्थानवर्ती जीवके जघन्य अनुभागसहित बंधती हैं । और सूक्ष्मादि तीन, विकल तीन, देवगति आदि वैक्रियिक छहका समूह ये सोलह प्रकृतियां मनुष्य अथवा तिर्यंचके जघन्य अनुभागसहित बंधती हैं ॥ १७२ ॥

सुरणिरये उज्जोवोरालहुगं तमतममिह तिरियदुगं ।

णीचं च तिगदिमज्झिसपरिणामे थावरेयक्खं ॥ १७३ ॥

सुरनिरये उद्योतौरालद्विकं तमस्तमसि तिर्यग्द्विकम् ।

नीचं च त्रिगतिमध्यमपरिणामे स्थावरैकाक्षम् ॥ १७३ ॥

अर्थ—उद्योत, औदारिक दो—ये तीन देव नारकीके, सातवें तमस्तमकनरकमें तिर्य-
गतिका जोड़ा, नीचगोत्र ये तीन और स्थावर, एकेन्द्री ये दो प्रकृतियां नारकीके विना
तीनगतिवाले मध्यमपरिणामी जीवोंके जघन्य अनुभागसहित बंधती हैं ॥ १७३ ॥

सोहम्मोत्ति य तावं तित्थयरं अविरदे मणुस्सम्हि ।

चदुगदिवामकिलिट्ठे पण्णरस दुवे विसोहीये ॥ १७४ ॥

सौधर्म इति च आतपं तीर्थकरमविरते मनुष्ये ।

चतुर्गतिवामक्खिट्ठे पञ्चदश द्वे विशुद्धे ॥ १७४ ॥

अर्थ—भवनत्रिकसे लेकर सौधर्मद्विक तक अर्थात् सौधर्म ऐशाननामक पहले दूसरे
सर्वके संकेशपरिणामी देवोंके आतप प्रकृति, तथा नरक जानेको संमुख हुए अविरतगुणस्था-
नवर्ती मनुष्यके तीर्थकर प्रकृति, चारों गतिके संकेशपरिणामी मिथ्यादृष्टि जीवोंके १५
प्रकृतियां, और चारों गतिके विशुद्ध परिणामी जीवोंके दो प्रकृतियां, जघन्य अनुभाग-
सहित बंधती हैं ॥ १७४ ॥

अब उन १५ तथा दो प्रकृतियोंके नाम कहते हैं;—

परघाददुगं तेजदु तसवण्णचउक्क णिमिणपंचिंदी ।

अगुरुलहुं च किलिट्ठे इत्थिणउंसं विसोहीये ॥ १७५ ॥

परघातद्विकं तेजद्वि त्रसवर्णचतुष्कं निर्माणपञ्चेन्द्रियम् ।

अगुरुलघु च क्खिट्ठे खीनपुंसकं विशुद्धे ॥ १७५ ॥

अर्थ—परघात, उश्वास ये दो, तैजसद्विक, त्रसादि चार, शुभ वर्णादिचार, निर्माण,
पंचेद्री और अगुरुलघु ये १५ प्रकृतियां संकेशपरिणामी जीवकी तथा खीवेद, नपुंसकवेद
ये दो विशुद्धपरिणामी जीवकी जानना ॥ १७५ ॥

सम्मो वा मिच्छो वा अट्ट अपरियत्तमज्झिमो य जदि ।

परियत्तमाणमज्झिममिच्छाइट्ठी दु तेवीसं ॥ १७६ ॥

सम्यग्वा मिथ्यो वा अष्ट अपरिवर्तमध्यमश्च यदि ।

परिवर्तमानमध्यममिथ्यादृष्टिस्तु त्रयोविंशतिः ॥ १७६ ॥

अर्थ—आगेकी गाथामें ३१ प्रकृति कहेंगे उनमेंसे पहली आठ प्रकृतियोंको अपरि-
वर्तमान मध्यमपरिणामवाला सम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि जीव जघन्य अनुभाग सहित

१ जो समय बढ़ते ही जावें अथवा घटते ही जावें ऐसे परिणाम अपरिवर्तमान कहे जाते हैं । जो
कि उलटे (पीछे) नहीं आते, उनमें मध्यम परिणामोंको अपरिवर्तमानमध्यम कहते हैं ।

बांधता है । और शेष (बांकी) २३ प्रकृतियोंको परिवर्तमानमध्यमपरिणामी मिथ्या-दृष्टि जीवही जघन्य अनुभागसहित बांधता है ॥ १७६ ॥

अब उन ३१ प्रकृतियोंको गिनाते हैं;—

थिरसुहजससाददुगं उभये मिच्छेव उच्चसंटाणं ।

संहदिगमणं णरसुरसुभगादेजाण जुम्मं च ॥ १७७ ॥

स्थिरशुभयशस्सातद्विकमुभयस्मिन् मिथ्ये एव उच्चसंस्थानम् ।

संहतिगमनं नरसुरसुभगादेयानां युग्मं च ॥ १७७ ॥

अर्थ—स्थिर, शुभ, यशस्कीर्ति, सातावेदनीय इन चारोंका जोड़ा अर्थात् स्थिर १ अस्थिरादि आठ प्रकृतियां सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि इन दोनोंके जघन्य अनुभाग (कर्मोका रस) सहित बांधती हैं, और उच्च गोत्र, ६ संस्थान, ६ संहनन, विहायोगतिका जोड़ा, मनुष्यगति-देवगति-सुभग-आदेय इन चारोंका जोड़ा सब मिलकर २३ प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबंध मिथ्यादृष्टिके ही होता है ॥ १७७ ॥

आगे मूलप्रकृतियोंके उत्कृष्ट आदि अनुभागके सादि आदिक भेद कहते हैं;—

घादीणं अजहण्णोऽणुक्कस्सो वेयणीयणामाणं ।

अजहण्णमणुक्कस्सो गोदे चदुधा दुधा सेसा ॥ १७८ ॥

घातिनामजघन्योऽनुत्कृष्टो वेदनीयनाम्नोः ।

अजघन्य अनुत्कृष्टो गोत्रे चतुर्धा द्विधा शेषाः ॥ १७८ ॥

अर्थ—चारों घातियाकर्मोका अजघन्य अनुभागबंध, वेदनीय और नामकर्मका अनुत्कृष्ट अनुभागबंध, और गोत्रकर्मका अजघन्य तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबंध, इन सबके सादि आदिक चार २ भेद हैं; और बाकीके चारों घातिया कर्मोके अजघन्यकेविना तीन भेद, वेदनीयके तथा नामके अनुत्कृष्टकेसिवाय तीन भेद, गोत्रकर्मके अजघन्य तथा अनुत्कृष्टविना दो भेद इन सबके सादि और अध्रुव दोही भेद हैं ॥ १७८ ॥

अब प्रशस्तादि ध्रुवप्रकृतियोंके जघन्यादि संभव भेदोंके सादि आदिक भेद कहते हैं;—

सत्थाणं ध्रुवियाणमणुक्कस्ससत्थगाण ध्रुवियाणं ।

अजहण्णं च य चदुधा सेसा सेसाणयं च दुधा ॥ १७९ ॥

शस्तानां ध्रुवाणामनुत्कृष्ट अशस्तकानां ध्रुवाणाम् ।

अजघन्यश्च च चतुर्धा शेषाः शेषाणां च द्वेषा ॥ १७९ ॥

अर्थ—ध्रुवप्रकृतियोंमें तैजस आदि आठ शुभप्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबंधके, मतिज्ञानावरणादि अशुभध्रुवप्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबंधके सादि आदिक चारों भेद हैं। बाकी ध्रुवप्रकृतियोंके जघन्यादि तीन भेद तथा ७३ अध्रुवप्रकृतियोंके जघन्यादि चारों भेद इन सबके सादि और अध्रुव ये दोही भेद हैं ॥ १७९ ॥

आगे अनुभागबंधका लक्षण प्रथम घातियाकर्मोंमें दिखाते हैं;—

सत्ती य लदादारुअट्टीसेलोवमाहु घादीणं ।

दारुअणंतिमभागोत्ति देसघादी तदो सव्वं ॥ १८० ॥

शक्तिश्च लतादारुअस्थिशैलोपमा आहुः घातिनाम् ।

दार्वनन्तिमभाग इति देशघाति ततः सर्वम् ॥ १८० ॥

अर्थ—घातियाकर्मोंकी फल देनेकी शक्ति (स्पर्द्धक) लता (वेलि) काठ, हड्डी और पत्थरके समान समझना अर्थात् क्रमसे अधिक २ कठोरपना समझना । तथा दारुभागका अनंतवां भागतक शक्तिरूप स्पर्द्धक देशघाती हैं । और शेष बहुभागसे लेकर शैलभाग तक स्पर्द्धक सर्वघाती हैं, अर्थात् इनके उदय होनेपर आत्माके गुण प्रगट नहीं होते ॥ १८० ॥

अब मिथ्यात्वप्रकृतिमें विशेषता दिखाते हैं;—

देसोत्ति हवे सम्मं तत्तो दारुअणंतिमे मिस्सं ।

सेसा अणंतभागा अट्टिसिलाफडया मिच्छे ॥ १८१ ॥

देश इति भवेत् सम्यक्त्वं ततः दार्वनन्तिमे मिश्रम् ।

शेषा अनन्तभागा अस्थिशिलास्पर्द्धका मिथ्यात्वे ॥ १८१ ॥

अर्थ—मिथ्यात्वप्रकृतिके लताभागसे दारु भागके अनंतवें भागतक देशघाति स्पर्द्धक सम्यक्त्वप्रकृतिके हैं, तथा दारुभागके अनंत बहुभागके अनंतमें भागप्रमाण जुदीजाति-केही सर्वघातियास्पर्द्धक मिश्र प्रकृतिके जानना । और शेष अनंत बहुभाग तथा अस्थि-भाग, शैलभागरूप स्पर्द्धक मिथ्यात्वप्रकृतिके जानना ॥ १८१ ॥

आवरणदेसघादंतरायसंज्वलणपुरिससत्तरसं ।

चदुविधभावपरिणदा तिविधा भावा हु सेसाणं ॥ १८२ ॥

आवरणदेशघात्यन्तरायसंज्वलनपुरुषसप्तदश ।

चतुर्विधभावपरिणताः त्रिविधा भावा हि शेषाणाम् ॥ १८२ ॥

अर्थ—आवरणोंमें देशघातिकी ७ प्रकृतियां, अंतराय ५, संज्वलन ४, पुरुषवेद ये १७ प्रकृतियां शैल आदिक चारोंतरहके भावरूप परिणमन करती हैं । और वाकी सब प्रकृतियोंके शैल आदि तीन तरहके परिणमन होते हैं केवल लतारूप परिणमन नहीं होता ॥ १८२ ॥

आगे शेष अघातिया कर्मोंकी प्रकृतियोंको कहते हैं;—

अवसेसा पयडीओ अघादिया घादियाण पडिभागा ।

ता एव पुण्णपाचा सेसा पाचा मुणेयव्वा ॥ १८३ ॥

अवशेषाः प्रकृतयः अघातिका घातिकानां प्रतिभागाः ।

ता एव पुण्यपापाः शेषाः पापा मन्तव्याः ॥ १८३ ॥

अर्थ—शेष अघातियां कर्मोकी प्रकृतियां घातियाकर्मोकी तरह प्रतिभागसहित जाननी अर्थात् तीन भावरूप परिणमती हैं, और वेही पुण्यरूप तथा पापरूप होती हैं तथा बाकी-बाकी घातियाकर्मोकी सब प्रकृतियां पापरूप ही हैं ॥ १८३ ॥

अब प्रशस्त तथा अप्रशस्तरूप अघातिया कर्मोकी शक्ति (स्पर्द्धक) हैं उनको दूसरे नामसे कहते हैं;—

गुडखंडसकरामियसरिसा सत्था हु णिंवकंजीरा ।

विसहालाहलसरिसाऽसत्था हु अघादिपडिभागा ॥ १८४ ॥

गुडखण्डशर्करामृतसदृशाः शस्ता हि निम्बकाञ्जीराः ।

विषहालाहलसदृशा अशस्ता हि अघातिप्रतिभागाः ॥ १८४ ॥

अर्थ—अघातियाकर्मोंमें प्रशस्तप्रकृतियोंके शक्तिभेद गुड, खांड, मिथ्री और अमृतके समान जानने । और अप्रशस्त प्रकृतियोंके नींब, कांजीर, विष, हालाहलके समान शक्तिभेद (स्पर्द्धक) जानना अर्थात् दोनों ही सांसारिक सुख-दुःखके कारण समझना ॥ १८४ ॥ इसप्रकार अनुभागबंधका स्वरूप कहा ॥

अब प्रदेशबंधको ३३ गाथाओंमें कहते हैं;—

एयक्खेतोगाढं सव्वप्रदेसेहिं कम्मणो जोग्गं ।

बंधदि सगहेदूहि य अणादियं सादियं उभयं ॥ १८५ ॥

एकक्षेत्रावगाढं सर्वप्रदेशैः कर्मणो योग्यम् ।

बध्नाति स्वकहेतुभिश्च अनादिकं सादिकमुभयम् ॥ १८५ ॥

अर्थ—जघन्य अवगाहनारूप एक क्षेत्रमें स्थित और कर्मरूप परिणमनेके योग्य अनादि अथवा सादि अथवा दोनों स्वरूप जो पुद्गलद्रव्य है उसको यह जीव अपने सब प्रदेशोंसे मिथ्यात्वादिकके निमित्तसे बांधता है, अर्थात् कर्मरूपपुद्गलोंको आत्माके प्रदेशोंके साथ संबंध होना प्रदेशबंध है ॥ यहांपर सूक्ष्मनिगोदजीवकी घनांगुलके असंख्यातवें भाग अवगाहना (जगह) को एक क्षेत्र जानना ॥ १८५ ॥

एयसरीरोगाहियमेयक्खेतं अणेयक्खेतं तु ।

अवसेसल्लोयक्खेतं खेत्तणुसारिट्ठियं रूवी ॥ १८६ ॥

एकशरीरावगाहितमेकक्षेत्रमनेकक्षेत्रं तु ।

अवशेषलोकक्षेत्रं क्षेत्रानुसारिस्थितं रूपि ॥ १८६ ॥

अर्थ—एक शरीरसे रूकी हुई जगहको एक क्षेत्र कहते हैं, और बाकी सब लोकके क्षेत्रको अनेक क्षेत्र कहते हैं । तथा अपने २ क्षेत्रके अनुसार ठहरे हुए पुद्गलद्रव्यका

प्रमाण त्रैराशिकसे समझलेना । यहांपर जघन्यशरीरही एक शरीर लेना क्योंकि निगोद-शरीरवाले जीव बहुत हैं । इसकारण मुख्यतासे घनांगुलके असंख्यातवें भाग एक क्षेत्र हुआ ॥ १८६ ॥

एयाणेयक्खेत्तट्टियरूविअणंतिमं हवे जोग्गं ।

अवसेसं तु अजोग्गं सादि अणादी हवे तत्थ ॥ १८७ ॥

एकानेकक्षेत्रस्थितरूप्यनन्तिमं भवेत् योग्यम् ।

अवशेषं तु अयोग्यं सादि अनादि भवेत् तत्र ॥ १८७ ॥

अर्थ—एक तथा अनेक क्षेत्रोंमें ठहरा हुआ जो पुद्गलद्रव्य उसके अनंतवें भाग पुद्गल-परमाणुओंका समूह कर्मरूप होने योग्य है, और बाकी अनंत बहुभाग प्रमाण कर्मरूप होनेके अयोग्य है । इसप्रकार एक क्षेत्रस्थित योग्य १ एक क्षेत्रस्थित अयोग्य २ अनेक क्षेत्रस्थित योग्य ३ अनेक क्षेत्रस्थित अयोग्य ४ ये चार भेद हुए । इन चारोंमें भी एक एकके सादि तथा अनादि भेद जानना ॥ १८७ ॥

अब सादिआदिके प्रमाणको कहते हैं;—

जेष्ठे समयप्रवद्धे अतीतकाले हृदेण सव्वेण ।

जीवेण हृदे सव्वं सादी होदित्ति णिद्धिट्ठं ॥ १८८ ॥

ज्येष्ठे समयप्रवद्धे अतीतकालेन हृतेन सर्वेण ।

जीवेन हृते सर्वं सादि भवतीति निर्दिष्टम् ॥ १८८ ॥

अर्थ—उत्कृष्ट योगोंके परिणमनसे उपार्जन (पैदा) किया जो उत्कृष्ट समय प्रवद्धका प्रमाण उसको अतीत कालके समयोंसे गुणाकरै । फिर जो प्रमाण आवै उसे सब जीवराशिसे गुणा करनेपर सब जीवोंके सादि द्रव्यका प्रमाण होता है ॥ १८८ ॥

आगे पूर्व कहेगये भेदोंमें सादिद्रव्यका प्रमाण कहते हैं;—

सगसगखेत्तगयस्स य अणंतिमं जोग्गदव्वगयसादी ।

सेसं अजोग्गसंगयसादी होदित्ति णिद्धिट्ठं ॥ १८९ ॥

स्वकस्वकक्षेत्रगतस्य च अनन्तिमं योग्यद्रव्यगतसादि ।

शेषमयोग्यसंगतसादि भवतीति निर्दिष्टम् ॥ १८९ ॥

अर्थ—अपने २ एक तथा अनेक क्षेत्रमें रहनेवाले पुद्गल द्रव्यके अनंतवें भाग योग्य सादि द्रव्य है, और इससे बाकी अनंत बहुभाग अयोग्यसादि द्रव्य है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ १८९ ॥

अब अनादि द्रव्यका प्रमाण कहते हैं;—

सगसगसादिविहीणे जोग्गाजोग्गे य होदि णियमेण ।
जोग्गाजोग्गाणं पुण अणादिद्व्याण परिमाणं ॥ १९० ॥

स्वकस्वकसादिविहीने योग्यायोग्ये च भवति नियमेन ।

योग्यायोग्यानां पुनः अनादिद्रव्याणां परिमाणम् ॥ १९० ॥

अर्थ—एक क्षेत्रमें स्थित योग्य, अयोग्य द्रव्य तथा अनेक क्षेत्रमें मौजूद योग्य वा अयोग्य द्रव्यका जो परिमाण है उसमें अपना २ सादि द्रव्यका प्रमाण घटानेसे जो वचै वह क्रमसे एक क्षेत्रस्थित योग्य अनादि द्रव्यका, एक क्षेत्रस्थित अयोग्य अनादि द्रव्यका, अनेकक्षेत्रस्थित योग्य अनादि द्रव्यका, अनेक क्षेत्रस्थित अयोग्य अनादि द्रव्यका परिमाण जानना ॥

भावार्थ;—यह जीव मिथ्यात्वादिकके निमित्तसे समय संमय प्रति कर्मरूप परिणमने योग्य समयप्रबद्ध प्रमाण परमाणुओंको ग्रहणकर कर्मरूप परिणमाता है, वहां किसी समय तो पहले ग्रहण किये जो सादि द्रव्यरूप परिमाण हैं उनकाही ग्रहण करता है, किसी समयमें अभीतक ग्रहण करनेमें नहीं आये ऐसे अनादि द्रव्यरूप परमाणुओंको ग्रहण करता है ॥ १९० ॥

आगे समयप्रबद्धका प्रमाण कहते हैं;—

सयलरसरुवगंधेहिं परिणदं चरमचदुहिं फासेहिं ।

सिद्धादोऽभव्वादोऽणंतिमभागं गुणं दवं ॥ १९१ ॥

सकलरसरुपगन्धैः परिणतं चरमचतुर्भिः स्पर्शैः ।

सिद्धाद्भव्यादनन्तिमभागं गुणं द्रव्यम् ॥ १९१ ॥

अर्थ—वह “ समयप्रबद्ध ” सब पांच प्रकार रस, पांच प्रकार वर्ण, दो प्रकार गंध तथा शीतादि चार अंतके स्पर्श इन गुणोंकर सहित परिणमता हुआ, सिद्धराशिके अनंतर्वे भाग अथवा अभव्य राशिसे अनंतगुणा कर्मरूप पुद्गलद्रव्य जानना ॥ १९१ ॥

वह समय प्रबद्ध एक समयमें ग्रहण किया हुआ आठ मूलप्रकृतिरूप परिणमता है उस जगह एक एक मूलप्रकृतिका वटवारा जिसतरह होता है उस तरह कहते हैं;—

आउगभागो थोवो णामागोदे समो तदो अहियो ।

घादितियेवि य तत्तो मोहे तत्तो तदो तदिये ॥ १९२ ॥

आयुष्कभागः स्तोकः नामगोत्रे समः ततः अधिकः ।

घातित्रयेपि च ततः मोहे ततः ततः तृतीये ॥ १९२ ॥

अर्थ—सब मूल प्रकृतियोंमें आयुर्कर्मका हिस्सा थोड़ा है, नाम और गोत्रकर्मका हिस्सा आपसमें समान है तौभी आयुर्कर्मके वाँटसे अधिक है, अन्तराय—दर्शनावरण—

ज्ञानावरण इन तीनघातिया कर्मोंका भाग आपसमें समान है तौभी नामगोत्रके भागसे अधिक है । इससे अधिक मोहनीय कर्मका भाग है तथा मोहनीयसेभी अधिक वेदनीय कर्मका भाग है । जहां जितने कर्मोंका बंध हो वहां उतनेही कर्मोंका वांट करलेना ॥ १९२ ॥

आगे वेदनीयकर्मका अधिक भाग होनेमें कारण बतलाते हैं;—

सुहृदुखणिमित्तादो बहुणिज्जरगोत्ति वेयणीयस्स ।

सवेहिंतो बहुगं दवं होदित्ति णिद्धिट्ठं ॥ १९३ ॥

सुखदुःखनिमित्तात् बहुनिर्जरक इति वेदनीयस्य ।

सर्वेभ्यः बहुकं द्रव्यं भवतीति निर्दिष्टम् ॥ १९३ ॥

अर्थ—वेदनीयकर्म सुखदुःखका कारण है इसीलिये इसकी निर्जरा बहुत होती है । इसवास्ते सब कर्मोंसे बहुत द्रव्य इस वेदनीयका जिनेन्द्र भगवानने कहा है ॥ १९३ ॥

आगे अन्यकर्मोंका द्रव्यविभाग स्थितिके अनुसार दिखाते हैं;—

सेसाणं पयडीणं ठिदिपडिभागेण होदि दवं तु ।

आवलिअसंखभागो पडिभागो होदि णियमेण ॥ १९४ ॥

शेषाणां प्रकृतीनां स्थितिप्रतिभागेन भवति द्रव्यं तु ।

आवल्यसंख्यभागः प्रतिभागो भवति नियमेन ॥ १९४ ॥

अर्थ—वेदनीयके सिवाय बाकी सब मूलप्रकृतियोंके द्रव्यका स्थितिके अनुसार बटवारा होता है । जिसकी स्थिति अधिक है उसका अधिक द्रव्य हिस्सामें होता है । कमको कम तथा समानस्थितिवालेको समान जानना । इनके वांट करनेमें प्रतिभागहार आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण नियमसे समझना ॥ १९४ ॥

अब विभाग (हिस्सा) होनेका क्रम दिखाते हैं;—

बहुभागे समभागो अट्टण्हं होदि एकभागमिह ।

उत्तकमो तत्थवि बहुभागो बहुगस्स देओ दु ॥ १९५ ॥

बहुभागे समभागः अष्टानां भवति एकभागे ।

उक्तक्रमः तत्रापि बहुभागो बहुकस्य देयस्तु ॥ १९५ ॥

अर्थ—इन आठ प्रकृतियोंको प्रतिभाग करके बहुभाग तो समान भाग करके देना, और वचेहुए एक भागमें पहले कहेहुए क्रमसे आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देते जाना । जो बहुत द्रव्यहो उसको बहुभाग देना ऐसा अंततक प्रतिभाग (भागमेंसे भाग) करते जाना ॥ १९५ ॥

अब उत्तर प्रकृतियोंमें बटवारा (हिस्सा) होनेका क्रम दिखाते हैं;—

उत्तरपयडीसु पुणो मोहावरणा हवन्ति हीणकमा ।

अहियकमा पुण णामाविग्घा य ण भंजणं सेसे ॥ १९६ ॥

उत्तरप्रकृतिषु पुनः मोहावरणा भवन्ति हीनक्रमाः ।

अधिकक्रमाः पुनः नामविघ्नाश्च न भञ्जनं शेषे ॥ १९६ ॥

अर्थ—उत्तर प्रकृतियोंमें तो मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरणके भेदोंमें क्रमसे हीन २ द्रव्य है, और नामकर्म—अंतराय कर्मके भेदोंमें क्रमसे अधिक २ है, तथा बाकी वचे वेदनीय-गोत्र-आयुर्कर्म इन तीनोंके भेदोंमें बटवारा नहीं होता क्योंकि इनकी एक एकही प्रकृति एक कालमें बंधती है । जैसे वेदनीयमें साताका बंध होवै या असाताका बंध होवै परंतु दोनोंका एक साथ बंध नहीं होता । इसकारण मूलप्रकृतिके द्रव्यके प्रमाण इन तीनोंमें द्रव्य जानना ॥ १९६ ॥

आगे घातिया कर्मोंमें सर्वघाती तथा देशघातीका बटवारा कहते हैं;—

सच्चावरणं दच्चं अणंतभागो ढु मूलपयडीणं ।

सेसा अणंतभागा देसावरणं हवे दच्चं ॥ १९७ ॥

सर्वावरणं द्रव्यमनन्तभागस्तु मूलप्रकृतीनाम् ।

शेषा अनन्तभागा देशावरणं भवेत् द्रव्यम् ॥ १९७ ॥

अर्थ—ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय इन तीन मूल प्रकृतियोंके अपने २ द्रव्यमें यथायोग्य अनंतका भाग देनेसे एक भाग सर्वघातीका द्रव्य होता है । और बाकी अनंत बहुभागप्रमाण द्रव्य देशघाती प्रकृतियोंका कहा है ॥ १९७ ॥

अब सर्वघाती द्रव्यके प्रमाण निकालनेकेलिये प्रतिभागहारका प्रमाण कहते हैं;—

देशावरणणोण्णञ्चत्थं तु अणंतसंखमेत्तं खु ।

सच्चावरणधणट्ठं पडिभागो होदि घादीणं ॥ १९८ ॥

देशावरणान्योन्याभ्यस्तं तु अनन्तसंख्यामात्रं खलु ।

सर्वावरणधनार्थं प्रतिभागो भवति घातिनाम् ॥ १९८ ॥

अर्थ—चार ज्ञानावरणादि देशघाती प्रकृतियोंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिभी अनंतसंख्या प्रमाण है । वह राशि सर्वघाती प्रकृतियोंके द्रव्य प्रमाण लानेकेलिये घातिया कर्मोंका प्रतिभाग जानना ॥ १९८ ॥

आगे सर्वघाती, देशघाती द्रव्यका विशेष विभाग (हिस्सा) दिखाते हैं;—

सच्चावरणं दच्चं विभंजणिज्जं तु उभयपयडीसु ।

देसावरणं दच्चं देसावरणेसु णेविदरे ॥ १९९ ॥

सर्वावरणं द्रव्यं विभञ्जनीयं तु उभयप्रकृतिषु ।
देशावरणं द्रव्यं देशावरणेषु नैवेतरस्मिन् ॥ १९९ ॥

अर्थ—सर्वघाती द्रव्यका सर्वघाती देशघाती दोनों प्रकृतियोंमें विभाग करदेना । देशघाती द्रव्यका विभाग देशघातीमें देना । केवल ज्ञानावरणादि सर्वघातीया प्रकृतियोंमें नहीं देना ॥ १९९ ॥

आगे उत्तर प्रकृतियोंमें विभाग दिखाते हैं;—

बहुभागे समभागो बंधाणं होदि एकभागम्हि ।
उत्तकमो तत्थवि बहुभागे बहुगस्स देओ दु ॥ २०० ॥
बहुभागे समभागो बन्धानां भवति एकभागे ।
उत्तक्रमः तत्रापि बहुभागः बहुकस्य देयस्तु ॥ २०० ॥

अर्थ—जिनका एक समयही बंध हो उन प्रकृतियोंमें अपने २ पिंड द्रव्यको आवलीका असंख्यातवें भागका भाग देनेसे बहुभागका तो बराबर बांटकर अपनी उत्तर प्रकृतियोंमें समान द्रव्य देना । और शेष एक भागमें पूर्व कहे क्रमसे भाग करके बहुभाग बहुत द्रव्यवालेको देना ॥ २०० ॥

यही बात दिखाते हैं;—

घादितियाणं सगसगसव्वावरणीयसव्वद्वं तु ।
उत्तकमेण य देयं विवरीयं णामविग्घाणं ॥ २०१ ॥
घातित्रयाणां स्वकस्वकसर्वावरणीयसर्वद्रव्यं तु ।
उत्तक्रमेण च देयं विपरीतं नामविघ्नानाम् ॥ २०१ ॥

अर्थ—ज्ञानावरण—दर्शनावरण—मोहनीय इन घातिया कर्मोंका अपना २ सर्वघाती द्रव्य प्रकृतियोंके क्रमसे घटता घटता देना । और नाम तथा अंतराय इनकी प्रकृतियोंका द्रव्य विपरीत अर्थात् बढ़ता बढ़ता अंतसे लेकर आदि प्रकृति पर्यन्त देना ॥ २०१ ॥

आगे मोहनीयकर्ममें विशेषता दिखाते हैं;—

मोहे मिच्छत्तादीसत्तरसण्हं तु दिज्जदे हीणं ।
संजलणाणं भागेव होदि पणणोकसायाणं ॥ २०२ ॥
मोहे मिथ्यात्वादिसप्तदशानां तु दीयते हीनम् ।
संज्वलनानां भाग इव भवति पञ्च नोकपायाणाम् ॥ २०२ ॥

अर्थ—मोहनीय कर्ममें मिथ्यात्वादिक सत्रह प्रकृतियोंको क्रमसे हीन (कम) २ द्रव्य देना, और पांच नोकपायका भाग संज्वलन कपायके भागके समान जानना ॥२०२॥

यहां पांच नोकपायका युगपत् (एक कालमें) बंध होता है इस कारण नोकपाय पांचही लिये गये हैं ।

अब इनके विभाग होनेके क्रमको दिखाते हैं;—

संजलणभागवहुभागद्वं अकसायसंगयं द्रव्यं ।

इगिभागसहितवहुभागद्वं संजलणपडिवद्वं ॥ २०३ ॥

संज्वलनभागवहुभागार्द्धमकपायसंगतं द्रव्यम् ।

एकभागसहितवहुभागार्द्धं संज्वलनप्रतिवद्वम् ॥ २०३ ॥

अर्थ—संज्वलन कपायका हिस्सा जो बहुभाग उसका आधा नोकपायका द्रव्य जानना । और एक भाग सहित आधा बहुभाग संज्वलन कपायका देशघाती संबन्धी द्रव्य है ॥२०३॥

आगे नोकपायरूप प्रकृतियोंमें विशेषता दिखाते हैं;—

तण्णोकसायभागो संबन्धपण्णोकसायपयडीसु ।

हीणक्रमो होदि तहा देसे देसावरणद्वं ॥ २०४ ॥

तन्नोकपायभागः सवन्धपञ्चनोकपायप्रकृतिपु ।

हीनक्रमो भवति तथा देशे देशावरणद्रव्यम् ॥ २०४ ॥

अर्थ—वह नोकपायके हिस्सामें आया हुआ द्रव्य एकसाथ बंधनेवाली पांच नोकपाय प्रकृतियोंमें क्रमसे हीन २ देना । और देशघाती संज्वलनकपायका देशघाती संबन्धी द्रव्य है वह युगपत् (एक कालमें) जितनी प्रकृति बँधें उनको हीनक्रमसे देना ॥२०४॥

आगे नोकपायका बंध निरंतर (हमेशा) होय तो कितने कालतक होता है यह कहते हैं;—

पुंबन्धऽद्धा अंतोमुहुत्त इत्थिम्हि हस्सज्जुगले य ।

अरदिदुगे संखगुणा णपुंसकऽद्धा विसेसहिया ॥ २०५ ॥

पुंबन्धाद्धा अन्तर्मुहूर्तः स्त्रियां हास्ययुगले च ।

अरतिद्वये संख्यगुणा नपुंसकाद्धा विशेषाधिकः ॥ २०५ ॥

अर्थ—पुरुषवेदके निरंतर बंध होनेका काल अंतर्मुहूर्त है । यह अंतर्मुहूर्त सबसे छोटा समझना । स्त्रीवेदका उससे संख्यात गुणा, हास्य और रतिका काल उससे भी संख्यात गुणा, अरति और शोकका उससे संख्यात गुणा अन्तर्मुहूर्त है और नपुंसक-वेदका काल उससे भी कुछ अधिक जानना ॥ २०५ ॥

आगे अन्तरायकी पांच प्रकृतियोंमें तथा नामके बंधस्थानोंमें कहते हैं;—

पणविग्घे विवरीयं संबन्धपिंडिदरणामठाणेवि ।

पिंडं द्रव्यं च पुणो संबन्धसगपिंडपयडीसु ॥ २०६ ॥

पञ्चविधे विपरीतं सबन्धपिण्डेतरनामस्थानेपि ।

पिण्डं द्रव्यं च पुनः सबन्धस्वकपिण्डप्रकृतिषु ॥ २०६ ॥

अर्थ—दानान्तराय आदिक पांच प्रकृतियोंमें उलटाक्रम अर्थात् अंतसे लेकर आदितक क्रम जानना । और नामकर्मके स्थानोंमें जो एकही काल बंधको प्राप्त होनेवालीं गत्यादि पिंडप्रकृति और अगुरुलघुआदि अपिंडरूप प्रकृतियोंमें भी उलटा क्रम जानना ॥ इसप्रकार प्रदेश जो परमाणु हैं उनके बंधका विधान कहा ॥ २०६ ॥

अब उत्कृष्टादि प्रदेशबंधके सादिआदि भेद मूलप्रकृतियोंमें कहते हैं;—

छण्हंपि अणुक्कस्सो पदेसबंधो दु चदुवियप्पो दु ।

सेसतिये दुवियप्पो मोहाऊणं च दुवियप्पो ॥ २०७ ॥

पण्णामपि अनुत्कृष्टः प्रदेशबन्धस्तु चतुर्विकल्पस्तु ।

शेषत्रये द्विविकल्पः मोहायुषोश्च द्विविकल्पः ॥ २०७ ॥

अर्थ—ज्ञानावरणादि छह कर्मोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबंध सादि आदिक भेदसे चार तरहका है, बाकी उत्कृष्टादि तीन बंध सादि अध्रुवके भेदसे दो तरहके हैं । और मोहनीय तथा आयुकर्मके उत्कृष्टादि चारों भेद भी सादिआदि दो तरहके हैं ॥ २०७ ॥

आगे उत्तरप्रकृतियोंमें भेद दिखाते हैं;—

तीसण्हमणुक्कस्सो उत्तरपयडीसु चउविहो बंधो ।

सेसतिये दुवियप्पो सेसचउक्केवि दुवियप्पो ॥ २०८ ॥

त्रिंशतामनुत्कृष्टः उत्तरप्रकृतिषु चतुर्विधो बन्धः ।

शेषत्रये द्विविकल्पः शेषचतुष्केपि द्विविकल्पः ॥ २०८ ॥

अर्थ—उत्तर प्रकृतियोंमें तीस प्रकृतियोंका अनुत्कृष्टबंध सादिआदिकसे चार प्रकार है । शेष उत्कृष्टादि तीनके सादि अध्रुव ये दोही भेद हैं । और शेषवर्ची ९० प्रकृतियोंका उत्कृष्टादि चार तरहका बंधभी सादिआदिक भेदसे दो तरहका है ॥ २०८ ॥

अब उन तीस प्रकृतियोंको गिनाते हैं;—

णाणंतरायदसयं दंसणल्लकं च मोहचोद्दसयं ।

तीसण्हमणुक्कस्सो पदेसबंधो चदुवियप्पो ॥ २०९ ॥

ज्ञानान्तरायदशकं दर्शनपट्टं च मोहचतुर्दशकम् ।

त्रिंशतामनुत्कृष्टः प्रदेशबन्धः चतुर्विकल्पः ॥ २०९ ॥

अर्थ—ज्ञानावरण और अंतरायकी १०, दर्शनावरणकी ६ मोहनीयकी अपत्याख्यादि १४ ये सब मिलकर ३० प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबंध चार प्रकार है ॥ २०९ ॥

आगे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होनेकी सामग्री दिखाते हैं;—

उक्कडजोगो सण्णी पज्जत्तो पयडिवंधमप्पदरो ।
कुणदि पदेसुक्कस्सं जहण्णये जाण विवरीयं ॥ २१० ॥

उत्कृष्टयोगः संज्ञी पर्याप्तः प्रकृतिवन्धाल्पतरः ।

करोति प्रदेशोत्कृष्टं जघन्यके जानीहि विपरीतम् ॥ २१० ॥

अर्थ—जो जीव उत्कृष्ट योगोंकर सहित, संज्ञी, पर्याप्त और थोड़ी प्रकृतियोंका बंध करनेवाला होता है, वही जीव उत्कृष्ट प्रदेशबंधको करता है । तथा जघन्य प्रदेश बंधमें इससे उलटा जानना ॥ २१० ॥

आगे मूलप्रकृतियोंके उत्कृष्टबंधका स्वामीपना गुणस्थानोंमें कहते हैं;—

आउक्कस्स पदेसं छक्कं मोहस्स णव दु टाणाणि ।
सेसाण तणुकसाओ बंधदि उक्कस्सजोगेण ॥ २११ ॥

आयुष्कस्य प्रदेशं षट्कं मोहस्य नव तु स्थानानि ।

शेषाणां तनुकषायो बध्नाति उत्कृष्टयोगेन ॥ २११ ॥

अर्थ—आयुर्कर्मका उत्कृष्ट प्रदेशबंध छः गुणस्थानोंको उलंघ सातवें गुणस्थानमें रहनेवाला करता है । मोहनीयका उत्कृष्ट प्रदेशबंध नवमें गुणस्थानवर्ती करता है । और शेष बचे ज्ञानावरणादि छह कर्मोंका उत्कृष्ट प्रदेशबंध सूक्ष्मसांपराय (कषाय) गुणस्थानवाला उत्कृष्ट योगोंका धारण करनेवाला जीव करता है ॥ यहां सब जगह उत्कृष्ट योगद्वारा बंध जानना ॥ २११ ॥

अब उत्तर प्रकृतियोंमें दिखाते हैं;—

सत्तर सुहुमसरागे पंचऽणियट्ठिम्हि देसगे तदियं ।
अयदे विदियकसायं होदि हु उक्कस्सदव्वं तु ॥ २१२ ॥
छण्णोकसायणिहापयलात्तित्थं च सम्मगो य जदी ।
सम्मो वामो तेरं णरसुरआऊ असादं तु ॥ २१३ ॥
देवचउक्कं वज्जं समचउरं सत्थगमणसुभगतियं ।
आहारमप्पमत्तो सेसपदेसुक्कडो मिच्छो ॥ २१४ ॥ विसेसयं ।

सप्तदश सूक्ष्मसरागे पञ्चानिवृत्तौ देशके तृतीयम् ।

अयते द्वितीयकषायं भवति हि उत्कृष्टद्रव्यं तु ॥ २१२ ॥

षट्कनोकषायनिद्राप्रचलातीर्थं च सम्यक् च यदि ।

सम्यग्वातः त्रयोदश नरसुरायुरसातं तु ॥ २१३ ॥

देवचतुष्कं वज्रं समचतुरस्रं शस्तगमनसुभगत्रयम् ।

आहारमप्रमत्तः शेषप्रदेशोत्कटो मिथ्यः ॥ २१४ ॥ विशेषकम् ।

अर्थ—मतिज्ञानावरणादि ५ दर्शनावरण ४ अंतराय ५ यशस्कीर्ति, ऊंचा गोत्र और सातावेदनीय इन सत्रह प्रकृतियोंका सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें उत्कृष्ट प्रदेशबंध होता है । नवमें गुणस्थानमें पुरुषवेदादि पांचका, तीसरी प्रत्याख्यानकी चौकड़ीका देशविरत नामा पांचवें गुणस्थानमें, दूसरी अप्रत्याख्यान चार कषायोंका चौथे असंयत गुणस्थानमें उत्कृष्ट प्रदेशबंध होता है ॥ २१२ ॥ और छः नोकषाय, निद्रा, प्रचला और तीर्थंकर इन नौका उत्कृष्ट प्रदेशबंध सम्यग्दृष्टि करता है । तथा मनुष्यायु, देवायु, असाता वेदनीय, देवगति आदि देवचतुष्क, वज्रर्षभनाराच संहनन, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्तविहायोगति, सुभगादि तीन, इन तेरह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबंध सम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि दोनोंही करते हैं । और आहारकद्विकका उत्कृष्ट प्रदेशबंध अप्रमत्त गुणस्थानवाला करता है । इन चौवनके विना अवशेष ६६ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबंध मिथ्यादृष्टि जीव उत्कृष्ट योगोंसे करता है ॥ २१३ ॥ २१४ ॥

आगे जघन्य प्रदेशबंधका स्वामीपना मूलप्रकृतियोंमें कहते हैं;—

सुहुमणिगोदअपज्जत्तयस्स पढमे जहण्णये जोगे ।

सत्तण्हं तु जहण्णं आउगवंधेवि आउस्स ॥ २१५ ॥

सूक्ष्मनिगोदापर्याप्तकस्य प्रथमे जघन्यके योगे ।

सप्तानां तु जघन्यमायुष्कवन्धेपि आयुपः ॥ २१५ ॥

अर्थ—सूक्ष्मनिगोदिया लब्धपर्याप्तकजीवके अपने पर्यायके पहलेसमयमें जघन्य योगोंसे सात मूलप्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबंध होता है । उसी जीवके आयुका बंध होनेपर आयुका भी जघन्य प्रदेशबंध होता है ॥ २१५ ॥

अब उत्तर प्रकृतियोंमें दिखाते हैं;—

घोडणजोगोऽसण्णी णिरयदुसुरणिरयआउगजहण्णं ।

अपमत्तो आहारं अयदो तित्थं च देवचऊ ॥ २१६ ॥

घोटमानयोगः असंज्ञी निरयद्विसुरनिरयायुष्कजघन्यम् ।

अप्रमत्तः आहारमयतः तीर्थं च देवचतुः ॥ २१६ ॥

अर्थ—घोटमान योगोंका धारी असंज्ञी जीव नरकद्वय, देवायु तथा नरकायुका जघन्य प्रदेशबंध करता है । और आहारकद्वयका अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती तथा चौथे असंयत गुणस्थानवाला तीर्थंकर प्रकृति और देवचतुष्क इसतरह पांच प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबंध करता है ॥ २१६ ॥

१. जिन योगस्थानोंकी श्रद्धि भी हो, हानि भी हो अथवा जैसेके तैसे भी रहें उन योगस्थानोंको घोटमानयोग कहते हैं, इनका दूसरा नाम परिणामयोगस्थान भी है ।

आगे ११ प्रकृतियोंसे वचीहुई प्रकृतियोंमें विशेषपना कहते हैं;—

चरिमअपुण्णभवत्थो त्रिविग्गहे पढमविग्गहम्मि ठिओ ।

सुहमणिगोदो वंधदि सेसाणं अवरबंधं तु ॥ २१७ ॥

चरमापूर्णभवस्थः त्रिविग्रहे प्रथमविग्रहे स्थितः ।

सूक्ष्मनिगोदो वध्नाति शेषाणामवरबन्धं तु ॥ २१७ ॥

अर्थ—छहहजार बारह अपर्याप्त (क्षुद्र) भवोंमेंसे अंतके भवमें स्थित (मौजूद), विग्रह-गतिके तीनमोड़ाओंमेंसे पहली वक्रगतिमें ठहरा हुआ जो सूक्ष्मनिगोदिया जीव है वह पहली ११ से शेषरहीं १०९ प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबंध करता है ॥ २१७ ॥

आगे प्रकृति और प्रदेशबंधके कारण जो योगस्थान हैं उनका स्वरूप, संख्या तथा स्वामियोंको ४२ गाथाओंसे कहते हैं;—

जोगट्टाणा त्रिविहा उववादेयंतवद्धिपरिणामा ।

भेदा एक्केकंपि चोद्दसभेदा पुणो त्रिविहा ॥ २१८ ॥

योगस्थानानि त्रिविधानि उपपादैकान्तवृद्धिपरिणामानि ।

भेदात् एकैकमपि चतुर्दशभेदाः पुनः त्रिविधाः ॥ २१८ ॥

अर्थ—उपपाद योगस्थान १ एकांतवृद्धि योगस्थान २ परिणाम योगस्थान ३ इन तीन भेदोंसे योगस्थान तीन प्रकार हैं । और एक २ भेदके भी १४ जीव समासकी अपेक्षा चौदह भेद हैं । तथा उन भेदोंके भी सामान्य, जघन्य और उत्कृष्टकी अपेक्षा तीन भेद हैं; उनमेंसे सामान्यकी अपेक्षा १४ भेद, सामान्य और जघन्यकी अपेक्षा २८ भेद, तथा सामान्य-जघन्य और उत्कृष्ट की अपेक्षा ४२ भेद होते हैं ॥ २१८ ॥

अब उपपाद योगस्थानका स्वरूप कहते हैं;—

उववादजोगठाणा भवादिसमयट्टियस्स अवरवरा ।

विग्गहइजुगइगमणे जीवसमासे सुण्येव्वा ॥ २१९ ॥

उपपादयोगस्थानानि भवादिसमयस्थितस्यावरवराणि ।

विग्रहर्जुगतिगमने जीवसमासे मन्तव्यानि ॥ २१९ ॥

अर्थ—पर्याय धारण करनेके पहले समयमें तिष्ठते हुए जीवके उपपाद योगस्थान होते हैं, क्योंकि “ उपपद्यते ” जीवकर पहले समयमें जो प्राप्त हो “ इति उपपादः ” वह उपपाद है—ऐसा व्याकरणसे शब्दार्थ होता है । उनमेंसे जघन्य उपपाद स्थान उस जीवके होते हैं जोकि वक्रगतिकर (वीचमें मुड़कर) नवीन पर्यायको प्राप्त होवें, और जो जीव ऋजुगतिकर अर्थात् सीधा जावें (वीचमें नहीं मुड़ें) ऐसी गतिकर नवीन पर्याय धारण करै उसके उत्कृष्ट उपपाद योगस्थान हैं । ये सब उपपाद योगस्थान चौदह जीवसमासों (भेदों) में जानलेना ॥ २१९ ॥

आगे परिणामयोगस्थानका स्वरूप दिखलाते हैं;—

परिणामजोगठाणा शरीरपज्जत्तगाडु चरिमोत्ति ।

लद्धिअपज्जत्ताणं चरिमतिभागम्हि बोधव्वा ॥ २२० ॥

परिणामयोगस्थानानि शरीरपर्याप्तकात् चरम इति ।

लब्ध्यपर्याप्तकानां चरमत्रिभागे बोद्धव्यानि ॥ २२० ॥

अर्थ—शरीरपर्याप्तिके पूर्ण होनेके समयसे लेकर आयुके अंततक परिणामयोगस्थान कहे जाते हैं । और जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई ऐसे लब्ध्यपर्याप्तक जीवके अपनी आयु (श्वासके अठारवें भाग प्रमाण)के अंतके त्रिभागके प्रथम समयसे लेकर अंतके समय तक स्थितिके सब भेदोंमें उत्कृष्ट और जघन्य दोनों प्रकारके परिणाम योगस्थान जानना ॥ २२० ॥

सगपज्जत्तीपुण्णे उवरिं सव्वत्थ जोगमुक्कस्सं ।

सव्वत्थ होदि अवरं लद्धिअपुण्णस्स जेट्ठपि ॥ २२१ ॥

स्वकपर्याप्तिपूर्णे उपरि सर्वत्र योगोत्कृष्टम् ।

सर्वत्र भवत्यवरं लब्ध्यपर्याप्तस्य ज्येष्ठमपि ॥ २२१ ॥

अर्थ—अपनी २ शरीर पर्याप्तिके पूर्ण होनेपर उससमयसे लेकर सब अपनी २ आयुके समयतक परिणामयोगस्थान उत्कृष्ट भी हैं, और जघन्य भी संभवते हैं । और लब्ध्यपर्याप्तकके अपनी स्थितिके सब भेदोंमें भी दोनों परिणामयोगस्थान हैं । सो ये सब परिणामयोगस्थान घोटमानयोग समझने क्योंकि ये घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं और जैसेके तैसे भी रहते हैं ॥ २२१ ॥

आगे एकान्तानुवृद्धि योगस्थानका स्वरूप कहते हैं;—

एयंतवद्धिठाणा उभयट्टाणाणमंतरे होंति ।

अवरवरट्टाणाओ सगकालादिम्हि अंतम्हि ॥ २२२ ॥

एकान्तवृद्धिस्थानानि उभयस्थानानामन्तरे भवन्ति ।

अवरवरस्थानानि स्वककालादौ अन्ते ॥ २२२ ॥

अर्थ—एकान्तानुवृद्धि योगस्थान, उपपाद आदि दोनों स्थानोंके बीचमें अर्थात् पर्यायधारण करनेके दूसरे समयसे लेकर एक समय कम शरीर पर्याप्तिके अंतर्मुहूर्तके अंतसमयतक होते हैं । उनमें जघन्यस्थान तो अपने कालके पहले समयमें और उत्कृष्टस्थान अंतके समयमें होता है । इसीलिये एकान्त अर्थात् नियमकर अपने समयोंमें समय समय प्रति असंख्यात गुणी अविभाग प्रतिच्छेदोंकी वृद्धि जिसमें हो वह एकान्तानुवृद्धिस्थान ऐसा नाम कहा गया है ॥ २२२ ॥

अब योगस्थानोंके अवयव (अंग) कहते हैं;—

अविभागपट्टिच्छेदो वर्गो पुण वर्गणा य फड्डयगं ।

गुणहाणीवि य जाणे ठाणं पडि होदि णियमेण ॥ २२३ ॥

अविभागप्रतिच्छेदो वर्गः पुनः वर्गणा च स्पर्धकम् ।

गुणहानिरपि च जानीहि स्थानं प्रति भवति नियमेन ॥ २२३ ॥

अर्थ—सब योगस्थान जगत् श्रेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । उनमें एक २ स्थानके प्रति अविभाग प्रतिच्छेद १ वर्ग २ वर्गणा ३ स्पर्धक ४ गुणहानि ५ ये पांच भेद होते हैं, ऐसा नियमसे जानना ॥ २२३ ॥

आगे इनका स्वरूप कहते हैं;—

पल्लासंखेज्जदिमा गुणहाणिसला हवंति इगिठाणे ।

गुणहाणिफड्डयाओ असंखभागं तु सेठीये ॥ २२४ ॥

पल्यासंख्येयिमा गुणहानिशला भवन्ति एकस्थाने ।

गुणहानिस्पर्धकानि असंख्यभागं तु श्रेण्याः ॥ २२४ ॥

अर्थ—एक योगस्थानमें गुणहानिकी शलाका (संख्या) ये पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं, यह नाना गुणहानिका प्रमाण है । और एक श्रेणामें स्पर्धक जगत्श्रेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ॥ २२४ ॥

फड्डयगे एकैके वर्गणसंखा हुं उल्लावा

एकैकवर्गणाए असंखपदरा जहण्णाओ ॥ २२५ ॥

स्पर्धके एकैके वर्गणासंख्या हि तावदालापा ।

एकैकवर्गणायामसंख्यप्रतरा हि वर्गाः ॥ २२५ ॥

अर्थ—एक २ स्पर्धकमें वर्गणाओंकी संख्या उतनीही अर्थात् जगच्छ्रेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । और एक २ वर्गणामें असंख्यात जगत्प्रतरप्रमाण वर्ग हैं ॥ २२५ ॥

एकैके पुण वर्गो असंखलोगा हवंति अविभागा ।

अविभागस्स पमाणं जहण्णउट्ठी पदेसाणं ॥ २२६ ॥

एकैके पुनः वर्गे असंख्यलोका भवन्ति अविभागाः ।

अविभागस्य प्रमाणं जघन्यवृद्धिः प्रदेशानाम् ॥ २२६ ॥

अर्थ—फिर एक २ वर्गमें असंख्यातलोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं । और अविभाग प्रतिच्छेदका प्रमाण प्रदेशोंमें जघन्य वृद्धिस्वरूप जानना ॥ भावार्थ—जिसका दूसरा भाग न हो ऐसे शक्तिके अंशको अविभागप्रतिच्छेद कहते हैं । सो यहांपर उल्टे क्रमसे कहा है इसकारण सीधा क्रम “ अविभागप्रतिच्छेदका समूह वर्ग, वर्गका समूह वर्गणा, वर्गणाका समूह स्पर्धक, स्पर्धकका समूह गुणहानि, गुणहानिका समूह स्थान ” ऐसा जानना ॥ २२६ ॥

आगे एक योगस्थानमें सब स्पर्द्धकादिकोंका प्रमाण कहते हैं;—

इगिठाणफड्डयाओ वग्गणसंखा पदेसगुणहाणी ।

सेट्ठिअसंखेज्जदिमा असंखलोगा हु अविभागा ॥ २२७ ॥

एकस्थानस्पर्द्धकानि वर्गणासंख्या प्रदेशगुणहानिः ।

श्रेण्यसंख्यातिमा असंख्यलोका हि अविभागाः ॥ २२७ ॥

अर्थ—एक योगस्थानमें सब स्पर्द्धक, सब वर्गणाओंकी संख्या और असंख्यात प्रदेशोंमें गुणहानिका आयाम (काल) इनका प्रमाण सामान्यपनेसे जगच्छ्रेणीके असंख्यातवें भाग मात्र है । क्योंकि असंख्यातके बहुत भेद हैं, इसलिये इन सबका प्रमाण पूर्वोक्त ही होता है । और एक योगस्थानमें असंख्यातलोक प्रमाण अविभागप्रतिच्छेद हैं ॥ २२७ ॥

सव्वे जीवपदेसे दिवहुगुणहाणिभाजिदे पढमा ।

उवरिं उत्तरहीणं गुणहाणिं पडि तदद्धकमं ॥ २२८ ॥

सर्वस्मिन् जीवप्रदेशे द्व्यर्धगुणहानिभाजिते प्रथमा ।

उपरि उत्तरहीनं गुणहानिं प्रति तदद्धकमः ॥ २२८ ॥

अर्थ—सब लोक प्रमाण (असंख्यात) जीवके प्रदेशोंको डेढगुणहानिका भाग देनेपर पहली गुणहानीकी पहली वर्गणा होती है । इसके बाद एक एक चय घटानेसे द्वितीयादि वर्गणाओंका प्रमाण होता है । और गुणहानि गुणहानि प्रति आधा २ प्रमाण क्रम जानना ॥ २२८ ॥

फड्डयसंखाहि गुणं जहणवग्गं तु तत्थ तत्थादी ।

विदियादिवग्गणाणं वग्गा अविभागअहियकमा ॥ २२९ ॥

स्पर्द्धकसंख्याभिः गुणो जघन्यवर्गस्तु तत्र तत्रादिः ।

द्वितीयादिवर्गणानां वर्गा अविभागाधिकक्रमाः ॥ २२९ ॥

अर्थ—जघन्य वर्गको अपने २ स्पर्द्धककी संख्यासे गुणाकरनेपर उस २ गुणहानिकी पहली वर्गणाका प्रमाण होता है । और दूसरी आदि वर्गणा क्रमसे वर्गमें एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ानेपर होती हैं ॥ २२९ ॥

इसका अधिक कथन विस्तार भयसे नहीं लिखा । इसप्रकार जघन्य योगस्थानका कथन जानना ॥

अंगुलअसंखभागप्पमाणमेत्तऽवरफड्डयावही ।

अंतरच्छकं मुच्चा अवरट्टाणादु उक्कस्सं ॥ २३० ॥

अङ्गुलासंख्यभागप्रमाणमात्रावरन्पर्द्धकवृद्धिः ।

अन्तरपदं मुत्त्वा अवरस्थानादुत्कृष्टम् ॥ २३० ॥

अर्थ—जघन्यस्थानसे लेकर उत्कृष्ट स्थान पर्यंत छह अंतरस्थानोंको छोड़कर सूच्य-गुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धकोंकी वृद्धि क्रमसे जानना अर्थात् एकस्थानसे दूसरे योग स्थानमें पूर्वोक्त प्रमाण स्पर्धक बढ़ती होते हैं । इसप्रकार तीसरे आदि स्थानोंमें भी ऐसा ही क्रम जानना ॥ २३० ॥

ऐसा होनेपर जो कुछ हुआ उसे कहते हैं;—

सरिसायामेणुवरिं सेढिअसंखेज्जभागठाणाणि ।

चडिदेकेकमपुवं फड्डयमिह जायदे चयदो ॥ २३१ ॥

सहशायामेनोपरि श्रेण्यसंख्येयभागस्थानानि

चटितैकैकमपूर्वं स्पर्द्धकमिह जायते चयतः ॥ २३१ ॥

अर्थ—सबसे जघन्य योगस्थानका समान आयामके ऊपर पहले कहे हुए प्रमाण स्थान २ प्रति वृद्धिरूप चय करते करते समानतामें एक अपूर्वस्पर्द्धक होता है । वहांपर त्रैराशिक गणितसे जगच्छ्रेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थान अधिक २ होनेपर द्वितीयादि अपूर्वस्पर्द्धक होते हैं । इसप्रकार एक गुणहानिमें जितना स्पर्द्धकोंका प्रमाण कहा गयाथा उतनेही अपूर्वस्पर्द्धक होनेपर जघन्ययोगस्थान दूना होता है । इसतरह दूने २ क्रमसे चलते २ अंतमें संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवका सबसे उत्कृष्ट योगस्थान उत्पन्न होता है । अर्थात् संज्ञी पंचेंद्रीजीवके कर्मोंके ग्रहणकरनेकी शक्ति अधिक प्रगट होती है ॥ २३१ ॥

आगे जो कथन करेंगे उसकी प्रतिज्ञा आचार्य करते हैं;—

एदेसिं ठाणाणं जीवसमासाण अवरवरविसयं ।

चउरासीदिपदेहिं अप्पाबहुगं परूवेमो ॥ २३२ ॥

एतेषां स्थानानां जीवसमासानामवरवरविषयं ।

चतुरशीतिपदैः अल्पबहुकं प्ररूपयामः ॥ २३२ ॥

अर्थ—ये जो योगस्थान कहे हैं उनमें चौदह जीव समासोंके जघन्य और उत्कृष्टकी अपेक्षा तथा उपपादादिक तीन प्रकारके योगोंकी अपेक्षा चौरासीस्थानोंसे अब थोड़ा बहुतपनेका कथन करते हैं ॥ २३२ ॥

अब उसीको दिखाते हैं,—

सुहुमगलद्धिजहण्णं तण्णिव्वत्तीजहण्णयं तत्तो ।

लद्धिअपुण्णुकस्सं वादरलद्धिस्स अवरमदो ॥ २३३ ॥

सूक्ष्मकलन्धिजघन्यं तन्निर्वृत्तिजघन्यकं ततः ।

लब्ध्यपूर्णेत्कृष्टं वादरलब्धेरवरमतः ॥ २३३ ॥

अर्थ—सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीवका जघन्यउपपादस्थान सबसे थोड़ा है । उससे सूक्ष्मनिगोदिया निर्वृत्यपर्याप्तक जीवका जघन्यउपपादस्थान पल्यके असंख्यातवें भाग गुणा

है । उससे अधिक सूक्ष्मलब्ध्यपर्याप्तका उत्कृष्ट उपपादयोगस्थान और उससे अधिक वादरलब्ध्यपर्याप्तका जघन्य उपपाद योगस्थान जानना ॥ २३३ ॥

णिवृत्तिसुहुमेष्टं वादरणिवृत्तियस्स अवरं तु ।

वादरलद्विस्स वरं वीइंदियलद्विगजहण्णं ॥ २३४ ॥

निर्वृत्तिसूक्ष्मज्येष्ठं वादरनिर्वृत्तिकस्यावरं तु ।

वादरलब्धेः वरं द्वीन्द्रियलब्धिकजघन्यम् ॥ २३४ ॥

अर्थ—फिर उससे अधिक सूक्ष्म निर्वृत्यपर्याप्तकजीवका उत्कृष्ट उपपादयोगस्थान है । उससे अधिक वादरनिर्वृत्यपर्याप्तकका जघन्ययोगस्थान है, उससे वादरलब्ध्यपर्याप्तकका उत्कृष्ट योगस्थान अधिक है, उससे अधिक दो इंद्री लब्ध्यपर्याप्तकका जघन्ययोगस्थान है ॥ २३४ ॥

वादरणिवृत्तिवरं णिवृत्तिविइंदियस्स अवरमदो ।

एवं वितिवितितिचतिच चउविमणो होदि चउविमणो ॥ २३५ ॥

वादरनिर्वृत्तिवरं निर्वृत्तिद्वीन्द्रियस्यावरमतः ।

एवं द्वित्रिद्वित्रिचत्रिच चतुःविमनो भवति चतुःविमनः ॥ २३५ ॥

अर्थ—इसके बाद उससे भी अधिक वादर एकेंद्रीनिर्वृत्यपर्याप्तकका उत्कृष्ट योगस्थान है, उससे अधिक दोइंद्री निर्वृत्यपर्याप्तकका जघन्ययोगस्थान जानना । और इसी तरह दो इन्द्री लब्धिअपर्याप्तका उत्कृष्ट तथा तेइंद्री लब्ध्यपर्याप्तकका जघन्य उपपादस्थान, दो इंद्री निर्वृत्यपर्याप्तका उत्कृष्ट, ते इंद्री निर्वृत्यपर्याप्तका जघन्य, ते इंद्री लब्धिअपर्याप्तका उत्कृष्ट, चौ इंद्री लब्धि अपर्याप्तकका जघन्य, निर्वृत्यपर्याप्तक तेइंद्रीका उत्कृष्ट, निर्वृत्तिअपर्याप्तक चौइन्द्रीका जघन्य, लब्धि अपर्याप्तक चौइंद्रीका उत्कृष्ट, लब्ध्यपर्याप्तक असंज्ञी (मनरहित) पंचेन्द्रीका जघन्य, निर्वृत्ति अपर्याप्तक चौइंद्रीका उत्कृष्ट और निर्वृत्यपर्याप्तक मनरहित (असंज्ञी) पंचेन्द्रीका जघन्य उपपाद योगस्थान क्रमसे अधिक २ जानना ॥ २३५ ॥

तह य असण्णीसण्णी असण्णिसण्णस्स सण्णिववाद्दं ।

सुहुमेइंदियलद्विगअवरं एयंतवहिस्स ॥ २३६ ॥

तथा घ असंज्ञीसंज्ञी असंज्ञीसंज्ञिनः संन्युपपाद्दम् ।

सूक्ष्मैकेन्द्रियलब्धिकावरं एकांतवृद्धेः ॥ २३६ ॥

अर्थ—और इसीप्रकार उससे अधिक असंज्ञीलब्ध्यपर्याप्तकका उत्कृष्टस्थान, और संज्ञीलब्ध्यपर्याप्तकका जघन्यस्थान, उससे अधिक असंज्ञी निर्वृत्यपर्याप्तकका उत्कृष्ट और संज्ञीनिर्वृत्यपर्याप्तकका जघन्यस्थान, उससे संज्ञी पंचेन्द्री लब्ध्यपर्याप्तकका उत्कृष्ट उपपादयोगस्थान पत्यके असंख्यातवेनाग गुणा है । और उससे अधिकगुणा सूक्ष्म एकेंद्री लब्ध्यपर्याप्तकका जघन्य एकांतानुवृद्धियोगस्थान जानना ॥ २३६ ॥

आगे कहेहुए चार प्रकारके बंधोंके कारण दिखाते हैं;—

जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होति ।

अपरिणदुच्छिण्णेषु य बंधट्टिदिकारणं णत्थि ॥ २५७ ॥

योगात्प्रकृतिप्रदेशौ स्थित्यनुभागौ कषायतो भवतः ।

अपरिणतोच्छिन्नेषु च बन्धः स्थितिकारणं नास्ति ॥ २५७ ॥

अर्थ—प्रकृति और प्रदेशबंध ये दोनोंही, योगोंके निमित्तसे होते हैं । स्थिति और अनुभागबंध कषायके निमित्तसे होते हैं । जिसके जघन्य एक समय तथा उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्तकालप्रमाण कषायस्थान अपरिणत अर्थात् उदयरूप नहीं ऐसे उपशांतकषाय तथा कषायस्थान जिसके क्षीण होगये हैं ऐसे क्षीणकषाय और सयोगकेवलीके तत्काल (एव समयका) बंध स्थितिबंधका कारण नहीं है । “ च ” से अयोगकेवलीके चारोंबंधके कारण योग और कषाय ये दोनोंही नहीं हैं ॥ २५७ ॥

आगे योगस्थान, प्रकृतिसंग्रह, स्थितिभेद और स्थितिबंधाध्यवसायस्थान, अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान और कर्मोंके प्रदेशोंका अल्पबहुतपना तीनगाथाओंसे दिखाते हैं;—

सेट्ठिअसंखेज्जदिमा जोगट्टाणाणि होति सव्वाणि ।

तेहिं असंखेज्जगुणो पयडीणं संगहो सव्वो ॥ २५८ ॥

श्रेण्यसंख्येयिमानि योगस्थानानि भवन्ति सर्वाणि ।

तैरसंख्येयगुणः प्रकृतीनां संग्रहः सर्वः ॥ २५८ ॥

अर्थ—सब निरंतर वा सांतर वा दोनोंही योगस्थान जगच्छ्रेणीके असंख्यात भागप्रमाण हैं । और उनसे असंख्यातलोकगुणा सब मतिज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके समुदाय है ॥ २५८ ॥

तेहिं असंखेज्जगुणा ठिदिअवसेसा हवंति पयडीणं ।

ठिदिबंधज्जवसाणट्टाणा तत्तो असंखगुणा ॥ २५९ ॥

तैरसंख्येयगुणा स्थित्यवशेषा भवन्ति प्रकृतीनाम् ।

स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानानि तत असंख्यगुणानि ॥ २५९ ॥

अर्थ—उन प्रकृतिसंग्रहोंसे प्रकृतियोंकी स्थितिके भेद असंख्यातगुणे हैं । उन स्थितिके भेदोंसे असंख्यातगुणे स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान जानना । जिन परिणामोंसे स्थितिवंध हैं उन परिणामोंको स्थितिवन्धाध्यवसाय कहते हैं ॥ २५९ ॥

अणुभागाणं बंधज्जवसाणमसंखलोगगुणिदमदो ।

एत्तो अणंतगुणिदा कम्मपदेसा मुणेयव्वा ॥ २६० ॥

अनुभागानां बन्धाध्यवसायमसंख्यलोकगुणितमतः ।

एतस्मादनन्तगुणिताः कर्मप्रदेशा मन्तव्याः ॥ २६० ॥

अर्थ—इन स्थितिवंधाध्यवसायस्थानोंसे असंख्यातलोकगुणे अनुभागबंधाध्यवसाय (परिणाम) स्थान हैं । इनसे अनन्तगुणे कर्मोंके परमाणु जानने ॥ इसका विस्तार बड़ी टीकासे समझलेना ॥ २६० ॥ ऐसे प्रदेशबन्धसमाप्त हुआ । इति बंधाधिकारः ।

आगे कर्मोंके उदयका कथन आरंभ करते हैं;—

आहारं तु प्रमत्ते तित्थं केवलिणि मिस्सयं मिस्से ।

सम्मं वेदगसम्मे मिच्छदुगयदेव आणुदओ ॥ २६१ ॥

आहारं तु प्रमत्ते तीर्थं केवलिनि मिश्रकं मिश्रे ।

सम्यक् वेदकसम्ये मिथ्यद्विकायते एव आनूदयः ॥ २६१ ॥

अर्थ—आहारक शरीर व उसके आंगोपांग इन दोनों कर्मोंका उदय छठे प्रमत्त गुणस्थानमें ही होता है । तीर्थकर प्रकृतिका उदय सयोगी तथा अयोगीकेवलीके है । मिश्रदर्शनमोहनीयका उदय तीसरे मिश्रगुणस्थानमें, सम्यक्तत्वप्रकृतिका उदय क्षयोपशमसम्यग्दृष्टिके चार गुणस्थानोंमें होता है । और आनुपूर्वीकर्मका उदय मिथ्यात्व, सासादन ये दो तथा चौथा असंयतगुणस्थान इन तीनोंमेंही होता है ॥ २६१ ॥

अब फिरभी आनुपूर्वीकर्मके उदयमें विशेषता दिखाते हैं;—

णिरयं सासणसम्मो ण गच्छदित्ति य ण तस्स णिरयाणू ।

मिच्छादिसु सेसुदओ सगसगचरिमोत्ति णायव्वो ॥ २६२ ॥

निरयं सासादनसम्यो न गच्छतीति च न तस्य निरयानुः ।

मिथ्यादिषु शेषोदयः स्वकस्वकचरम इति ज्ञातव्यः ॥ २६२ ॥

अर्थ—सासादनसम्यग्दृष्टि नामके दूसरे गुणस्थानवाला नरकगतिको नहीं जाता है, इसकारण उसके नरकगत्यानुपूर्वीकर्मका उदय नहीं है । और वाकीवर्चीं सब प्रकृतियोंका उदय मिथ्यात्वादि गुणस्थानोंमें अपने २ उदयस्थानके अंतसमयतक जानना ॥ २६२ ॥

आगे गुणस्थानोंमें उदयव्युच्छित्ति, यतिवृषभाचार्यके पक्षको लेकर क्रमसे कहते हैं;—

दस चउरिगि सत्तरसं अट्ट य तह पंच चेव चउरो य ।

छ छक्कएक्कदुगदुग चोदस उगुतीस तेरसुदयविधिः ॥ २६३ ॥

दश चतुरेकं सप्तदश अष्ट च तथा पञ्च चैव चतस्रश्च ।

षट् षट्कद्विकद्विकं चतुर्दशैकोनत्रिंशत् त्रयोदशोदयविधिः ॥ २६३ ॥

अर्थ—अभेदविवक्षासे मिथ्यादृष्टि आदि चौदह गुणस्थानोंमें प्रकृतियोंकी उदयविधि अर्थात् उदयव्युच्छित्ति (कहे हुए गुणस्थानसे ऊपर उदय न होना) १०, ४, १, १७, ८, ५, ४, ६, ६, १, २, २ और १४, २९, १३ इसप्रकार क्रमसे जानना ॥ २६३ ॥

अब भूतबलिआचार्यके उपदेशकी परंपरासे दूसरी पक्ष लेकर व्युच्छित्ति कहते हैं;—

पण णवइगि सत्तरसं अड पंच च चउर छक्क छचेव ।

इगिदुग सोलस तीसं वारस उदये अजोगंता ॥ २६४ ॥

पञ्च नवैकं सप्तदशाष्ट पञ्च च चतस्रः षट्कं षट् चैव ।

एकद्विकं षोडश त्रिंशत् द्वादश उदये अयोगान्ताः ॥ २६४ ॥

अर्थ—सब प्रकृतियोंके उदयकी व्युच्छित्ति गुणस्थानोंमें क्रमसे ५, ९, १, १७, ८, ५, ४, ६, ६, १, २, १६, ३०, और १२, अयोगकेवली तक जानना ॥ २६४ ॥

आगे इन्हीं प्रकृतियोंको आठ गाथाओंसे दिखाते हैं;—

मिच्छे मिच्छादावं सुहुमतियं सासणे अणेइंदी ।

थावरवियलं मिस्से मिस्सं च य उदयवोच्छिण्णा ॥ २६५ ॥

मिथ्ये मिथ्यातपं सूक्ष्मत्रयं सासादने अनैकेन्द्रियम् ।

स्थावरविकलं मिश्रे मिश्रं च च उदयव्युच्छिन्नाः ॥ २६५ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्मादि तीन, इन पांच प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छित्ति होती है । दूसरे सासादनगुणस्थानमें अन अर्थात् अनन्तानुबंधीकी चार, एकेन्द्रिय, स्थावर, दोइन्द्रीआदि विकल तीन ये ९ प्रकृतियां उदयसे व्युच्छिन्न (विछुड़ती) हैं । तीसरे मिश्रगुणस्थानमें एक सम्यग्मिथ्यात्वकी ही उदयव्युच्छित्ति होती है, ऐसा जानना ॥ २६५ ॥

अयदे विदियकसाया वेगुव्वियछक्क णिरयदेवाऊ ।

मणुयतिरियाणुपुव्वी दुब्भगणादेज्ज अज्जसयं ॥ २६६ ॥

अयते द्वितीयकपाया वैगूर्विकपट्ठं निरयदेवायुः ।

मनुजतिर्यगानुपूर्व्ये दुर्भगानादेयमयशस्कम् ॥ २६६ ॥

अर्थ—चौथे असंयतगुणस्थानमें दूसरी अपत्याख्यानावरणकषायकी चौकड़ी, वैक्रियिकशरीरादि छह, नरकायु, देवआयु, मनुष्यगतिआनुपूर्वी, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय और अयशस्कीर्ति, इस प्रकार १७ प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छित्ति होती है ॥ २६६ ॥

देसे तदियकसाया तिरियाउज्जोवणीचतिरियगदी ।

छट्ठे आहारदुगं थीणतियं उदयवोच्छिण्णा ॥ २६७ ॥

देशे तृतीयकपाया तिर्यगायुरुद्योतनीचतिर्यग्गतिः ।

षष्टे आहारद्विकं स्त्यानत्रयमुदयव्युच्छिन्नाः ॥ २६७ ॥

अर्थ—पांचवें देशसंयतगुणस्थानमें तीसरी प्रत्याख्यानावरणकषायके चार भेद, तिर्यच आयु, उद्योत, नीचगोत्र, तिर्यचगति इन आठ प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छित्ति होती है । छठे गुणस्थानमें आहारशरीरादि दो, स्त्यानगृद्धिनिद्रादि तीन, ये पांच प्रकृतियां उदयसे व्युच्छिन्न होती हैं ॥ २६७ ॥

अप्रमत्ते सम्मत्तं अंतिमतियसंहदी यऽपुव्वम्हि ।
छचेव णोकसाया अणियट्ठीभागभागेसु ॥ २६८ ॥

अप्रमत्ते सम्यत्त्वमन्तिमत्रयसंहतिश्चापूर्वे ।
षट्ठैव नोकषाया अनिवृत्तिभागभागयोः ॥ २६८ ॥

अर्थ—सातवें अप्रमत्त गुणस्थानमें सम्यत्त्वप्रकृति, अंतके अर्धनाराचआदि तीन संहनन इसतरह चार प्रकृतियां उदयव्युच्छिन्न होती हैं । आठवें अपूर्वकरणगुणस्थानमें हास्य आदि ६ नोकषाय उदयव्युच्छिन्न होती हैं । नवमें अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमें सवेद-भाग और वेद (पुरुषादि तीन)-रहितभाग इन दोनोंमेंसे ॥ २६८ ॥

वेदतिय कोहमाणं मायासंजलणमेव सुहुमंते ।
सुहुमो लोहो संते वज्जणारायणारायं ॥ २६९ ॥

वेदत्रयं क्रोधमानं मायासंज्वलनमेव सूक्ष्मान्ते ।
सूक्ष्मो लोभः शान्ते वज्जनाराचनाराचम् ॥ २६९ ॥

अर्थ—सवेदभागमें पुरुषवेदादि तीनवेद तथा अवेदभागमें संज्वलन क्रोध, मान और माया ये तीन, इसतरह दोनों भागोंकी मिलकर ६ प्रकृतियां उदयसे व्युच्छिन्न होती हैं । बादरलोभ भी वहींपर उदयव्युच्छिन्न जानना । और सूक्ष्मसांपरायनामके दशवें गुण-स्थानके अंतसमयमें सूक्ष्म संज्वलनलोभकी उदयव्युच्छिन्ति होती है । ग्यारवें उपशान्तमो-हगुणस्थानमें वज्जनाराच और नाराचसंहनन इन दोनोंकी उदयव्युच्छिन्ति होती है ॥ २६९ ॥

खीणकसायदुचरिमे णिद्दा पयला य उदयवोच्छिण्णा ।
णाणंतरायदसयं दंसणचत्तारि चरिमम्हि ॥ २७० ॥

क्षीणकषायद्विचरमे निद्रा प्रचला च उदयव्युच्छिन्नाः ।
ज्ञानान्तरायदशकं दर्शनचत्वारि चरमे ॥ २७० ॥

अर्थ—बारवें क्षीणकषायके अन्तके पासके दूसरे समयमें निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियोंकी तथा अन्तके समयमें ज्ञानावरण ५ और अंतराय ५ इस तरह १० तथा चक्षुर्दर्शनादि चार दर्शनकी, इसप्रकार १४ प्रकृतियोंकी—सब २+१४ मिलकर १६ प्रकृतियोंकी उदयसे व्युच्छिन्ति होती है ॥ २७० ॥

तदियेक्कवज्जणिमिणं थिरसुहसरगदिउरालतेजदुगं ।
संठाणं वण्णागुरुचउक्क पत्तेय जोगिमिह ॥ २७१ ॥

चृतीयैकवज्जनिर्माणं स्थिरशुभस्वरगतिऔरालतेजोद्विकम् ।
संस्थानं वर्णागुरुचतुष्कं प्रत्येकं योगिनि ॥ २७१ ॥

अर्थ—तेरवें सयोगकेवली गुणस्थानमें तीसरे वेदनीयकर्मके साता असाता दो भेदोंमेंसे कोई एक, वज्रर्षभनाराचसंहनन, निर्माण, स्थिर-शुभ-स्वर-विहायोगति-औदारिक और तैजस इन सबका जोड़ा (स्थिर अस्थिर इत्यादि), समचतुरस्रसंस्थान आदि ६ संस्थान, वर्णादि चार, अगुरुलघुआदि चार और प्रत्येक शरीर—सब मिलकर ३० प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छिति होती है ॥ २७१ ॥

तदियेकं मणुवगदी पंचिंदियसुभगतसतिगादेजं ।

जसतित्थं मणुवाऊ उच्चं च अजोगिचरिमग्धि ॥ २७२ ॥

तृतीयैकं मानवगतिः पञ्चेन्द्रियसुभगत्रसत्रिकादेयम् ।

यशस्तीर्थं मानवायुरुच्चं चायोगिचरमे ॥ २७२ ॥

अर्थ—चौदवें अयोगकेवली गुणस्थानके अंतसमयमें तीसरे वेदनीयकर्मकी कोई एक प्रकृति, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, सुभग, त्रसादि तीन, आदेय, यशस्कीर्ति, तीर्थकर प्रकृति, मनुष्यायु, ऊंचगोत्र—इसप्रकार १२ प्रकृतियां उदयसे व्युच्छिन्न होती हैं ॥२७२॥

आगे “अन्यगुणस्थानोंमें जैसे साता तथा असाताके उदयसे इन्द्रियजन्य सुख तथा दुःख है वैसे केवली भगवानके भी होना चाहिये ? इसका उत्तर” आचार्यमहाराज कहते हैं;—

णट्ठा य रायदोसा इंदियणाणं च केवलिग्धि जदो ।

तेण दु सादासादजसुहदुक्खं णत्थि इंदियजं ॥ २७३ ॥

नष्टौ च रागद्वेषौ इन्द्रियज्ञानं च केवलिनि यतः ।

तेन तु सातासातजसुखदुःखं नास्ति इन्द्रियजम् ॥ २७३ ॥

अर्थ—जिसकारण केवली भगवानके घातियाकर्मके नाश होनेसे मोहनीयके भेद जो राग तथा द्वेष वे क्षय होगये, और ज्ञानावरणके क्षय होनेसे ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे जन्य इन्द्रियज्ञानभी क्षय होगया, इसकारण साता तथा असाताजन्य इन्द्रियविषयक सुख—दुःख लेशमात्रभी नहीं हैं । क्योंकि सातादि वेदनीयकर्म मोहनीयकर्मकी सहायतासे सुख दुःख देता हुआ जीवके गुणको घातता था ‘ये बात पहलेभी कहआये हैं’ फिर उस सहायकके अभाव होनेसे जली जेवड़ीवत् कुछ अपना कार्य नहीं करसकता ॥ २७३ ॥

अब वेदनीयकर्म केवलीके इन्द्रियजन्य सुखदुःखका कारण नहीं है, इसी बातको सिद्ध करनेकेलिये युक्ति कहते हैं;—

समयट्ठिदिगो बंधो सादस्सुदयप्पिगो जदो तस्स ।

तेण असादस्सुदओ सादस्खवेण परिणमदि ॥ २७४ ॥

समयस्थितिको बन्धः सातस्योदयात्मको यतः तस्य ।

तेनासातस्योदयः सातस्वरूपेण परिणमति ॥ २७४ ॥

अर्थ—जिसकारण केवली भगवानके एक सातावेदनीयका बंध एकसमयकी स्थिति-
वाला होता है इसकारण उदयस्वरूप ही है, तिसकारण असाताका उदयभी सातास्वरूपसे
ही परिणमता है । क्योंकि असातावेदनीय सहायरहित होनेसे तथा बहुत हीन होनेसे
मिष्ट जलमें खारेजलकी एक बूंदकी तरह अपना कुछ कार्य नहीं करसक्ता ॥ २७४ ॥

एदेण कारणेण दु सादस्सेव दु गिरंतरो उदओ ।

तेणासादणिमित्ता परीसहा जिणवरे णत्थि ॥ २७५ ॥

एतेन कारणेन तु सातस्यैव तु निरन्तर उदयः ।

तेनासातनिमित्ताः परीषहा जिनवरे नास्ति ॥ २७५ ॥

अर्थ—इस पूर्वगाथाकथित कारणसेही हमेशा सातावेदनीयका उदय रहता है ।
इसीकारण असाताके निमित्तसे क्षुधा आदिक ११ परीषह हैं वे, जिनवरदेवके कार्यरूप नहीं
हैं ॥ २७५ ॥

अब गुणस्थानोंमें क्रमसे उदयरूप हुई प्रकृतियोंकी संख्या दिखाते हैं;—

सत्तरसेकारखचदुसहियसयं सगिगिसीदि छदुसदरी ।

छावट्टि सट्टि णवसगवण्णास दुदालवारुदया ॥ २७६ ॥

सप्तदशैकादशशून्यचतुःसहितशतं सप्तैकाशीतिः षट्द्विसप्ततिः ।

षट्षष्टिः षष्टिः नवसप्तपञ्चाशत् द्विचत्वारिंशद्वादशोदयाः ॥ २७६ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदि चौदह गुणस्थानोंमें क्रमसे ११७, १११, १००, १०४, ८७,
८१, ७६, ७२, ६६, ६०, ५९, ५७, ४२, १२ प्रकृतियां उदय होती हैं ॥ २७६ ॥

अब अनुदयरूप प्रकृतियोंको कहते हैं;—

पंचेकारसवावीसट्टारसपंचतीस इगिछादालं ।

पण्णं छप्पण्णं त्रित्तिपणसट्टि असीदि दुगुणपणवण्णं ॥२७७॥

पञ्चैकादशद्वाविंशत्यष्टादशपञ्चत्रिंशदेकषट्त्वारिंशत् ।

पञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् द्वित्रिपञ्चषष्टिरशीतिः द्विगुणपञ्चपञ्चाशत् ॥२७७॥

अर्थ—उन मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें क्रमसे ५, ११, २२, १८, ३५, ४१,
४६, ५०, ५६, ६२, ६३, ६५, ८०, ११० प्रकृतियां अनुदयरूप हैं अर्थात् इनका उदय
नहीं होता ॥ २७७ ॥

आगे उदय प्रकृतियोंकी उदीरणामें कुछ विशेषता कहते हैं;—

उदयस्सुदीरणस्स य सामित्तादो ण विज्जदि विसेसो ।

मोत्तूण त्तिण्णिठाणं पमत्त जोगी अजोगी य ॥ २७८ ॥

उदयस्योदीरणायाश्च स्वामित्वात् न विद्यते विशेषः ।
मुक्त्वा त्रयस्थानं प्रमत्तं योग्ययोगि च ॥ २७८ ॥

अर्थ—उदय और उदीरणाके स्वामीपनेसे कुछ विशेषता नहीं है। परंतु प्रमत्तनामा छठा गुणस्थान, तेरवां योगी, चौदवां अयोगी इन तीनों गुणस्थानोंको छोड़देना, अर्थात् इन तीन गुणस्थानोंमें ही विशेषता है और सब जगह समानपना है ॥ २७८ ॥

अब उसी विशेषताको दो गाथाओंसे दिखाते हैं;—

तीसं वारस उदयुच्छेदं केवलिनमेकदं किञ्चा ।

सादमसादं च तर्हि मणुवाउगमवणिदं किञ्चा ॥ २७९ ॥

त्रिंशत् द्वादश उदयोच्छेदं केवलिनोरेकत्र कृत्वा ।

सातमसादं च तत्र मानवायुष्कमपनीतं कृत्वा ॥ २७९ ॥

अर्थ—सयोगी और अयोगी केवलीकी ३० और १२ उदयव्युच्छित्ति प्रकृतियोंको मिलाके उन ४२ में साता १ असाता २ और मनुष्यायु ३ इन तीन प्रकृतियोंको घटाना चाहिये ॥ २७९ ॥

अवणिदतिष्पयडीणं प्रमत्तविरदे उदीरणा होदि ।

णत्थित्ति अजोगिजिणे उदीरणा उदयपयडीणं ॥ २८० ॥

अपनीतत्रिप्रकृतीनां प्रमत्तविरते उदीरणा भवति ।

नास्तीति अयोगिजिने उदीरणा उदयप्रकृतीनाम् ॥ २८० ॥

अर्थ—घटाई हुई साता आदि तीन प्रकृतियोंकी उदीरणा प्रमत्तविरत नामा छठे गुणस्थानमें ही होती है। बाकी ३९ प्रकृतियोंकी उदीरणा सयोगकेवलीके होती है। वहां ही व्युच्छित्ति होती है। और अयोगकेवलीके तो उदीरणा होती ही नहीं है, यही विशेषता है ॥ २८० ॥

अब उदीरणाकी व्युच्छित्ति गुणस्थानोंमें क्रमसे कहते हैं;—

पण णव इगि सत्तरसं अट्टट्ट य चदुर छक्क छच्चेव ।

इगि दुग सोलुगदालं उदीरणा होंति जोगंता ॥ २८१ ॥

पञ्च नवैकं सप्तदश अष्टाष्ट च चत्वारि षट् षट् चैव ।

एकं द्विकं षोडशैकोनचत्वारिंशत् उदीरणा भवन्ति योग्यन्ताः ॥ २८१ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवलीपर्यंत क्रमसे ५, ९, १, १७, ८, ८, ४, ६, ६, १, २, १६, ३९, प्रकृतियोंकी उदीरणाव्युच्छित्ति होती है ॥ २८१ ॥

१. संक्लेशपरिणामोंसे ही इन तीनोंकी उदीरणा होती है इसकारण अप्रमत्तादिके इन तीनोंकी उदीरणा का होना असंभव है ।

अब पहले कही हुई उदीरणा और अनुदीरणारूप प्रकृतियोंकी संख्या दो गाथाओंसे कहते हैं;—

सत्तरसेकारखचतुसहियसयं सगिगिसीदि तियसदरी ।

णवतिणिसद्वि सगळक्वण्ण चउवण्णमुगुदालं ॥ २८२ ॥

पंचेकारसवावीसट्टारस पंचतीस इगिणवदालं ।

तेवण्णेकुणसट्टी पणळक्कडसद्वि तेसीदी ॥ २८३ ॥ जुम्मं ।

सप्तदशैकादशखचतुःसहितशतं सप्तैकाशीतिः त्रिसप्ततिः ।

नवत्रिषष्टिः सप्तषड्द्वपञ्चाशत् चतुःपञ्चाशत् एकोनचत्वारिंशत् ॥ २८२ ॥

पञ्चैकादशद्वाविंशत्यष्टादश पञ्चत्रिंशत् एकनवचत्वारिंशत् ।

त्रिपञ्चाशदेकोनषष्टिः पञ्चषड्काष्ठषष्टिः त्र्यशीतिः ॥ २८३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—मिथ्याद्वष्टि आदि तेरह गुणस्थानोंमें क्रमसे ११७, १११, १००, १०४, ८७, ८१, ७३, ६९, ६३, ५७, ५६, ५४, ३९, प्रकृतियां उदीरणारूप हैं । और ५, ११, २२, १८, ३५, ४१, ४९, ५३, ५९, ६५, ६६, ६८, ८३, अनुदीरणारूप प्रकृतियां जानना, अर्थात् इनकी उदीरणा नहीं होती । २८२।२८३॥ इस प्रकार गुणस्थानोंमें उदय-उदीरणाकी त्रिभंगी (तीन भेद) कही ।

अब गत्यादिक १४ मार्गणाओंमें उदयत्रिभंगी कहते हुए उदयका क्रम दिखाते हैं;—

गदियादिसु जोग्गाणं पयडिप्पहुदीणमोघसिद्धाणं ।

सामित्तं णेदव्वं कमसो उदयं समासेज्ज ॥ २८४ ॥

गत्यादिषु योग्यानां प्रकृतिप्रभृतीनामोघसिद्धानाम् ।

स्वामित्तं नेतव्यं क्रमश उदयं समासाद्य ॥ २८४ ॥

अर्थ—गुणस्थानोंमें सिद्ध किये और योग्य ऐसे प्रकृतिबंधादि चार बंध हैं उनका स्वामीपना क्रमसे उदयकी अपेक्षाकर प्राप्त करना ॥ २८४ ॥

आगे सबसे पहले परिभाषा (नियम) को पांच गाथाओंसे कहते हैं;—

गदिआणुआउउदओ सपदे भूपुण्णवादरे ताओ ।

उच्चुदओ णरदेवे थीणतिगुदओ णरे तिरिये ॥ २८५ ॥

गत्यान्वायुरुदयः सपदे भूपूर्णवादरे आतपः ।

उच्चोदयो नरदेवे-स्थानत्रिकोदयो नरे तिरिञ्चि ॥ २८५ ॥

अर्थ—विवक्षितपर्यायके पहले समयमें ही विवक्षित (जिसको कहना है) पर्यायकी गति, उसकी आनुपूर्वी और उसकी आयुका उदय होता है वह समानस्थानमें एक कालमें ही एक जीवके उदय होता है । आतपनाम कर्मका उदय वादर पर्याप्त पृथिवीकायिक

जीवके ही होता है । उच्चगोत्रका उदय किसी मनुष्य और देवोंके होता है, और स्त्यान-
गृद्धिआदि तीननिद्रा प्रकृतियोंका उदय मनुष्य और तिर्यचके ही है ॥ २८५ ॥

संखाउगणरतिरिए इंदियपज्जत्तगाहु थीणतियं ।

जोग्गमुदेहुं वज्जिय आहारविगुवणुवट्टगे ॥ २८६ ॥

संख्यायुष्कनरतिरश्चि इन्द्रियपर्याप्तकात् स्त्यानत्रयम् ।

योग्यमुदेतुं वर्जयित्वा आहारविगूर्वणोत्थापके ॥ २८६ ॥

अर्थ—संख्यात वर्षकी आयुवाले कर्मभूमिया मनुष्य और तिर्यचके इन्द्रिय पर्याप्तिके
पूर्ण होनेके बाद स्त्यानगृद्धि आदि तीननिद्रा उदय होने योग्य हैं । परंतु उसमें भी
आहारक ऋद्धि और वैक्रियिक ऋद्धिके धारक मनुष्यके इनका उदय नहीं होता इसका-
रण ऋद्धिवाले मनुष्यको छोड़कर सब कर्मभूमियां मनुष्योंमें योग्यता समझना ॥ २८६ ॥

अयदापुण्णे ण हि थी संढोवि य घम्मणारयं मुच्चा ।

थीसंढयदे कमसो णाणुचऊ चरिमतिण्णाणू ॥ २८७ ॥

अयतापूर्णे न हि स्त्री षण्ढोपि च घर्मनारकं मुक्त्वा ।

स्त्रीषण्ढायते क्रमशो नानुचत्वारि चरमत्रयानुः ॥ २८७ ॥

अर्थ—निवृत्त्यपर्याप्तक असंयत गुणस्थानमें स्त्रीवेदका उदय नहीं है क्योंकि असंय-
तसम्यग्दृष्टि मरण करके स्त्री नहीं होता । पहले घर्मानामक नारकके सिवाय नपुंसक
वेदकाभी उदय नहीं होता इसीकारणसे स्त्रीवेदवाले असंयतके तथा नपुंसकवेदवाले
असंयतके क्रमसे चारों आनुपूर्वी तथा नरकके विना अंतकी तीन आनुपूर्वी प्रकृतियोंका
उदय नहीं होता ॥ २८७ ॥

इगिविगलथावरचऊ तिरिए अपुण्णो णरेवि संघडणं ।

ओरालहु णरतिरिए वेगुव्वहु देवणेरयिए ॥ २८८ ॥

एकविकलस्थावरचत्वारि तिरश्चि अपूर्णा नरेपि संहननम् ।

ओरालद्वि नरतिरश्चि वैक्रियिकद्वि देवनैरयिके ॥ २८८ ॥

अर्थ—एकेन्द्री, दोइन्द्री आदि विकलत्रय और स्थावर आदि चार प्रकृतियोंका उदय
तिर्यचके होने योग्य है, अपर्याप्तप्रकृति मनुष्यके भी उदय होने योग्य कही है । वज्रप-
भनाराचादि छह संहनन, औदारिक शरीरनामकर्मका जोड़ा मनुष्य और तिर्यचके उदय
होने योग्य है । तथा वैक्रियिक शरीर व उसके आंगोपांग ये दो प्रकृतियां देव और
नारकियोंके ही उदय होने योग्य कही हैं ॥ २८८ ॥

तेउतिगूणतिरिक्खेसुज्जोवो वादरेसु पुण्णेषु ।

सेसाणं पयडीणं ओघं वा होदि उदओ हु ॥ २८९ ॥

तेजस्त्रिकोनतिर्यक्षु उद्योतो बादरेषु पूर्णेषु ।

शेषाणां प्रकृतीनामोघवत् भवति उदयस्तु ॥ २८९ ॥

अर्थ—तेजः कायिक, वायुकायिक और साधारणवनस्पतिकायिक इन तीनोंको छोड़कर अन्य बादर पर्याप्तक तिर्यचोंके उद्योतप्रकृति उदय होती है । और शेष बचीं प्रकृतियोंका उदय गुणस्थानके क्रमसे जानना ॥ २८९ ॥

इस प्रकार पांच परिभाषासूत्रोंसे उदयका नियम कहकर चारगतियोंमें उदयप्रकृतियोंको कहते हुए पहले नरकगतिमें कहते हैं;—

थीणतिथीपुरिसूणा घादी गिरयाउणीचवेयणियं ।

णामे सगवचिठाणं गिरयाणू णारयेसुदया ॥ २९० ॥

स्त्यानत्रिखीपुरुषोना घातिनी निरयायुर्नीचवेदनीयम् ।

नाम्नि स्वकवचःस्थानं निरयानुः नारकेषूदयाः ॥ २९० ॥

अर्थ—स्त्यानगृद्धि आदिक तीन, स्त्रीवेद और पुरुषवेद इन पांचके सिवाय घाती-कर्मोंकी ४२ प्रकृतियां; नरकायु, नीचगोत्र और साता-असातावेदनी तथा नामकर्ममेंसे नारकियों के अपने भाषापर्यासिस्थानमें होनेवालीं २९ प्रकृतियां और नरकगत्यानुपूर्वी—ये सब ७६ प्रकृतियां नरकगतिमें उदय होने योग्य हैं ॥ २९० ॥

अब उन्हीं २९ प्रकृतियोंको दिखाते हैं;—

वेगुव्वतेजथिरसुहदुग दुग्गदिहुंडणिमिणपंचिंदी ।

गिरयगदि दुब्भगागुरुत्तसवण्णचऊ य वचिठाणं ॥ २९१ ॥

वैगूर्वतेजःस्थिरशुभद्विकं दुर्गतिहुण्डनिर्माणपञ्चेन्द्रियम् ।

निरयगतिर्दुर्भगागुरुत्तसवर्णचत्वारि च वचःस्थानम् ॥ २९१ ॥

अर्थ—वैक्रियिक, तैजस, स्थिर, शुभ इनका जोड़ा; अप्रशस्तविहायोगति, हुंडसंस्थान, निर्माण, पंचेद्री, नरकगति; दुर्भग-अगुरुलघु-त्रस-वर्ण इनकी चौकड़ी इसप्रकार ये सब उनतीस प्रकृतियां नारकी जीवोंके वचनपर्यासिके ठिकाने उदयरूप होती हैं ॥ २९१ ॥

आगे घर्मा नामके पहले नरकमें उदयव्युच्छित्तिप्रकृतियोंको कहते हैं;—

मिच्छमणंतं मिस्सं मिच्छादितिए कमा छिदी अयदे ।

विदियकसाया दुब्भगणादेज्जदुगाउणिरयचऊ ॥ २९२ ॥

मिथ्यमनन्तं मिश्रं मिथ्यात्वादित्रये क्रमात् छित्तिरयते ।

द्वितीयकषाया दुर्भगानादेयद्विकायुर्निरयच्चत्वारि ॥ २९२ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानोंमें मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चार, संम्यग्मिथ्यात्व ये क्रमसे उदयसे व्युच्छिन्न हैं । उसी घर्मा नरकके असंयत नामके चौथे गुणस्था-

नमें दूसरी अप्रत्याख्यान कषायकी चौकड़ी, दुर्भग-दुःस्वर ये दो तथा अनादेय-अयस्कीर्ति ये दो, नरकायु और नरकगति आदि चार अर्थात् नरकगति, नरकगत्यानुपूर्व वैक्रियिक शरीर तथा वैक्रियिक आंगोपांग ये चार-सब मिलकर १२ प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छिन्ति होती है ॥ २९२ ॥

आगे दूसरे आदि नरकोंमें व्युच्छिन्ति कहते हैं;—

विद्यादिसु छसु पुढविसु एवं णवरि य असंजदट्टाणे ।
णत्थि णिरयाणुपुव्वी तिस्से मिच्छेव वोच्छेदो ॥ २९३ ॥
द्वितीयादिषु षट्सु पृथिवीषु एवं नवरि च असंयतस्थाने ।
नास्ति निरयानुपूर्वी तस्मात् मिथ्ये एव व्युच्छेदः ॥ २९३ ॥

अर्थ—दूसरी वंशा आदि छह नरककी पृथिवियोंमें घर्मा नरककी तरह उदयादि समझना । किंतु विशेषता इतनी है कि असंयत गुणस्थानमें नरकगत्यानुपूर्विका उदय नही है । इसकारण मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही मिथ्यात्व प्रकृतिके साथ नरकगत्यानुपूर्विका उदयव्युच्छिन्ति जानना ॥ २९३ ॥

अब तिर्यचगतिमें कहते हैं;—

तिरिये ओघो सुरणरणिरयाऊउच्च मणुदुहारदुगं ।
वेगुव्वलक्कतित्थं णत्थि हु एमेव सामण्णे ॥ २९४ ॥
तिरिञ्चि ओघः सुरनरनिरयायुरुच्चं मनुद्विआहारद्विकम् ।
वैगूर्वषट्कतीर्थं नास्ति हि एवमेव सामान्ये ॥ २९४ ॥

अर्थ—तिर्यचगतिमें गुणस्थानकी तरह उदयादि जानना । परंतु उनमें भी देवआयु मनुष्यायु, नरकायु, उच्चगोत्र, मनुष्यगति आदि २, आहारादि २ और वैक्रियिक शरीर आदि ६ तथा तीर्थकर प्रकृति—ये सब १५ उदय होनेके योग्य नहीं हैं, इसकारण १० प्रकृतियां उदय होने योग्य हुई । इसीप्रकार तिर्यचके पांच भेदोंमेंसे सामान्यतिर्यचोंमें उदय जानना ॥ २९४ ॥

आगे पंचेन्द्रीतिर्यच और पर्याप्तकतिर्यचोंमें उदयादि कहते हैं;—

थावरदुगसाहारणताविगिविगलूण ताणि पंचक्खे ।
इत्थिअपज्जत्तूणां ते पुण्णे उदयपयडीओ ॥ २९५ ॥
स्थावरद्विकसाधारणात्पैकविकलोनाः ताः पञ्चाक्षे ।
रूपपर्याप्तोनास्ताः पूर्णे उदयप्रकृतयः ॥ २९५ ॥

अर्थ—उन सामान्यतिर्यचकी प्रकृतियोंमें स्थावर आदि २, साधारण, आतप, एकेन्द्रविकलत्रय, इन आठ प्रकृतियोंको घटादेनेसे बाकीवर्ची ९९ प्रकृतियां पंचेन्द्रियतिर्यचोंमें उदय जानना ॥ २९५ ॥

र्येचके उदय योग्य हैं । और इन ९९ प्रकृतियोंमें भी स्त्रीवेद तथा अपर्याप्त ये दो कम करनेसे बची हुई ९७ प्रकृतियां पर्याप्ततिर्येचके उदय योग्य कही गई हैं ॥ २९५ ॥

आगे स्त्रीतिर्येच और लब्ध्यपर्याप्ततिर्येचोंमें उदयादि कहते हैं;

पुंसं हृणित्थिजुदा जोणिणिये अविरदे ण तिरियाणू ।

पुण्णिदरे थी थीणति परघादद्दु पुण्णउज्जोवं ॥ २९६ ॥

सरगदिदु जसादेज्जं आदीसंठाणसंहदीपणगं ।

सुभगं सम्मं मिस्सं हीणा तेऽपुण्णसंढजुदा ॥ २९७ ॥ जुम्मं ।

पुंषण्ढोनस्त्रीयुता योनिमति अविरते न तिर्येगानुः ।

पूर्णेतरे स्त्री स्त्यानत्रि परघातद्धि पूर्णोद्योतम् ॥ २९६ ॥

स्वरगतिद्धि यशआदेयमादिसंस्थानसंहतिपञ्चकम् ।

सुभगं सम्यक्त्वं मिश्रं हीनाः ता अपूर्णषण्ढयुताः ॥ २९७ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—योनिमत् अर्थात् तिर्येचिनीके पहली ९७ प्रकृतियोंमें पुरुषवेद और नपुंसक-वेदको घटाकर तथा स्त्रीवेद मिलानेसे ९६ प्रकृतियां उदययोग्य हैं, उसमें भी अविरतसम्य-गृही गुणस्थानमें तिर्येचगत्यानुपूर्वीका उदय नहीं है । और लब्ध्यपर्याप्तक पंचेद्रीतिर्येचके उन ९६ प्रकृतियोंमें स्त्रीवेद, स्त्यानगृद्धि आदि ३, परघातादि दो, पर्याप्त, उद्योत, स्वरका जोड़ा, विहायोगतिका युगल, यशस्कीर्ति, आदेय, आदिके समचतुरस्रआदि पांच संस्थान, वज्रर्षभनाराच आदि पांच संहनन, सुभग, सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मित्यात्वे ये २७ कम करके तथा अपर्याप्त और नपुंसक वेद ये दो प्रकृतियां मिलानेसे बची हुई ७६ प्रकृ-तियां उदय योग्य हैं ॥ २९६ ॥ २९७ ॥

आगे मनुष्यगतिमें उदयादिको कहते हैं;—

मणुवे ओघो थावरतिरियादावहुगण्यवियल्लिंदी ।

साहरणिदराउतियं वेगुवियल्लक परिहीणो ॥ २९८ ॥

मानवे ओघः स्थावरतिर्येगातपद्विकैकविक्रतेन्द्रिः ।

साधारणेतरायुस्त्रयं वैगूर्विकपट्टं परिहीनः ॥ २९८ ॥

अर्थ—चार प्रकार मनुष्योंमेंसे सामान्य मनुष्यके, सुगममें कहीं हुई १२२ प्रकृतियोंमें स्थावर—तिर्येचगति—आतप इन तीनोंके सुगम (वेद), पृच्छी, विच्छेदी ३, साधारण, मनुष्यायुसे अन्य तीन आहु जैसे वैदिकिक वर्गगति ६ कम करनेसे उदय योग्य १०२ प्रकृतियां हैं ॥ २९८ ॥

उनमें गुणस्थानकी अपेक्षासे उदयवृच्छिच्छि विदने हैं;—

मिच्छमपुण्णं छेदो जगमित्तं मिच्छनादितिसु ज्वरं

विदियकंसायणराणु दुम्मगउगादेज्जअज्जसयं ॥ २९९ ॥

मिथ्यात्वमपूर्णं छेद अनमिश्रं मिथ्यकादित्रिषु अयते ।

द्वितीयकपायनरानुः दुर्भगानादेयायशस्कम् ॥ २९९ ॥

अर्थ—मिथ्यात्वआदि तीन गुणस्थानोंमें क्रमसे मिथ्यात्व १ अपर्याप्त २, अनंतानु-
बंधी चार, मिश्र दर्शनमोहनीय इनकी तथा असंयत गुणस्थानमें दूसरी अप्रत्याख्यानकी
चौकड़ी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय, अयशस्कीर्ति इन प्रकृतियोंकी उदयसे
व्युच्छित्ति होती है ॥ २९९ ॥

देसे तदियकसाया णीचं एमेव मणुससामण्णे ।

पज्जत्तेवि य इत्थीवेदाऽपज्जत्तिपरिहीणो ॥ ३०० ॥

देशे तृतीयकपाया नीचमेवमेव मनुष्यसामान्ये ।

पर्याप्तैषि च स्त्रीवेदापर्याप्तिपरिहीना ॥ ३०० ॥

अर्थ—पांचवें देशसंयतगुणस्थानमें तीसरी प्रत्याख्यानकपाय चार और नीचगोत्रकी
उदयव्युच्छित्ति होती है । इसके ऊपर छठे आदिगुणस्थानोंमें गुणस्थानके क्रमसे उदयव्यु-
च्छित्ति जानना ॥ इसीप्रकार पर्याप्तमनुष्यमेंभी पहली १०२ मेंसे स्त्रीवेद और अपर्याप्ति
ये दोकम करनेसे १०० प्रकृतियां उदय योग्य हैं ॥ ३०० ॥

मणुसिणिएत्थीसहिदा तित्थयराहारपुरिससंदूणा ।

पुण्णिदरेव अपुण्णे सगाणुगदिआउगं णेयं ॥ ३०१ ॥

मनुष्यिण्यां स्त्रीसहिताः तीर्थकराहारपुरुषषण्ढोनाः ।

पूर्णेतर इवापूर्णे स्वकानुगत्यायुष्कं ज्ञेयम् ॥ ३०१ ॥

अर्थ—उन १०० प्रकृतियोंमें स्त्रीवेद प्रकृति मिलाके और तीर्थकर, आहारकयुगल,
पुरुषवेद और नपुंसकवेद ये ५ प्रकृतियां कमकरनेसे ९६ प्रकृतियां मनुष्यिणीके उदय
योग्य हैं । और लब्धिअपर्याप्तक मनुष्यके तिर्यंचलब्ध्यपर्याप्तककी तरह ७१ उदय योग्य
समझना । परंतु आनुपूर्वी, गति और आयु—ये तीन प्रकृतियां तिर्यंचकीं छोड़कर अपनी
(मनुष्य संबंधी) ही जानना ॥ ३०१ ॥

अब भोगभूमिया मनुष्य और तिर्यंचमें उदयादिको दो गाथाओंसे कहते हैं;—

मणुसोघं वा भोगे दुब्भगचउणीचसंढथीणतियं ।

दुग्गदितित्थमपुण्णं संहदिसंठाणचरिमपणं ॥ ३०२ ॥

हारदुहीणा एवं तिरिये मणुदुच्चगोदमणुवाउं ।

अवणिय पक्खिव णीचं तिरियदुत्तिरियाउउज्जोवं ॥ ३०३ ॥ जुम्मं ।

मनुष्योघ इव भोगे दुर्भगचतुर्नाचषण्ढस्त्यानत्रयम् ।

दुर्गतितीर्थमपूर्णां संहतिसंस्थानचरमपञ्च ॥ ३०२ ॥

आहारद्विहीना एवं तिरश्चि मनुद्विउच्चगोत्रमानवायुः ।

अपनीय प्रक्षिप्य नीचं तिर्यग्द्वितिर्यगायुरुद्योतम् ॥ ३०३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—भोगभूमियां मनुष्योंमें सामान्यमनुष्यकी तरह १०२ प्रकृतियोंमें दुर्भग आदि ४, नीचगोत्र, नपुंसकवेद, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, अप्रशस्तविहायोगति, तीर्थकर प्रकृति, अपर्याप्ति; अंतके वज्रनाराच आदि पांच संहनन तथा न्यग्रोधपरिमंडल आदि पांच संस्थान और आहारक शरीर युगल-इन २४ प्रकृतियोंको घटा देनेसे बची हुई ७८ प्रकृतियां उदय योग्य हैं । और इसीतरह भोगभूमिया तिर्यचमें भोगभूमिया मनुष्योंकी तरह ७८ प्रकृतियोंमें मनुष्यगति आदि दो, उच्चगोत्र और मनुष्यायु, इन चार प्रकृतियोंको घटाकर तथा नीच गोत्र, तिर्यग्गति आदि दो, तिर्यचायु और उद्योत, इन पांचको मिलानेसे ७९ प्रकृतियां उदय योग्य हैं ॥ ३०२ ॥ ३०३ ॥

अब देवगतिमें उदयादिको दिखाते हैं;—

भोगं व सुरे णरचउणराउवज्जुण सुरचउसुराउं ।

खिव देवे णेवित्थी इत्थिम्मि ण पुरिसवेदो य ॥ ३०४ ॥

भोग इव सुरे नरचतुर्नरायुर्वज्जोन्त्वा सुरचतुःसुरायुः ।

क्षित्वा देवे नैव स्त्री स्त्रियां न पुरुषवेदश्च ॥ ३०४ ॥

अर्थ—सामान्यपनेसे देवोंमें भोगभूमियामनुष्योंकी तरह ७८ प्रकृतियोंमें मनुष्यगति-आदि चार, मनुष्यायु, वज्रर्षभनाराच संहनन, इन ६ प्रकृतियोंको घटाकर और देवगति-आदि चार, देवायु, इन पांचको मिलके शेष रहीं ७७ प्रकृतियां उदय योग्य हैं । परंतु देवोंमें स्त्रीवेदका उदय और देवांगनाओंमें पुरुषवेदका उदय नहीं है इसकारण केवलदेव तथा देवांगनाओंमें ७६ ही उदय योग्य हैं ॥ ३०४ ॥

अब नव अनुदिशादिमें कुछ विशेषता बतलाते हैं;—

अविरदठाणं एकं अणुद्दिसादिसु सुरोधमेव हवे ।

भवणतिकप्पित्थीणं असंजदे णत्थि देवाणू ॥ ३०५ ॥

अविरतस्थानमेकमनुदिशादिपु सुरोधमेव भवेत् ।

भवनत्रिकल्पस्त्रीणामसंयते नास्ति देवानुः ॥ ३०५ ॥

अर्थ—नव अनुदिशादि १४ विमानोंमें एक असंयत गुणस्थान ही है । इसकारण देवोंके अविरत गुणस्थानकी तरह उदययोग्य ७० प्रकृतियां जानना । और भवनत्रिक (भवनवासी १ व्यंतर २ ज्योतिषी ३) देव और देवी तथा कल्पवासिनी स्त्रियोंके सामान्य देवोंकी तरह ७७ प्रकृतियोंमें स्त्रीवेद अथवा पुरुषवेद विना ७६ ही प्रकृतियां उदय योग्य हैं । परंतु असंयतगुणस्थानमें देवगत्यानुपूर्वीका उदय नहीं है, क्योंकि सम्यग्दृष्टि मरण कर भवनत्रयादिमें उत्पन्न नहीं होता ॥ ३०५ ॥

आगे इंद्रियमार्गणामें उदयादिको तीन गाथाओंसे दिखाते हैं;—

तिरियअपुण्णं वेगे परघादचउक्कपुण्णसाहरणं ।
 एइंदियजसथीणतिथावरजुगलं च मिलिदव्वं ॥ ३०६ ॥
 रिणमंगोवंगतसं संहदिपंचक्खमेवमिह वियले ।
 अवणिय थावरजुगलं साहरणेयक्खमादावं ॥ ३०७ ॥
 खिव तसदुंग्गदिदुस्सरमंगोवंगं सजादिसेवट्टं ।
 ओघं सयले साहरणिगिविगलादावथावरदुगूणं ॥ ३०८ ॥ विसेसयं ।

तिर्यंगापूर्णमिवैके परघातचतुष्कपूर्णसाधारणम् ।

एकेन्द्रिययशःस्त्यानत्रिस्थावरयुगलं मेलितव्यम् ॥ ३०६ ॥

ऋणमङ्गोपाङ्गत्रसं संहतिपञ्चाक्षमेवमिह विकले ।

अपनीय स्थावरयुगलं साधारणैकाक्षमातापम् ॥ ३०७ ॥

क्षिप्त्वा त्रसदुर्गतिदुःस्वरमङ्गोपाङ्गं स्वजातिसृपाटिकम् ।

ओघः सकले साधारणैकविकलातापस्थावरद्विकोनम् ॥ ३०८ ॥ विशेषकम् ।

अर्थ—एकेन्द्रियमार्गणामें तिर्यंचलब्धिअपर्याप्तककी तरह ७१ प्रकृतियोंमें परघातादि चार, पर्याप्त, साधारण, एकेन्द्री जाति, यशस्कीर्ति, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, स्थावर और सूक्ष्म दो—सब ये १३ प्रकृतियां मिलाकर; और अंगोपांग, त्रस, सृपाटिका संहनन, पंचेन्द्री, इन चारको घटाके जो ८० प्रकृतियां हैं उनका उदय जानना । इसीप्रकार विकलत्रयके एकेन्द्रियके समान ८० में स्थावरका युगल, साधारण, एकेन्द्री, आतप इन ५ को घटाकर तथा त्रस, अप्रशस्तविहायोगति, दुःस्वर, अंगोपांग, अपनी २ जाति, सृपाटिका संहनन, ये छह मिलानेसे उदय योग्य ८१ प्रकृतियां हैं । सकलेन्द्रीमें गुणस्थानकी १२२ में साधारण, एकेन्द्री, विकलत्रय, आतप, स्थावरका जोड़ा, ये ८ प्रकृतियां कमकरके शेष ११४ प्रकृतियां उदय योग्य हैं ॥ ३०६ ॥ ३०७ ॥ ३०८ ॥

आगे कायमार्गणामें उदयको कहते हैं;—

एयं वा पणकाये ण हि साहारणमिणं च आदावं ।
 दुसु तहुगमुज्जोवं कमेण चरिमम्हि आदावं ॥ ३०९ ॥
 एकं वा पञ्चकाये न हि साधारणमिदं चातापम् ।
 द्वयोस्तद्विकमुद्योतः क्रमेण चरमे आतपः ॥ ३०९ ॥

अर्थ—पृथिवीकायादि पांचकायोंमें एकेन्द्रीकी रीतिसे ८० प्रकृतियोंमेंसे साधारण, तथा यही साधारण और आतप, घटानेसे पृथिवीकाय तथा अप्कायमें उदय योग्य ७९ और ७८ प्रकृतियां जानना । और तेजःकायिक-वायुकायिक इन दोनोंमें वे साधारण-आतप

दोनों और उद्योत, ये तीन प्रकृतियां घटानेसे ७७ प्रकृतियां उदय योग्य हैं । तथा इसी क्रमसे अंतके वनस्पति कायमें आताप प्रकृति घटानेपर ७९ प्रकृतियां उदय योग्य हैं ॥ ३०९ ॥

अब त्रसकायमें उदयको दिखाते हैं;—

ओघं तसे ण थावरदुगसाहरणेयतावमथ ओघं ।

मणवयणसत्तगे ण हि ताविगिविगलं च थावराणुचओ ॥ ३१० ॥

ओघस्त्रसे न स्थावरद्विकसाधारणैकातापमथ ओघः ।

मनोवचनसप्तके न हि आतापैकविकलं च स्थावरानुचतुष्कम् ॥ ३१० ॥

अर्थ—त्रसकायवालोंके गुणस्थान सामान्यकी १२२ मेंसे स्थावरादि दो, साधारण, एकेन्द्री, आताप, ये पांच न होनेसे ११७ प्रकृतियां उदय होने योग्य हैं । इसके बाद मनोयोग ४ वचनयोग ३ मिलकर सब सात योगोंमें आताप, एकेन्द्री, विकलत्रय, स्थावर आदि ४, आनुपूर्वी ४, ये १३ प्रकृतियां न होनेसे १०९ प्रकृतियां उदय योग्य हैं ॥ ३१० ॥

आगे अनुभय वचनयोग और औदारिक काययोगमें कहते हैं;—

अणुभयवचि वियलजुदा ओघमुराले ण हारदेवाऊ ।

वेगुव्वल्लक्षणरतिरियाणू अपज्जत्तणिरयाऊ ॥ ३११ ॥

अनुभयवचसि विकलयुता ओघ औराले नाहारदेवायुः ।

वैगूर्वषड्गनरतिरियानुः अपर्याप्तनिरयायुः ॥ ३११ ॥

अर्थ—अनुभयवचन योगमें १०९ प्रकृतियोंमें विकलत्रय मिलाके ११२ प्रकृतियां उदय होने योग्य हैं । औदारिक योगमें १२२ मेंसे आहारक शरीरका युगल, देवायु, वैक्रियक शरीर आदि ६, मनुष्यगति आनुपूर्वी, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, अपर्याप्त, नरकायु, ये १३ न होनेसे १०९ प्रकृतियां उदय योग्य हैं ॥ ३११ ॥

अब औदारिक मिश्रयोगमें उदयादि दो गाथाओंसे कहते हैं;—

तम्मिस्से पुण्णजुदा ण मिस्सथीणतियसरविहायदुगं ।

परघादचओ अयदे णादेज्जदुदुब्भगं ण संढिच्छी ॥ ३१२ ॥

साणे तेसिं छेदो वामे चत्तारि चोद्दसा साणे ।

चउदालं वोछेदो अयदे जोगिम्हि छत्तीसं ॥ ३१३ ॥ जुम्मं ।

तन्मिश्रे पूर्णयुता न मिश्रस्त्यानत्रयस्वरविहायोद्विकम् ।

परघातचत्वार्ययतेऽनादेयद्विदुर्भगं न पण्डस्त्री ॥ ३१२ ॥

साने तेषां छेदो वामे चत्वारि चतुर्दश साने ।

चतुश्चत्वारिंशत् व्युच्छेद् अयते योगिनि षट्त्रिंशत् ॥ ३१३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—औदारिक मिश्रकाय योगमें पूर्वकी १०९ में पर्याप्त मिलाना । और मिश्रप्रकृति, स्त्यानगृद्धि आदि ३, दो स्वर, विहायोगतिका जोड़ा, परघातादि चार, ये १२

प्रकृतियां नहीं है; इसकारण ९८ उदय होनेके योग्य हैं । चौथे असंयतगुणस्थानमें अनादेय दो, दुर्भग, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद इनका उदय नहीं है; इसकारण इन प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति सासादनगुणस्थानमें ही जाननी । इसके मिथ्यात्व गुणस्थानमें मिथ्यात्व, सूक्ष्मत्रय ये चा व्युच्छिन्न होती हैं । सासादनमें अनंतानुबंधी आदि १४, असंयतमें अप्रत्याख्यानादि ४ तथा सयोग केवलीके ३६ प्रकृतियोंकी उदय व्युच्छित्ति जानना ॥ ३१२ ॥ ३१३ ॥

आगे वैक्रियिक काययोगमें उदयादिको दिखाते हैं;—

देवोधं वेगुव्वे ण सुराणू पक्खिवेज्ज णिरयाऊ ।

णिरयगदिहुंडसंठं दुग्गदि दुब्भगचओ णीचं ॥ ३१४ ॥

देवौघः वैगूर्वे न सुरानुः प्रक्षिप्य निरयायुः ।

निरयगतिहुण्डषण्ठं दुर्गतिः दुर्भगचत्वारि नीचम् ॥ ३१४ ॥

अर्थ—वैक्रियिक काययोगमें देवगतिवत् ७७ में देवायु न होनेसे और नरकायु नरकगति, हुण्डसंस्थान, नपुंसकवेद, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भगादि चार, नीच गोत्र ये १० मिलानेसे ८६ प्रकृतियां उदय योग्य हैं ॥ ३१४ ॥

आगे वैक्रियिकमिश्र काययोगमें डेढ गाथासे कहते हैं;—

वेगुवं वा मिस्से ण मिस्स परघाटसरविहायदुगं ।

साणे ण हुंडसंठं दुब्भगणादेज्ज ^{जा}अजसयं ॥ ३१५ ॥

णिरयगदिआउणीचं ते खित्तयदेऽवणिज्ज थीवेदं ।

छट्टगुणं वाहारे ण थीणतियसंठथीवेदं ॥ ३१६ ॥ जुम्मं ।

वैगूर्वं वा मिश्रे न मिश्रं परघातस्वरविहायोद्विकम् ।

साने न हुण्डषण्ठं दुर्भगानादेयमयशस्कम् ॥ ३१५ ॥

निरयगतिआयुर्नीचं ताः क्षिपायतेऽपनीय स्त्रीवेदम् ।

षष्ठगुणं वाऽहारे न स्त्यानत्रयषण्ठस्त्रीवेदम् ॥ ३१६ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—वैक्रियिकमिश्रयोगमें वैक्रियिककी ८६ प्रकृतियोंमें मिश्रमोहनीय, परघात-स्वरविहायोगति इनका जोड़ा, ये प्रकृतियां उदयरूप नहीं हैं इसकारण ७९ उदय योग्य जानना । उनमें भी सासादन गुणस्थानमें हुण्डसंस्थान, नपुंसकवेद, दुर्भग अनादेय, अयशस्कीर्ति, नरकगति, नरकायु, नीचगोत्र-इनका उदय नहीं है । असंयतमें उदय है असंयतमें इनको समझना । और उस सासादनमें स्त्रीवेद, 'अनंतानुबंधी चार' इ पांचकी व्युच्छित्ति है ॥ आहारक काययोगमें, छठे गुणस्थानकी ८१ प्रकृतियोंमेंसे स्त्यानगृद्धि आदि ३, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, ॥ ३१५ ॥ ३१६ ॥

दुग्गदिदुस्सरसंहदि ओरालदु चरिमपंचसंठाणं ।

ते तम्मिस्से सुस्सर परघाददुसत्थगदि हीणा ॥ ३१७ ॥

दुर्गतिदुःस्वरसंहतिः औरालद्वे चरमपञ्चसंस्थानम् ।

ताः तन्मिश्रे सुस्वरं परघातद्विशस्तगतिः हीनाः ॥ ३१७ ॥

अर्थ—अप्रशस्तविहायोगति, दुःस्वर, संस्थान ६, औदारिक शरीर दो, अंतके पांच संस्थान, इन २० प्रकृतियोंका उदय नहीं है । और आहारकमिश्र काययोगमें इन ६१ मेंसे सुस्वर, परघातादि दो, प्रशस्तविहायोगति, इन चारको घटानेसे उदय योग्य ५७ हैं ऐसा जानना ॥ ३१७ ॥

आगे कार्माणकाययोगमें उदयादिको दो गाथाओंसे कहते हैं;—

ओघं कम्मे सरगदिपत्तेयाहारुरालदुग मिसंसं ।

उवघादपणविगुव्वदुथीणतिसंठाणसंहदी णत्थि ॥ ३१८ ॥

ओघः कर्मणि स्वरगति प्रत्येकाहारौरालद्विकं मिश्रम् ।

उपघातपञ्चवैगूर्वद्विस्त्यानत्रिसंस्थानसंहतिर्नास्ति ॥ ३१८ ॥

अर्थ—कार्माणकाययोगमें सामान्यगुणस्थानकी १२२ प्रकृतियोंमेंसे स्वर-विहायोगति-प्रत्येक-आहारकशरीर-औदारिकशरीर इन सबका युगल (जोड़ा), मिश्र मोहनीय, उपघातादि पांच, वैक्रियिकका जोड़ा, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, संस्थान ६, संहनन ६ ये सब नहीं होनेसे उदय योग्य ८९ प्रकृतियां हैं ॥ ३१८ ॥

साणे थीवेदछिदी णिरयदुणिरयाउगं ण तियदसयं ।

इगिवण्णं पणवीसं मिच्छादिसु चउसु वोच्छेदो ॥ ३१९ ॥

साने स्त्रीवेदछित्तिः निरयद्विनिरयायुष्कं न त्रिकदशकम् ।

एकपञ्चाशत् पञ्चविंशतिः मिथ्यादिपु चतुर्षु व्युच्छेदः ॥ ३१९ ॥

अर्थ—उसमेंभी सासादन गुणस्थानमें स्त्रीवेदकी व्युच्छित्ति होती है । और नरकगत्यादि २, नरकायु इन तीनका उदय नहीं होता । तथा मिथ्यात्वादि (मिथ्यात्व १ सासादन २ असंयत ३ सयोग केवली ४) चार गुणस्थानोंमें क्रमसे तीन, दश, ५१, २५, इतनी प्रकृतियोंकी उदय व्युच्छित्ति होती है ॥ ३१९ ॥

अब वेदमार्गणामें उदयादिको कहते हैं;—

मूलोघं पुंवेदे थावरचउणिरयजुगलतित्थयरं ।

इगिचिगलं थीसंढं तावं णिरयाउगं णत्थि ॥ ३२० ॥

१. 'सान' शब्दसे सासादन लेना, क्योंकि लोकमें भी इंग्लिश भाषा आदिमें 'पी. एल्.' शब्दसे 'पन्नालाल' का बोध होता है । इसकारण आदि अंतके अक्षर मिलकर पूरे शब्दका ज्ञान होजाता है ।

मूलोघः पुंवेदे स्थावरचतुर्निरययुगलतीर्थकरम् ।

एकविकलं स्त्रीषण्ढमातपं निरयायुष्कं नास्ति ॥ ३२० ॥

अर्थ—पुरुषवेदमें मूलवत् १२२ प्रकृतियोंमेंसे स्थावर आदि चार, नरकगतिद्विक, तीर्थकर प्रकृति, एकेन्द्रिय, विकल तीन, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, आतप प्रकृति, नरकायु ये १५ नहीं हैं । इसकारण उदय योग्य १०७ प्रकृतियां हुईं ॥ ३२० ॥

आगे स्त्रीवेद और नपुंसक वेदमें उदयादि दिखाते हैं;—

इत्थीवेदेवि तथा हारदुपुरिसूणमितिथिसंजुत्तं ।

ओघं संढे ण हि सुरहारदुथीपुंसुराउतित्थयरं ॥ ३२१ ॥

स्त्रीवेदेपि तथाऽहारद्विपुरुषोनं स्त्रीसंयुक्तम् ।

ओघः षण्ढे न हि सुराहारद्विस्त्रीपुंसुरायुस्तीर्थकरम् ॥ ३२१ ॥

अर्थ—स्त्रीवेदमें भी उसीप्रकार १०७ प्रकृतियोंमें आहारक शरीर युगल, पुरुषवेद ये तीन कमकरके तथा स्त्रीवेद मिलाके १०५ प्रकृतियां उदय योग्य हैं । नपुंसकवेदमें सामान्यवत् १२२ मेंसे देवगति युगल, आहारकद्विक, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, देवायु और तीर्थकर प्रकृति ये ८ सिवाय ११४ प्रकृतियां उदय योग्य हैं ॥ ३२१ ॥

अब कषायमार्गणामें कहते हैं;—

तित्थयरमाणमायालोहचउक्कूणमोघमिह कोहे ।

अणरहिदे णिगिविगलं तावऽणकीहाणुथावरचउक्कं ॥ ३२२ ॥

तीर्थकरमानमायालोभचतुष्कोनमोघ इह क्रोधे ।

अनरहिते नैकविकलमातापानक्रोधानुस्थावरचतुष्कम् ॥ ३२२ ॥

अर्थ—क्रोध कषायमार्गणामें सामान्य १२२ मेंसे तीर्थकर प्रकृति तथा चार क्रोध विना दूसरी मानमायालोभचतुष्क (तीन चौकड़ीं) संबंधी १२ कषाय—इन १३ के विना १०९ प्रकृतियां उदय योग्य हैं । तथा अनंतानुबंधी रहित क्रोधमें एकेन्द्री, विकल तीन, आतप, अनंतानुबंधी क्रोध, आनुपूर्वी ४, स्थावर आदि ४ इस प्रकार १४ प्रकृतियोंके सिवाय तथा 'अनंतानुबंधी मानादि ३ और मिथ्यात्व' इन चारको छोड़कर उदय योग्य ९१ प्रकृतियां हैं ॥ ३२२ ॥

एवं माणादिति मदिसुदअण्णाणगे दु सगुणोघं ।

वेभंगेवि ण ताविगिविगलिंदी थावराणुचऊ ॥ ३२३ ॥

एवं मानादित्रये मतिश्रुताज्ञानके तु स्वगुणौघः ।

वैभङ्गेपि नातापैकविकलेन्द्रियं स्थावरानुचत्वारि ॥ ३२३ ॥

अर्थ—इसीप्रकार मानादि तीन कषायोंमें भी अपनेसे अन्य १२ कषाय तथा तीर्थकर प्रकृति, इन १३ के न होनेसे १०९ एकसौ नव सबजगह समझना । तथा ज्ञान-

मार्गणामेंसे कुमति और कुश्रुतज्ञानमें सामान्य गुणस्थानवत् १२२ मेंसे आहारकादि ५ के सिवाय ११७ प्रकृतियां उदय योग्य हैं । विभंग (कुअवधि) ज्ञानमें भी इन ११७ मेंसे आताप, एकेन्द्री, विकलेन्द्री ३, स्थावरादि चार, आनुपूर्वी ४ सब मिलकर १३ प्रकृतियां उदय न होनेके कारण १०४ प्रकृतियां उदय होने योग्य हैं ॥ ३२३ ॥

सण्णाणपंचयादी दंसणमग्गणपदोत्ति सगुणोघं ।

मणपज्जवपरिहारे णवरि ण संढित्थि हारदुगं ॥ ३२४ ॥

सज्ञानपञ्चकादि दर्शनमार्गणापदमिति स्वगुणौघः ।

मनःपर्ययपरिहारे नवरि न षण्ढस्त्री आहारद्वयम् ॥ ३२४ ॥

अर्थ—पांच सम्यग्ज्ञानसे लेकर दर्शन मार्गणास्थानपर्यंत अपने २ गुणस्थान सरीखी रचना समझना । लेकिन मनःपर्ययज्ञानको छोड़ देना, परंतु इसमें विशेषता यह है कि नपुंसकवेद, स्त्रीवेद और आहारकका जोड़ा ये पांच उदय योग्य नहीं है ॥ ३२४ ॥

अब दूसरी मार्गणाओंमेंभी विशेषता दिखाते हैं;—

चक्खुम्मि ण साधारणताविगिवितिजाइ थावरं सुहुमं ।

किण्हदुगे सगुणोघं मिच्छे णिरयाणुवोच्छेदो ॥ २२५ ॥

चक्षुषि न साधारणतापैकद्वित्रिजातिः स्थावरं सूक्ष्मम् ।

कृष्णद्विके स्वगुणौघो मिथ्ये निरयानुव्युच्छेदः ॥ ३२५ ॥

अर्थ—दर्शनमार्गणाके चक्षुर्दर्शनमें १२२ मेंसे साधारण, आतप, एकेन्द्री, दो इंद्री, तेइंद्री जाति, स्थावर, सूक्ष्म, तीर्थकर प्रकृति, इन ८ का उदय न होनेके कारण ११४ प्रकृतियां उदय योग्य हैं । और लेश्यामार्गणामें कृष्ण, नील इन दो लेश्याओंमें अपने गुणस्थानवत् तीर्थकरादि तीन प्रकृतियोंके सिवाय ११९ प्रकृतियां उदय योग्य हैं । लेकिन मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नरकगत्यानुपूर्वीकीभी व्युच्छित्ति समझना ॥ ३२५ ॥

साणे सुराउसुरगदिदेवतिरिक्खाणुवोच्छिदी एवं ।

काओदे अयदगुणे णियरतिरिक्खाणुवोच्छेदो ॥ ३२६ ॥

साने सुरायुःसुरगतिदेवतिर्यगानुव्युच्छित्तिरेवम् ।

कापोते अयत्तगुणे निरयतिर्यगानुव्युच्छेदः ॥ ३२६ ॥

अर्थ—इसीकारण सासादन गुणस्थानमें देवायु, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, तिर्यचगत्यानुपूर्वी इन चारकी भी व्युच्छित्ति जाननी । इसीप्रकार ११९ प्रकृतियां कपोत लेश्यामें भी हैं, परंतु असंयतगुणस्थानमें नरकगतिआनुपूर्वी और तिर्यचगत्यानुपूर्वी इन दो प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति है ॥ ३२६ ॥

आगे तीन शुभलेश्याओंमें कहते हैं;—

तेउतिये सगुणोघं णादाविगिविगलथावरचउकं ।

णिरयदुतदाउतिरियाणुगं णराणू ण मिच्छदुगे ॥ ३२७ ॥

तेजस्त्रये स्वगुणौघः नातापैकविकलस्थावरचतुष्कम् ।

निरयद्वितदायुस्तिर्यगानुकं नरानु न मिथ्यद्विके ॥ ३२७ ॥

अर्थ—तेजोलेश्यादि तीन शुभलेश्याओंमें अपने २ गुणस्थानवत् १२२ मेंसे आत-पादि दो, एकेन्द्री, विकलेन्द्री तीन, स्थावर आदि चार, नरकगत्यादि दो, नरकायु, तिर्यचगत्यानुपूर्वी इन १३ का उदय न होनेके कारण १०९ उदय योग्य हैं । उसमें भी मिथ्यादृष्टिआदि दो गुणस्थानोंमें मनुष्यगत्यानुपूर्वीका भी उदय नहीं है ॥ ३२७ ॥

अब भव्यमार्गणा और सम्यक्त्वमार्गणामें कहते हैं;—

भद्विदरुवसमवेदगखइये सगुणोघमुवसमे खयिये ।

ण हि सम्ममुवसमे पुण णादितियाणू य हारदुगं ॥ ३२८ ॥

भव्येतरोपशमवेदकक्षायिके स्वगुणौघ उपशमे क्षायिके ।

न हि सम्यगुपशमे पुनः नादित्रयानु चाहारद्विकम् ॥ ३२८ ॥

अर्थ—भव्य, अभव्य, उपशमसम्यक्त्व, वेदक (क्षायोपशमिक) सम्यक्त्व और क्षायिकसम्यक्त्व मार्गणाओंमें अपने २ गुणस्थानके कथनकी तरह जानना, विशेष बात यह है कि उपशम सम्यक्त्व तथा क्षायिक सम्यक्त्वमें सम्यक्त्वमोहनी प्रकृति उदययोग्य नहीं है । तथा उपशम सम्यक्त्वमें आदिकी नरकगत्यानुपूर्वी वगैरः तीन आनुपूर्वी प्रकृतियां और आहारकका जोड़ा ये प्रकृतियां उदय योग्य नहीं हैं ॥ ३२८ ॥

किस तरहसे ? सो दो क्षेपक गाथाओंसे कहते हैं;—

मिस्साहारस्सयथा खवगा चडमाणपढमपुच्चा य ।

पढमुवसमया तमतमगुणपडिवण्णा य ण मरंति ॥ १ ॥

अणसंजोगे मिच्छे मुहुत्तअंतोत्ति णत्थि मरणं तु ।

कदकरणिज्जं जाव तु सव्वपरट्ठाण अट्टपदा ॥ २ ॥ जुम्मं ।

मिश्राहाराश्रयकाः क्षपकाः चटमानप्रथमापूर्वाश्च ।

प्रथमोपशमकाः तमस्तमोगुणप्रतिपन्नाश्च न मरन्ति ॥ १ ॥

अनसंयोगे मिथ्ये मुहूर्तान्तरिति नास्ति मरणं तु ।

कृतकरणीयं यावत्तु सर्वपरस्थानानि अष्टपदानि ॥ २ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—निवृत्त्यपर्याप्तक अवस्थाका धारक १ आहारक मिश्रयोगका धारण करनेवाला २ क्षपक श्रेणीवाला ३ उपश्रेणी चढनेमें अपूर्वकरण नामा आठवें गुणस्थानके पहले भाग-वाला ४ और तमस्तमक नामकी सातवीं नरकभूमिमें सम्यक्त्वगुणसहित ५ प्रथमोपशम-सम्यक्त्ववाला ६ इन अवस्थाओंवाले जीव नहीं मरते हैं । और अनन्तानुबंधी कषायको विसंयोजन (जुदा) करके अन्य कषायरूप परिणमानेवाला जो द्वितीयोपशमसम्यग्दृष्टी ७ वह यदि मिथ्यात्वगुणस्थानको प्राप्त हुआ हो उसके अंतर्मुहूर्ततक मरण नहीं होता और दर्शनमोहके क्षय करनेवाले जीवके ८ जबतक कृतकृत्यपना अर्थात् क्षयोपशमसम्यग्दृष्टीपना है तबतक मरण नहीं होता है । इस प्रकार सब परस्थान आठ हुए । इनमें मरण नहीं है ॥ १ ॥ २ ॥

खाइयसम्मो देसो णर एव जदो तहिं ण तिरियाऊ ।

उज्जोवं तिरियगदी तेसिं अयदम्हि वोच्छेदो ॥ ३२९ ॥

क्षायिकसम्यग् देशो नर एव यतस्तस्मिन् न तिर्यगायुः ।

उद्योतः तिर्यग्गतिस्तेषामयते व्युच्छेदः ॥ ३२९ ॥

अर्थ—देशसंयत नामा पांचवें गुणस्थानमें रहनेवाला क्षायिक सम्यग्दृष्टी मनुष्य ही होता है, इसकारण उसके तिर्यचआयु १ उद्योत २ और तिर्यचगति ३ इन तीनोंका उदय नहीं है । इसीलिये इन तीनोंकी उदयव्युच्छित्ति असंयतगुणस्थानमें होजाती है ॥३२९॥

सेसाणं सगुणोघं सण्णिस्सवि णत्थि तावसाहरणं ।

थावरसुहुमिगिविगलं असण्णिणोवि य ण मणुहुच्चं ॥३३०॥

वेगुव्वल्ल पणसंहदिसंठाण सुगमण सुभगआउत्तियं ।

आहारे सगुणोघं णवरि ण सन्वाणुपुवीओ ॥३३१॥ जुम्मं ।

शेषाणां स्वगुणौघः संज्ञिन अपि नास्ति आतपसाधारणम् ।

स्थावरसूक्ष्मैकविकलमसंज्ञिनोपि च न मनुद्विउच्चम् ॥ ३३० ॥

वैगूर्वपट् पञ्चसंहदिसंस्थानं सुगमनं सुभगायुत्रयम् ।

आहारे स्वगुणौघः नवरि न सर्वानुपूर्व्यः ॥ ३३१ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—शेष मिथ्यात्व १ सासादन २ मिश्रसम्यक्त्व ३ इन तीनोंमें अपने २ गुणस्थानकी तरह उदयादि जानना, अर्थात् मिथ्यारुचिमें उदय योग्य ११७ प्रकृतियां हैं इत्यादि जानना चाहिये । और संज्ञीमार्गणामें संज्ञीके भी सामान्य १२२ मेंसे आतप, साधारण, स्थावर, सूक्ष्म, एकेन्द्री, विकलेंद्री तीन, तथा पूर्वोक्त तीर्थकर प्रकृति इसप्रकार ९ प्रकृ-

१. केवली तीर्थकरके भावमन नहीं है इसकारण उनको संज्ञी नहीं कह सके । और तिर्यचोंके सिवाय दूसरी जगद् असंज्ञीपना नहीं होता इससे असंज्ञीभी नहीं कहसकते हैं ।

तियां उदय योग्य नहीं हैं । असंज्ञिके मनुष्यगति आदि दो, ऊंच गोत्र, वैक्रियिक शरीरादि छह, पहले पांच संहनन, आदिके पांच संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभगादि तीन, नरकादि आयु तीन—ये छव्वीस प्रकृतियां उदय योग्य नहीं हैं, इसकारण मिथ्यादृष्टिकी ११७ मेंसे २६ घटानेपर ९१ प्रकृतियां उदय योग्य हैं । और आहारमार्गणामें आहारक अवस्थामें सामान्य गुणस्थानवत् उदयादि समझना, परंतु सब (चारों) आनुपूर्वी प्रकृतियोंका उदय नहीं होता, इसकारण उदय योग्य ११८ प्रकृतियां हैं ॥ ३३० । ३३१ ॥

आगे अनाहारअवस्थामें उदयादि कहते हुए उदयके प्रकारणको समाप्त करते हैं;—

कम्मे व अणाहारे पयडीणं उदयमेवमादेसे ।

कहियमिणं बलमाहवचंदच्चियणेमिचंदेण ॥ ३३२ ॥

कार्मे इवानाहारे प्रकृतीनामुदय एवमादेशे ।

कथितोऽयं बलमाधवचन्द्रार्चितनेमिचन्द्रेण ॥ ३३२ ॥

अर्थ—अनाहारक अवस्थामें कार्माण काययोगकी तरह ८९ प्रकृतियां उदय योग्य हैं । इसप्रकार मार्गणादिस्थानोंमें ये प्रकृतियोंका उदय बलभद्र और नारायणकर पूजित ऐसे नेमिनाथतीर्थकर देवने अथवा अपनेभाई बलदेव और माधवचन्द्र त्रैविद्यदेवकर पूजित ऐसे नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने कहा है, ऐसा जानना ॥ ३३२ ॥ इति उदयप्रकरणम् ॥

आगे प्रकृतियोंके सत्त्वका निरूपण करते हुए पहले गुणस्थानोंमें सत्त्व कहते हैं;—

तित्थाहारा जुगवं सवं तित्थं ण मिच्छगादिति ए ।

तत्सत्त्वकम्मियाणं तग्गुणठाणं ण संभवदि ॥ ३३३ ॥

तीर्थाहारा युगपत् सर्व तीर्थ न मिथ्यकादित्रये ।

तत्सत्त्वकर्मकाणां तद्गुणस्थानं न संभवति ॥ ३३३ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि, सासादन, मिश्र इन तीनों गुणस्थानोंमें क्रमसे तीर्थकर, आहारक द्वय एककालमें नहीं होते, तथा सब (तीनों) ही किसी कालमें नहीं होते, और तीर्थकर प्रकृति नहीं होती अर्थात् मिथ्यात्वमें नानाजीवोंकी अपेक्षा सब १४८ प्रकृतियोंकी सत्ता है, सासादनमें तीनोंहीके किसी कालमें न होनेसे १४५ की सत्ता है और मिश्रगुणस्थानमें एक तीर्थकर प्रकृतिके न होनेसे १४७ प्रकृतियोंका सत्ता है । क्योंकि इन सत्त्वप्रकृतियोंवाले जीवोंके वे मिथ्यात्वादि गुणस्थानही संभव नहीं हैं ॥ ३३३ ॥

चत्तारिवि खेत्ताइं आउगबंधेण होइ सम्मत्तं ।

अणुवदमहवदाइं ण लहइ देवाउगं मोत्तुं ॥ ३३४ ॥

चतुर्णामपि क्षेत्राणामायुष्कबन्धेन भवति सम्यक्त्वम् ।

अणुव्रतमहाव्रतानि न लभते देवायुष्कं मुक्त्वा ॥ ३३४ ॥

अर्थ—चारों ही गतियोंमें किसीकी भी आयुके बंध होनेसे सम्यक्त्व होता है, परंतु देवायुके बंधके सिवाय अन्य तीनगतियोंकी आयुके बन्धवाला अणुव्रत तथा महाव्रत नहीं धारण कर सक्ता है, क्योंकि वहां व्रतके कारणभूत विशुद्ध परिणाम नहीं हैं ॥ ३३४ ॥

निरयतिरिक्खसुराउगसत्ते ण हि देससयलवदखवगा ।

अयदचउक्कं तु अणं अणियट्ठीकरणचरिमम्हि ॥ ३३५ ॥

जुगवं संजोगित्ता पुणोवि अणियट्ठीकरणबहुभागं ।

वोलिय कमसो मिच्छं मिस्सं सम्मं खवेदि कमे ॥ ३३६ ॥ जुम्मं ।

निरयतिर्यक्सुरायुष्कसत्त्वे न हि देशसकलव्रतक्षपकाः ।

अयतचतुष्कस्तु अनमनिवृत्तिकरणचरमे ॥ ३३५ ॥

युगपत् विसंयोज्य पुनरपि अनिवृत्तिकरणबहुभागम् ।

व्यतीत्य क्रमशो मिथ्यं मिश्रं सम्यक् क्षपयति क्रमेण ॥ ३३६ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—नरक, तिर्येच तथा देवायुके सत्त्व होनेपर क्रमसे देशव्रत, सर्वव्रत (महाव्रत) और क्षपक श्रेणी नहीं होती । और असंयतादि चार गुणस्थानवाले अनंतानुबंधी आदि ७ सात प्रकृतियोंका क्रमसे क्षयकर क्षायिक सम्यग्दृष्टि होते हैं । उन सातोंमेंसे पहले अनंतानुबंधीचारका अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोंके अंतर्मुहूर्त कालके अंतसमयमें एकही वार विसंयोजन करके अर्थात् अनंतानुबंधीकी चौकड़ीको अप्रत्याख्यानादि बारह कपायरूप परिणमन कराके उसके बाद अनिवृत्तिकरणकालके बहुभागको छोड़के शेषसंख्यात एक भागके पहले समयसे लेकर क्रमसे मिथ्यात्व, मिश्र तथा सम्यक्त्व प्रकृतिका क्षय करते हैं इसप्रकार सातप्रकृतियोंके क्षयका क्रम है । इससे सारांश यह निकला कि सम्यक दृष्टि ७ प्रकृतियोंके क्षय करनेवाले तथा उपशमादि करनेवाले होते हैं । सो तीन गुणस्थानोंका प्रकृतिसत्त्व पूर्वोक्तही समझना । तथा असंयतसे लेकर सातवें गुणस्थानतक उपशम सम्यग्दृष्टी तथा क्षयोपशम सम्यग्दृष्टी इन दोनोंके चौथे गुणस्थानमें अनंतानुबंधी आदिकी उपशमरूप सत्ता होनेसे १४८ प्रकृतियोंका सत्त्व है । पांचवें गुणस्थानमें नरकायु न होनेसे १४७ का, प्रमत्तगुणस्थानमें नरक तथा तिर्येचायु इन दोनोंका सत्त्व न होनेसे १४६ का तथा अप्रमत्तमें भी १४६ ही का सत्त्व है । और क्षायिक सम्यग्दृष्टीके अनंतानुबंधी चार तथा दर्शन मोहनीय ३ इन सात प्रकृतियोंके क्षय होनेसे सात सात क्रम समझना । और अपूर्वकरण गुणस्थानमें दो श्रेणी हैं उनमेंसे क्षपकश्रेणीमें तो १३८ प्रकृतियोंका सत्त्व है, क्योंकि अनंतानु बंधी आदि ७ प्रकृतियोंका तो पहले ही क्षय कियाथा और

नरक, तिर्यच तथा देवायु इन तीनोंकी सत्ता ही नहीं है । इसप्रकार $७+३=१०$ प्रकृतियां कम हैं ॥ ३३५ । ३३६ ॥

अब अनिवृत्तिकरणनामक नवमें गुणस्थानादिकमें क्षययोग्य प्रकृतियोंका क्रम कहते हैं;—

सोलष्टेक्किगिळकं चदुसेकं वादरे अदो एकं ।

खीणे सोलसऽजोगे वावत्तरि तेरुवत्तंते ॥ ३३७ ॥

षोडशाष्टैकैकपट्टं चतुर्ष्वेकं वादरे अत एकम् ।

क्षीणे षोडशायोगे द्वासप्ततिस्त्रयोदश उपरमन्ते ॥ ३३७ ॥

अर्थ—वादर अर्थात् अनिवृत्तिकरणके ९ भागोंमेंसे पांच भागोंमें क्रमसे १६, ८, १, १, ६, प्रकृतियां उपराम करती हैं अर्थात् क्षय अथवा सत्तासे व्युच्छिन्न होती हैं, तथा चार भागोंमें एक एक ही की सत्तासे व्युच्छिन्ति है । इसके बाद सूक्ष्म सांपरायनामा दशवें गुणस्थानमें एकही की व्युच्छिन्ति है । ग्यारवेंमें योग्यताही नहीं । बारवें क्षीणकषायगुणस्थानके अंतसमयमें १६ प्रकृतियोंकी सत्त्वसे व्युच्छिन्ति होती है । सयोगीमें किसीभी प्रकृतिकी व्युच्छिन्ति नहीं । अयोगकेवली चौदहवें गुणस्थानके अंतके दो समयोंमेंसे पहले समयमें ७२ की तथा दूसरे समयमें १३ प्रकृतियोंकी व्युच्छिन्ति होती है ॥ ३३७ ॥

आगे उन १६ आदि प्रकृतियोंको गिनाते हैं जिनकी कि गुणस्थानोंमें व्युच्छिन्ति कही है;—

णिरयतिरिक्खदु वियलंथीणतिगुज्जोवतावएइंदी ।

साहरणसुहुमथावर सोलं मज्झिमकसायट्टं ॥ ३३८ ॥

संढित्थि छक्कसाया पुरिसो कोहो य माण मायं च ।

थूले सुहुमे लोहो उदयं वा होदि खीणमिह ॥ ३३९ ॥ जुम्मं ।

निरयतिर्यग्दिक्क विकलस्त्यानत्रिकमुद्योतातपैकेन्द्रियम् ।

साधारणसूक्ष्मस्थावरं षोडश मध्यमकषायाष्टौ ॥ ३३८ ॥

षण्ढस्त्री षट्कषायाः पुरुषः क्रोधश्च मानं माया च ।

स्थूले सूक्ष्मे लोभ उदयो वा भवति क्षीणे ॥ ३३९ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—अनिवृत्तिकरणके पहले भागकीं नरकगति आदि २, तिर्यचगति आदि २, विकलेंद्री तीन, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, उद्योत, आतप, एकेन्द्री, साधारण, सूक्ष्म, स्थावर—ये १६ प्रकृतियां हैं । दूसरे भागकी बीचकी अप्रत्याख्यान चार तथा प्रत्याख्यान चार कषाय मिलकर आठ प्रकृतियां । तीसरे भागकी नपुंसकवेद, चौथेकी स्त्रीवेद, पांचवेंकी हास्यादि ६ नोकषाय; और छठे, सातवें, आठवें, नवमें भागमें क्रमसे पुरुषवेद, संज्वल-

नक्रोध, मान, तथा माया है । इसप्रकार स्थूल अर्थात् वादरकषाय नवमें गुणस्थानमें ३६ प्रकृतियां व्युच्छिन्न होती हैं । और सूक्ष्मकषायनामा दशवैकी लोभसंज्वलन प्रकृति है । तथा क्षीणकषाय नामा बारवैकी उदयकी तरह ज्ञानावरण ५ दर्शनावरण ४ अंतराय ५ और निद्रा १ प्रचला १ इसप्रकार १६ प्रकृतियां हैं ॥ ३३८ । ३३९ ॥

अब अयोगीकी व्युच्छिन्नप्रकृतियोंको कहते हैं;—

देहादीफस्संता थिरसुहसरसुरविहायदुग दुभगं ।

णिमिणाजसऽणादेजं पत्तेयापुण्ण अगुरुचऊ ॥ ३४० ॥

अणुदयतदियं णीचमजोगिदुचरिमम्मि सत्त्वोच्छिण्णा ।

उदयगवार णराणू तेरस चरिमम्हि वोच्छिण्णा ॥ ३४१ ॥ जुम्मं ।

देहादिस्पर्शान्ताः स्थिरशुभस्वरसुरविहायोद्विकं दुर्भगम् ।

निर्माणायशानादेयं प्रत्येकापूर्णमगुरुचत्वारि ॥ ३४० ॥

अनुदयवृत्तीयं नीचमयोगिद्विचरिमे सत्त्वव्युच्छिन्नाः ।

उदयगद्वादश नरानुः त्रयोदश चरमे व्युच्छिन्नाः ॥ ३४१ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—पांच शरीरसे लेकर आठ स्पर्शतक ५०, स्थिर—शुभ—स्वर—देवगति—विहायो-गति, इनका जोड़ा, दुर्भग, निर्माण, अयशस्कीर्ति, अनादेय, प्रत्येक, अपर्याप्त, अगुरुलघु आदि ४, तीसरे वेदनीयकर्मकी दोनोंमेंसे अनुदयरूप १, नीचगोत्र—ये ७२ प्रकृतियां अयोगकेवलीके अंतके समीपके दूसरे समयमें सत्त्वसे व्युच्छिन्न होती हैं । तथा जिनका उदय अयोगी गुणस्थानमें है ऐसी उदयगत १२ प्रकृतियां और एक मनुष्यगत्यानुपूर्वी इसप्रकार १३ प्रकृतियां अयोगीके अंतके समय अपनी सत्तासे छूटती हैं ॥ ३४० ॥ ३४१ ॥

अब सत्त्व और असत्त्व प्रकृतियोंकी संख्या गुणस्थानोंमें क्रमसे दिखाते हैं;—

णभतिगिणभइगि दोहो दस दससोलट्टगादिहीणेषु ।

सत्ता हवंति एवं असहायपरकमुद्दिट्टं ॥ ३४२ ॥

नभरुथेकनभएकं द्वे द्वे दश दशपोडशाष्टकादिहीणेषु ।

सत्ता भवन्ति एवमसहायपराक्रमोद्दिष्टम् ॥ ३४२ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टिआदि अपूर्वकरण गुणस्थानतक क्रमसे शून्य अर्थात् कोई नहीं, ३, १, शून्य, १, २, २, १० इतनी प्रकृतियोंका असत्त्व जानना अर्थात् ये प्रकृतियां नहीं रहतीं । और अनिवृत्तिकरणके पहले भागमें १० दूसरेमें १६ तीसरे आदिभागमें ८ प्रकृतियांआदि असत्त्व जाननी । और इन असत्त्वप्रकृतियोंको सब सत्त्वप्रकृतियोंमें घटानेसे अवशेष प्रकृतियां अपने २ गुणस्थानोंमें सत्त्वप्रकृतियां हैं । ऐसा सहायतारहित पराक्रमके धारणकरनेवाले श्रीमहावीरस्वामीने कहा है ॥ ३४२ ॥

आगे उपशम श्रेणीवालेके चारित्रमोहनीयकी शेष २१ प्रकृतियोंके उपशम करानेका विधान कहते हैं,—

खवणं वा उचसमणे णवरि य संजलणपुरिसमज्झमिह ।

मज्झिमदोहो कोहादीया कमसोवसंता हु ॥ ३४३ ॥

क्षपणामिव उपशमने नवरि च संज्वलनपुरुषमध्ये ।

मध्यमद्वौ द्वौ क्रोधादिकौ क्रमश उपशान्तौ हि ॥ ३४३ ॥

अर्थ—उपशमके विधानमें भी क्षपणा विधानकी तरह क्रम जानना । परंतु विशेष बात यह है कि संज्वलनकषाय और पुरुषवेदके मध्यमें बीचके जो अप्रत्याख्यान तथा प्रत्याख्यान कषाय संबंधी दो दो क्रोधादि हैं सो पहले उनको क्रमसे उपशमन करता है, पीछे संज्वलन क्रोधादिका उपशम करता है । जैसे पुरुषवेदके बाद अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान दोनोंके क्रोधका उपशम किया पश्चात् संज्वलनक्रोधका उपशम करता है इत्यादि मानादिमें भी ऐसे ही जानना ॥ ३४३ ॥

णिरयादिसु पयडिट्ठिदिअणुभागप्रदेशभेदभिण्णस्स ।

सत्तस्स य सामित्तं णेदवमिदो जहाजोग्गं ॥ ३४४ ॥

निरयादिषु प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदभिन्नस्य ।

सत्त्वस्य च स्वामित्वं नेतव्यमितो यथायोग्यम् ॥ ३४४ ॥

अर्थ—इसके बाद नरकगति आदि मार्गणाओंमें भी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, इन चार भेदोंको लिये हुए जो प्रकृतियोंका सत्त्व है वह यथा योग्य समझना ॥ ३४४ ॥

अब गत्यादि मार्गणाओंमें सत्त्वको दिखानेके लिये परिभाषा (नियम) सूत्र कहते हैं;—

तिरिए ण तित्थसत्तं णिरयादिसु तिय चउक्क चउ तिण्णि ।

आऊणि होंति सत्ता सेसं ओघादु जाणेज्जो ॥ ३४५ ॥

तिरश्चि न तीर्थसत्त्वं निरयादिषु त्रीणि चतुष्कं चत्वारि त्रीणि ।

आयूंषि भवन्ति सत्ताः शेषमोघात् ज्ञातव्यम् ॥ ३४५ ॥

अर्थ—तिर्य्यचगतिमें तीर्थकर प्रकृतिकी सत्ता नहीं होती । और नरक, तिर्य्यच, मनुष्य तथा देवगतिमें क्रमसे भुज्यमान नरकायु—बध्यमान तिर्य्यच और मनुष्यायु इन ३ आयुओंकी, भुज्यमानतिर्य्यचायु—बध्यमान नरक—तिर्य्यग्—मनुष्य—देवायु इन ४ की, भुज्यमान मनुष्यायु—बध्यमान नरक—तिर्य्यच—मनुष्य—देव आयु इन चारों आयुकर्माकी, भुज्यमान देवायु—बध्यमानतिर्य्यच और मनुष्यायु—इन ३ आयुकर्माकी सत्ता रहने योग्य है । और शेष प्रकृतियोंकी सत्ता गुणस्थानकी तरह समझना ॥ ३४५ ॥

अब उनमें भी नरकादि गतिमें सत्ता दिखाते हैं;—

ओघं वा णेरइये ण सुराऊ तित्थमत्थि तदियोत्ति ।

छट्ठित्ति मणुस्साऊ तिरिए ओघं ण तित्थयरं ॥ ३४६ ॥

ओघ इव नैरयिके न सुरायुः तीर्थमस्ति तृतीय इति ।

षष्ठ इति मनुष्यायुः तिरिश्चि ओघो न तीर्थकरम् ॥ ३४६ ॥

अर्थ—नरकगतिमें गुणस्थानवत् सत्ता जानना, परंतु देवायुका सत्व नहीं है । इसकारण १४७ प्रकृतियां सत्व योग्य हैं । और तीसरे नरक तक तीर्थकर प्रकृतिका सत्व है तथा मनुष्यायुका सत्व छठी नरकपृथिवीतक है । तीर्थचगतिमें भी गुणस्थानवत् जानना लेकिन तीर्थकर प्रकृतिका सत्व नहीं है, इसकारण सत्व योग्य १४७ प्रकृतियां हैं ॥ ३४६ ॥

एवं पंचतिरिक्खे पुण्णिदरे णत्थि णिरयदेवाऊ ।

ओघं मणुसतियेसुवि अपुण्णगे पुण अपुण्णेव ॥ ३४७ ॥

एवं पञ्चतिरिश्चि पूर्णंतरस्मिन् नास्ति निरयदेवायुः ।

ओघः मनुष्यत्रयेष्वपि अपूर्णके पुनरपूर्णे इव ॥ ३४७ ॥

अर्थ—इसीप्रकार पांच जातिके तीर्थचोंमें भी सामान्यरीतिसे सत्व जानना, परंतु विशेष बात यह है कि लब्ध्यपर्याप्तक तीर्थचमें नरकायु और देवायु—इन दोका भी सत्व नहीं है । और मनुष्यके तीन भेदोंमें भी गुणस्थानवत् सत्व समझना । परंतु लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्यमें लब्ध्यपर्याप्तकतीर्थचकी तरह नरकायु देवायु तीर्थकर इन तीन प्रकृतियोंके विना १४५ प्रकृतियां सत्तायोग्य हैं ॥ ३४७ ॥

अब देवगतिमें कहते हैं;—

ओघं देवे ण हि णिरयाऊ सारोत्ति होदि तिरियाऊ ।

भवणतियकप्पवासियइत्थीसु ण तित्थयरसत्तं ॥ ३४८ ॥

ओघः देवे न हि निरयायुः सार इति भवति तिर्यगायुः ।

भवनत्रयकल्पवासिकस्त्रीपु न तीर्थकरसत्त्वम् ॥ ३४८ ॥

अर्थ—देवगतिमें सामान्यवत् जानना, परंतु नरकायु नहीं है इसकारण १४७ सत्त्व प्रकृतियां हैं । और सहस्रार नामा वारचें स्वर्गतक ही तीर्थच आयुकी सत्ता है आगे नहीं । भवनत्रिक (भवनवासी १ व्यंतर २ ज्योतिपी ३) देवोंमें तथा कल्पवासिनीस्त्रियोंमें तीर्थकर प्रकृतिका भी सत्त्व नहीं है ॥ ३४८ ॥

आगे इन्द्रियमार्गणा और कायमार्गणामें सत्त्वादि कहते हैं;—

ओघं पंचक्खतसे सेसिंदियकायगे अपुण्णं वा ।

तेउदुगे ण णराऊ सवत्थुव्वेलणावि हवे ॥ ३४९ ॥

ओषः पञ्चाक्षत्रसे शेषेन्द्रियकायके अपूर्णं वा ।

तेजोद्विके न नरायुः सर्वत्रोद्वेहनापि भवेत् ॥ ३४९ ॥

अर्थ—पंचेन्द्री और त्रसकायमें सामान्य गुणस्थानकी तरह १४८ सत्त्व प्रकृतियां हैं । और शेष एकेन्द्री आदि चार इन्द्रियोंमें तथा पृथिवी आदि स्थावरकायमें लब्धपर्याप्तक-की तरह १४५ प्रकृतियोंकी सत्ता जानना, परंतु तेजःकाय और वायुकायमें मनुष्यायुका सत्त्व नहीं है इसकारण इन दोनोंमें १४४ की सत्ता समझना । तथा सब जगह अर्थात् इन्द्रिय और कायमार्गणामें प्रकृतियोंकी उद्वेलना भी होती है । जैसे जेवड़ीके बटनेमें बल दियाथा पीछे उलटा घुमानेसे बल (टेढापन) निकाल दिया । इसीप्रकार जिसप्रकृति-का बंध कियाथा पीछे परिणामविशेषसे उसको अन्यप्रकृतिरूप परिणामा के उसका नाश कर-दिया अर्थात् फल उदयमें नहीं आने दिया पहलेही नाश करदिया उसे उद्वेलन कहते हैं ॥ ३४९ ॥

वे कौनसी उद्वेलन प्रकृतियां है ? उन्हींको दिखाते हैं;—

हारदु सम्मं मिस्सं सुरदुग णारयचउक्कमणुकमसो ।

उच्चागोदं मणुदुगमुवेह्लिज्जंति जीवेहिं ॥ ३५० ॥

आहारद्वि सम्यक् मिश्रं सुरद्विकं नारकचतुष्कमनुक्रमशः ।

उच्चैर्गोत्रं मनुद्विकमुद्वेल्यन्ते जीवैः ॥ ३५० ॥

अर्थ—आहारकद्विक, सम्यक्त्वप्रकृति, मिश्रमोहनी, देवगतिका युगल, नरकगति आदि चार, ऊंच गोत्र, और मनुष्यगतिका जोड़ा—ये १३ प्रकृतियां क्रमसे जीवोंकर उद्वेलन की जाती हैं ॥ ३५० ॥

आगे कौन जीव किस प्रकृतीकी उद्वेलना करता है ? इसका उत्तर आचार्य महाराज कहते हैं;—

चदुगदिमिच्छे चउरो इगिविगले छप्पि तिण्णि तेउदुगे ।

सिय अत्थि णत्थि सत्तं सपदे उप्पण्णठाणेवि ॥ ३५१ ॥

चतुर्गतिमिथ्ये चतस्रः एकविकले षडपि तिस्रः तेजोद्विके ।

स्यादस्ति नास्ति सत्त्वं स्वपदे उत्पन्नस्थानेपि ॥ ३५१ ॥

अर्थ—चारों गतिवाले मिथ्यादृष्टि जीवोंके चार प्रकृतियां, एकेन्द्री तथा दो इंद्री आदि विकलत्रयमें ६ प्रकृतियां, तेजःकाय—वायुकाय इन दोनोंके तीन प्रकृतियां, अपने स्थानमें और उत्पन्न स्थानमें किसी तरह सत्त्वरूप हैं, किसी तरह सत्त्वरूप नहीं भी हैं अर्थात् जो उद्वेलना न हुई हो तब सत्त्व, यदि उद्वेलना हुई हो तो उन प्रकृतियोंकी असत्ता जानना ॥ ३५१ ॥

आगे योगमार्गणामें सत्त्व दिखाते हैं;—

पुण्णेकारसजोगे साहारयमिस्सगेवि सगुणोघं ।

वेग्गुच्चियमिस्सेवि य णवरि ण माणुसतिरिक्खाऊ ॥ ३५२ ॥

पूर्णेकादशयोगे साहारकमिश्रकेपि स्वगुणौघः ।

वैगूर्विकमिश्रेपि च नवरि न मानुषतिर्यगायुः ॥ ३५२ ॥

अर्थ—मनोयोगादि ११ पूर्ण योगोंमें और आहारकमिश्र योगमें अपने २ गुणस्थानोंकी तरह सत्त्व प्रकृतियां जानना, इसीप्रकार वैक्रियिक मिश्र योगमें भी गुणस्थानवत् ही सत्त्व जानना, परंतु विशेष बात यह है कि मनुष्यायु और तिर्यंचायु इनकी सत्ता नहीं है इसकारण १४६ सत्त्व प्रकृतियां हैं ॥ ३५२ ॥

अब औदारिकमिश्रयोगमें और कार्माणकाययोगमें सत्त्व कहते हैं;—

ओरालमिस्सजोगे ओघं सुरणिरयआउगं णत्थि ।

तन्मिस्सवामगे ण हि तित्थं कम्मेवि सगुणोघं ॥ ३५३ ॥

ओरालमिश्रयोगे ओघः सुरनिरयायुष्कं नास्ति ।

तन्मिश्रवामके न हि तीर्थं कार्मेपि स्वगुणौघः ॥ ३५३ ॥

अर्थ—औदारिकमिश्रयोगमें सामान्य गुणस्थानवत् सत्त्व जानना, परंतु देवायु तथा नरकायु ये दो नहीं हैं इस कारण १४६ का सत्त्व है । औदारिकमिश्रमिथ्यादृष्टिके तीर्थ-कर प्रकृति नहीं, इसलिये पहले गुणस्थानमें १४५ का सत्त्व है । इसीप्रकार कार्माणकाय-योगमें भी गुणस्थानवत् १४८ प्रकृतियोंका सत्त्व समझना ॥ ३५३ ॥

आगे वेदमार्गणाआदिकमें सत्त्व कहते हैं;—

वेदादाहारोत्ति य सगुणोघं णवरि संढथीस्खवगे ।

क्किण्हदुगसुहतिलेस्सियवामेवि ण तित्थयरसत्तं ॥ ३५४ ॥

वेदादाहार इति च स्वगुणौघः नवरि पण्डस्त्रीक्षपके ।

कृष्णद्विकशुभत्रिलेश्यकवामेपि न तीर्थकरसत्त्वम् ॥ ३५४ ॥

अर्थ—वेदमार्गणासे लेकर आहारमार्गणापर्यंत अपने २ गुणस्थानवत् सामान्य सत्त्व जानना । परंतु विशेषता यह है कि नपुंसकवेद और स्त्रीवेदक्षपकश्रेणीवालेके तीर्थकर प्रकृतिकी सत्ता नहीं है । इसीप्रकार कृष्णलेइया तथा नीललेइया इन दो लेइयावाले मिथ्या दृष्टिके, और पीतादि तीन शुभलेइयावाले मिथ्यादृष्टिके भी तीर्थकर प्रकृतिका सत्त्व नहीं है ॥ ३५४ ॥

अब अभव्यमार्गणामें विशेषता कहते हैं;—

अभवसिद्धे णत्थि हु सत्तं तित्थयरसम्ममिस्साणं ।

आहारचउक्कस्सवि असण्णिजीवे ण तित्थयरं ॥ ३५५ ॥

अभव्यसिद्धे नास्ति हि सत्त्वं तीर्थकरसम्यग्मिश्राणाम् ।
आहारचतुष्कस्यापि असंज्ञिजीवे न तीर्थकरम् ॥ ३५५ ॥

अर्थ—अभव्यमार्गणामें अर्थात् अभव्यजीवके तीर्थकरप्रकृति, सम्यक्त्वप्रकृति और मिश्रमोहनीय तथा आहारक चतुष्क अर्थात् आहारक शरीर १ आहारक आंगोपांग २ आहारक बंधन ३ आहारक संघात ४ इन चारका—इस प्रकार सात प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं है । और असंज्ञी जीवके तीर्थकरप्रकृतिका सत्त्व नहीं है ॥ ३५५ ॥

आगे अनाहार मार्गणामें सत्त्वकी विशेषता कहते हुए आचार्य महाराज सत्त्वाधिकारको पूर्ण करते हैं;—

कम्मेवाणाहारे पयडीणं सत्त्वमेवमादेशे ।
कहियमिणं बलमाहवचंदच्चियणेमिचंदेण ॥ ३५६ ॥
कार्मे एवानाहारे प्रकृतीनां सत्त्वमेवमादेशे ।
कथितमिदं बलमाधवचन्द्रार्चितनेमिचन्द्रेण ॥ ३५६ ॥

अर्थ—अनाहार मार्गणामें कार्माण काययोगवत् सत्त्वप्रकृतियोंकी रचना जानना । इसप्रकार मार्गणास्थानोंमें यह “ प्रकृतियोंका सत्त्व ” बलदेव—वासुदेवकर पूजित श्रीनेमिचन्द्र तीर्थकरदेवने अथवा अपने भाई बलदेव तथा माधवचन्द्र त्रैविद्यदेवकर पूजित नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने कहा है ॥ ३५६ ॥

अब इस बंध उदय सत्त्वाधिकारको पूर्ण करते हुए अन्तिम मङ्गलाचरण करते हैं;—

सो मे तिहुवणमहियो सिद्धो बुद्धो गिरंजणो णिच्चो ।
दिसदु वरणाणलाहं बुहजणपरिपत्थणं परमसुद्धं ॥ ३५७ ॥
स मे त्रिभुवनमहितः सिद्धो बुद्धो निरञ्जनो नित्यः ।
दिशतु वरज्ञानलाभं बुधजनपरिप्रार्थनं परमशुद्धम् ॥ ३५७ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज प्रार्थना करते हैं कि जो तीनलोककर पूजित, सिद्ध, बुद्ध, कर्मरूपी अंजनकर रहित और नित्य अर्थात् जन्ममरण रहित ऐसे श्रीनेमिचन्द्र तीर्थकर मुझको ज्ञानीजनोंकर प्रार्थना करने योग्य, परमशुद्ध ऐसा उत्कृष्ट ज्ञानका लाभ देवौ अर्थात् मुझे उत्कृष्ट ज्ञान होवे ऐसी आचार्य प्रार्थना करते हैं ॥ ३५७ ॥

इति आचार्य श्रीनेमिचन्द्रविरचित गोम्मटसार दूसरा नाम पंचसंग्रहग्रंथमें कर्मकांडमें बंधोदयसत्त्वके कहनेवाला दूसरा अधिकार पूर्ण हुआ ॥ २ ॥

आगे आचार्य महाराज मङ्गलाचरणपूर्वक प्रकृतियोंके भङ्गसहित सत्त्वस्थान कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं;—

णमिऊण वड्डमाणं कणयणिहं देवरायपरिपुज्जं ।

पयडीण सत्तठाणं ओघे भंगे समं वोच्छं ॥ ३५८ ॥

नत्वा वर्द्धमानं कनकनिभं देवराजपरिपूज्यम् ।

प्रकृतीनां सत्त्वस्थानमोघे भङ्गेन समं वक्ष्यामि ॥ ३५८ ॥

अर्थ—मैं ग्रन्थकर्ता सुवर्णके समान वर्णवाले, इन्द्रकर पूजनीक ऐसे श्रीवर्धमान तीर्थ-कर देवको नमस्कार करके । भङ्गसहित प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानको गुणस्थानोंमें कहता हूँ ॥३५८॥ एक जीवके एक कालमें जितनी प्रकृतियोंकी सत्ता पावै उनके समूहका नाम स्थान है । और जिस जगह एकसी संख्यारूप प्रकृतियोंमें बदलना हो उसे भङ्ग कहते हैं । जैसे किसी जीवके १४६ की सत्ता और किसीके १४५ प्रकृतियोंकी सत्ता पावै तो इस जगह पर दो स्थान हुए । परंतु उसी संख्यामें किसी जीवके तो मनुष्यायु तथा देवायु सहित १४५ की सत्ता है । किसीके तीर्थचायु और नरकायुकी सत्ता सहित १४५ की सत्ता है, यहांपर स्थान तो एक हुआ क्योंकि संख्या एक है । परंतु प्रकृतिके बदलनेसे भङ्ग दो हुए । इसप्रकार सब जगह स्थान और भङ्ग समझलेना ॥

आगे गुणस्थानोंमें स्थान और भङ्गके कहनेका विधान दिखाते हैं;—

आउगवंधावंधणभेदमकाऊण वण्णणं पढमं ।

भेदेण य भंगसमं परूवणं होदि विदियम्हि ॥ ३५९ ॥

आयुष्कवन्धावन्धनभेदमकृत्वा वर्णनं प्रथमम् ।

भेदेन च भङ्गसमं परूपणं भवति द्वितीयस्मिन् ॥ ३५९ ॥

अर्थ—इस जगह आयुके वंघ अथवा अवंघके भेदको नहीं करके पहला वर्णन है । तथा दूसरे कथनमें आयुवंघके भेद सहित कथन है ऐसा जानना ॥ ३५९ ॥

अब दोनों पक्षोंमेंसे सामान्य प्रथमपक्षके अनुसार सत्ताका विधान कहते हैं;—

सव्वं तिगेग सव्वं चेगं छसु दोणिण चउसु छद्दस य दुगे ।

छस्सगदालं दोसु तिसट्ठी परिहीण पडि सत्तं जाणे ॥३६०॥

सर्वं त्रिकैकं सर्वं चैकं पट्सु द्वयं चतुर्पु पद् दश च द्विके ।

पदसप्तचत्वारिंशत् द्वयोः त्रिपष्टिः परिहीनं प्रति सत्त्वं जानीहि ॥ ३६० ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदि चौदह गुणस्थानोंमें क्रमसे पहलेमें सब १४८ का, दूसरेमें तीन कमका, तीसरेमें एक कमका, चौथेमें सबका, पांचवेंमें एक कमका, प्रमत्तादि छह गुणस्थानोंमें दो कमका उत्तमों भी उपशम श्रेणीकी अपेक्षा अपूर्वकरणादि चारगुणस्थानोंमें छह कमका, क्षपणश्रेणीकी अपेक्षा अपूर्वकरणादि दो गुणस्थानोंमें दश कमका तूष्णसांपराय

तथा क्षीणकषाय इनदोमें क्रमसे ४६ और ४७ कमका, सयोग केवली अयोग केवली इन दो गुणस्थानोंमें ६३ कमका अर्थात् ८५ प्रकृतियोंका सत्त्व जानना । और “च” से अयोग-केवलीके अंत समयमें १३५ विना १३ प्रकृतियोंका सत्त्व है ॥ ३६० ॥

आगे जो प्रकृतियां हीन कीगईथीं उनको कहते हैं;—

सासणमिस्से देसे संजददुग सामगेसु णत्थी य ।

तित्थाहारं तित्थं णिरयाऊ णिरयतिरियआउअणं ॥ ३६१ ॥

सासादनमिश्रे देशे संयतद्विके शामकेषु नास्ति च ।

तीर्थाहारं तीर्थं निरयायुः निरयतिर्यगायुरनम् ॥ ३६१ ॥

अर्थ—सासादन गुणस्थानमें, मिश्रमें, देशसंयतमें, प्रमत्तसंयतादि दोमें, उपशमश्रेणीवाले गुणस्थानोंमें, क्रमसे तीर्थकर १ आहारक शरीर २ आहारकांगोपांग ३ ये तीन, तीर्थकर प्रकृति, नरकायु, नरक-तिर्यचायु, नरकायु १ तिर्यचायु २ अनंतानुबंधीकी चौकड़ी ये ६ प्रकृतियां, सत्त्व प्रकृतियोंमेंसे नहीं हैं ॥ ३६१ ॥

अब गुणस्थानोंमें आयुके बंध अबंधका भेदसहित विशेष कथन करते हुए पहले स्थान-संख्याको दो गाथाओंसे कहते हैं;—

विगुणणव चारि अट्टं मिच्छतिये अयदचउसु चालीसं ।

तिय उवसमगे संते चउवीसा होंति पत्तेयं ॥ ३६२ ॥

चउछक्कदि चउअट्टं चउछक्क य होंति सत्तठाणाणि ।

आउगवंधावंधे अजोगिअंते तदो भंगा ॥ ३६३ ॥ जुम्मं ।

द्विगुणनव चत्वारि अष्ट मिथ्यत्रये अयतचतुर्षु चत्वारिंशत् ।

त्रीणि उपशामके शान्ते चतुर्विंशतिः भवन्ति प्रत्येकम् ॥ ३६२ ॥

चतुःपद्कृतिः चतुरष्ट चतुःपद्कं च भवन्ति सत्त्वस्थानानि ।

आयुष्कवन्धावन्धे अयोग्यन्ते ततो भङ्गाः ॥ ३६३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानपर्यंत दोगुणित नौ अर्थात् १८, ४ सत्त्वस्थान हैं । तथा असंयतादि चारगुणस्थानोंमें चालीस चालीस स्थान हैं । अपूर्वकरणादि तीन उपशमश्रेणीवाले गुणस्थानोंमें तथा उपशांतकपाय गुणस्थानमें प्रत्येक (हरएक) के चौबीस २ स्थान हैं । और क्षपणश्रेणीकी अपेक्षा अपूर्वकरणआदि अयोगीपर्यंत ४, छहका वर्ग अर्थात् ३६, ४, ८, ४, ६ सत्त्वस्थान हैं । इसप्रकार आयुके बंध वा अबंधकी अपेक्षासे अयोगीपर्यंत गुणस्थानोंमें सत्त्वस्थान हैं ॥ इसके आगे स्थानोंके भङ्ग (भेद) हैं सो आगेकी गाथामें कहते हैं ॥ ३६२ ॥ ३६३ ॥

पण्णास वार छक्कदि वीससयं अट्टदाल दुसु दालं ।

अउवीसा वासट्ठी अउचउवीसा य अट्ट चउ अट्ट ॥ ३६४ ॥

पञ्चाशत् द्वादश षट्कृतिः विंशशतं अष्टचत्वारिंशत् द्वयोः चत्वारिंशत् ।

अष्टाविंशतिः द्वापष्टिः अष्टचतुर्विंशतिः च अष्ट चत्वारि अष्ट ॥ ३६४ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टिआदि सातगुणस्थानोंमें तथा उपशमादि दोनों मिली हुई श्रेणियोंमें तथा उपशांतकषायादि गुणस्थानोंमें अठारहआदि स्थानोंके क्रमसे ५०, १२, ३६, १२०, ४८, ४०, ४०, २८, ६२, २८, २४, ८, ४, ४, भंग जानना ॥ ३६४ ॥

आगे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके १८ स्थानोंमें प्रकृतियोंकी संख्याको आयुके बंध वा अवंधकी अपेक्षासे कहते हैं;—

दुतिष्ठस्सत्तट्टणवेक्करसं सत्तरसमूणवीसमिगिवीसं ।

हीणा सव्वे सत्ता मिच्छे वद्धाउगिदरमेगूणं ॥ ३६५ ॥

द्वित्रिषट्सप्ताष्टनवैकादश सप्तदशोनविंशमेकविशम् ।

हीना सर्वा सत्ता मिथ्ये वद्धायुष्कमितरदेकोनम् ॥ ३६५ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि वद्धायुवालेके सब सत्वप्रकृतियोंमेंसे २, ३, ६, ७, ८, ९, ११, १७, १९, २१, प्रकृतियां कमकरनेसे १० स्थान हुए । तथा अवद्धायुवालेके आठ स्थानतक इनमेंसे भी एक एक कमती करना और दो स्थान पहलेकी तरह समझना । इसप्रकार १० स्थान हुए, सब मिलकर २० स्थान होते हैं । उनमेंसे नवमां दशवां स्थान दोनोंका समान होनेसे २० मेंसे दो कम किये इसतरह बाकी बचे १८ स्थान ही मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके कहे गये हैं ॥ ३६५ ॥

अब उन कम कीहुई प्रकृतियोंको दो गाथाओंसे कहते हैं;—

तिरियाउगदेवाउगमण्णदराउगदुगं तहा तित्थं ।

देवतिरियाउसहिया हारचउक्कं तु छच्चेदे ॥ ३६६ ॥

आउदुगहारतित्थं सम्मं मिस्सं च तह य देवदुगं ।

णारयल्लक्कं च तहा णराउउच्चं च मणुवदुगं ॥ ३६७ ॥ जुम्मं ।

तिर्यंगायुष्कदेवायुष्कमन्यतरायुष्कद्विकं तथा तीर्थम् ।

देवतिर्यंगायुस्सहितमाहारचतुष्कं तु पट्टैताः ॥ ३६६ ॥

आयुद्विकाहारतीर्थं सम्यं मिश्रं च तथा च देवद्विकम् ।

नारकपङ्कं च तथा नरायुरुच्चं च मानवद्विकम् ॥ ३६७ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—मिथ्यादृष्टिके स्थानोंकी कम कीगई प्रकृतियां क्रमसे तिर्यंचायु १ देवायु २, भुज्यमान वध्यमान आयुसे रहित कोईभी दो आयु और तीर्थकर प्रकृतिये तीन, देवायु तिर्यंचायु और आहारककी चौकड़ी ये छह, कोईभी दो आयु—आहारकचतुष्क—तीर्थकर प्रकृतिये सात, इन सातमें सन्यक्त्वप्रकृतिभी ८, मिश्रप्रकृतिभी ९, देवगत्तिका जोड़ा ११, नरकगतिजादि छह (नरकगति १ नरकगत्यानुपूर्वी २ वैक्रियिक शरीर ३ उत्सके

आंगोपांग ४ उसीका बंधन ५ तथा संघात ६)=१७, और नरकायु—उच्चगोत्र ये दोभी १९, तथा देवगति आदि दो और भी मिलाकर २१ ये सब जानना ॥ ३६६ ॥ ३६७ ॥

इसप्रकार बद्धायुके ये १० स्थान कहे । अबद्धायुवालेके भुज्यमान (जिसको भोग रहा है वह) आयुकी ही सत्ता है, बध्यमान (बंध कीगई आगामी) आयुकी सत्ता उसके नहीं है, इसकारण बद्धायुके स्थानोंमें एक एक बध्यमान आयुकर हीन ऐसे अबद्धायुकेभी दशस्थान जानना । उनमेंसे दोबार एकसे कहेहुए स्थान घटाकर बाकी १८ स्थान मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें समझना । इन १८ स्थानोंके ५० भंगोंका विस्तार बड़ी टीकासे समझलेना, विस्तरके भयसे यहांपर नहीं लिखा ॥

अब मिथ्यादृष्टिके कोई कोई स्थानके भंग कहते हुए अबद्धायुके सातवें स्थानके चार भंग दो गाथाओंसे कहते हैं;—

उद्वेल्लिददेवदुगे विदियपदे चारि भंगया एवं ।

सपदे पढमो विदियं सो चैव णरेसु उप्पण्णो ॥ ३६८ ॥

वेगुवअट्टरहिदे पंचिंदियतिरियजादि सुववण्णे ।

सुरच्छब्बन्धे तदियो णरेसु तब्बन्धणे तुरियो ॥ ३६९ ॥ जुम्मं ।

उद्वेल्लितदेवद्विके द्वितीयपदे चत्वारो भङ्गा एवम् ।

स्वपदे प्रथमो द्वितीयः स चैव नरेषु उत्पन्नः ॥ ३६८ ॥

वैगूर्वाष्टरहिते पञ्चेन्द्रियतिर्यग्जातिषूपपन्ने ।

सुरषड्बन्धे तृतीयो नरेषु तद्वन्धने तुरीयः ॥ ३६९ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—बद्धायुके सातवें स्थानसे दूसरा अबद्धायुका सातवां स्थान है वहां जिसके देवगतिआदि दो प्रकृतियोंकी उद्वेल्लना हुई है उसके चार भंग हैं । वे इसतरहसे हैं—अपने स्थानमें अर्थात् एकेन्द्री वा विकलत्रय जीवके अपनी ही पर्यायमें १३६ प्रकृतिरूपस्थान होना पहलाभंग है, तथा वही जीव मरणकरके मनुष्य उत्पन्न हुआ उस जगह दूसरा भंग है, जिसके वैक्रियिक शरीरादि आठकी उद्वेल्लना (अभाव) हुई ऐसा वही एकेन्द्री वा विकलत्रय जीव मरणकरके तिर्यच पंचेन्द्री जातिमें उत्पन्न हुआ और वहां देवगतिआदि छह प्रकृतियोंका बंध करनेपर १३६ प्रकृतिरूप तीसरा भंग हुआ, वही जीव मरणकरके मनुष्य उत्पन्न हुआ पर देवगतिआदि छह प्रकृतियोंका बंध करता है उस जगह चौथा भंग हुआ । इसप्रकार चार भंग जानना ॥ ३६८ ॥ ३६९ ॥ यहांपर प्रकृतियोंके बदलनेसे भंग तो जुदे २ हुए परंतु संख्या एक होनेसे स्थान एक एक ही हुआ ॥

अब आठवें अबद्धायुस्थानके दो भंग कहते हैं;—

णारकच्छकुब्बेले आउगबंधुज्झिदे दुभंगा हु ।

इगिविगलेसिगिभंगो तम्मि णरे विदियमुप्पण्णे ॥ ३७० ॥

नारकपङ्कोद्वेल्ये आयुर्वन्धोज्जिते द्विभङ्गौ हि ।

एकविकलेष्वेकभङ्गः तस्मिन्नेरे द्वितीयमुत्पन्ने ॥ ३७० ॥

अर्थ—आठवें अवद्धायुस्थानमें आयुर्वन्धके बदलनेसे दो भंग होते हैं । उनमेंसे नरक-गतिआदि प्रकृतियोंकी उद्वेलना करनेवाले एकेन्द्री वा विकलेन्द्री जीवके अपनी ही पर्यायमें १३० प्रकृतिरूपस्थान होना पहला भंग है, तथा वही जीव मरणकर मनुष्य उत्पन्न हुआ वहां आयुके बदलनेसे १३० रूपस्थान होना दूसरा भंग है ॥ ३७० ॥

आगे इन अठारह स्थानोंके पुनरुक्त और समभंगके विना जो ५० भंग कहे हैं उनकी संख्या कहते हैं;—

विदिये तुरिये पणगे छटे पंचेव सेसगे एकं ।

विगचउपणछस्सत्तयठाणे चत्तारि अट्टगे दोण्णि ॥ ३७१ ॥

द्वितीये चतुर्थे पञ्चमे षष्ठे पञ्चैव शेपके एकः ।

द्विकचतुःपञ्चपदसप्तमस्थाने चत्वारः अष्टमे द्वौ ॥ ३७१ ॥

अर्थ—वद्धायुके दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे, स्थानमें ५ पांच ही भंग होते हैं; और शेष पहले, तीसरे, सातवें, आठवें, नवमे, दशवें स्थानमें एक एक ही भंग है । तथा अवद्धायुके दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें स्थानमें चार २ भंग और आठवें स्थानमें २ भंग हैं; और शेष बचे पहले, तीसरे स्थानमें एक एक भंग है । इसप्रकार मिथ्यादृष्टिमें अठारह सत्त्व स्थानोंके ५० भंग जानना ॥ ३७१ ॥

अब सासादनगुणस्थान तथा मिश्रगुणस्थानमें स्थान और भंगोंकी संख्या चार गाथाओंसे कहते हैं;—

सत्ततिगं आसाणे मिस्से तिगसत्तसत्तएयारा ।

परिहीण सव्वसत्तं वद्धस्सियरस्य एग्गुणं ॥ ३७२ ॥

सप्तत्रिकमासाने मिश्रे त्रिकसप्तसप्तैकादश ।

परिहीनं सर्वसत्त्वं वद्धस्येतरस्यैकोनम् ॥ ३७२ ॥

अर्थ—सासादन गुणस्थानमें सब प्रकृतियोंके सत्त्वमेंसे सात कम अथवा तीन कम ऐसे दो सत्त्वस्थान हैं । और मिश्रगुणस्थानमें सब सत्त्वप्रकृतियोंमेंसे तीन कम, सात कम, सात कम, ग्यारह कम ऐसे चार स्थान वद्धायुकी अपेक्षा जानना । और अवद्धायुकी अपेक्षा उनमेंसेभी एक एक वध्यमानआयु कम स्थान जानने । इसप्रकार ४ सासादनके और ८ मिश्रके हुए ॥ ३७२ ॥

आगे सासादनकी हीन प्रकृतियोंको कहते हैं;—

तित्थाहारचउक्कं अण्णदराउगदुगं च सत्तेदे ।

हारचउक्कं वज्जिय तिण्णि य केइं समुद्धिट्ठं ॥ ३७३ ॥

तीर्थाहारचतुष्कमन्यतरायुष्कद्विकं च सप्तैताः ।

आहारचतुष्कं वर्जयित्वा तिस्रश्च कैश्चित् समुद्दिष्टम् ॥ ३७३ ॥

अर्थ—तीर्थकर प्रकृति, आहारक शरीरकी चौकड़ी, भुज्यमान—ब्रध्यमान आयुके सिवाय कोईभी दो आयु, ये सात प्रकृतियां हीन कहीं हैं । तथा इनमेंसे आहारक शरीरादि चार प्रकृतियोंको छोड़कर तीनही प्रकृतियां कम हैं ऐसा कोई आचार्य कहते हैं । इसलिये १४१ तथा १४५ प्रकृतिरूप दो स्थान हुए ॥ ३७३ ॥

अब मिश्रगुणस्थानकी हीनप्रकृतियोंको कहते हैं;—

तित्थण्णदराउदुगं तिण्णिवि अणसहिय तह य सत्तं च ।

हारचउक्के सहिया ते चेव य होंति एयारा ॥ ३७४ ॥

तीर्थान्यतरायुर्द्विकं तिस्र अपि अनसहिताः तथा च सत्त्वं च ।

आहारचतुष्केण सहितास्ताः चैव च भवन्ति एकादश ॥ ३७४ ॥

अर्थ—तीर्थकर प्रकृति, भुज्यमान और ब्रध्यमान आयुको छोड़कर कोईभी दो आयु, इस प्रकार तीन प्रकृतियां; तथा ये तीनों और अनंतानुबंधी चार प्रकृतियां इसतरह सात, अथवा वे तीनों तथा आहारकादि चार—इसप्रकार सात, और ये सब मिलकर हुईं ११ प्रकृतियां—इसतरहसे मिश्रगुणस्थानके चार स्थान हुए ॥ ३७४ ॥

आगे सासादन और मिश्रके स्थानोंके भंग गिनाते हैं;—

साणे पण इगि भंगा वद्धस्सियरस्स चारि दो चेव ।

मिस्से पणपण भंगा वद्धस्सियरस्स चउ चऊ णेया ॥ ३७५ ॥

साने पञ्च एको भङ्गा वद्धस्येतरस्य चत्वारो द्वौ चैव ।

मिश्रे पञ्चपञ्च भङ्गा वद्धस्येतरस्य चत्वारश्चत्वारो ज्ञेयाः ॥ ३७५ ॥

अर्थ—सासादन गुणस्थानमें वद्धायुस्थानोंके पांच और एक, तथा अवद्धायुस्थानोंके ४ और २ भंग हैं । इसतरह चारस्थानोंके १२ भंग जानना । मिश्रगुणस्थानमें वद्धायुस्थानके पांच पांच भंग और अवद्धायु स्थानके चार चार भंग हैं । इसप्रकार आठस्थानोंके ३६ भंग हुए ॥ ३७५ ॥

आगे असंयत गुणस्थानमें ४० स्थानोंकी सिद्धि और उनस्थानोंके १२० भंग छह गाथाओंसे कहते हैं;—

दुग छक्क सत्त अट्टं णवरहियं तह य चउपडिं किच्चा ।

णभमिगि चउ पण हीणं वद्धस्सियरस्स एगूणं ॥ ३७६ ॥

द्विकं पट्टं सप्त अट्ट नवरहितं तथा च चतुःपङ्कीः कृत्वा ।

नभमेकं चतुष्कं पञ्च हीनं वद्धस्येतरस्यैकोनम् ॥ ३७६ ॥

अर्थ—दो, छह, सात, आठ, नौ प्रकृतियोंकर रहित स्थान वरावर लिखना और इनकी

नीचे नीचे चार पङ्क्तियों करनी, उन चार पंक्तियोंमें (लाइनोंमें) क्रमसे शून्य, १, ४, और ५ हरएक कोठेमेंसे घटाना । इसप्रकार बद्धायुके २० सत्तास्थान हुए । और इन्हीं वीसस्थानोंमें एक एक स्थानकी प्रकृतियोंमें एक एक औरभी कम करनेसे अबद्धायुके स्थानभी २० हुए । इसप्रकार असंयत गुणस्थानमें ४० सत्त्व स्थान हुए ॥ ३७६ ॥

आगे चारों पंक्तियोंमें तीर्थकरप्रकृति और आहारकशरीरप्रकृतिकी अपेक्षाही विशेषता है ऐसा कहते हैं;—

तित्थाहारे सहियं तित्थूणं अह य हारचउहीणं ।

तित्थाहारचउक्केणूणं इति चउपडिट्ठाणं ॥ ३७७ ॥

तीर्थाहारेण सहितं तीर्थोनमथ चाहारचतुर्हानम् ।

तीर्थाहारचतुष्केनोनमिति चतुःपङ्क्तिस्थानम् ॥ ३७७ ॥

अर्थ—बद्धायु और अबद्धायुकी पहली दोपङ्क्तियोंके पांच पांच स्थान तीर्थकर और आहारक शरीरचतुष्क सहित हैं, इसलिये शून्य कम किया अर्थात् जितनी प्रकृतियोंकी योग्यता है उतनी रहती हैं । दूसरी दोपंक्तियोंमें तीर्थकर प्रकृति न होनेसे एक एक कमती की । तीसरी पंक्तिके पांच पांच स्थान आहारक चतुष्क रहित हैं इसकारण चार चार प्रकृतियां कम कीं । चौथी पंक्तिमें तीर्थकर और आहारक चतुष्क ये पांच प्रकृतियां न होनेसे पांच पांच प्रकृति कम कहीं । इस प्रकार चार पंक्तिरूप स्थान जानना ॥३७७॥

आगे दो छहआदि जो प्रकृतियां घटाईथी उनके नाम कहते हैं;—

अण्णदरआउसहिया तिरियाऊ ते च तह य अणसहिया ।

मिच्छं मिस्सं सम्मं कमेण खविदे हवे ठाणा ॥ ३७८ ॥

अन्यतरायुःसहितं तिर्यगायुः ते च तथा च अनसहिते ।

मिथ्यं मिश्रं सम्यक्त्वं क्रमेण क्षपिते भवेत् स्थानम् ॥ ३७८ ॥

अर्थ—तिर्यचायुसे भिन्न कोईएक आयु और तिर्यचायु ये दोप्रकृतियां, ये दोनों तथा अनंतानुबंधी चार—इसप्रकार ६, मिथ्यात्व सहित ७, मिश्रमोहनीय सहित ८, सम्यक्त्व प्रकृति सहित ९, इन प्रकृतियोंको क्रमसे कम करनेपर स्थान होते हैं ॥ ३७८ ॥

आगे इन स्थानोंके भंग दो गाथाओंसे कहते हैं;—

आदिमपंचट्टाणे दुगदुगभंगा हवंति वद्धस्स ।

इयरस्सवि णादच्चा तिगतिगइगि तिण्णिण्णिणेव ॥ ३७९ ॥

आदिमपञ्चस्थाने द्विकद्विकभङ्गौ भवतः वद्धस्य ।

इतरस्यापि ज्ञातव्याः त्रिकत्रिकैकं त्रयस्त्रय एव ॥ ३७९ ॥

अर्थ—पहली पंक्तिके बद्धायु संबंधी पांच स्थानोंमें दो दो भंग हैं । इससे दूसरे अबद्धायुके पांचस्थानोंमें क्रमसे ३, ३, १, ३, ३, ही भंग जानना ॥ ३७९ ॥

विदियस्सवि पणठाणे पण पण तिग तिणिण चारि वद्धस्स ।
 इयरस्स होंति णेया चउचउइगिचारि चत्तारि ॥ ३८० ॥
 द्वितीयस्यापि पञ्चस्थाने पञ्च पञ्च त्रिकं त्रयः चत्वारः वद्धस्य ।
 इतरस्य भवन्ति ज्ञेया चतुश्चतुरेकचत्वारः चत्वारः ॥ ३८० ॥

अर्थ—दूसरी पंक्तिके भी वद्धायुके पांच स्थानोंमें क्रमसे ५, ५, ३, ३, ४ भंग हैं ।
 तथा दूसरे अवद्धायुके पांच स्थानोंमें क्रमसे ४, ४, १, ४, ४ भंग हैं ॥ ३८० ॥

आदिल्लदससु सरिसा भंगेण य तिदियदसयठाणाणि ।
 विदियस्स चउत्थस्स य दसठाणाणि य समा होंति ॥ ३८१ ॥
 आद्यदशसु सदृशा भङ्गेन च तृतीयदशकस्थानानि ।
 द्वितीयस्य चतुर्थस्य च दशस्थानानि च समानि भवन्ति ॥ ३८१ ॥

अर्थ—पहलीपंक्तिके दशस्थानोंके भंगोंके समान तीसरी पंक्तिके दशस्थानोंके भंग
 होते हैं । तथा दूसरी पंक्तिके दशस्थानोंके भंगोंके समान चौथी पंक्तिके दशस्थानोंके भंग
 समझना । इसप्रकार सब मिलकर असंयत गुणस्थानमें ४० सत्त्वस्थानोंके १२० भंग
 हुए ॥ ३८१ ॥

अब देशसंयतादि तीनगुणस्थानोंमें स्थान और भंग कहते हैं;—

देसतियेसुवि एवं भंगा एक्केक्क देसगस्स पुणो ।
 पडिरासि विदियतुरियस्सादीविदियम्मि दो भंगा ॥ ३८२ ॥
 देशत्रयेष्वपि एवं भङ्गा एकैकं देशकस्य पुनः ।
 प्रतिराशि द्वितीयचतुर्थस्यादिद्वितीयस्मिन् द्वौ भङ्गौ ॥ ३८२ ॥

अर्थ—इसीतरह असंयतगुणस्थानके समान देशविरतादि तीनस्थानोंमेंभी चालीस २
 सत्त्वस्थान जानने और सब स्थानोंमें एक एक भंग है परंतु देशसंयत गुणस्थानमें दूसरी
 दो पंक्ति तथा चौथी दो (वद्धायु—अवद्धायुरूप) पंक्तियोंके पहले और दूसरे स्थानमें
 दो दो भंग जानना ॥ ३८२ ॥

आगे उपशमश्रेणीके चार गुणस्थानोंमें स्थान-भंग कहनेकी इच्छावाले आचार्य पहले
 अपूर्वकरणमें स्थान-भङ्गोंको कहते हैं;—

दुगल्लक्कतिणिणवग्गेणूणापुव्वस्स चउपडिं किच्चा ।
 णभमिगिचउपणहीणं वद्धस्सियरस्स एगूणं ॥ ३८३ ॥
 द्विकपट्टत्रिवर्गेनोनानि अपूर्वस्य चतुःप्रतिं कृत्वा ।
 नभैकचतुःपञ्चहीनं वद्धस्येतरस्यैकोनम् ॥ ३८३ ॥

अर्थ—उपशमश्रेणीके अपूर्व करण गुणस्थानमें दो, छह, तीनकावर्ग अर्थात् नौ प्रकृति

कम जो तीन स्थान हैं उनकी चार पंक्तियां करके पंक्तिके क्रमसे शून्य, एक, ४, पांच कम करै तो बद्धायुके स्थान होते हैं । और इतर अर्थात् अबद्धायुके स्थान उनमेंसे भी एक एक प्रकृति कम करनेपर होते हैं । इसतरह २४ स्थान हुए ॥ ३८३ ॥

अब कम कीहुई प्रकृतियोंके नाम और भंग कहते हैं;—

**णिरयतिरियाउ दोण्णिवि पढमकसायाणि दंसणतियाणि ।
हीणा एदे णेया भंगे एकेकगा होंति ॥ ३८४ ॥**

निरयतिर्याग्युषी द्वे अपि प्रथमकषाया दर्शनत्रीणि ।

हीनानि एतानि ज्ञेयानि भङ्गा एकैकका भवन्ति ॥ ३८४ ॥

अर्थ—नरकायु और तिर्यचायु-ये दो, येभी दोनों और पहली (अनंतानुबंधी) चार कषाय-ये ६, तथा तीन दर्शन मोहनीय भी सब ९, इसप्रकार इन प्रकृतियोंसे हीन स्थान जानने । और इनके भंग एक एकही होते हैं ॥ ३८४ ॥

आगे वाकीवचे तीन उपशमक गुणस्थानोंमें और क्षपकश्रेणीके अपूर्वकरण गुणस्थानमें स्थान तथा भंग कहते हैं;—

**एवं तिसु उवसमगे खवगापुव्वम्मि दसहिं परिहीणं ।
सव्वं चउपडि किच्चा णभमेकं चारि पण हीणं ॥ ३८५ ॥**
एवं त्रिषु उपशमकेषु क्षपकापूर्वे दशभिः परिहीनम् ।
सर्वं चतुःप्रतिकं कृत्वा नभमेकं चत्वारि पञ्च हीनम् ॥ ३८५ ॥

अर्थ—इस उपशमकअपूर्व करणकी तरह उपशमक अनिवृत्तिकरणादि तीन गुण-स्थानोंमें सत्त्वस्थान और भंग चौबीस चौबीस जानना । तथा क्षपक अपूर्व करणमें १० प्रकृतियों रहित स्थानकी चारपंक्तियां करके पंक्तिके क्रमसे पहलेकी तरह शून्य, १, ४, ९, प्रकृतियां कम करना चाहिये । इसतरह चार स्थान और चार ही भंग होते हैं ॥ ३८५ ॥

अब क्षपक अनिवृत्तिकरणमें स्थान और भंग कहते हैं;—

**एदे सत्तट्टाणा अणियट्टिस्सवि पुणोवि खविदेवि ।
सोलस अट्टेकेकं छकेकं एकमेक तहा ॥ ३८६ ॥**
एतानि सत्त्वस्थानानि अनिवृत्तेरपि पुनरपि क्षपितेपि ।
पोडशाष्टैकेकं पड्ढैकमेकमेकं तथा ॥ ३८६ ॥

अर्थ—ये जो क्षपक अपूर्वकरणमें चार स्थान कहे हैं वे क्षपक अनिवृत्तिकरणमें भी जानना । और इसीप्रकार १६, ८, १, १, ६, १, १, १, प्रकृति कम करनेसे आठ स्थान अन्य भी होते हैं । इनकीभी चार पंक्तियां करके पूर्ववत् क्रमसे शून्यादि घटानेपर ३२ भेद होजाते हैं । इसप्रकार ४+३२ मिलकर अपूर्वकरण क्षपकके स्थान ३६ हुए, ऐसा जानना ॥ ३८६ ॥

अब इन स्थानोंके भंग दोगाथाओंसे कहते हैं;—

भंगा एकेका पुण णउंसयक्खविदचउसु ठाणेसु ।
विदियतुरियेसु दो दो भंगा तित्थयरहीणेसु ॥ ३८७ ॥

भंगा: एकैकः पुनः नपुंसकक्षपितचतुर्षु स्थानेषु ।
द्वितीयतुरीययोः द्वौ द्वौ भङ्गौ तीर्थकरहीनयोः ॥ ३८७ ॥

अर्थ—इन ३६ स्थानोंमें एक एक भंग है, परंतु जहांपर नपुंसक वेदका क्षय है ऐसे चारों स्थानोंमें और तीर्थकर प्रकृतिकी सत्ता रहित पहली और चौथी पंक्तिके दो स्थानोंमें दो दो भंग हैं ॥ ३८७ ॥

यही कहते हैं;—

थीपुरिसोदयचडिदे पुव्वं संढं खवेदि थी अत्थि ।
संढस्सुदये पुव्वं थीखविदं संढमत्थित्ति ॥ ३८८ ॥

स्त्रीपुरुषोदयचटिते पूर्वं षण्ढं क्षपयति स्त्री अस्ति ।
षण्ढस्योदये पूर्वं स्त्रीक्षपितं षण्ढमस्तीति ॥ ३८८ ॥

अर्थ—जो जीव स्त्रीभाववेद अथवा पुरुषवेदके उदयसहित क्षपकश्रेणी चढते हैं वे पहले नपुंसकभाववेदका क्षय करते हैं, स्त्रीवेदकी तो सत्ता वहां पर मौजूद रहती है । और नपुंसकवेदके उदयसहित जो क्षपकश्रेणी चढते हैं वे पहले स्त्रीवेदका तो क्षय करते हैं, उनके पूर्व कहे दो स्थानोंमें नपुंसक वेदकी सत्ता रहती है ॥ इस प्रकार दो स्थानोंके दो दो भंग हैं ऐसा होनेपर ३६ स्थानोंके ३८ भंग हुए ॥ ३८८ ॥

आगे क्षपक सूक्ष्मसांपराय और क्षीणकषाय गुणस्थानमें स्थान तथा भंगोंको कहते हैं;—

अणियट्टिचरिमठाणा चत्तारिवि एकहीण सुहुमस्स ।
ते इगिदोण्णिविहीणं खीणस्सवि होंति ठाणाणि ॥ ३८९ ॥

अनिवृत्तिचरमस्थानानि चत्वार्यपि एकहीनं सूक्ष्मस्य ।
तानि एकद्विविहीनं क्षीणस्यापि भवन्ति स्थानानि ॥ ३८९ ॥

अर्थ—अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके अंतके जो चारस्थान कहे थे उनमेंसे हरएकमें संज्वलन माया कषाय कमकरके सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानके चार स्थान होते हैं । और सूक्ष्मसांपरायके चारों स्थानोंमेंसे प्रत्येकमें एक संज्वलन लोभ प्रकृति घटानेपर क्षीणकषाय गुणस्थानके अंतके दूसरे समयमें चार स्थान होते हैं । तथा इन्हीं चारों स्थानोंमें निद्रा-प्रचला, ये दो प्रकृतियां कमकरनेसे इसी गुणस्थानके अंतके समयमें चारस्थान होते हैं । इस प्रकार आठ स्थान क्षीणकषायके जानना ॥ ३८९ ॥

आगे सयोगी और अयोगी गुणस्थानमें स्थानादि कहते हैं;—

ते चोद्दसपरिहीणा जोगिस्स अजोगिचरिमगेवि पुणो ।

वावत्तरिमडसट्ठिं दुसु दुसु हीणेषु दुगदुगा भंगा ॥ ३९० ॥

तानि चतुर्दशपरिहीनानि योगिन अयोगिचरमकेपि पुनः ।

द्वासप्ततिरष्टषष्टिः द्वयोर्द्वयोः हीनयोः द्विकद्विकौ भङ्गाः ॥ ३९० ॥

अर्थ—क्षीणकषायके अंतके चारस्थानोंमें चौदह २ प्रकृतियां कम करनेसे ८५ आदिकके चारस्थान सयोग केवलीके होते हैं । और अयोग केवलीके अंतके दो समय शेष रहें तबतक चारस्थान हैं, वे सयोग केवलीके चारस्थानोंमेंसे पहले और दूसरे स्थानमें ७२ बहत्तर प्रकृतियां कमकरके तथा तीसरे चौथे स्थानमें ६८ अडसठि घटाके चार स्थान होते हैं । यहांपर पुनरुक्तपना होनेसे दो स्थानही समझना । और अंतके दो समयोंमें दो दो स्थान हैं वहांपर दो दो भंग हैं । इसप्रकार ६ स्थान और उनके ८ भंग अयोगकेवलीके अंतसमयतक जानना ॥ ३९० ॥

आगे “ दुगच्छकतिणिवरगे ” इत्यादि गाथासे पूर्व अनंतानुबंधी सहित आठ स्थान उपशम श्रेणीवालोंके कहे थे वे अपनी (श्रीकनकनंदि आचार्यकी) पक्षमें नहीं हैं इत्यादि विशेषको और उनकी भंग संख्याको चार गाथाओंसे कहते हैं;—

णत्थि अणं उवसमगे खवगापुव्वं खवित्तु अट्ठा य ।

पच्छा सोलादीणं खवणं इदि केइं णिदिट्ठं ॥ ३९१ ॥

नास्ति अनमुपशमके क्षपकापूर्वं क्षपयित्वा अष्टौ च ।

पञ्चान् षोडशादीनां क्षपणमिति कैर्निर्दिष्टम् ॥ ३९१ ॥

अर्थ—श्रीकनकनंदि आचार्यकी संप्रदाय (पक्ष) में ऐसा कहा है कि उपशमश्रेणीवाले चार गुणस्थानोंमें अनंतानुबंधी चारका सत्त्व नहीं है, इसकारण २४ स्थानोंमेंसे वद्दायु और अवद्दायु दोनोंके आठस्थान कम करनेपर १६ स्थानही हैं । और क्षपक अपूर्वकरणवाले पहले मध्यकी आठ कषायोंको क्षयकरके पीछे १६ आदिक प्रकृतियोंका क्षय करते हैं ॥ ३९१ ॥

अणियट्ठिगुणट्ठाणे मायारहिदं च ठाणमिच्छंति ।

ठाणा भंगपमाणा केइं एवं परुवेंति ॥ ३९२ ॥

अनिवृत्तिगुणस्थाने मायारहितं च स्थानमिच्छन्ति ।

स्थानानि भङ्गप्रमाणानि केचिदेवं प्ररूपयन्ति ॥ ३९२ ॥

अर्थ—कोई आचार्य, अनिवृत्ति करणगुणस्थानमें माया कषाय रहित चारस्थान हैं ऐसा मानते हैं, तथा कोई स्थानोंको भंगके प्रमाण अर्थात् दोनोंकी एकसी संख्या कहते हैं ॥ ३९२ ॥

ऐसा होनेपर स्थान और भंगोंकी संख्या कहते हैं;—

अट्टारह चउ अट्टं मिच्छतिये उवरि चाल चउटाणे ।

तिसु उवसमगे संते सोलस सोलस हवे ठाणा ॥ ३९३ ॥

अष्टादश चत्वारि अष्ट मिथ्यत्रये उपरि चत्वारिंशत् चतुःस्थाने ।

त्रिषु उपशमके शान्ते षोडश षोडश भवंति स्थानानि ॥ ३९३ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानोंमें पूर्वोक्त प्रकार १८, ४, ८, स्थान हैं । ऊपरके असंयतादि चार गुणस्थानोंमें चालीस चालीस स्थान हैं । तथा उपशमश्रेणीवाले तीन गुणस्थान तथा उपशांतमोह—इन चारमें सोलह सोलह स्थान हैं ॥ ३९३ ॥

अब इनस्थानोंके भंगोंकी संख्या कहते हैं,—

पण्णेकारं छक्कदि वीससयं अट्टदाल दुसु तालं ।

वीसडतिण्णं वीसं सोलट्ट य चारि अट्टेव ॥ ३९४ ॥

पञ्चाशदेकादश पट्टतिः विंशशतमष्टचत्वारिंशत् द्वयोश्चत्वारिंशत् ।

विंशाष्टत्रिंशत् विंशं षोडशाष्टं च चत्वार अट्टेव ॥ ३९४ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदि स्थानोंके क्रमसे पूर्वोक्त प्रकार ५०, ११, ३६, १२०, ४८, ४०, ४०, दोनों श्रेणियोंके मिलकर २०, ३८, २०, १६, ८, ४, ८ भंग जानने ॥ ३९३ ॥ यहांपर अनेकप्रकार गुरुओंके संप्रदायसे कहा है वह सभी श्रद्धान करने योग्य है, क्योंकि प्रत्यक्षकेवली श्रुतकेवली विना निश्चय नहीं होसक्ता ॥ ३९४ ॥

अब सत्त्वस्थानाधिकारको पूर्ण करनेके इच्छुक आचार्य इसके पढ़नेका फल दिखाते हैं;—

एवं सत्तट्टाणं सवित्थरं वण्णियं मए सम्मं ।

जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ णिव्वुदिं सोक्खं ॥ ३९५ ॥

एवं सत्त्वस्थानं सविस्तरं वर्णितं मया सम्यक् ।

यः पठति शृणोति भावयति स प्राप्नोति निर्वृतिं सौख्यम् ॥ ३९५ ॥

अर्थ—इसप्रकार सत्त्वस्थानका विस्तारसे अच्छीतरह मैंने वर्णन किया है । आचार्य महाराज कहते हैं कि जो इस कर्मोंके सत्त्वस्थानको पढ़ेगा, सुनेगा और चिंतवन करेगा वह मोक्ष सुखको अवश्य प्राप्त होगा ॥ ३९५ ॥

वरइंदणंदिगुरुणो पासे सोऊण सयलसिद्धंतं ।

सिरिकणयणंदिगुरुणा सत्तट्टाणं समुद्धिट्ठं ॥ ३९६ ॥

वरेन्द्रनन्दिगुरोः पार्श्वे श्रुत्वा सकलसिद्धान्तम् ।

श्रीकनकनन्दिगुरुणा सत्त्वस्थानं समुद्धिट्ठम् ॥ ३९६ ॥

अर्थ—आचार्योंमें श्रेष्ठ ऐसे श्रीइन्द्रनंदि गुरुके पास समस्त सिद्धान्तको सुनकर श्री कनकनंदि सिद्धान्तचक्रवर्ती गुरुने इसप्रकार सत्त्वस्थान सम्यक्करीतीसे कहा है ॥ ३९६ ॥

अब आचार्य महाराज अपनेको चक्रवर्तीकी समानता दिखाते हुए इस सत्त्वस्थान-कथन अधिकारको समाप्त करते हैं;—

जह चक्रेण य चक्री छक्खंडं साहियं अविग्घेण ।


तह मइचक्रेण मया छक्खंडं साहियं सम्मं ॥ ३९७ ॥

यथा चक्रेण च चक्रिणा षट्खण्डं साधितमविघ्नेन ।

तथा मतिचक्रेण मया षट्खण्डं साधितं सम्यक् ॥ ३९७ ॥

अर्थ—जैसे चक्रवर्तीने भरतक्षेत्रके छह खंडोंको अपने चक्ररत्नसे निर्विघ्न पूर्वक साधे अर्थात् अपने वशमें किये हैं, उसी प्रकार मैंने भी बुद्धिरूप चक्रसे जीवस्थान १ क्षुद्रबंध २ बंधस्वामी ३ वेदनाखंड ४ वर्गणाखंड ५ और महाबंध ६ भेदसे छहखंडरूप सिद्धान्तशास्त्र अच्छीतरह साधे अर्थात् जाने हैं ॥ ३९७ ॥

इति गोम्मटसार ग्रंथके कर्मकाण्डमें बालाववोधिनी भाषाटीका सहित सत्त्वस्थानभंग प्ररूपणनामा तीसरा अधिकार समाप्त हुआ ॥ ३ ॥



अब त्रिचूलिका अधिकार कहनेकी प्रतिज्ञा करते हुए नमस्कारात्मक मंगल करते हैं;—

असहायजिणवरिंदे असहायपरक्कमे महावीरे ।

पणमिय सिरसा वोच्छं तिचूलियं सुणह एयमणा ॥ ३९८ ॥

असहायजिनवरेन्द्रानसहायपराक्रमान् महावीरान् ।

प्रणम्य शिरसा वक्ष्यामि त्रिचूलिकं शृणुतैकमनसः ॥ ३९८ ॥

अर्थ—इन्द्रियादिकोंकी सहायता रहित है ज्ञानादि शक्तिरूप पराक्रम जिनका ऐसे श्रीमहावीरगुरु और शेष वृषभादितीर्थकर जिनेन्द्रदेवोंको मस्तक नवाके (नमस्कार करके) मैं नेमिचन्द्राचार्य त्रिचूलिका नाम अधिकारको अर्थात् नव प्रश्न १ पंच भागहार २ दश-करण ३ नामवाले अधिकारको कहूंगा, सो हे भव्यजीवो तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ ३९८ ॥ जो कहे हुए अथवा न कहे हुए वा विशेषतासे न कहेहुए अर्थका चिंतवन करना उसे चूलिका कहते हैं ॥

अब उन तीन चूलिकाओंमेंसे पहले नवप्रश्न चूलिकाको कहते हैं;—

किं बंधो उदयादो पुवं पच्छा समं विणस्सदि सो ।

सपरोभयोदयो वा णिरंतरो सांतरो उभयो ॥ ३९९ ॥

को बन्ध उदयात्पूर्वं पश्चात् समं विनश्यति सः ।

स्वपरोभयोदयो वा निरन्तरः सान्तर उभयः ॥ ३९९ ॥

अर्थ—पहले जो प्रकृतियां कहीं हैं उनमें उदय व्युच्छित्तिके पहले बंधकी व्युच्छित्ति किन प्रकृतियोंकी होती है १ उदयव्युच्छित्तिके पीछे बंधकी व्युच्छित्ति किन प्रकृतियोंकी २ और उदयव्युच्छित्तिके साथ बंधव्युच्छित्ति कौन प्रकृतिकी ३ होती है । तथा जिनका

अपना उदय होनेपर बंध होवे ऐसीं ४ जिनका अन्य प्रकृतिके उदय होनेपर बंध हो ऐसीं ५ और जिनका अपने व अन्यप्रकृतियोंके दोनोंके उदय होनेपर बंध हो ऐसीं ६ प्रकृतियां कौन २ हैं । और जिनका निरंतर बंध हो ऐसीं ७ जिनका सांतर अर्थात् कभी हो कभी न हो ऐसा बंध हो ऐसीं प्रकृतियां ८ तथा जिनका निरंतर व सांतर दोनों प्रकार बंध हो वे प्रकृतियां ९ कौनसी हैं? इसप्रकार नौ प्रश्न हैं ॥ ३९९ ॥

आगे उन नौ प्रश्नोंमेंसे पहले तीन प्रश्नोंकी उत्तरभूत प्रकृतियोंको कहते हैं;—

देवचउक्काहारदुगज्जसदेवाउगाण सो पच्छा ।

मिच्छत्तादावाणं णराणुथावरचउक्काणं ॥ ४०० ॥

पण्णरकसायभयदुगहस्सदुचउजाइपुरिसवेदाणं ।

सममेक्कत्तीसाणं सेसिगिसीदाण पुवं तु ॥ ४०१ ॥ जुम्मं ।

देवचतुष्काहारद्विकायशोदेवायुष्कानां स पश्चात् ।

मिथ्यात्वातापानां नरानुस्थावरचतुष्कानाम् ॥ ४०० ॥

पञ्चदशकषायभयद्विकहास्यद्विचतुर्जातिपुरुषवेदानाम् ।

सममेकत्रिंशतां शेषैकाशीतेः पूर्वं तु ॥ ४०१ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—देवगति आदिकी चौकड़ी, आहारक शरीर युगल, अयशस्कीर्ति और देवायु— इन ८ प्रकृतियोंकी उदयकी व्युच्छित्ति (अभाव होने) के पीछे बंध व्युच्छित्ति होती है । और मिथ्यात्व, आताप, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, स्थावर आदि चार, संज्वलनलोभके विना १५ कषाय, भय-जुगुप्सा, हास्य-रति २, एकेन्द्री आदि चार जाति, और पुरुषवेद-इन ३१ प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छित्ति और बंधव्युच्छित्ति एक कालमें होती है । तथा इनसे शेष ज्ञानावरणादि ८१ प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छित्तिके पहले बंधव्युच्छित्ति होती है ॥ ४०० ॥ ४०१ ॥

आगे दूसरे तीन प्रश्नोंका समाधान दो गाथाओंसे कहते हैं;—

सुरणिरयाऊ तित्थं वेगुव्वियळक्कहारमिदि जेसिं ।

परउदयेण य बन्धो मिच्छं सुहुमस्स घादीओ ॥ ४०२ ॥

तेजदुगं वण्णचऊ थिरसुहजुगलगुरुणिमिणधुवउदया ।

सोदयबन्धा सेसा वासीदा उभयबन्धाओ ॥ ४०३ ॥ जुम्मं ।

सुरनिरयायुषी तीर्थं वैगूर्धिकषट्काहारमिति यासाम् ।

परोदयेन च बन्धो मिथ्यं सूक्ष्मस्य घातिन्यः ॥ ४०२ ॥

तेजोद्विकं वर्णचत्वारि स्थिरशुभयुगलागुरुनिर्माणध्रुवोदयाः ।

स्वोदयबन्धाः शेषाः द्व्यशीतिरुभयबन्धाः ॥ ४०३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—देवायु, नरकायु, तीर्थकरप्रकृति, वैक्रियिकका षट्क, आहरकशरीरका जोड़ा, इन ११ प्रकृतियोंका परके उदयसे बंध है । और मिथ्यात्व, सूक्ष्मसांपरायणगुणस्थानमें व्युच्छिन्न होनेवाली घातिया कर्मोंकी १४ प्रकृतियां, तैजसका युगल, वर्णादिक चार, स्थिर और शुभका जोड़ा, अगुरुलघु, निर्माण ये ध्रुव (नित्य) उदयवाली १२ प्रकृतियां-सब २७ प्रकृतियोंका अपने उदय होनेपर ही बंध होता है । तथा शेषरहीं पांच निद्रादि ८२ प्रकृतियां उभयबंधी हैं अर्थात् इनका उदय होनेपर अथवा न होनेपरभी बंध होता है ॥ ४०२ ॥ ४०३ ॥

अब तीसरे तीन प्रश्नोंकी प्रकृतियां चार गाथाओंसे कहते हैं;—

सत्तेताल ध्रुवावि य तित्थाहाराउगा णिरंतरगा ।

णिरयदुजाइचउक्कं संहदिसंठाणपणपणगं ॥ ४०४ ॥

दुग्गमणादावदुगं थावरदसगं असादसंढित्थि ।

अरदीसोगं चेदे सातरगा होंति चोत्तीसा ॥ ४०५ ॥ जुम्मं ।

सप्तचत्वारिंशत् ध्रुवा अपि च तीर्थाहारायुष्का निरन्तरकाः ।

निरयद्विजातिचतुष्कं संहतिसंस्थानपञ्चपञ्चकम् ॥ ४०४ ॥

दुर्गमनातापद्विकं स्थावरदशकमसातषण्डस्त्री ।

अरतिः शोकं चैताः सान्तरका भवन्ति चतुस्त्रिंशत् ॥ ४०५ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—ज्ञानावरणादि पूर्वोक्त ४७ ध्रुव प्रकृतियां, तीर्थकर, आहारका युगल, आयु ४—ये ५४ प्रकृतियां निरंतर बंधवाली हैं । और नरकगतिका जोड़ा, एकेन्द्री आदि चार जाति, आदिके संहनन और संस्थान विना ५ संहनन और ५ संस्थान, अप्रशस्तविहा-योगति, आताप—उद्योत, स्थावर आदि १०, असातावेदनीय, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, अरति, शोक—ये ३४ प्रकृतियां सांतरबंधी हैं अर्थात् किसीसमय किसी प्रकृतिका, किसीसमय कोई प्रकृतिका बंध होता है ॥ ४०४।४०५ ॥

सुरणरतिरियोरालियवेगुव्वियदुगपसत्थगदिवज्जं ।

परघाददुसमचउरं पंचिदियं तसदसं सादं ॥ ४०६ ॥

हस्सरदिपुरिसगोददु सप्पडिवक्खम्मि सांतरा होंति ।

णट्ठे पुण पडिवक्खे णिरंतरा होंति वत्तीसा ॥४०७॥ जुम्मं ।

सुरनरतिर्यगौरालिकवैगूर्विकद्विकप्रशस्तगतिवज्जम् ।

परघातद्विसमचतुरस्सं पञ्चेन्द्रियं त्रसदश सातम् ॥ ४०६ ॥

हास्यरतिपुरुषगोत्रद्विकं सप्रतिपक्षे सान्तरा भवन्ति ।

नष्टे पुनः प्रतिपक्षे निरन्तरा भवन्ति द्वात्रिंशत् ॥ ४०७ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—देवगति-मनुष्यगति-औदारिकशरीर-वैक्रियिकशरीर—इन चारोंका जोड़ा, प्रशस्तविहायोगति, वज्रर्षभनाराचसंहनन, परघात युगल, समचतुरस्रसंस्थान, पंचेन्द्रिय-जाति, त्रस आदि १०, सातावेदनीय, हास्य, रति, पुरुषवेद, गोत्र दो-ये ३२ प्रकृतियां इनके प्रतिपक्षी (विरोधी) के होते सांतर बंधवाली हैं । और विरोधीप्रकृतियोंके नाश होनेपर निरंतर बंधवाली हैं अर्थात् उभयबंधी हैं ॥ ४०६।४०७ ॥ इसप्रकार नवप्रश्न नामकी प्रथमचूलिका कही ।

अब पंचभागहार नामकी द्वितीयचूलिकाको कहते हुए मंगलाचरण करते हैं;—

जत्थ वरणेमिचंदो महणेण विणा सुणिम्मलो जादो ।

सो अभयणंदिणिम्मलसुओवही हरउ पावमलं ॥ ४०८ ॥

यत्र वरनेमिचन्द्रो मथनेन विना सुनिर्मलो जातः ।

स अभयनन्दिनिर्मलश्रुतोद्धिर्हरतु पापमलम् ॥ ४०८ ॥

अर्थ—जिसमें उत्कृष्टनेमिचन्द्र मथनके विना ही अत्यंत निर्मल उत्पन्न हुआ ऐसा श्रीअभयनंदि आचार्यका उपदेशित निर्मलशास्त्ररूपीसमुद्र भव्यजीवोंके पापमलको दूर करो । ऐसा आशीर्वादात्मक मंगल किया है ॥ ४०८ ॥

अब पांच भागहारोंको कहते हैं;—

उद्वेलणविज्झादो अधापवत्तो गुणो य सव्वो य ।

संकमदि जेहिं कम्मं परिणामवसेण जीवाणं ॥ ४०९ ॥

उद्वेलनविध्यात अधःप्रवृत्तः गुणश्च सर्वश्च ।

संक्रामति यैः कर्म परिणामवशेन जीवानाम् ॥ ४०९ ॥

अर्थ—जिन्होंनेसे शुभकर्म और अशुभकर्म संसारी जीवोंके अपने परिणामोंके निमित्तसे संक्रमण करै अर्थात् अन्य प्रकृतिरूप परिणमे वे भागहार उद्वेलन, विध्यात, अधःप्रवृत्त, गुणसंक्रम और सर्व संक्रमणके भेदसे पांच प्रकार हैं ॥ ४०९ ॥

अब संक्रमणका स्वरूप कहते हैं;—

बन्धे संकामिज्जदि णोबन्धे णत्थि मूलपयडीणं ।

दंसणचरित्तमोहे आउचउक्केण संकमणं ॥ ४१० ॥

बन्धे संक्रामति नोबन्धे नास्ति मूलप्रकृतीनाम् ।

दर्शनचरित्रमोहे आयुश्चतुष्केण संक्रमणम् ॥ ४१० ॥

अर्थ—जिस प्रकृतिका बंध होता है उसी प्रकृतिमें संक्रमण होता है अर्थात् अन्य प्रकृति तत्स्वरूप होकर परिणमती है—यह सामान्य विधान है । और जिसका बंध नहीं उसमें संक्रमणभी नहीं होता है । इस कथनका प्रयोजन यह है कि दर्शनमोहनीके विना शेष सब प्रकृतियां बंध होनेपर संक्रमण करती हैं ऐसा नियम जानना । तथा मूलप्रकृ-

तियोंके संक्रमण अर्थात् अन्यका अन्यरूप परस्परमें परिणमन नहीं है, ज्ञानावरण कभी दर्शनावरणरूप नहीं होती । इससे सारांश यह निकला कि उत्तरप्रकृतियोंमें संक्रमण होता है । परंतु दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयका तथा चारों आयुओंका परस्पर संक्रमण नहीं होता ॥ ४१० ॥

सम्मं मिच्छं मिस्सं सगुणट्टाणम्मि णेव संकमदि ।

सासणमिस्से णियमा दंसणतियसंकमो णत्थि ॥ ४११ ॥

सम्यं मिथ्यं मिश्रं स्वगुणस्थाने नैव संक्रामति ।

सासनमिश्रे नियमादर्शनत्रिकसंक्रमो नास्ति ॥ ४११ ॥

अर्थ—सम्यक्त्वमोहनीय, मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय अपने २ असंयतादि गुणस्थानोंमें संक्रमण नहीं करतीं । और सासादन तथा मिश्रगुणस्थानमें नियमसे दर्शनमोहनीयके त्रिकका संक्रमण नहीं होता । असंयतादि चारमें होता है ॥ ४११ ॥

मिच्छे सम्मिस्साणं अधापवत्तो मुहुत्तअंतोत्ति ।

उव्वेलणं तु ततो दुचरिमकंडोत्ति णियमेण ॥ ४१२ ॥

मिथ्ये सम्यग्मिश्रयोरधःप्रवृत्तः मुहूर्त्तान्तरिति ।

उद्वेलनं तु ततो द्विचरमकाण्ड इति नियमेन ॥ ४१२ ॥

अर्थ—मिथ्यात्वगुणस्थानको प्राप्त होनेपर सम्यक्त्वमोहनीय और मिश्रमोहनीयका अंतर्मुहूर्ततक अधःप्रवृत्तसंक्रमण होता है । फिर इसके बाद उद्वेलननामा संक्रमण अंतके समीपके कांडकपर्यंत नियमसे वर्तता है । वहांपर अधःप्रवृत्तसंक्रमण फालिरूप रहता है ॥ ४१२ ॥ एक समयमें संक्रमण होनेको फालि कहते हैं । समयसमूहमें संक्रमण होना कांडक कहा है ॥

उव्वेलणपयडीणं गुणं तु चरिमम्हि कंडये णियमा ।

चरिमे फालिम्मि पुणो सव्वं च य होदि संकमणं ॥ ४१३ ॥

उद्वेलनप्रकृतीनां गुणं तु चरमे काण्डके नियमात् ।

चरमे फालौ पुनः सर्वं च भवति संक्रमणम् ॥ ४१३ ॥

अर्थ—उद्वेलन प्रकृतियोंका अंतके कांडकमें नियमसे गुणसंक्रमण होता है । और अंतकी फालिमें सर्वसंक्रमण होता है ऐसा जानना ॥ ४१३ ॥

यहांपर प्रसंगसे पांच संक्रमणोंका स्वरूप कहते हैं । जो अधःप्रवृत्ति आदि तीन करणरूप परिणामोंके विनाही कर्मप्रकृतिके परमाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप परिणमन होना वह उद्वेलनसंक्रमण है । मंद विशुद्धतावाले जीवके स्थिति, अनुभागके घटानेरूप कांडक तथा गुणश्रेणीआदि परिणाम जो पहले होगये उनमें प्रवृत्ति होना विध्यात्संक्रमण है । वंधरूप हुई प्रकृतियोंका अपने वंधमें संभवती प्रकृतियोंमें परमाणुओंका जो

संक्रमण होना वह अधःप्रवृत्तसंक्रमण है । समय समयमें श्रेणी (पंक्ति) रूप अस्-
ख्यातगुणे २ परमाणु अन्य प्रकृतिरूप होके परिणमें सो गुणसंक्रमण है । और जो
अंतके कांडककी अंतकी फालिके सर्वप्रदेशोंमें पीछेही पीछे अन्य प्रकृतिरूप नहीं हुए
परमाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप होना वह सर्वसंक्रमण है । इसप्रकार पांचोंका स्वरूप कहा है ॥

आगे सर्व संक्रमण प्रकृतियोंमें तिर्यक् ११ हैं उनको कहते हैं,—

तिरियदुजाइचउक्कं आदायुज्जोवथावरं सुहुमं ।

साधारणं च एदे तिरियेयारं मुणेयव्वा ॥ ४१४ ॥

तिर्यग्द्विजातिचतुष्कमातापोद्योतस्थावरं सूक्ष्मम् ।

साधारणं चैताः तिर्यगेकादश मन्तव्याः ॥ ४१४ ॥

अर्थ—तिर्यचगति आदि दो, एकेन्द्रियादि जाति ४, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म
और साधारण—ये तिर्यक् ११ प्रकृतियां हैं अर्थात् इनका उदय तिर्यचमेंही होता है;
इससे “तिर्यगेकादश” ऐसा नाम है ॥ ४१४ ॥

अब उद्वेलन प्रकृतियोंको कहते हैं;—

आहारदुगं सम्मं मिस्सं देवदुगणारयचउक्कं ।

उच्चं मणुदुगमेदे तेरस उध्वेल्लणा पयडी ॥ ४१५ ॥

आहारद्विकं सम्यं मिश्रं देवद्विकनारकचतुष्कम् ।

उच्चं मनुद्विकमेताः त्रयोदश उद्वेलना प्रकृतयः ॥ ४१५ ॥

अर्थ—आहारकयुगल, सम्यक्त्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय, देवगतिका जोड़ा, नरकगतिका
चतुष्क, उच्चगोत्र, और मनुष्यगतिका युगल—ये १३ उद्वेलन प्रकृतियां हैं ॥ ४१५ ॥

बंधे अधापवत्तो विज्झादं सत्तमोत्ति हु अवंधे ।

एत्तो गुणो अवंधे पयडीणं अप्पसत्थाणं ॥ ४१६ ॥

बन्धे अधःप्रवृत्तो विध्यातः सप्तम इति हि अवन्धे ।

इत्तो गुणः अवन्धे प्रकृतीनामप्रशस्तानाम् ॥ ४१६ ॥

अर्थ—प्रकृतियोंके बंध होनेपर अपनी २ बंधव्युच्छित्तिपर्यंत अधःप्रवृत्तसंक्रमण है,
परंतु मिथ्यात्वप्रकृतिका पूर्वोक्तरीतिसे नहीं है । और बंधकी व्युच्छित्ति होनेपर असंयत-
से लेकर अप्रमत्तपर्यंत विध्यातनामा संक्रमण है । तथा अप्रमत्तसे आगे उपशांत
कषायपर्यंत बंधरहित अप्रशस्तप्रकृतियोंके गुणसंक्रमण है । इसतरह अन्य जगहभी
जानना ॥ ४१६ ॥

अब उन सर्वसंक्रमणरूप प्रकृतियोंको कहते हैं;—

तिरियेयारुध्वेल्लणपयडी संजलणलोहसम्ममिस्सूणा ।

मोहा थीणतिगं च य वावण्णे सव्वसंक्रमणं ॥ ४१७ ॥

तिर्यगैकादशोद्वेलनप्रकृतयः संज्वलनलोभसम्यग्मिश्रोनाः ।

मोहाः स्त्यानत्रिकं च द्वापञ्चाशत् सर्वसंक्रमणम् ॥ ४१७ ॥

अर्थ—पूर्वकथित तिर्यक् ११, उद्वेलन १३, संज्वलन लोभ—सम्यक्त्वमोहनीय—मिश्रमोहनीय इन तीनके विना मोहनीयकी २५ और स्त्यानगृद्धि आदि ३ प्रकृतियां—
इन सब ५२ प्रकृतियोंमें सर्वसंक्रमण होता है ॥ ४१७ ॥

आगे प्रकृतियोंके संक्रमणका नियम कहते हैं;—

उगुदालतीससत्तयवीसे एक्केकवारतिचउके ।

इगिचदुदुगतिगतिगचदुपणदुगदुगतिणिण संक्रमणा ॥ ४१८ ॥

एकोनचत्वारिंशत्त्रिंशत्सप्तकविंशे एकैकद्वादशत्रिचतुष्के ।

एकचतुर्द्विकत्रिकत्रिकचतुःपञ्चद्विकद्विकत्रयः संक्रमणाः ॥ ४१८ ॥

अर्थ—३९ प्रकृतियोंमें, ३० में, ७ में, २० में, १ में, १ में, १२ में, ४ में, ४ में, ४ में क्रमसे १, ४, २, ३, ३, ४, ५, २, २, और ३ संक्रमण होते हैं ॥ ४१८ ॥

आगे उन प्रकृतियोंको तथा उनके संक्रमणोंको क्रमसे सात गाथाओंकर कहते हैं,—

सुहुमस्स वंधघादी सादं संजलणलोहपंचिंदी ।

तेजदुसमवण्णचऊ अगुरुगपरघादउस्सासं ॥ ४१९ ॥

सत्थगदी तसदसयं णिमिणुगुदाले अधापवत्तो दु ।

थीणतिवारकसाया संदित्थी अरइ सोगो य ॥ ४२० ॥

तिरियेयारं तीसे उव्वेलणहीणचारि संक्रमणा ।

णिद्दा पयला असुहं वण्णचउकं च उवघादे ॥ ४२१ ॥

सत्तण्हं गुणसंक्रममधापवत्तो य दुक्खमसुहगदी ।

संहदि संठाणदसं णीचापुण्णथिरछकं च ॥ ४२२ ॥

वीसण्हं विज्झादं अधापवत्तो गुणो य मिच्छत्ते ।

विज्झादगुणे सव्वं सम्मे विज्झादपरिहीणा ॥ ४२३ ॥ कुलयं ।

सूहमस्य वंधघातिन्यः सातं संज्वलनलोभपञ्चेन्द्रियम् ।

तेजोद्विसमवर्णचतुरगुरुकपरघातोच्छ्वासम् ॥ ४१९ ॥

शस्तगतिः त्रसदशकं निर्माणमेकोनचत्वारिंशत्सु अधःप्रवृत्तस्तु ।

स्त्यानत्रिद्वादशकपायाः पण्डस्त्री अरतिः शोकश्च ॥ ४२० ॥

तिर्यगैकादश त्रिंशत्सु उद्वेलनहीनचत्वारः संक्रमणाः ।

निद्राप्रचला अशुभं वर्णचतुष्कं च उपघातम् ॥ ४२१ ॥

सप्तानां गुणसंक्रमोऽधःप्रवृत्तश्च दुःखमशुभगतिः ।

संहतिसंस्थानदश नीचापूर्णनस्थिरपट्टं च ॥ ४२२ ॥

विंशानां विध्यात अधःप्रवृत्तो गुणश्च मिथ्यात्वे ।

विध्यातगुणौ सर्वः सम्यग्धि विध्यातपरिहीनाः ॥ ४२३ ॥ कुलकम् ।

अर्थ—सूक्ष्मसांपरायकी बंधव्युच्छित्ति होनेवाली घातियाकर्माकी १४ प्रकृतियां, साता-वेदनीय, संज्वलनलोभ, पंचेन्द्रीजाति, तैजसका युगल, समचतुरस्र, वर्णादि ४, अगुरुलघु, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस आदि १० और निर्माण—इन ३९ प्रकृतियोंमें अधःप्रवृत्तसंक्रमण है। स्त्यानगृद्धि आदि ३, १२ कपाय, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, अरति, शोक और तिर्यक्कादशकी ११—इन तीस प्रकृतियोंमें उद्वेलनसंक्रमणके विना चारसंक्रमण हैं। निद्रा, प्रचला, अशुभवर्णादि ४ और उपघात—इन सातप्रकृतियोंके गुणसंक्रमण और अधःप्रवृत्तसंक्रमण-ये दो पाये जाते हैं। असातावेदनीय, अप्रशस्तविहायोगति, पहले विना पांच संहनन और पांच संस्थान-ये १०, नीचगोत्र, अपर्याप्त और अस्थिरादि ६, इसप्रकार २० प्रकृतियोंके विध्यातसंक्रमण-अधःप्रवृत्तसंक्रमण और गुणसंक्रमण ये तीन संक्रमण पाये जाते हैं। मिथ्यात्वप्रकृतिमें विध्यात-गुण और सर्वसंक्रमण ये तीन हैं। तथा सम्यक्त्वमोहनीयमें विध्यातसंक्रमणके विना चार संक्रमण पाये जाते हैं ॥ ४१९।४२०।४२१।४२२।४२३ ॥

सम्मविहीणुवेल्ले पंचेव य तत्थ होंति संक्रमणा ।

संजलणतिये पुरिसे अधापवत्तो य सव्वो य ॥ ४२४ ॥

सम्यग्विहीनोद्वेल्ले पञ्चैव च तत्र भवन्ति संक्रमणाः ।

संज्वलनत्रये पुरुषे अधःप्रवृत्तश्च सर्वश्च ॥ ४२४ ॥

अर्थ—सम्यक्त्वमोहनीयके विना १२ उद्वेलन प्रकृतियोंमें पांचही संक्रमण होते हैं। और संज्वलनक्रोधादि तीन तथा पुरुषवेद—इन चारोंमें अधःप्रवृत्त और सर्वसंक्रमण ये दो संक्रमण ही पाये जाते हैं ॥ ४२४ ॥

ओरालदुगे वज्जे तित्थे विज्झादधापवत्तो य ।

हस्सरदिभयजुगुच्छे अधापवत्तो गुणो सव्वो ॥ ४२५ ॥

ओरालद्विके वज्जे तीर्थे विध्यातोऽधःप्रवृत्तश्च ।

हास्यरतिभयजुगुप्सायामधःप्रवृत्तो गुणः सर्वः ॥ ४२५ ॥

अर्थ—औदारिकशरीर द्विक, वज्रर्षभनाराचसंहनन, तीर्थकर प्रकृति—इन चारोंमें विध्यातसंक्रमण और अधःप्रवृत्त ये दो संक्रमण हैं। तथा हास्य, रति, भय और जुगुप्सा—इन चार प्रकृतियोंमें अधःप्रवृत्त, गुण और सर्वसंक्रमण ये तीन संक्रमण पाये जाते हैं ॥ ४२५ ॥

आगे विध्यातसंक्रमणकी प्रकृतियोंको दिखाते हैं;—

सम्मत्तूणुव्वेलणथीणत्तितीसं च दुक्खवीसं च ।

वज्जोरालदुत्तित्थं मिच्छं विज्झादसत्तट्ठी ॥ ४२६ ॥

सम्यक्तघ्नोद्वेलनस्यानत्रिंशच्च दुःखविंशश्च ।
वज्रोरालद्वितीर्थं मिथ्यं विध्यात्सप्तपष्टिः ॥ ४२६ ॥

अर्थ—सम्यक्त्वमोहनीयके विना उद्वेलनप्रकृतियां १२, स्यानगृद्धि तीन आदिक ३०, असातावेदनीयादिक २०, वज्रर्षभनाराचसंहनन, औदारिक युगल, तीर्थकर प्रकृति, मिथ्यात्व—ये ६७ प्रकृतियां विध्यात्संक्रमणवाली हैं ॥ ४२६ ॥

अब अधःप्रवृत्तसंक्रमण और गुणसंक्रमणकी प्रकृतियोंको कहते हैं;—

मिच्छूणिगिगीससयं अधापवत्तस्स होंति पयडीओ ।

सुहुमस्स बंधघादिप्पहुदी उगुदालुरालदुगतित्थं ॥ ४२७ ॥

वज्जं पुंसंजलणति ऊणा गुणसंकमस्स पयडीओ ।

पणहत्तरिसंखाओ पयडीणियमं विजाणाहि ॥ ४२८ ॥ जुम्मं ।

मिथ्योनेकविंशशतमधःप्रवृत्तस्य भवन्ति प्रकृतयः ।

सूक्ष्मस्य बंधघातिप्रभृतयः एकोनचत्वारिंशदौरालद्विकतीर्थम् ॥ ४२७ ॥

वज्रं पुंसंज्वलनत्रिकमूना गुणसंक्रमस्य प्रकृतयः ।

पञ्चसप्ततिसंख्याः प्रकृतिनियमं विजानीहि ॥ ४२८ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—मिथ्यात्वप्रकृतिके विना १२१ प्रकृतियां अधःप्रवृत्तसंक्रमणकी होती हैं । और सूक्ष्मसांपरायमें बंध होनेवाली घातियाकर्मोंकी चौदह प्रकृतिओंको आदि लेकर ३९ प्रकृतियां, औदारिक दो, तीर्थकर, वज्रर्षभनाराच, पुरुषवेद, संज्वलनक्रोधादि तीन—इन ४७ प्रकृतियोंको कमकरके शेष वचीं ७५ प्रकृतियां गुणसंक्रमणकी हैं । इसप्रकार प्रकृतियोंमें नियम जानना ॥ ४२७।४२८ ॥

आगे स्थितिवंध और अनुभागबंधके तथा प्रदेशबंधके संक्रमणके गुणस्थानोंकी संख्या कहते हैं;—

ठिदिअणुभागाणं पुण बंधो सुहुमोत्ति होदि णियमेण ।

बंधपदेसाणं पुण संक्रमणं सुहुमरागोत्ति ॥ ४२९ ॥

स्थित्यनुभागयोः पुनः बन्धः सूक्ष्म इति भवति नियमेन ।

बन्धप्रदेशानां पुनः संक्रमणं सूक्ष्मराग इति ॥ ४२९ ॥

अर्थ—स्थिति और अनुभागका बंध नियमसे सूक्ष्मसांपरायगुणस्थान पर्यंत ही है, क्योंकि उक्त बंधका कारण कषाय वहीं तक है । और बन्धरूप प्रदेशों (कर्मपरमाणुओं) का संक्रमणभी सूक्ष्मसांपराय गुणस्थान तक ही है, क्योंकि “बंधे अधापवत्तो” इस गाथानुत्रके अभिप्रायसे स्थितिवंध पर्यंत ही संक्रमण होना संभव है ॥ ४२९ ॥

आगे पांच भागहारोंका अल्पबहुपना ६ गाथाओंसे कहते हैं;—

सव्वस्सेकं रूवं असंखभागो दु पल्लछेदाणं ।
 गुणसंकमो दु हारो ओकट्टुकट्टणं ततो ॥ ४३० ॥
 हारं अधापवत्तं ततो जोगम्हि जो दु गुणगारो ।
 णाणागुणहाणिसला असंखगुणिदकमा होंति ॥ ४३१ ॥
 ततो पल्लसलायच्छेदहिया पल्लछेदणा होंति ।
 पल्लस्स पढममूलं गुणहाणीवि य असंखगुणिदकमा ॥४३२॥
 अण्णोण्णभत्थं पुण पल्लमसंखेज्जरूवगुणिदकमा ।
 संखेज्जरूवगुणिदं कम्मुकस्सट्ठिदी होदि ॥ ४३३ ॥
 अंगुलअसंखभागं विज्झादुव्वेहणं असंखगुणं ।
 अणुभागस्स य णाणागुणहाणिसला अणंताओ ॥ ४३४ ॥
 गुणहाणिअणंतगुणं तस्स दिवड्ढं णिसेयहारो य ।
 अहियकमाण्णोण्णभत्थो रासी अणंतगुणो ॥४३५॥ कुलयं ।
 सर्वस्यैकं रूपमसंख्यभागस्तु पल्यच्छेदानाम् ।
 गुणसंक्रमस्तु हार अपकर्षणोत्कर्षणं ततः ॥ ४३० ॥
 हार अधःप्रवृत्त ततो योगे यस्तु गुणकारः ।
 नानागुणहानिशला असंख्यगुणितक्रमा भवन्ति ॥ ४३१ ॥
 ततः पल्यशलाकच्छेदाधिकाः पल्यच्छेदना भवन्ति ।
 पल्यस्य प्रथममूलं गुणहानिरपि च असंख्यगुणितक्रमा ॥ ४३२ ॥
 अन्योन्याभ्यस्तं पुनः पल्यमसंख्येयरूपगुणितक्रमम् ।
 संख्येयरूपगुणिता कर्मोत्कृष्टस्थितिर्भवति ॥ ४३३ ॥
 अङ्गुलासंख्यभागं विध्यातोद्वेलनमसंख्यगुणम् ।
 अनुभागस्य च नानागुणहानिशला अनन्ताः ॥ ४३४ ॥
 गुणहान्यनन्तगुणा तस्या द्व्यर्धं निषेकहारश्च ।
 अधिकक्रमाणामन्योन्याभ्यस्तो राशिरनन्तगुणः ॥ ४३५ ॥ कुलकम् ।

अर्थ—‘सर्वसंक्रमण’ नामा भागहार सबसे थोड़ा है उसका प्रमाण १ रूप कल्पना
 किया । इससे असंख्यातगुणा पल्यके अर्धच्छेदोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण ‘गुणसंक्रमण’
 भागहार है । इससे असंख्यातगुणे अपकर्षण और उत्कर्षण भागहार हैं तौभी ये दोनों
 जुदे २ पल्यके अर्धच्छेदोंके असंख्यातवें भाग प्रमाणही हैं, क्योंकि असंख्यातके छोटे
 बड़ेकी अपेक्षा बहुत भेद हैं । इससे ‘अधःप्रवृत्तसंक्रमण’ भागहार असंख्यातगुणा है ।
 इससे असंख्यातगुणा योगोंके कथनमें जो गुणकार कहा है वह जानना । इससे कर्मोंकी

स्थितिकी नानागुणहानिशलाकाका प्रमाण असंख्यातगुणा है, वह पल्यकी वर्गशलाकाके अर्धच्छेदोंको पल्यके अर्धच्छेदोंमें घटाकर जो प्रमाण रहै उतना है। इससे पल्यके अर्ध-च्छेदोंका प्रमाण अधिक है, वह पल्यकी वर्गशलाकाके अर्धच्छेदोंके प्रमाण अधिक है। इससे पल्यका प्रथम वर्गमूल असंख्यात गुणा है। इससे कर्मोंकी स्थितिकी जो एक गुणहानि उसके समयोंका प्रमाण असंख्यात गुणा है। इससे असंख्यातगुणा कर्मोंकी स्थितिकी अन्योन्याभ्यस्तराशिका प्रमाण है। इससे असंख्यातगुणा पल्यका प्रमाण है, क्योंकि उस अन्योन्याभ्यस्तराशिके प्रमाणको पल्यकी वर्गशलाकासे गुणाकार करनेपर पल्य होता है। इससे कर्मोंकी उत्कृष्टस्थितिका प्रमाण संख्यातगुणा है। इससे 'विध्या-तसंक्रमण' नामा भागहार असंख्यातगुणा है, वह सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। तथा इससे असंख्यातगुणा 'उद्वेलन संक्रमण' भागहार है। इससे कर्मोंके अनुभा-गकी नानागुणहानि शलाकाका प्रमाण अनंतगुणा है। इससे उस अनुभागकी एक गुण-हानिके आयामका प्रमाण अनंतगुणा है। इससे उसीकी उद्वेगुणहानिका प्रमाण उसके आधे प्रमाणकर अधिक है, इससे दोगुणहानिका प्रमाण आधा गुणहानिके प्रमाणकर अधिक है इसीको निषेकहार कहते हैं। इससे उस अनुभागकी अन्योन्याभ्यस्तराशिका प्रमाण अनंतगुणा जानना। ॥ ४३०।४३१।४३२।४३३।४३४।४३५ ॥ इसप्रकार पंच-भागहारोंके अल्पवहुत्वका तथा प्रसंगसे अन्यके अल्पवहुत्वका कथन किया। इसतरह पंचभागहारचूलिका समाप्त हुई।

अब दशकरणचूलिकाको १४ गाथाओंसे कहते हुए पहले अपने श्रुतगुरुको नमस्कार करते हैं;—

जस्स य पायपसायेणणंतसंसारजलहिमुत्तिण्णो ।

वीरिंदणंदिवच्छो णमामि तं अभयणंदिगुरुं ॥ ४३६ ॥

यस्य च पादप्रसादेनानन्तसंसारजलधिमुत्तीर्णः ।

वीरेन्द्रनन्दिवत्सो नमामि तमभयनन्दिगुरुम् ॥ ४३६ ॥

अर्थ—जिस शास्त्रशिक्षादायक गुरुके चरणोंके प्रसादसे अनंत संसारसमुद्रके पारको प्राप्त हुआ वीरेन्द्रनन्दि नामा आचार्यका शिष्य ऐसा जो मैं ग्रन्थकर्ता नेमिचंद्र हूं सो उस श्रुतगुरु अभयनन्दि आचार्यको नमस्कार करता हूं ॥ ४३६ ॥

अब उन करणोंके नाम कहते हैं;—

बंधुकट्टकरणं संकममोकट्टदीरणा सत्तं ।

उदयुवसामणिधत्ती णिकाचणा होदि पडिपयडी ॥ ४३७ ॥

बंधोत्कर्षणकरणं संक्रममपकर्षणोदीरणा सत्त्वम् ।

उदयोपशान्तनिधत्तिः निःकाचता भवति प्रतिप्रकृति ॥ ४३७ ॥

अर्थ—बंध १ उत्कर्षण २ संक्रमण ३ अपकर्षण ४ उदीरणा ५ सत्त्व ६ उदय ७ उपशान्त ८ निधत्ति ९ निकाचना १० ये दश करण (अवस्था) हरणक प्रकृतिके होते हैं ॥ ४३७ ॥

आगे इन करणोंका स्वरूप तीन गाथाओंसे कहते हैं;—

कम्माणं संबंधो बंधो उक्कट्टणं हवे वड्डी ।

संक्रमणमणत्थगदी हाणी ओकट्टणं णाम ॥ ४३८ ॥

कर्मणां संबन्धो बन्ध उत्कर्षणं वृद्धिर्भवेत् ।

संक्रमणमन्यत्रगतिः हानिरपकर्षणं नाम ॥ ४३८ ॥

अर्थ—कर्मोंका संबन्ध होना अर्थात् मिथ्यात्वादि परिणामोंसे जो पुद्गलद्रव्यका ज्ञानावरणादिरूप होकर परिणमन करनेसे ज्ञानादिको आवरण करना वह बंध है । जो कर्मोंकी स्थिति तथा अनुभागका बढ़ना वह उत्कर्षण है । जो बंधरूप प्रकृतिका दूसरी प्रकृतिरूप परिणम जाना वह संक्रमण है । जो स्थिति तथा अनुभागका कम होजाना वह अपकर्षण है ॥ ४३८ ॥

अणत्थठियस्सुदये संशुहणमुदीरणा हु अत्थित्तं ।

सत्तं सकालपत्तं उदओ होदित्ति णिदिट्ठो ॥ ४३९ ॥

अन्यत्र स्थितस्योदये संस्थापनमुदीरणा हि अस्तित्वम् ।

सत्त्वं स्वकालप्राप्तमुदयो भवतीति निर्दिष्टः ॥ ४३९ ॥

अर्थ—उदयकालके बाहिर स्थित अर्थात् जिसके उदयका अभी समय नहीं आया ऐसा जो कर्मद्रव्य उसको अपकर्षणके बलसे उदयावली कालमें प्राप्त करना (लाना) उसको उदीरणा कहते हैं । जो पुद्गलका कर्मरूप रहना वह सत्त्व है । और जो कर्मका अपनी स्थितिको प्राप्त होना अर्थात् फल देनेका समय प्राप्त होजाना वह उदय है । ऐसा श्रीजिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ ४३९ ॥

उदये संक्रमसुदये चउसुवि दातुं क्रमेण णो सकं ।

उवसंतं च णिधत्तिं णिकाचिदं होदि जं कम्मं ॥ ४४० ॥

उदये संक्रमोदययोः चतुर्ष्वपि दातुं क्रमेण नो शक्यम् ।

उपशान्तं च निधत्तिः निकाचितं भवति यत् कर्म ॥ ४४० ॥

किया^१—जो कर्म उदयावलीमें प्राप्त न किया जाय अर्थात् उदीरणा अवस्थाको प्राप्त भाग^१ है वह उपशान्त करण है । जो कर्म उदयावलीमेंभी प्राप्त न होसकै और संक्रमण जुदे^२ की प्राप्त न होसकै उसे निधत्ति करण कहते हैं । तथा जिस कर्मकी उदीरणा बड़ेकी अपे^३ र्षण और अपकर्षण ये चारोंही अवस्थायें न होसकै उसे निकाचित करण इससे असंख्य^४) कहते हैं ॥ ४४० ॥

इसप्रकार दशकरणोंका स्वरूप कहकर अब प्रकृतियोंमें तथा गुणस्थानोंमें करणोंके संभव होनेका प्रकार दो गाथासूत्रोंसे दिखाते हैं;—

संकमणाकरणूणा णवकरणा होंति संव्वआऊणं ।

सेसाणं दसकरणा अपुव्वकरणोत्ति दसकरणा ॥ ४४१ ॥

संकमणकरणोणानि नवकरणानि भवन्ति सर्वायुपाम् ।

शेषानां दशकरणान्यपूर्वकरण इति दशकरणानि ॥ ४४१ ॥

अर्थ—नरकादि चारों आयुक्रमोंके संक्रमणकरणके विना ९ करण होते हैं । और शेषवर्चीं सब प्रकृतियोंके १० करण होते हैं । तथा मिथ्यादृष्टिसे लेकर आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानपर्यंत १० करण होते हैं ॥ ४४१ ॥

आदिमसत्तेव तदो सुहुमकसाओत्ति संक्रमेण विणा ।

छच्च सजोगित्ति तदो सत्तं उदयं अजोगित्ति ॥ ४४२ ॥

आदिमसत्तैव ततः सूक्ष्मकपाय इति संक्रमेण विना ।

पद् च सयोगीत्ति ततः सत्त्वमुदय अयोगीत्ति ॥ ४४२ ॥

अर्थ—उस अपूर्वकरणगुणस्थानके ऊपर १० वें सूक्ष्मकपायगुणस्थानपर्यंत आदिके ७ ही करण होते हैं । उससे आगे सयोगकेवली तक संक्रमणकरणके विना ६ ही करण होते हैं । उसके बाद अयोगकेवलीके सत्व और उदय—ये दो ही करण पाये जाते हैं ॥ ४४२ ॥

अब ११ वें उपशांतकपायमें कुछ विशेषता कहते हैं;—

णवरि विसेसं जाणे संक्रममवि होदि संतमोहम्मि ।

मिच्छस्स य मिस्सस्स य सेसाणं णत्थि संक्रमणं ॥ ४४३ ॥

नवरि विशेषं जानीहि संक्रममपि भवति शान्तमोहे ।

मिथ्यस्य च मिश्रस्य च शेषाणां नास्ति संक्रमणम् ॥ ४४३ ॥

अर्थ—विशेष बात यह है कि उपशांतकपायगुणस्थानमें मिथ्यात्व और मिश्रमोहनीयका संक्रमणकरण भी होता है अर्थात् इन दोनोंके कर्मपरमाणू सम्यक्त्वमोहनीयरूप परिणम जाते हैं । तथा शेष प्रकृतियोंका संक्रमण नहीं होता, ६ ही करण होते हैं ॥ ४४३ ॥

बंधुकट्टणकरणं सगसगबंधोत्ति होदि णियमेण ।

संक्रमणं करणं पुण सगसगजादीण बंधोत्ति ॥ ४४४ ॥

बन्धोत्कर्षणकरणं स्वकस्यकबन्ध इति भवति नियमेन ।

संक्रमणं करणं पुनः स्वकस्यकजातीनां बन्ध इति ॥ ४४४ ॥

अर्थ—बंधकरण और उत्कर्षणकरण ये दोनों, प्रकृतियोंकी अपनी २ बन्धव्युच्छिन्निके

ठिकाने होते हैं । और प्रकृतियोंकी अपनी २ जातिकी जहां बंधसे व्युच्छित्ति है वहापर संक्रमण करण होता है ॥ ४४४ ॥

ओकट्टणकरणं पुण अजोगिसत्ताण जोगिचरिमोत्ति ।

खीणं सुहुमंताणं खयदेशं सावलीयसमयोत्ति ॥ ४४५ ॥

अपकर्षणकरणं पुनरयोगिसत्त्वानां योगिचरम इति ।

क्षीणं सूक्ष्मान्तानां क्षयदेशं सावलिकसमय इति ॥ ४४५ ॥

अर्थ—अयोगीकी ८५ सत्त्वप्रकृतियोंका सयोगीके अंतसमयतक अपकर्षण करण होता है । तथा क्षीणकषायगुणस्थानमें सत्त्वसे व्युच्छिन्नहुई १६ तथा सूक्ष्मसांपरायमें सत्त्वसे व्युच्छित्तिरूप हुआ जो सूक्ष्मलोभ—इसप्रकार १७ प्रकृतियोंका क्षयदेशपर्यंत अपकर्षण करण जानना । उस क्षयदेशका काल यहांपर एक समय अधिक आवलिमात्र है । क्योंकि ये १७ प्रकृतियाँ स्वमुखोदयी हैं । सारांश यह है कि प्रकृतियां दो प्रकारकी हैं—एक स्वमुखोदयी दूसरी परमुखोदयी, उनमेंसे जो अपने ही रूप उदयफल देकर नाश हो जायं वे स्वमुखोदयी हैं, उनका काल एकसमय अधिक आवलि प्रमाण है वही क्षयदेश (क्षय होनेका ठिकाना) है । जो प्रकृति अन्यप्रकृतिरूप उदयफल देकर विनष्ट होजाती हैं वे परमुखोदयी हैं, उनके अंतकांडककी अंतफालि क्षयदेश है ऐसा जानना ॥ ४४५ ॥

उवसंतोत्ति सुराऊ मिच्छत्तिय खवगसोलसाणं च

खयदेशोत्ति य खवगे अट्टकसायादिवीसाणं ॥ ४४६ ॥

उपशान्त इति सुरायुः मिथ्यत्रयं क्षपकषोडशानां च ।

क्षयदेश इति च क्षपके अष्टकषायादिविंशानाम् ॥ ४४६ ॥

अर्थ—देवायुका अपकर्षणकरण उपशांतकषाय पर्यंत है । मिथ्यात्वादि तीन और 'णिर यतिरिवखे' इत्यादि सूत्रसे कथित अनिवृत्तिकरणमें क्षय हुई १६ प्रकृतियां इनके क्षयदेश पर्यंत अर्थात् अन्तकांडकके अंतफालिपर्यंत अपकर्षण करण है, और क्षपक अवस्थामें अनिवृत्तिकरणमें क्षय हुई जो आठकषायको लेकर २० प्रकृतियां हैं उनका भी अपने २ क्षयदेश पर्यंत अपकर्षण करण है । जिसस्थानमें क्षय हुआ हो उसको क्षयदेश कहते हैं ॥ ४४६ ॥

मिच्छत्तियसोलसाणं उवसमसेट्ठिम्मि संतमोहोत्ति ।

अट्टकसायादीणं उवसमियट्टाणगोत्ति हवे ॥ ४४७ ॥

मिथ्यत्रयपोडशानामुपशमश्रेण्यां शान्तमोह इति ।

अष्टकषायादीनामुपशमिकस्थानक इति भवेत् ॥ ४४७ ॥

अर्थ—उपशमश्रेणीमें उपशान्तकषायगुणस्थान पर्यंत मिथ्यात्वादि तीन दर्शनमोहनीय और नरक द्विकादिक १६ इन प्रकृतियोंका अपकर्षण करण है । तथा आठ कषायादिकोंका अपने २ उपशमकरनेके ठिकाने तक अपकर्षण करण है ॥ ४४७ ॥

पठमकसायाणं च विसंजोजकं वोत्ति अयददेशोत्ति ।
णिरयतिरियाउगाणमुदीरणसत्तोदया सिद्धा ॥ ४४८ ॥

प्रथमकपायाणां च विसंयोजकं वा इति अयतदेश इति
निरयतिर्यगायुषोरुदीरणसत्त्वोदयाः सिद्धाः ॥ ४४८ ॥

अर्थ—अनंतानुबंधी चारकपायके असंयतादि चार गुणस्थानोंमें यथासंभव जहां विसं-
योजन (अन्यरूप परिणमन) होवे वहांतक ही अपकर्षणकरण है । तथा नरकायुके
असंयतगुणस्थानतक और तिर्यंचायुके देशसंयतगुणस्थान तक उदीरणा, सत्व, उदयकरण—
ये तीन करण प्रसिद्ध ही हैं; क्योंकि पूर्वे इनका कथन होचुका है ॥ ४४८ ॥

मिच्छस्स य मिच्छोत्ति य उदीरणा उवसमाहिमुहियस्स ।
समयाहियावलीत्ति य सुहुमे सुहुमस्स लोहस्स ॥ ४४९ ॥

मिथ्यस्य च मिथ्येति च उदीरणा उपशमाभिमुखस्य ।
समयाधिकावलीत्ति च सूक्ष्मे सूक्ष्मस्य लोभस्य ॥ ४४९ ॥

अर्थ—उपशमसम्यक्त्वके सन्मुख हुए जीवके मिथ्यात्वगुणस्थानके अंतमें एक समय
अधिक आवलि कालतक मिथ्यात्वप्रकृतिका उदीरणाकरण होता है, उतने ही कालतक
उसका उदय है । और सूक्ष्मलोभका सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानमें ही उदीरणा करण है, इससे
आगे उदय नहीं है ॥ ४४९ ॥

उदये संक्रममुदये चउसुवि दातुं क्रमेण णो सकं ।
उवसंतं च णिधत्तिं णिकाचिदं तं अपुवोत्ति ॥ ४५० ॥

उदये संक्रमोदययोः चतुर्ष्वपि दातुं क्रमेण नो शक्यम् ।
उपशान्तं च निधत्तिः निकाचितं तत् अपूर्वं इति ॥ ४५० ॥

अर्थ—जो कर्म उदयावलीमें प्राप्त नहीं कियाजावे अर्थात् जिसकी उदीरणा न होसके,
जो उदीरणारूपभी न होसके और संक्रमणरूपभी न होसके, तथा उदयावलीमें भी न
आसकै—संक्रमण भी न होसकै—उत्कर्षण और अपकर्षण भी न होसकें अर्थात् ये 'चारों क्रिया
नहीं होसकी हों—ऐसे क्रमसे उपशान्तकरण, निधत्तिकरण और निकाचितकरण—ये तीन करण
अपूर्वकरणगुणस्थानतक ही होते हैं । इसके ऊपर यथासंभव उदयावली आदि प्राप्त होनेकी
सामर्थ्यवाले ही कर्मपरमाणू पाये जाते हैं ॥ ४५० ॥

इति श्री नेमिचन्द्राचार्य विरचित पंचसंग्रह द्वितीयनामवालं गोम्मटसार
ग्रन्थके कर्मकांडमें त्रिचूलिका नामकां त्रैथा अधिकार समाप्त हुआ ॥२॥

—१५१—

आगे श्रीनेमिचन्द्राचार्य सिद्धान्तचक्रवर्ती अपने दृष्ट देवको नमस्कार करते हुए स्थान-
समुत्कीर्तन नामक अधिकारके कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं;—

णमिऊण णेमिणाहं सच्चुहिद्विरणमंसिर्यधिजुगं ।
बंधुदयसत्तजुत्तं टाणसमुक्कित्तणं वोच्छं ॥ ४५१ ॥

नत्वा नेमिनाथं सत्ययुधिष्ठिरनमस्कृताङ्घ्रियुगम् ।

बन्धोदयसत्त्वयुक्तं स्थानसमुत्कीर्तनं वक्ष्ये ॥ ४५१ ॥

अर्थ—प्रत्यक्ष बंदनाकरनेवाला जो सत्यरूप 'युधिष्ठिर' नामा पांडव उसकरके नमस्कार कियेगये हैं चरणकमल जिसके ऐसे श्री नेमिनाथ तीर्थकरको नमस्कार करके मैं नेमिचन्द्राचार्य प्रकृतियोंके स्थानसमुत्कीर्तनको कहूंगा ॥ ४५१ ॥ जो एकजीवके एककालमें जितनी प्रकृतियोंका संभव होसकै उनप्रकृतियोंके समूहका नाम स्थान है । इसीका व्याख्यान इस अधिकारमें कहाजाइगा ॥

अब पहले मूलप्रकृतियोंके बंध—उदय—उदीरणा—सत्त्वके भेदको लियेहुए स्थानोंके कथनको गुणस्थानोंमें छह गाथाओंसे कहते हैं;—

छसु सगविहमट्टविहं कम्मं बंधंति तिसु य सत्तविहं ।

छविहमेकट्टाणे तिसु एकमबंधगो एक्को ॥ ४५२ ॥

षट्सु सप्तविधमष्टविधं कर्म वध्नन्ति त्रिषु च सप्तविधम् ।

षड्विधमेकस्थाने त्रिषु एकमवन्धकमेकम् ॥ ४५२ ॥

अर्थ—मिश्रगुणस्थानके विना अप्रमत्त पर्यंत ६ गुणस्थानोंमें आयुके विना सातप्रकार अथवा आयुसहित आठप्रकार कर्मको बांधते हैं । मिश्र, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण—इन तीनगुणस्थानों में आयुविना सातप्रकार ही कर्म बंधरूप होते हैं । एक सूक्ष्मसांप्रदाय-गुणस्थानमें आयु—मोहके विना ६ प्रकार ही कर्मोंका बंध होता है । उपशांतकषायादि तीन गुणस्थानोंमें एक वेदनीयकर्मका ही बंध है । और अयोगीगुणस्थान बंधरहित है अर्थात् उसमें किसी प्रकृतिका भी बंध नहीं होता ॥ ४५२ ॥

चत्वारि तिणिण तिय चउ पयडिट्टाणाणि मूलपयडीणं ।

भुजगारप्पदराणि य अवट्टिदाणिचि क्रमे होंति ॥ ४५३ ॥

चत्वारि त्रीणि त्रीणि चत्वारि प्रकृतिस्थानानि मूलप्रकृतीनाम् ।

भुजाकारारूपतराणि च अवस्थितान्यपि क्रमेण भवन्ति ॥ ४५३ ॥

अर्थ—इस पूर्वोक्तरीतिसे मूलप्रकृतियोंके बंधस्थान चार हैं, उनमेंसे ३, ३, और ४ स्थानके क्रमसे भुजाकार बंध, अल्पतर बंध और अवस्थित बंध ये तीन प्रकारके बंध होते हैं । तथा 'च' से चौथा अवक्तव्यबंध भी समझना, यह चौथा बंध मूलप्रकृतियोंमें नहीं होता ॥ ४५३ ॥ इन चारोंका स्वरूप आगे ४६९ वीं गाथामें कहेंगे ।

अट्टुदओ सुहुमोत्ति य मोहेण विणा हु संतखीणेषु ।

घादिदराण चउक्कस्सुदओ केवलिट्ठुगे णियमा ॥ ४५४ ॥

अष्टोदयः सूक्ष्म इति च मोहेन विना हि शान्तक्षीणयोः ।

घातीतराणां चतुष्कस्योदयः केवलद्विके नियमात् ॥ ४५४ ॥

अर्थ—सूक्ष्मसांपरायगुणस्थान तक आठ मूलप्रकृतियोंका उदय है, उपशान्तकपाय और क्षीणकपाय इन दो गुणस्थानोंमें मोहनीयके विना सात का उदय है तथा सयोगी और अयोगी इन दोनोंके चार अघातिया कर्मोंका उदय नियमसे जानना ॥ ४५४ ॥

घादीणं छटुमट्टा उदीरगा रागिणो हि मोहस्स ।

तदियाऊण पमत्ता जोगंता होंति दोणहंपि ॥ ४५५ ॥

घातिनां छद्मस्था उदीरका रागिणो हि मोहस्य ।

तृतीयायुषोः प्रमत्ता योग्यन्ता भवन्ति द्वयोरपि ॥ ४५५ ॥

अर्थ—चार घातिया कर्मोंकी उदीरणा क्षीणकपायगुणस्थानतक छद्मस्थ ज्ञानी करते हैं, मोहनीयकर्मकी उदीरणा करनेवाले सरागी सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानतक कहेगये हैं, वेदनीय और आयुर्कर्मकी उदीरणा करनेवाले प्रमत्तगुणस्थानतक प्रमादी जीव होते हैं, तथा नाम और गोत्र इन दोनोंकी उदीरणा सयोगीपर्यंत जीव करते हैं ॥ ४५५ ॥

मिस्सूणपमत्तंते आउरसद्धा हु सुहुमखीणाणं ।

आवलिसिष्टे कमसो सग पण दो चेवुदीरणा होंति ॥४५६॥

मिश्रोणप्रमत्तान्ते आयुष अद्धा हि सूक्ष्मक्षीणयोः ।

आवलिशिष्टे क्रमशः सप्त पञ्च द्वे चैवोदीरणा भवन्ति ॥ ४५६ ॥

अर्थ—मिश्रगुणस्थानके विना प्रमत्तगुणस्थानतक पांच गुणस्थानोंमें आयुकी स्थितिमें आवलिमात्र काल शेष रहनेपर आयु विना सात कर्मोंकी उदीरणा होती है, सूक्ष्मसांपरायमें उतना ही काल बाकी रहनेपर आयु—मोहनीय—वेदनीय इन तीनोंके विना पांच कर्मोंकी उदीरणा होती है । तथा क्षीणकपाय गुणस्थानमें उतना ही काल कम रहनेसे नाम और गोत्र इन दो कर्मोंकी उदीरणा होती है ॥ ४५६ ॥

संतोत्ति अट्ट सत्ता खीणे सत्तेव होंति सत्ताणि ।

जोगिम्मि अजोगिम्मि य चत्तारि हवंति सत्ताणि ॥ ४५७ ॥

शान्त इति अष्ट सत्ताः क्षीणे सप्तैव भवन्ति सत्त्वानि ।

योगिनि अयोगिनि च चत्वारि भवन्ति सत्त्वानि ॥ ४५७ ॥

अर्थ—उपशान्तकपाय गुणस्थानपर्यंत आठों प्रकृतियोंकी सत्ता है । क्षीणकपाय गुणस्थानमें मोहनीयके विना सात कर्मोंकी ही सत्ता है, और सयोगकेवली तथा अयोगकेवली इन दोनोंमें चार अघातिया कर्मोंकी ही सत्ता है ॥ ४५७ ॥

आगे उच्चरप्रकृतियोंके स्थानोंका भेदप्रकार कथन करते हैं;—

तिणिण दत्त अट्ट ठाणाणि दंसणावरणमोहणामाणं ।

एत्थेव य भुजगारा संसंसेयं हंय ठाणं ॥ ४५८ ॥

त्रीणि दश अष्ट स्थानानि दर्शनावरणमोहनाम्नाम् ।

अत्रैव च भुजाकाराः शेषेष्वेकं भवेत् स्थानम् ॥ ४५८ ॥

अर्थ—दर्शनावरण, मोहनीय और नामकर्मके क्रमसे ३, १० और ८ स्थान हैं तथा इन्हींमें भुजाकार बंध भी होते हैं । और शेष ज्ञानावरणादिकोंमें एक २ ही स्थान है ॥ ४५८ ॥ उन शेषमेंसे ज्ञानावरण और अंतरायका तो पांच प्रकृतिका बंधरूप स्थान एक ही है ।

णव छक्क चदुक्कं च य विदियावरणस्स बंधटाणाणि ।

भुजगारप्पदराणि य अवट्टिदाणिवि य जाणाहि ॥ ४५९ ॥

नव षट्ठं चतुष्कं च द्वितीयावरणस्य बन्धस्थानानि ।

भुजाकाराल्पतराणि च अवस्थितान्यपि च जानीहि ॥ ४५९ ॥

अर्थ—दूसरे दर्शनावरणके ९ प्रकृतिरूप, स्त्यानादि तीनके विना ६ प्रकृतिरूप, और निद्रा-प्रचलाके विना ४ प्रकृतिरूप—इसतरह ३ बंधस्थान हैं; तथा उनके भुजाकार अल्पतर और अवस्थित बंध—ये तीन बंध होते हैं । 'अपि' शब्दसे अवक्तव्यबंधभी होता है ॥ ४५९ ॥

इसी बातको प्रगट करते हैं;—

णव सासणोत्ति बंधो छच्चेव अपुव्वपढमभागोत्ति ।

चत्तारि होंति तत्तो सुहुमकसायस्स चरिमोत्ति ॥ ४६० ॥

नव सासन इति बन्धः षट्ठैव अपूर्वप्रथमभाग इति ।

चतस्रो भवन्ति ततः सूक्ष्मकषायस्य चरम इति ॥ ४६० ॥

अर्थ—दर्शनावरणको ९ प्रकृतिरूप-सासादनगुणस्थानपर्यंत बांधता है, इसके ऊपर अपूर्वकरण गुणस्थानके पहले भागतक दर्शनावरणकी ६ प्रकृतियोंकाही बंध होता है, इसके बाद सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानके अंतसमयतक उसीकी ४ प्रकृतियोंका बंध होता है ॥ ४६० ॥

खीणोत्ति चारि उदया पंचसु णिहासु दोसु णिहासु ।

एक्के उदयं पत्ते खीणदुचरिमोत्ति पंचुदया ॥ ४६१ ॥

क्षीण इति चतस्र उदयाः पञ्चसु निद्रासु द्वयोर्निद्रयोः ।

एकस्यामुदयं प्राप्तायां क्षीणद्विचरम इति पञ्चोदयाः ॥ ४६१ ॥

अर्थ—दर्शनावरणकी चक्षुर्दर्शनावरणादि चार प्रकृतियोंका उदयरूपस्थान जाग्रता-वस्थावाले जीवके क्षीणकषायगुणस्थानपर्यंत है, और निद्रावान जीवके प्रमत्तगुणस्थानपर्यंत पांच निद्राओंमेंसे एकका उदय होनेपर पांचप्रकृतिरूप स्थान तथा क्षीणकषायके अंतके

समीपके समयतक निद्रा और प्रचला—इन दो निद्राओंमेंसे एकका उदय होनेपर दर्शनावरणकी पांच प्रकृतिरूप उदयस्थान जानना ॥ ४६१ ॥

मिच्छादुवसंतोत्ति य अणियट्टीखवगपढमभागोत्ति ।

णवसत्ता खीणस्स दुचरिमोत्ति य छच्चद्वरिमे ॥ ४६२ ॥

मिथ्यात्वादुपशान्त इति च अनिवृत्तिक्षपकप्रथमभाग इति ।

नवसत्ता क्षीणस्य द्विचरम इति च पट्टतुरुपरिमे ॥ ४६२ ॥

अर्थ—मिथ्यात्वगुणस्थानसे उपशांतकपाय गुणस्थानतक और क्षपक श्रेणीमें अनिवृत्तिकरणके पहले भागतक दर्शनावरणकी ९ प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान है । इनके ऊपर क्षीणकपायगुणस्थानके अंतके पहले समयतक दर्शनावरणकी ६ प्रकृतिरूप तथा उसके बाद अंतके समयमें ४ प्रकृतिरूप स्थान है ॥ ४६२ ॥

आगे मोहनीयके बंधादिकी अपेक्षा स्थान कहते हैं;—

वावीसमेकवीसं सत्तारस तेरसेव णव पंच ।

चदुतियदुगं च एकं बंधट्टाणाणि मोहस्स ॥ ४६३ ॥

द्वाविंशतिरेकविंशतिः सप्तदश त्रयोदशैव नव पञ्च ।

चतुस्त्रिकद्विकं चैकं बन्धस्थानानि मोहस्य ॥ ४६३ ॥

अर्थ—मोहनीयकर्मके बंधस्थान २२, २१, १७, १३, ९, ५, ४, ३, २ और १ प्रकृतिरूप जानना चाहिये ॥ ४६३ ॥

अब उन्हीं स्थानोंको गुणस्थानोंकी अपेक्षा दिखाते हैं;—

वावीसमेकवीसं सत्तर सत्तार तेर तिसु णवयं ।

स्थूले पणचदुतियदुगमेकं मोहस्स टाणाणि ॥ ४६४ ॥

द्वाविंशतिरेकविंशतिः सप्तदश सप्तदश त्रयोदश त्रिसु नवकम् ।

स्थूले पञ्चचतुष्कत्रिकद्विकमेकं मोहस्य स्थानानि ॥ ४६४ ॥

अर्थ—उन मोहनीयके बंधस्थानोंमें मिथ्यादृष्टि आदि देशसंयतगुणस्थानतक क्रमसे २२, २१, १७, १७, १३ बंधस्थान हैं । प्रमत्तआदि तीन गुणस्थानोंमें प्रत्येकमें नौ नौ स्थान हैं । स्थूल अर्थात् नवमे गुणस्थानमें ५, ४, ३, २, १ प्रकृतिरूप ५ स्थान हैं ॥ ४६४ ॥

अब उन स्थानोंमें ध्रुव बंधी (जिनका निरंतर बंध हो) प्रकृतियोंको कहते हैं;—

उगुवीसं अट्टारस चोद्दस चोद्दस य दस य तिसु छकं ।

स्थूले चदुतिदुगेकं मोहस्स य होंति ध्रुवबंधा ॥ ४६५ ॥

एकोनविंशतिरेकविंशतिः सप्तदश सप्तदश त्रयोदश त्रिसु पट्टम् ।

स्थूले चतुस्त्रिकद्विकं मोहस्य च भवन्ति ध्रुवबंधाः ॥ ४६५ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदि अनिवृत्तिकरण नामक गुणस्थानके भागोंतक क्रमसे १९, १८, १४, १४, १०, प्रमत्तादि तीनमें ६-६-६, नवमें ४-३-२-१, इसप्रकार मोहनीयकी ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं ॥ ४६५ ॥

सगसंभवध्रुवबंधे वेदेके दोजुगाणमेके य ।

ठाणो वेदजुगाणं भंगहदे होंति तच्चंगा ॥ ४६६ ॥

स्वकसंभवध्रुवबन्धे वेदे एका द्वियुगयोरेका च ।

स्थानं वेदयुगानां भङ्गहते भवन्ति तद्भङ्गाः ॥ ४६६ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त ध्रुवप्रकृतियोंमेंसे यथासंभव तीन वेदोंमें एक वेद, हास्यका युगल और रतिका जोड़ा—इन दो जोड़ाओंमें एक एक मिलानेसे स्थान होते हैं । तथा वेदके प्रमाणको युगलके प्रमाणके साथ गुणाकार करनेसे स्थानोंके भंग होते हैं ॥ ४६६ ॥

आगे उन भंगोंकी संख्या कहते हैं;—

छब्बावीसे चटु इगिवीसे दो दो हवन्ति छटोत्ति ।

एकेकमदो भंगो बंधट्टाणेषु मोहस्स ॥ ४६७ ॥

पट् द्वाविंशतौ चत्वार एकविंशतौ द्वौ द्वौ भवन्ति पष्ठ इति ।

एकैकोतो भङ्गो बन्धस्थानेषु मोहस्य ॥ ४६७ ॥

अर्थ—मोहनीयके बन्धस्थानोंमेंसे २२ के ६ भंग, २१ प्रकृतिरूपके ४, और इसके ऊपर प्रमत्तगुणस्थानतक दो दो, इसके आगे सब स्थानोंमें एक एक—इसप्रकार स्थानोंके भङ्ग हैं ऐसा जानना ॥ ४६७ ॥

अब उन १० बंधस्थानोंके भुजाकार बंधादिकी संख्या दिखाते हैं;—

दस वीसं एकारस तेत्तीसं मोहबंधठाणाणि ।

भुजगारप्पदराणि य अवट्टिदाणिवि य सामण्णे ॥ ४६८ ॥

दशसु विंशतिरेकादश त्रयस्त्रिंशत् मोहबन्धस्थानानि ।

भुजाकाराल्पतराणि च अवस्थितान्यपि च सामान्ये ॥ ४६८ ॥

अर्थ—पहले कहे हुए मोहनीयके १० बंधस्थानोंमें सामान्यरीतिसे, भुजाकारबंध २० हैं, अल्पतर बंध ११ हैं और अवस्थित बंध ३३ हैं ॥ ४६८ ॥

आगे इन भुजाकारादिबंधोंका लक्षण कहते हैं;—

अल्पं बंधतो बहुबंधे बहुगादु अल्पबंधेवि ।

उभयत्थ समे बंधे भुजगारादी कमे होंति ॥ ४६९ ॥

अल्पं बध्नतो बहुबन्धे बहुकादल्पबन्धेपि ।

उभयत्र समे बन्धे भुजाकारादयः क्रमेण भवन्ति ॥ ४६९ ॥

अर्थ—पहले थोड़ी प्रकृतियोंका बंध किया हो पीछे बहुत प्रकृतियोंके बांधनेपर, पहले बहुतका बंध किया था पीछे थोड़ी प्रकृतियोंके बंध करने पर और पहले पीछे दोनों सम-योंमें समान (एकसा) बंध होनेपर क्रमसे भुजाकार, अल्पतर, और अवस्थित बंध होते हैं । तथा 'च' शब्दसे अवक्तव्यबंध भी होता है ॥ ४६९ ॥

आगे सामान्य अवक्तव्यभंगोंकी संख्या कहते हैं;—

सामण्णवक्तव्वो ओदरमाणम्मि एक्यं मरणे ।

एकं च होदि एत्थवि दो चेव अवट्टिदा भंगा ॥ ४७० ॥

सामान्यावक्तव्य अवतरमाने एको मरणे ।

एकश्च भवति अत्रापि द्वौ चैव अवस्थितौ भङ्गौ ॥ ४७० ॥

अर्थ—सामान्यपनेसे (भंगोंकी विवक्षाके विना) अवक्तव्यबंध उपशमश्रेणीसे उतरनेमें १ है और वहां पर मरण होनेसे एक होता है, इसतरह दो बंध हैं । और दूसरे समय आदिमें उसीप्रकार बंध होनेपर अवस्थित बंध भी यहां पर दो ही हैं ॥ ४७० ॥

अब विशेषपनेसे भुजाकारादिवंधोंकी संख्या कहते हैं—

सत्तावीसहियसयं पणदालं पंचहत्तरिहियसयं ।

भुजगारप्पदराणि य अवट्टिदाणिवि विससेण ॥ ४७१ ॥

सप्तविंशाधिकशतं पञ्चचत्वारिंशत् पञ्चसप्तत्यधिकशतम् ।

भुजाकाराल्पतराणि च अवस्थितान्यपि विशेषेण ॥ ४७१ ॥

अर्थ—विशेषपनेसे अर्थात् भंगोंकी अपेक्षा १२७ भुजाकार बंध हैं, अल्पतर बंध ४५ हैं, और अवक्तव्यबंध १७५ हैं ॥ ४७१ ॥

अब उन १२७ को दिखाते हैं;—

णभ चउवीसं वारस वीसं चउरट्टवीस दो दो य ।

थूले पणगादीणं तियतियमिच्छादिभुजगारा ॥ ४७२ ॥

नभश्चतुर्विंशं द्वादश विंशं चतुरष्टविंशं द्वौ द्वौ च ।

स्थूले पञ्चकादीनां त्रयस्त्रयो मिथ्यादिभुजाकाराः ॥ ४७२ ॥

अर्थ—भंगोंकी विवक्षासे मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें भुजाकार बंध क्रमसे शून्य, २४, १२, २०, २४, २८, २, २, अनिवृत्ति करणमें पांच आदिके तीन तीन—इसप्रकार १२७ होते हैं ॥ ४७२ ॥

अब ४५ अल्पतरबंधोंको कहते हैं;—

अप्पदरा पुण तीसं णभ णभ छट्टोण्णि दोण्णि णभ एकं ।

थूले पणगादीणं एक्केकं अंतिमे सुण्णं ॥ ४७३ ॥

अल्पतराः पुनः त्रिंशत् नभो नभः षट् द्वौ द्वौ नभ एकः ।

स्थूले पञ्चकादीनामेकैकः अन्तिमे शून्यम् ॥ ४७३ ॥

अर्थ—अल्पतर बंध मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें ३०, शून्य, शून्य, ६, २, २, शून्य, १ प्रकृतिरूप क्रमसे अपूर्वकरणतक होता है । स्थूल कषायवाले नवमे गुणस्थानमें पांच आदि प्रकृतिरूपका एक एक है, और अंतके पांचवें भागमें शून्य अर्थात् अल्पतर बंध नहीं होता ॥ ४७३ ॥ इसप्रकार १२७ भुजाकार, ४५ अल्पतर ३ अवक्तव्य बंध जिनको कि आगे कहेंगे—इसतरह सब मिलकर १७५ बंधोंमें जितनी २ प्रकृतियोंका पहले समयमें बंध हो उतनीही प्रकृतियोंका द्वितीयादि समयमें बंध हो वहांपर १७५ भेदरूप “अवस्थितबंध” जानना चाहिये ।

भेदेण अवत्तद्वा ओदरमाणम्मि एक्कयं मरणे ।

दो चैव होंति एत्थवि तिण्णेव अवट्टिदा भंगा ॥ ४७४ ॥

भेदेन अवक्तव्या अवतरति एकको मरणे ।

द्वौ चैव भवत अत्रापि त्रय एव अवस्थिता भङ्गाः ॥ ४७४ ॥

अर्थ—भंगकी विवक्षाके विशेषसे अवक्तव्यबंध, सूक्ष्मसांपरायसे उतरनेमें एक होता है अर्थात् १० वेंसे उतरके जब नवमेमें आता है तब संज्वलन लोभका बंध करता है । तथा उसी १० वेंमें मरणकर देव असंयत हुआ तब दो अवक्तव्य बंध होते हैं अर्थात् देव होकर १७ प्रकृतियोंको दोप्रकारसे बांधता है । इसतरह ३ अवक्तव्य बंध हुए । येही तीन अवस्थितभंगभी हैं, क्योंकि द्वितीयादि समयमें समान प्रकृतियोंका बंध होता है ॥४७४॥ इसप्रकार मोहनीयकर्मके सामान्य विशेष भुजाकारादि बंध कहे हैं ।

अव मोहनीयके उदयस्थान कहते हैं;—

दस णव अट्ट य सत्त य छप्पण चत्तारि दोण्णि एक्कं च ।

उदयट्टाणा मोहे णव चैव य होंति णियमेण ॥ ४७५ ॥

दश नवाष्ट च सप्त च षट् पञ्च चत्वारि द्वे एकं च ।

उदयस्थानानि मोहे नव चैव च भवन्ति नियमेन ॥ ४७५ ॥

अर्थ—मोहनीयके उदयस्थान १०, ९, ८, ७, ६, ५, ४, २, १ प्रकृतिरूप ९ हैं ऐसा नियमसे जानना ॥ ४७५ ॥

मिच्छं मिस्सं सगुणे वेदगसम्मैव होदि सम्मत्तं ।

एक्का कसायजादी वेददुजुगलाणमेक्कं च ॥ ४७६ ॥

मिथ्यं मिश्रं स्वगुणे वेदकसम्ये एव भवति सम्यक्त्वम् ।

एक्का कषायजातिः वेदद्वियुगलयोरेकं च ॥ ४७६ ॥

अर्थ—मोहनीयकी उदय प्रकृतियोंमेंसे मिथ्यात्व और मिश्रमोहनीयका उदय अपने २ पहले और तीसरे गुणस्थानमें है । तथा सम्यक्त्वमोहनीयका उदय वेदकसम्यक्त्वी-जीवके चौथेसे लेकर चार गुणस्थानतक है । इसप्रकार गुणस्थानोंमें उदयका नियम दिखाकर उदयके कूटोंको कहते हैं । अनंतानुबंधी आदि चार कषायोंमेंसे एक कषायजाति, तीन वेदोंमेंसे एक वेदका उदय, हास्य-शोकका युगल और रति-अरतिका जोड़ा इन दो युगलोंमेंसे एक २ प्रकृतिका उदय पाया जाता है ॥ ४७६ ॥

भयसहियं च जुगुच्छासहियं दोर्हिवि जुदं च ठाणाणि ।

मिच्छादिअपुवंते चत्तारि हवंति गियमेण ॥ ४७७ ॥

भयसहितं च जुगुप्सासहितं द्वाभ्यामपि युतं च स्थानानि ।

मिथ्याद्यपूर्वान्ते चत्वारि भवन्ति नियमेन ॥ ४७७ ॥

अर्थ—एककालमें एक जीवके भयसहित ही प्रकृतियोंका उदय होनेसे, अथवा केवल जुगुप्सासहित ही उदय होनेसे, अथवा भय-जुगुप्सा दोनोंसहितही उदय होनेसे अथवा 'च' शब्दसे दोनोंही करके रहित उदय होनेसे कूटके आकार चार २ स्थान मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वकरण गुणस्थानपर्यंत निश्चयकर होते हैं, इसकारण यहांपर चार २ कूट कहेगये हैं ॥ ४७७ ॥ इनकी रचना बड़ी टीकामें विस्तारसे कही है ।

आगे मिथ्यादृष्टिमें वा असंयतादि चार गुणस्थानोंमें विशेष बात कहते हैं;—

अणसंजोजिदसम्मे मिच्छं पत्ते ण आवलित्ति अणं ।

उवसमखइये सम्मं ण हि तत्थवि चारि ठाणाणि ॥ ४७८ ॥

अनसंयोजितसाम्ये मिथ्यं प्राप्ते न आवलीत्ति अनम् ।

उपशमक्षायिके सम्यं न हि तत्रापि चत्वारि स्थानानि ॥ ४७८ ॥

अर्थ—अनंतानुबंधीकषायके विसंयोजन (अन्यप्रकृतिरूप) करनेवाले क्षायोपशम-सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्वकर्मोदयसे मिथ्यात्वगुणस्थानमें प्राप्त होनेपर आवलिमात्रकालतक अनंतानुबंधीकषायका उदय नहीं होता, क्योंकि विसंयोजन करनेके पीछे आवलिकाल-तक अपकर्षणद्वारा उदयावलीमें लानेकी सामर्थ्य नहीं है । इस अपेक्षा मिथ्यादृष्टि गुण-स्थानमें अनंतानुबंधीरहित चार कूट औरभी जानने । तथा उपशमसम्यक्त्वमें और क्षायिक-सम्यक्त्वमें सम्यक्त्वमोहनीयका उदय नहीं है वहांपरभी उपशम और क्षायिककी अपेक्षा असंयतादि चार गुणस्थानोंमें चार चार कूट दूसरे होते हैं ॥ ४७८ ॥

पुव्विह्लेसुवि मिलिदे अड चउ चत्तारि चदुसु अट्टेव ।

चत्तारि दोण्णि एक्कं ठाणा मिच्छादिसुहुमंते ॥ ४७९ ॥

पूर्वेष्वपि मिलितेषु अष्ट चत्वारि चत्वारि चतुर्षु अष्टेव ।

चत्वारि द्वे एक्कं स्थानानि मिथ्यादिसुह्मान्ते ॥ ४७९ ॥

अर्थ—इन कूटोंमें पहले कहे हुए कूट मिलानेसे मिथ्यादृष्टिको आदि लेकर सूक्ष्म-सांपरायणगुणस्थानपर्यंत क्रमसे ८, ४, ४, असंयतादि चारमें आठ आठ, ४, २, १ कूट जानना चाहिये ॥ ४७९ ॥

आगे इनमें अपुनरुक्तस्थानोंको गुणस्थानोंमें कहते हैं;—

दसणवणवादि चउतियतिट्टाण णवट्टसगसगादि चऊ ।

ठाणा छादि तियं च य चडुवीसगदा अपुवोत्ति ॥ ४८० ॥

दशनवनवादि चतुख्खिकत्रिस्थानं नवाष्टसप्तसप्तादि चतुष्कम् ।

स्थानानि षडादि त्रिकं च च चतुर्विंशगता अपूर्व इति ॥ ४८० ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानोंमें क्रमसे दशआदिके चार उदय स्थान, नवके आदिके तीन उदयस्थान, नवके आदिके तीन उदयस्थान हैं । असंयतादि चार गुणस्थानोंमें नव आदिके चार, आठआदिके चार, सातके आदिके चार, सातके आदिके चार उदयस्थान हैं । तथा अपूर्वकरण गुणस्थानमें छह आदिके तीन स्थान हैं । वे ६, ५, ४ प्रकृतिरूप हैं । इसप्रकार अपूर्वकरणपर्यंत सब स्थान प्रत्येक चौबीस चौबीस भङ्गों- (भेदों) कर सहित हैं ॥ ४८० ॥ यहांपर किसी २ स्थानकी संख्या एकसी होनेसेभी प्रकृतियोंके बदलनेसे अपुनरुक्तपना है ।

एक य छकेयारं एयारेयारसेव णव तिणिण ।

एदे चउवीसगदा चडुवीसेयार दुगठाणे ॥ ४८१ ॥

एकं च षट्ठमेकादश एकादशैकादशैव नव त्रीणि ।

एतानि चतुर्विंशतिगतानि चतुर्विंशैकादश द्विकस्थाने ॥ ४८१ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें मिलकर दस प्रकृतिरूप १ स्थान है, नव प्रकृतिरूप ६ स्थान हैं, ८ प्रकृतिरूप ७ प्रकृतिरूप तथा ६ प्रकृतिरूप ११ ग्यारह स्थान हैं; पांच प्रकृतिरूप ९ स्थान हैं, चार प्रकृतिरूप ३ स्थान हैं । ये सब स्थान चौबीस चौबीस भङ्गोंकर सहित हैं, तथा दो प्रकृतिरूप १ स्थानके २४ भंग और एक प्रकृतिरूप एक स्थानके १९ भंग हैं ॥ ४८१ ॥

आगे इन दो एक प्रकृतिरूप दो स्थानोंके भंगोंका विधान कहते हैं;—

उदयट्टाणं दोण्हं पणवंधे होदि दोण्हमेकस्स ।

चडुविहवंधट्टाणे सेसेसेयं हवे ठाणं ॥ ४८२ ॥

उदयस्थानं द्वयोः पञ्चवन्धे भवति द्वयोरेकस्य ।

चतुर्विधवन्धस्थाने शेषेष्वेकं भवेत् स्थानम् ॥ ४८२ ॥

अर्थ—अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें पांच प्रकृतिके वंधस्वरूप तथा चार प्रकृतिके वंधस्वरूप-इसप्रकार दो भागोंमें तीन वेद और चार संज्वलनकपाय-इनमेंसे एकका उदय

होनेपर दो प्रकृतिरूप एकस्थान पाया जाता है अर्थात् वहांपर चार चार कषाय एकएक वेदमें होनेसे एक भागके १२ भंग दोनोंके २४ भंग होते हैं । तथा 'कनकनन्दि' आचार्यकी पक्षमें जिस जगह ४ प्रकृतियोंका बंध पायाजाता है उसके अंतसमयमें वेदोंके उदयका अभाव होनेसे शेष कषायादिकोंके ४, ३, २, १, १, भंग होते हैं इसप्रकार एक-प्रकृतिरूप बंधस्थानमें ११ ही भंग सिद्ध हुए ॥ ४८२ ॥

अब इसी अर्थके प्रगट करनेकेलिये चार गाथासूत्र कहते हैं;—

अणियट्टिकरणपठमा संढिस्थीणं च सरिस उदयद्धा ।

तत्तो मुहुत्तअंते कमसो पुरिसादिउदयद्धा ॥ ४८३ ॥

अनिवृत्तिकरणप्रथमात् पण्डस्त्रियोः च सदृश उदयाद्धा ।

ततो मुहूर्तान्तः क्रमशः पुरुषाद्युदयाद्धा ॥ ४८३ ॥

अर्थ—अनिवृत्तिकरणगुणस्थानके प्रथमभागके पहले समयसे लेकर नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका काल समान है परंतु थोड़ा है । इससे अधिक अधिक अंतर्मुहूर्त क्रमसे पुरुषवेद संज्वलनक्रोधादिका काल जानना ॥ ४८३ ॥

पुरिसोदएण चडिदे बंधुदयाणं च जुगवदुच्छित्ती ।

सेसोदयेण चडिदे उदयदुचरिममिह पुरिसबंधच्छिदी ॥४८४॥

पुरुषोदयेन चटिते वन्धोदययोश्च युगपदुच्छित्तिः ।

शेषोदयेन चटिते उदयद्विचरमे पुरुषबन्धच्छित्तिः ॥ ४८४ ॥

अर्थ—पुरुषवेदके उदय होनेसे श्रेणी चढनेपर पुरुषवेदकी बंधव्युच्छित्ति और उदय-व्युच्छित्ति एक कालमें होती है । अथवा 'च' शब्दसे बंधकी व्युच्छित्ति उदयके द्विचर-मसमयमें होती है । और शेष स्त्रीवेद तथा नपुंसकवेदके उदयसहित श्रेणी चढनेवाले जीवके पुरुषवेदकी बंधव्युच्छित्ति उदयके द्विचरमसमयमें अर्थात् अंतसमयके समीपके समयमें होती है ॥ ४८४ ॥

पणबंधगम्मि वारस भंगा दो चेव उदयपयडीओ ।

दोउदये चदुबंधे वारेव हवंति भंगा हु ॥ ४८५ ॥

पञ्चबन्धके द्वादश भङ्गा द्वे चैव उदयप्रकृती ।

द्व्युदये चतुर्वन्धे द्वादशैव भवन्ति भङ्गा हि ॥ ४८५ ॥

अर्थ—जहांपर पांच प्रकृतियोंका बंध है ऐसे अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमें कषाय और वेद इन दो प्रकृतियोंका ही उदय है, इसकारण चार कषाय और ३ वेदको गुणाकार करनेसे १२ भंग होते हैं । इसीप्रकार चार प्रकृतियोंके बंध होनेपरभी दोके उदयरूप स्थानमें १२ ही भंग होते हैं ॥ ४८५ ॥

कोहस्स य माणस्स य मायालोहाणियट्ठिभागम्हि ।

चदुत्तिदुगेकंभंगा सुहुमे एक्को हवे भंगो ॥ ४८६ ॥

क्रोधस्य च मानस्य च मायालोभानिवृत्तिभागे ।

चतुस्त्रिद्विकैकभङ्गाः सूक्ष्मे एको भवेत् भङ्गः ॥ ४८६ ॥

अर्थ—क्रोध मान माया और लोभके उदयरूप अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके चार भागोंमें ४, ३, २, १ बंध हैं उनमें क्रमसे कषाय बदलनेकी अपेक्षाही ४, ३, २, १ भंग हैं । और सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानमें सूक्ष्म लोभके उदयरूपस्थानमें १ ही भंग है । इसप्रकार ११ भंग होते हैं ॥ ४८६ ॥

आगे सब उदयस्थानोंकी तथा उनकी प्रकृतियोंकी संख्या कहते हैं;—

वारससयतेसीदीठाणवियप्पेहिं मोहिदा जीवा ।

पणसीदिसदसगेहिं पयडिवियप्पेहिं ओघम्मि ॥ ४८७ ॥

द्वादशशतत्र्यशीतिस्थानविकल्पैर्मोहिता जीवाः ।

पञ्चाशीतिशतसप्तभिः प्रकृतिविकल्पैरोघे ॥ ४८७ ॥

अर्थ—गुणस्थानोंमें मोहनीयकर्मके सब १२८३ उदयस्थानोंमें तथा ८५०७ प्रकृति-भेदोंमें जगतके चराचर जीव मोहित हो रहे हैं ॥ ४८७ ॥

अब अपुनरुक्तस्थानोंकी तथा उनकी प्रकृतियोंकी संख्या कहते हैं;—

एक य ल्ळेयारं दससगचदुरेक्कयं अपुणरुत्ता ।

एदे चदुवीसगदा वार दुगे पंच एक्कम्मि ॥ ४८८ ॥

एकं च पट्ठैकादश दशसप्तचतुरेकमपुनरुक्तानि ।

एतानि चतुर्विंशगतानि द्वादश द्विके पञ्च एकस्मिन् ॥ ४८८ ॥

अर्थ—दशप्रकृतिरूप १ स्थान, नवादि प्रकृतिरूप क्रमसे ६, ११, १०, ७, ४, १ स्थान अपुनरुक्त हैं । इन ४० स्थानोंके २४ चौबीस भंग (भेद) हैं । दोप्रकृतिरूप स्थानके १२ भंग और एक प्रकृतिरूप स्थानके ५ भंग हैं ॥ ४८८ ॥

णवसयसत्तत्तरिहिं ठाणवियप्पेहिं मोहिदा जीवा ।

इगिदालूणत्तरिसयपयडिवियप्पेहिं णायव्वा ॥ ४८९ ॥

नवशतसप्तसप्ततिभिः स्थानविकल्पैः मोहिता जीवाः ।

एकचत्वारिंशदेकोनसप्ततिशतप्रकृतिविकल्पैः ज्ञातव्याः ॥ ४८९ ॥

अर्थ—इसप्रकार ९७७ स्थानोंके भेदसे तथा ६९४१ प्रकृतियोंके भेदसे तीनलोकके चराचर जीव मोहित हो रहे हैं । इसीकारण संसारमें भटकते हैं ऐसा जानना ॥ ४८९ ॥

आगे मोहनीयकर्मके उदयस्थान तथा उनकी प्रकृतियोंको गुणस्थानोंमें उपयोगादिकी अपेक्षासे कहते हैं;—

उदयद्वयं पयडिं सगसगउवजोगजोगआदीहिं ।
गुणयित्ता मेलविदे पदसंख्या पयडिसंख्या च ॥ ४९० ॥

उदयस्थानं प्रकृतिं स्वकस्वकोपयोगयोगादिभिः ।

गुणयित्वा मेलयित्ते पदसंख्या प्रकृतिसंख्या च ॥ ४९० ॥

अर्थ—४७९ वें गाथासे कहीहुई उदयस्थानोंकी संख्या और उनस्थानोंकी प्रकृतियोंकी संख्याको अपने २ गुणस्थानोंसे संभवते उपयोग—योग और आदि शब्दसे संयम लेइया सम्यक्त्व इनमें गुणाकार करके फिर सबको जोड़नेसे जो प्रमाण होवै उतनी ही वहांपर मोहकी स्थानसंख्या और प्रकृतियोंकी संख्या जानना चाहिये ॥ ४९० ॥

यही दिखाते हैं;—

मिच्छदुगे मिरसतिये पमत्तसत्ते जिणे य सिद्धे य ।

पण छस्सत्त दुगं च य उवजोगा होंति दो चेव ॥ ४९१ ॥

मिथ्यद्विके मिश्रत्रये प्रमत्तसप्तके जिने च सिद्धे च ।

पञ्च षट् सप्त द्विकं च च उपयोगा भवन्ति द्वौ चैव ॥ ४९१ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदिक दो गुणस्थानोंमें, मिश्रआदिक ३ में, प्रमत्तादि ७ में, सयोगी अयोगीमें, और सिद्ध जीवोंमें उपयोग क्रमसे ५, ६, ७, २ और दो होते हैं ॥ ४९१ ॥ इन उपयोगोंसे स्थानसंख्याको तथा प्रकृतिसंख्याको गुणाकार करना चाहिये ॥

ऐसा होनेपर उन भेदोंकी सब संख्या कहते हैं;—

णवणउदिसगसयाहियसत्तसहस्सप्पमाणमुदयस्स ।

ठाणवियप्पे जाणसु उवजोगे मोहणीयस्स ॥ ४९२ ॥

नवनवतिसप्तशताधिकसप्तसहस्रप्रमाणमुदयस्य ।

स्थानविकल्पा जानीहि उपयोगे मोहनीयस्य ॥ ४९२ ॥

अर्थ—इसप्रकार गुणाकार करनेसे उपयोगकी अपेक्षासे मोहनीयके उदय स्थानोंके भेद ७७९९ जानना चाहिये ॥ ४९२ ॥

अब उपयोगकी ही अपेक्षासे प्रकृतिसंख्या कहते हैं;—

एकावण्णसहस्सं तेसीदिसमणियं वियाणाहि ।

पयडीणं परिमाणं उवजोगे मोहणीयस्स ॥ ४९३ ॥

एकपञ्चाशत्सहस्रं त्र्यशीतिसमन्वितं विजानीहि ।

प्रकृतीनां परिमाणं उपयोगे मोहनीयस्य ॥ ४९३ ॥

अर्थ—उपयोगके आश्रयने मोहनीयकी प्रकृतियोंका प्रमाण ५,१०८३ जानना चाहिये ॥ ४९३ ॥

आगे योगके आश्रय (अपेक्षा) ने संख्या कहते हैं;—

तिसु तेरं दस मिस्से णव सत्तसु छट्टयम्मि एक्कारा ।

जोगिम्मि सत्त जोगा अजोगिठाणं हवे सुण्णं ॥ ४९४ ॥

त्रिषु त्रयोदश दश मिश्रे नव सप्तसु षष्ठे एकादश ।

योगिनि सप्त योगा अयोगिस्थानं भवेत् शून्यम् ॥ ४९४ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि—सासादन—असंयत इन तीन गुणस्थानोंमें १३ योग हैं, मिश्रगुण-स्थानमें १०, देशसंयत—अप्रमत्तादि सात गुणस्थानोंमें ९ हैं, छठे प्रमत्तगुणस्थानमें ११ योग हैं, सयोगकेवलीके ७ योग हैं और अयोगी गुणस्थानमें शून्य है अर्थात् कोई योग नहीं है ॥ ४९४ ॥

अब मिश्रयोगसहित तथा केवल पर्याप्तयोगयुक्त गुणस्थानोंमें विशेषपना दिखाते हैं;—

मिच्छे सासण अयदे प्रमत्तविरदे अपुण्णजोगगदं ।

पुण्णगदं च य सेसे पुण्णगदे मेलिदं होदि ॥ ४९५ ॥

मिथ्ये सासने अयते प्रमत्तविरते अपूर्णयोगगतम् ।

पूर्णगतं च च शेषे पूर्णगते मिलितं भवति ॥ ४९५ ॥

अर्थ—मिथ्यात्व—सासादन=असंयत और प्रमत्तविरत इन चारगुणस्थानोंमें अपर्याप्तयो-गको प्राप्त तथा पर्याप्तयोगको प्राप्त इन दोनोंको मिलाकर स्थानप्रमाण और प्रकृतियोंका प्रमाण होता है । तथा शेष गुणस्थानोंमें केवल पर्याप्तयोगहीको प्राप्त स्थानप्रमाण और प्रकृतिप्रमाण होता है ॥ ४९५ ॥

आगे जुदे स्थापन किये योगोंमें विशेषता दो गाथाओंसे कहते हैं;—

सासणअयदपमत्ते वेगुव्वियमिस्स तं च कम्मयियं ।

ओरालमिस्स हारे अडसोलडवग्ग अट्टवीससयं ॥ ४९६ ॥

सासनायतप्रमत्ते वैगूर्विकमिश्रं तच्च कर्मणम् ।

औरालमिश्रमाहारे अष्टषोडशाष्टवर्ग अष्टविंशशतम् ॥ ४९६ ॥

अर्थ—सासादनगुणस्थानके वैक्रियिकमिश्रयोगमें आठका वर्ग अर्थात् ६४ स्थान हैं । असंयतगुणस्थानके वैक्रियिकमिश्रयोग और कार्माणयोगमें सोलहके वर्गप्रमाण अर्थात् २५६ स्थान हैं, तथा इसके औदारिकमिश्रयोगमें ६४ स्थान हैं । और प्रमत्तगुणस्थानके आहारक—आहारकमिश्रयोगमें १२८ स्थान हैं ॥ ४९६ ॥

आगे कम कियेहुए वेदोंको ग्रंथकर्ता आपही निषेध करते हैं;—

णत्थि णउंसयवेदो इत्थीवेदो णउंसइत्थिदुगे ।

पुव्वुत्तपुण्णजोगगचदुसुट्टाणेसु जाणेज्जो ॥ ४९७ ॥

नास्ति नपुंसकवेदः स्त्रीवेदो नपुंसकस्त्रीद्विकम् ।

पूर्वोक्तापूर्णयोगचतुर्षु स्थानेषु ज्ञातव्यम् ॥ ४९७ ॥

अर्थ—पहले कहे हुए अपर्याप्तयोगको प्राप्त चारस्थानोंमें क्रमसे नपुंसकवेद नहीं, स्त्रीवेद नहीं, और दोमें नपुंसकवेद तथा स्त्रीवेद ये दोनों नहीं हैं ऐसा जानना चाहिये ॥ ४९७ ॥

अब योगकी अपेक्षा सब स्थानोंका जोड़ कहते हैं—

तेवण्णवसयाहियवारसहस्सप्पमाणमुदयस्स ।

ठाणवियप्पे जाणसु जोगं पडि मोहणीयस्स ॥ ४९८ ॥

त्रिपञ्चाशन्नवशताधिकद्वादशसहस्रप्रमाणमुदयस्य ।

स्थानविकल्पान् जानीहि योगं प्रति मोहनीयस्य ॥ ४९८ ॥

अर्थ—इसप्रकार मोहनीयकर्मके उदयस्थानोंके भेद योगकी अपेक्षासे १२९५३ जानना चाहिये ॥ ४९८ ॥

आगे प्रकृतियोंके भेदोंकी संख्या कहते हैं:—

विदिये विगिपणगयदे खदुणवएकं खअट्टचउरो य ।

छट्टे चउसुण्णसगं पयडिवियप्पा अपुण्णम्हि ॥ ४९९ ॥

द्वितीये द्व्येकपञ्चकमयते खद्विनवैकं खाष्टचत्वारश्च

षष्ठे चतुःशून्यसप्त प्रकृतिविकल्पा अपूर्णे ॥ ४९९ ॥

अर्थ—सासादनगुणस्थानके वैक्रियिकमिश्रयोगमें दो एक पांच अर्थात् ५१२, असंतके वैक्रियिकमिश्र और कार्माणमें शून्य दो नव एक अर्थात् १९२०, 'च' शब्दसे असंतके औदारिकमिश्रयोगमें शून्य आठ चार अर्थात् ४८० और छठे प्रमत्तगुणस्थानके आहारक युगलमें चार शून्य सात अंकरूप १०४ प्रकृतियोंके भेद अपर्याप्त अवस्थामें होते हैं ॥ ४९९ ॥ इनको जोड़कर पहले भेदोंमें मिलाना ॥

अब सब भेदोंकी मिलकर जो संख्या हुई उसे कहते हैं:—

पणदालछस्सयाहियअट्टासीदीसहस्समुदयस्स ।

पयडीणं परिसंखा जोगं पडि मोहणीयस्स ॥ ५०० ॥

पञ्चचत्वारिंशत्पट्शताधिकाष्टाशीतिसहस्रमुदयस्य ।

प्रकृतीनां परिसंख्या योगं प्रति मोहनीयस्य ॥ ५०० ॥

अर्थ—इसतरह सब भेदोंको मिलानसे मोहनीयकर्मकी प्रकृतियोंकी संख्या योगकी अपेक्षा ८८६४५ है ऐसा जानना ॥ ५०० ॥

आगे संयमके आश्रयसे स्थानादि कहते हैं:—

तेरससयाणि सत्तरिसत्तेव य मेलिदे हवंतित्ति ।

ठाणवियप्पे जाणसु संजमलंवेण मोहस्स ॥ ५०१ ॥

त्रयोदशशतानि सप्ततिसप्तैव च मिलिते भवन्तीति ।

स्थानविकल्पा जानीहि संयमालम्बेन मोहस्य ॥ ५०१ ॥

अर्थ—संयमकी अपेक्षासे मोहनीयके स्थानभेद १३७७ होते हैं ऐसा जानना चाहिये ॥ ५०१ ॥

अब उदयप्रकृतिभेदोंको कहते हैं;—

तेवण्णतिसदसहियं सत्तसहस्सप्पमाणमुदयस्स ।

पयडिवियप्पे जाणसु संजमलंबेण मोहस्स ॥ ५०२ ॥

त्रिपञ्चाशत्त्रिंशत्सहितं सप्तसहस्रप्रमाणमुदयस्य ।

प्रकृतिविकल्पान् जानीहि संयमालम्बेन मोहस्य ॥ ५०२ ॥

अर्थ—संयमहीकी अपेक्षासे मोहनीयके प्रकृति भेद ७३५३ मात्र होते हैं ऐसा जानना चाहिये ॥ ५०२ ॥

आगे गुणस्थानोंमें संभवती लेश्याओंको कहते हैं;—

मिच्छचउक्के छकं देसतिये तिण्णि होंति सुहलेस्सा ।

जोगित्ति सुक्कलेस्सा अजोगिठाणं अलेस्सं तु ॥ ५०३ ॥

मिथ्यचतुष्के षट् देशत्रये तिस्रो भवन्ति शुभलेश्याः ।

योगी इति शुक्कलेश्या अयोगिस्थानमलेश्यं तु ॥ ५०३ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदिक चार गुणस्थानोंमें ६ लेश्या हैं, देशसंयतादि तीन गुणस्थानोंमें ३ शुभलेश्या हैं, उसके बाद सयोगकेवलीपर्यंत शुक्कलेश्या है और अयोगकेवली गुणस्थान लेश्यारहित है ॥ ५०३ ॥

अब कही हुई इन लेश्याओंके आश्रयसे मोहके स्थान और प्रकृतियोंकी संख्याको दो गाथासूत्रोंसे कहते हैं;—

पंचसहस्सा वेसयसत्ताणउदी हवंति उदयस्स ।

ठाणवियप्पे जाणसु लेस्सं पडि मोहणीयस्स ॥ ५०४ ॥

पञ्चसहस्राणि द्विशत्सप्तनवतिः भवन्ति उदयस्य ।

स्थानविकल्पा जानीहि लेश्यां प्रति मोहनीयस्य ॥ ५०४ ॥

अर्थ—लेश्याके संबंधसे मोहनीयके स्थानोंके भेद ५२९७ होते हैं ऐसा है शिष्य तू समझ ॥ ५०४ ॥

अट्टत्तीससहस्सा वेणिसया होंति सत्ततीसा य ।

पयडीणं परिमाणं लेस्सं पडि मोहणीयस्स ॥ ५०५ ॥

अष्टत्रिंशत्सहस्राणि द्विशतानि भवन्ति सप्तत्रिंशच्च ।

प्रकृतीनां परिमाणं लेश्यां प्रति मोहनीयस्य ॥ ५०५ ॥

अर्थ—लेश्याहीकी अपेक्षा मोहनीयकी प्रकृतियोंका परिमाण ३८२३७ होता है ऐसा जानना चाहिये ॥ ५०५ ॥

आगे सम्यक्त्वके आश्रयसे स्थानादिककी संख्या कहते हैं:—

अट्टत्तरीहिं सहिया तेरसयसया हवंति उदयस्स ।

ठाणवियप्पे जाणसु सम्मत्तगुणेण मोहस्स ॥ ५०६ ॥

अष्टसप्रतिभिः सहितानि त्रयोदशकशतानि भवन्ति उदयस्य ।

स्थानविकल्पा जानीहि सम्यक्त्वगुणेन मोहस्य ॥ ५०६ ॥

अर्थ—सम्यक्त्वगुणकर सहित मोहनीयकं उदयस्थानोंके भेद १३७८ होते हैं ऐसा तुम जानो ॥ ५०६ ॥

अट्टेव सहस्साइं छवीसा तह य हांति णाद्व्वा ।

पयडीणं परिमाणं सम्मत्तगुणेण मोहस्स ॥ ५०७ ॥

अष्टैव सहस्राणि पट्त्रिंशतिस्तथा च भवन्ति ज्ञातव्याः ।

प्रकृतीनां परिमाणं सम्यक्त्वगुणेन मोहस्य ॥ ५०७ ॥

अर्थ—तथा सम्यक्त्वगुणसहित मोहनीयकी प्रकृतियोंका प्रमाण ८०२६ जानने योग्य है ॥ ५०७ ॥

आगे मोहनीयके सत्त्वप्रकरणको ११ गाथासूत्रोंसे कहते हैं:—

अट्ट य सत्त य छक्क य चतुत्तिदुगेगाधिगाणि वीसाणि ।

तेरस वारेयारं पणादि एगूणयं सत्तं ॥ ५०८ ॥

अष्ट च सप्त च पङ्कं च चतुस्त्रिद्विकैकमधिकानि विंशतिः ।

त्रयोदशद्वादशैकादश पञ्चादि एकोनकं सत्त्वम् ॥ ५०८ ॥

अर्थ—मोहनीयकर्मके सत्त्वस्थान आठ आदि अधिक बीस अर्थात् २८, २७, २६, २४, २३, २२, २१, तथा १३, १२, ११, ५, और एक एक कम अर्थात् ४, ३, २, १ संख्या रूप १५ हैं ॥ ५०८ ॥

आगे इन १५ स्थानोंका गुणस्थानोंमें संभव होनेका प्रकार दिखाते हैं:—

तिण्णेगे एगेगं दो मिस्से चदुसु पण णियट्ठीए ।

तिण्णिण य थूलेकारं मुहुमे चत्तारि तिण्णिण उवसंते ॥ ५०९ ॥

त्रीण्येकस्मिन्नेकस्मिन्नेकं द्वे त्रिभे चतुर्षु पथ्य निवृत्तौ ।

त्रीणि च म्थूले एकादश सुद्धमे चत्वारि त्रीण्युपशान्ते ॥ ५०९ ॥

अर्थ—पहले मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें १५ मेंसे तीन स्थान हैं, साक्षादनमें १, मिश्रगुणस्थानमें दो, असंयतादिचारगुणस्थानोंमें पांच पांच, निवृत्ति अर्थात् अपूर्वकरण गुणस्थानमें ३, म्थूलकणय अर्थात् नवधे गुणस्थानमें ११, सुद्धमनांपगयमें ४, उपशान्तकपायनाना ११ वें गुणस्थानमें ३ सत्त्वस्थान हैं ॥ ५०९ ॥

अब उन्हींको कहते हैं;—

पढमतिर्यं च य पढमं पढमं चउवीसयं च मिस्समिह ।

पढमं चउवीसचऊ अविरददेशे पमत्तिदरे ॥ ५१० ॥

प्रथमत्रयं च च प्रथमं प्रथमं चतुर्विंशकं च मिश्रे ।

प्रथमं चतुर्विंशचतुष्कं अविरतदेशे प्रमत्तेतरे ॥ ५१० ॥

अर्थ—उन १५ स्थानोंमेंसे आदिके तीन स्थान मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें हैं, सासादनमें पहला २८ प्रकृतिरूप ही सत्त्वस्थान है, मिश्रगुणस्थानमें पहला और २४ प्रकृतिरूप ये दो स्थान हैं, अविरत—देशविरत और प्रमत्त—अप्रमत्त इन चारगुणस्थानोंमें पहला तथा २४ प्रकृतिरूपआदि चार स्थान इस तरह पांच पांच सत्त्वस्थान हैं ॥ ५१० ॥

अडचउरेक्कावीसं उवसमसेठिमिह खवगसेठिमिह ।

एक्कावीसं सत्ता अष्टकसायाणियट्टित्ति ॥ ५११ ॥

अष्टचतुरेकविंशतिः उपशमश्रेण्यां क्षपकश्रेण्याम् ।

एकविंशतिः सत्ता अष्टकषायानिवृत्तिरिति ॥ ५११ ॥

अर्थ—उपशमश्रेणीमें अपूर्वकरणादि चारगुणस्थानोंमें २८, २४, २१ प्रकृतिरूप तीन तीन स्थान हैं, तथा क्षपकश्रेणीमें आठवें और अष्टकषायवाले अनिवृत्तिकरणके भागमें २१ प्रकृतिरूप एक एक स्थान है ॥ ५११ ॥

तेरस वारेयारं तेरस वारं च तेरसं कमसो ।

पुरिसित्थिसंठवेदोदयेण गदपणगबंधमिह ॥ ५१२ ॥

त्रयोदश द्वादशैकादश त्रयोदश द्वादश च त्रयोदश क्रमशः ।

पुरुषस्त्रीषण्ठवेदोदयेन गतपञ्चकवन्धे ॥ ५१२ ॥

अर्थ—उसके बाद पुरुषवेद १ चार संज्वलनकषाय इसप्रकार ५ प्रकृतियोंके बंधवाले अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके भागमें जो पुरुषवेदके उदयसहित श्रेणी चढ़ै उसके १३, १२, ११ प्रकृतिरूप तीन स्थान होते हैं। स्त्रीवेदके उदयसहित श्रेणी चढ़नेवालेके १३ प्रकृतिरूप स्थान है और नपुंसकवेदके क्षय होनेपर १२ प्रकृतिरूप स्थान है। तथा जो जीव नपुंसकवेदके उदयसे श्रेणी चढ़ै उसके १३ प्रकृतिरूप स्थान है, क्योंकि उसके नपुंसकवेद और स्त्रीवेद इन दोनोंके क्षयहोनेका प्रारंभ एककाल ही होता है ॥ ५१२ ॥

पुरिसोदयेण चडिदे अंतिमखंडंतिमोत्ति पुरिसुदओ ।

तप्पणिधिम्मिदराणं अवगदवेदोदयं होदि ॥ ५१३ ॥

पुरुषोदयेन चटिते अन्तिमखण्डान्तिम इति पुरुषोदयः ।

नत्प्रणिधौ इतरयोरपगतवेदोदयो भवति ॥ ५१३ ॥

अर्थ—पुरुषवेदके उदयसहित क्षपकश्रेणी चढ़नेवालेके अंतके खंडके अंतसमयपर्यंत अर्थात् पुरुषवेदके उदयकी स्थितीके पहले समयमें नपुंसकवेद क्षपणाखंड—स्त्रीवेद क्षपण-

खंड—पुरुषवेदक्षपणाखंडोंमें अंतके खंड (भाग) के अंतसमयतक हमेशा पुरुषवेदका उदय और बंध पायाजाता है । तथा उसी पुरुषवेदक्षपणाके अंत खंडके समीप अन्यवेद अर्थात् नपुंसक—स्त्रीवेद इन दोनोंके उदयका अभाव होता है ॥ ५१३ ॥

ऐसा होनेपर जो सिद्धान्त हुआ उसे कहते हैं;—

तट्टाणे एकारस सत्ता तिण्होदयेण चडिदाणं ।

सत्तण्हं समग छिदी पुरिसे छण्हं च णवगमत्थित्ति ॥५१४॥

तत्स्थाने एकादश सत्ताः त्रिकोदयेन चटितानाम् ।

सप्तानां समकं छितिः पुरुषे षण्णां च नवकमस्तीति ॥ ५१४ ॥

अर्थ—उन पूर्वोक्त दोनों स्थानोंमें सात नोकपाय और ४ संज्वलन इसतरह ११ प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान हैं, तीनवेदोंमेंसे किसी वेदके उदयसहित श्रेणीचढनेवालेके ७ नोकपायकी व्युच्छित्ति एककालमें ही होती है, परंतु विशेष यह है कि पुरुषवेदके उदय सहित श्रेणी चढनेवालेके पुरुषवेदके नूतनसमयप्रवद्ध पाये जाते हैं इसलिये उसके ६ नोकपायकी सत्त्वव्युच्छित्ति है ॥ ५१४ ॥

अब पूर्वोक्त अर्थको ही कहके अनिवृत्तिकरणमें सत्त्वस्थानोंकी विशेषता कहते हैं;—

इदि चदुबंधक्खवगे तेरस वारस एगार चउसत्ता ।

तिदुइगिवंधे तिदुइगि णवगुच्छिट्टाणमविवक्खा ॥ ५१५ ॥

इति चतुर्वन्धक्षपके त्रयोदश द्वादशैकादश चतुःसत्ता ।

त्रिद्विकैकबन्धे त्रिद्विकैकं नवकोच्छिट्टयोरविवक्षा ॥ ५१५ ॥

अर्थ—इस पूर्वोक्त प्रकार क्षपकश्रेणी चढनेवालेके चार प्रकृतियोंके बंधवाले अनिवृत्तिकरणके भागमें १३, १२, ११, और ४ प्रकृतिरूप सत्त्व है । तथा ३, २, १ प्रकृतिके बंध होनेवाले भागोंमें ३, २, १ प्रकृतिरूप सत्त्व स्थान पायाजाता है । यहाँ नूतनसमयप्रवद्ध और उच्छिष्टावलि (उदयसे वचे हुए प्रथम स्थितीके निपेक) की विवक्षा ग्रहण नहीं की ॥ ५१५ ॥

आगे मोहनीयके बंधस्थानोंमें सत्त्वस्थानोंकी संख्या जो पाई जाती है उसे दो गाथाओंसे कहते हैं;—

तिण्णेव दु वावीसे इगिवीसे अट्टवीस कम्मंसा ।

सत्तरतेरेणवबंधेसु पंचेव टाणाणि ॥ ५१६ ॥

पंचविधचदुविधेसु य छ सत्त सेनेसु जाण चत्तारि ।

उच्छिट्टावलिणवकं अविवेक्खिय सत्तटाणाणि ॥५१७॥ जुम्मम् ।

त्रय एव तु द्वाविंशतौ एकविंशतौ अष्टविंशतिः पर्माशाः ।

सप्तदशत्रयोदशतत्रयबन्धेषु पञ्चैव स्थानानि ॥ ५१६ ॥

पञ्चविधचतुर्विधेषु च षट् सप्त शेषेषु जानीहि चत्वारि ।

उच्छिष्टावलिनवकमविवेक्ष्य सत्त्वस्थानानि ॥ ५१७ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—मोहनीयके २२ प्रकृतिरूपबंधस्थानमें कर्मांश अर्थात् सत्त्वस्थान २८—२७—२६ प्रकृतिरूप ३ हैं । २१ प्रकृतिरूपबंधस्थानमें २८ प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान है । १७—१३—९ के बंधस्थानोंमें २८ प्रकृतिरूप आदि पांच पांच सत्त्वस्थान हैं, पांचके बंधस्थानमें आदिके ६ सत्त्वस्थान हैं, चारके बंधस्थानमें ७ सत्त्वस्थान हैं, तथा शेष तीन—दो—एकके बंधस्थानमें चार चार सत्त्वस्थान हैं । ये सत्त्वस्थान उच्छिष्टावली और नूतनबंधरूप समयप्रवद्धकी अपेक्षा नहीं करके ही कहेगये हैं ॥ ५१६ । ५१७ ॥ इसप्रकार बंधस्थानके होनेपर सत्त्वस्थान पाये जाते हैं ।

दसणवपण्णरसाइं बंधोदयसत्तपयडिठाणाणि ।

भणिदाणि मोहणिज्जे एत्तो णामं परं वोच्छं ॥ ५१८ ॥

दशनवपञ्चदश बन्धोदयसत्त्वप्रकृतिस्थानानि ।

भणितानि मोहनीये इतो नाम परं वक्ष्यामि ॥ ५१८ ॥

अर्थ—इसप्रकार मोहनीयके १० बन्धस्थान, ९ उदयस्थान और १५ सत्त्वस्थान कहे । इससे आगे अब नामकर्मके बंधादिके स्थान कहेंगे ॥ ५१८ ॥

उसमें पहले नामकर्मस्थानोंके आधारभूत ४१ जीवपदोंको दो गाथाओंसे कहते हैं;—

णिरया पुण्णा पण्हं वादरसुहुमा तहेव पत्तेया ।

वियलाऽसण्णी सण्णी मणुवा पुण्णा अपुण्णा य ॥ ५१९ ॥

सामण्णतित्थकेवलि उहयसमुग्घादग्घा य आहारा ।

देवावि य पज्जत्ता इदि जीवपदा हु इगिदाला ॥ ५२० ॥ जुम्मम् ।

निरयाः पूर्णाः पञ्च वादरसुहुमा^{कवन्} तथैव प्रत्येकाः ।

विकला असंज्ञिनः संज्ञि^{सिज्जु}सुहुमाः ३ पूर्णा अपूर्णाश्च ॥ ५१९ ॥

सामान्यतीर्थकेवलिनो मनुष्यतगाश्च आहाराः ।

देवा अपि च पर्याप्तं उभयसमुद्धारि^{रहि} एकचत्वारिंशत् ॥ ५२० ॥ युग्मम् ।

अर्थ—नारकी सब पर्याप्त हैं इस जीवपदा भेद, पृथिवीकाय १ जलकाय २ तेजकाय ३ वायुकाय ४ साधारणवनस्पतीकाय ५ ये पांच वादर और सूक्ष्म हैं इससे १० भेद हुए, इसीतरह प्रत्येकवनस्पतिकाय, दो इंद्री आदि ३ विकलत्रय, असंज्ञी पंचेन्द्री, संज्ञी पंचेन्द्री, मनुष्य ये १७ पर्याप्त तथा अपर्याप्त हैं इसप्रकार ३४ भेद हुए । तथा सामान्यकेवली, तीर्थकरकेवली, और दोनों ही समुद्धातकरनेवाले, आहारकशरीरवाले, और देव—ये ६ पर्याप्त ही होते हैं । इसतरह १+३४+६=सब ४१ भेद जीवोंके हैं । इसकारण इनको जीवपद अर्थात् जीवस्थान कहते हैं । और ये नाम कर्मके बंधस्थानोंके निमित्तसे होते हैं, इसलिये इनको कर्मपद भी कहते हैं ॥ ५१९ । ५२० ॥ यहां पर कर्मके निमित्तसे ३६ ही स्थान होते हैं इसकारण कर्मपद ३६ ही हैं ।

तेवीसं पणवीसं छवीसं अट्टवीसमुगतीसं ।
 तीसेक्कतीसमेवं एक्को वंधो दुसेढिम्हि ॥ ५२१ ॥
 त्रयोविंशतिः पञ्चविंशतिः पड्डिंशतिरष्टविंशमेकोनत्रिंशत् ।
 त्रिंशदेकत्रिंशदेवमेको वन्धो द्विश्रेण्याम् ॥ ५२१ ॥

अर्थ—नामकर्मके बंधस्थान २३, २५, २६, २८, २९, ३०, ३१ प्रकृतिरूप सात तो अपूर्वकरणके छठे भागतक यथासंभव पाये जाते हैं, और १ प्रकृतिरूप आठवां बंधस्थान दोनों श्रेणियोंमें बंधता है ॥ ५२१ ॥

आगे वे बंधस्थान किस कर्मपदसहित बंधते हैं यह बात दो गाथाओंसे कहते हैं;—

ठाणमपुण्णेण जुदं पुण्णेण य उवरि पुण्णेणैव ।
 तावदुगाण्णदरेण्णदरेणमरणिरयाणं ॥ ५२२ ॥
 णिरयेण विणा तिण्हं एक्कदरेणेवमेव सुरगइणा ।
 वंधंति विणा गइणा जीवा तज्जोगपरिणामा ॥ ५२३ ॥ जुम्मं ।
 स्थानमपूर्णेन युतं पूर्णेन चोपरि पूर्णकेनैव ।
 आतापद्विकयोरन्यतरेणान्यतरेणामरनिरययोः ॥ ५२२ ॥
 निरयेन विना त्रयाणामेकतरेणैवमेव सुरगतिना ।
 वध्नन्ति विना गतिना जीवा तद्योग्यपरिणामाः ॥ ५२३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—ऊपर कहे हुए आठस्थानोंमें क्रमसे पहला २३ प्रकृतिरूप स्थान अपर्याप्त प्रकृति-सहित बंधता है, दूसरा स्थान पर्याप्तप्रकृति सहित 'च' शब्दसे अपर्याप्तसहित भी बंधता है । इससे आगे पर्याप्तप्रकृतिसहित ही बंधते हैं । उनमें भी २६ प्रकृतिरूपस्थान आतप-उद्योत इन दोनोंमेंसे कोईएक प्रकृतिसहित बंधता है, २८ प्रकृतिरूपस्थान देवगति और नरकगति इन दोनोंमेंसे कोईएक गति सहित बंधता है, २९ प्रकृतिरूप और ३० प्रकृतिरूप ये दो स्थान नरक गतिके विना तिर्यच आदि ३ गतियोंमेंसे कोईएक गति सहित बंधते हैं, ३१ प्रकृतिरूपस्थान देवगतिके साथ बंधता है और एक प्रकृतिरूप स्थान किर्त्ती गति कर्मके साथ नहीं बंधता । इसप्रकार इन स्थानोंके योग्य परिणामोंवाले जीव इन स्थानोंको बांधते हैं ॥ ५२२ । ५२३ ॥

पूर्वोक्त आताप और उद्योत वे दो प्रकृतियां प्रयत्न (पुण्यरूप) हैं वे किस पदके साथ बंधती हैं यह कहते हैं;—

भूवादरपज्जत्तेणादायं बंधजोग्गमुज्जोयं ।
 तेउत्तिगूणतिरिक्खपसत्थाणं एवदरगेण ॥ ५२४ ॥
 भूवादरपर्याप्तेनावामो वन्धयोग्य उद्योतः ।
 तेषामिषोत्ततिर्विद्वान्नातावाभेत्तरेण ॥ ५२४ ॥

अर्थ—पृथिवीकायबादरपर्याप्त सहित ही आतप प्रकृति बंधयोग्य है, और उद्योत प्रकृति तेजःकायादि तीन के विना शेष तीर्थचसंबंधी पुण्यप्रकृतियोंमेंसे किसी एक प्रकृतिके साथ बंधयोग्य कही है ॥ ५२४ ॥

णरगइणामरगइणा तित्थं देवेण हारमुभयं च ।
संजदबंधट्टाणं इदराहि गईहि णत्थित्ति ॥ ५२५ ॥
नरगतिनामरगतिना तीर्थं देवेनाहारमुभयं च ।
संयतबन्धस्थानमितराभिर्गतिभिः नास्तीति ॥ ५२५ ॥

अर्थ—तीर्थकरप्रकृतिको देव और नारक असंयत तो मनुष्यगति सहित बांधते हैं, और असंयतादि चारगुणस्थानवाले मनुष्य देवगतिसहित बांधते हैं । तथा आहारकयुगल और तीर्थकर आहारक दोनोंको देवगतिसहित ही बांधते हैं, क्योंकि संयतके योग्य बंध-स्थान देवगतिके विना अन्यगतियों सहित बंधता ही नहीं है ॥ ५२५ ॥

आगे २३ आदि स्थानोंमें प्रकृतियोंके जाननेकेलिये पाठका क्रम तीनगाथाओंसे कहते हैं;—

णामस्स णवधुवाणि य सरूणतसजुम्मगाणमेकदरं ।
गइजाइदेहसंठाणाणूणेकं च सामण्णा ॥ ५२६ ॥
तसबंधेण हि संहदिअंगोवंगाणमेकदरगं तु ।
तप्पुण्णेण य सरगमणाणं पुण एगदरगं तु ॥ ५२७ ॥
पुण्णेण समं सव्वेणुस्सासो णियमदो दु परघादो ।
जोगट्टाणे तावं उज्जोवं तित्थमाहारं ॥ ५२८ ॥ विसेसयं ।
नाम्रो नव ध्रुवाश्च खरोनत्रसयुग्मकानामेकतमकं तु ।
गतिजातिदेहसंस्थानानूनामेका च सामान्याः ॥ ५२६ ॥
त्रसवन्धे हि संहत्याङ्गोपाङ्गानामेकतरकं तु ।
तत्पूर्णेन च खरगमनानां पुनः एकतरकं तु ॥ ५२७ ॥
पूर्णेन समं सर्वेणोच्छ्वासो नियमतस्तु परघातः ।
योगस्थाने आतप उद्योत तीर्थमाहारम् ॥ ५२८ ॥ विशेषकम् ।

अर्थ—नामकर्मकी तैजस आदि ९ ध्रुवबंधी प्रकृतियां, खरके विना त्रसादि नौ युगल इनमेंसे एक एक इस प्रकार ९, गति ४ जाति ५ शरीर ३ संस्थान ६ आनुपूर्वी ४ इनमेंसे एक एक इसप्रकार ५ सब मिलकर २३ प्रकृतियां सामान्य बंधरूप हैं । त्रसप्रकृतिके साथ ही ६ संहनन ३ अंगोपांगोंमें किसी एकका बंध होता है । त्रसपर्याप्त प्रकृति सहित खरयुगल तथा विहायोगति युगलमेंसे एक एकका बंध होता है । पर्याप्त प्रकृति सहित जो सब त्रस स्थावर हैं उनके साथ उच्छ्वास और परघात नियमसे बंध योग्य हैं । तथा आताप, उद्योत,

तीर्थकर, आहारकयुगल—ये प्रकृतियां पहले कहे हुए योग्य नामपदोंमें बंध योग्य हैं
॥ ५२६ । ५२७ । ५२८ ॥

तित्थेणाहारदुगं एकसराहेण बंधमेदीदि ।

पक्खित्ते ठाणाणं पयडीणं होदि परिसंखा ॥ ५२९ ॥

तीर्थेनाहारद्विकमेकसराहेण बन्धमेतीति ।

प्रक्षिप्ते स्थानानां प्रकृतीनां भवति परिसंख्या ॥ ५२९ ॥

अर्थ—तीर्थकर प्रकृति सहित आहारकयुगल एक काल ही बंधको प्राप्त होता है, इसकारण पूर्वोक्त २३ के बंधमें यथासंभव प्रकृतियोंके मिलानेसे स्थानों और प्रकृतियोंकी संख्या होजाती है ॥ ५२९ ॥

इसी बातको दो गाथाओंसे कहते हैं;—

एयक्खअपज्जत्तं इगिपज्जत्त वितिचपणरापज्जत्तं ।

एइंदियपज्जत्तं सुरणिरयगईहिं संजुत्तं ॥ ५३० ॥

पज्जत्तगवितिचप मणुसदेवगदिसंजुदाणि दोण्णि पुणो ।

सुरगइज्जुदमगइज्जुदं बंधट्टाणाणि णामस्स ॥ ५३१ ॥ जुम्मं ।

एकाक्षपार्याप्तमेकपर्याप्तं द्वित्रिचपनरापर्याप्तम् ।

एकेन्द्रियपर्याप्तं सुरनिरयगतिभ्यां संयुक्तम् ॥ ५३० ॥

पर्याप्तकद्वित्रिचपं मानुपदेवगतिसंयुते द्वे पुनः ।

सुरगतियुतमगतियुतं बन्धस्थानानि नाम्नः ॥ ५३१ ॥ जुम्मम् ।

अर्थ—एकेन्द्री अपर्याप्त सहित २३ का १ स्थान है, एकेन्द्री पर्याप्त—दोइन्द्री—तेइन्द्री चौइन्द्री—पंचेन्द्री तथा मनुष्य अपर्याप्त सहित २५ के ६ स्थान हैं, एकेन्द्री पर्याप्त जातप तथा एकेन्द्री पर्याप्त उद्योत सहित २६ के २ स्थान हैं, देवगति तथा नरकगति सहित २८ के २ स्थान हैं, दो इन्द्री—तेइन्द्री—चौइन्द्री—पंचेन्द्री पर्याप्त और मनुष्यगति तथा देवगति पर्याप्त इन दोनोंकर सहित दो स्थान—इसप्रकार २९ के ६ स्थान हैं, दो इन्द्री पर्याप्त उद्योतादि सहित ६ स्थान ३० के हैं, देवगति सहित १ स्थान ३१ का है, और यशस्कीर्तिप्रकृति सहित १ स्थान १ का है । इसप्रकार नामकर्मके बंधस्थानोंका कथन जानना ॥ ५३० । ५३१ ॥

आगे इन बंधस्थानोंके भंग कहते हैं;—

संठाणे संहडणे विहायजुम्मे य चरिमल्लजुम्मे ।

अविरुद्धेकदरादो बंधट्टाणसु भंगा हु ॥ ५३२ ॥

संस्थाणे भंगनने विहायोजुम्मे य परमपइज्जुम्मे ।

अविरुद्धे एकदसान् बन्धस्थानेषु भंगा हि ॥ ५३२ ॥

अर्थ—पृथिवीकायवादरपर्याप्त सहित ही आतप प्रकृति बंधयोग्य है, और उद्योत प्रकृति तेजःकायादि तीन के विना शेष तीर्थचसंबंधी पुण्यप्रकृतियोंमेंसे किसी एक प्रकृतिके साथ बंधयोग्य कही है ॥ ५२४ ॥

णरगइणामरगइणा तित्थं देवेण हारमुभयं च ।
संजदबंधट्टाणं इदराहि गईहि णत्थित्ति ॥ ५२५ ॥
नरगतिनामरगतिना तीर्थं देवेनाहारमुभयं च ।
संयतवन्धस्थानमितराभिर्गतिभिः नास्तीति ॥ ५२५ ॥

अर्थ—तीर्थकरप्रकृतिको देव और नारक असंयत तो मनुष्यगति सहित बांधते हैं, और असंयतादि चारगुणस्थानवाले मनुष्य देवगतिसहित बांधते हैं । तथा आहारकयुगल और तीर्थकर आहारक दोनोंको देवगतिसहित ही बांधते हैं, क्योंकि संयतके योग्य बंध-स्थान देवगतिके विना अन्यगतियों सहित बंधता ही नहीं है ॥ ५२५ ॥

आगे २३ आदि स्थानोंमें प्रकृतियोंके जाननेकेलिये पाठका क्रम तीनगाथाओंसे कहते हैं;—

णामस्स णवधुवाणि य सरूणतसजुम्मगाणमेकदरं ।
गइजाइदेहसंठाणाणूणेकं च सामण्णा ॥ ५२६ ॥
तसबंधेण हि संहदिअंगोवंगाणमेकदरगं तु ।
तप्पुण्णेण य सरगमणाणं पुण एगदरगं तु ॥ ५२७ ॥
पुण्णेण समं सव्वेणुस्सासो णियमदो दु परघादो ।
जोगट्टाणे तावं उज्जोवं तित्थमाहारं ॥ ५२८ ॥ विसेसयं ।
नाप्पो नव धुवाश्च स्वरोनत्रसयुग्मकानामेकतमकं तु ।
गतिजातिदेहसंस्थानानूनामेका च सामान्याः ॥ ५२६ ॥
त्रसबन्धे हि संहत्याङ्गोपाङ्गानामेकतरकं तु ।
तत्पूर्णेन च स्वरगमनानां पुनः एकतरकं तु ॥ ५२७ ॥
पूर्णेन समं सर्वेणोच्छ्वासो नियमतस्तु परघातः ।
योगस्थाने आतप उद्योत तीर्थमाहारम् ॥ ५२८ ॥ विशेषकम् ।

अर्थ—नामकर्मकी तैजस आदि ९ ध्रुवबंधी प्रकृतियां, स्वरके विना त्रसादि नौ युगल इनमेंसे एक एक इस प्रकार ९, गति ४ जाति ५ शरीर ३ संस्थान ६ आनुपूर्वी ४ इनमेंसे एक एक इसप्रकार ५ सब मिलकर २३ प्रकृतियां सामान्य बंधरूप हैं । त्रसप्रकृतिके साथ ही ६ संहनन ३ अंगोपांगोंमें किसी एकका बंध होता है । त्रसपर्याप्त प्रकृति सहित स्वरयुगल तथा विहायोगति युगलमेंसे एक एकका बंध होता है । पर्याप्त प्रकृति सहित जो सब त्रस स्थावर हैं उनके साथ उच्छ्वास और परघात नियमसे बंध योग्य हैं । तथा आताप, उद्योत,

तीर्थंकर, आहारकयुगल—ये प्रकृतियां पहले कहे हुए योग्य नामपदोंमें बंध योग्य हैं
॥ ५२६ । ५२७ । ५२८ ॥

तित्थेणाहारदुगं एकसराहेण बन्धमेदीदि ।

पक्खित्ते ठाणाणं पयडीणं होदि परिसंखा ॥ ५२९ ॥

तीर्थेनाहारद्विकमेकसराहेण बन्धमेतीति ।

प्रक्षिप्ते स्थानानां प्रकृतीनां भवति परिसंख्या ॥ ५२९ ॥

अर्थ—तीर्थंकर प्रकृति सहित आहारकयुगल एक काल ही बंधको प्राप्त होता है, इसकारण पूर्वोक्त २३ के बंधमें यथासंभव प्रकृतियोंके मिलानेसे स्थानों और प्रकृतियोंकी संख्या होजाती है ॥ ५२९ ॥

इसी बातको दो गाथाओंसे कहते हैं;—

एयक्खअपजत्तं इगिपजत्तं वित्तिचपणरापजत्तं ।

एइंदियपजत्तं सुरणिरयगईहिं संजुत्तं ॥ ५३० ॥

पजत्तगवित्तिचप मणुसदेवगदिसंजुदाणि दोणिण पुणो ।

सुरगइजुदमगइजुदं बंधट्टाणाणि णामस्स ॥ ५३१ ॥ जुम्मं ।

एकाक्षापर्याप्तमेकपर्याप्तं द्वित्रिचपनरापर्याप्तम् ।

एकेन्द्रियपर्याप्तं सुरनिरयगतिभ्यां संयुक्तम् ॥ ५३० ॥

पर्याप्तकद्वित्रिचपं मानुषदेवगतिसंयुते द्वे पुनः ।

सुरगतियुतमगतियुतं बन्धस्थानानि नाम्नः ॥ ५३१ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—एकेंद्री अपर्याप्त सहित २३ का १ स्थान है, एकेन्द्री पर्याप्त—दोइन्द्री—तेइन्द्री चौइन्द्री—पंचेन्द्री तथा मनुष्य अपर्याप्त सहित २५ के ६ स्थान हैं, एकेन्द्री पर्याप्त आतप तथा एकेन्द्री पर्याप्त उद्योत सहित २६ के २ स्थान हैं, देवगति तथा नरकगति सहित २८ के २ स्थान हैं, दो इन्द्री—तेइन्द्री—चौइन्द्री—पंचेंद्री पर्याप्त और मनुष्यगति तथा देवगति पर्याप्त इन दोनोंकर सहित दो स्थान—इसप्रकार २९ के ६ स्थान हैं, दो इन्द्री पर्याप्त उद्योतादि सहित ६ स्थान ३० के हैं, देवगति सहित १ स्थान ३१ का है, और यशस्कीर्तिप्रकृति सहित १ स्थान १ का है । इसप्रकार नामकर्मके बंधस्थानोंका कथन जानना ॥ ५३० । ५३१ ॥

आगे इन बंधस्थानोंके भंग कहते हैं;—

संठाणे संहडणे विहायजुम्मे य चरिमळ्जुम्मे ।

अविरुद्धेकदरादो बंधट्टाणेषु भंगा हु ॥ ५३२ ॥

संस्थाने संहनने विहाययुग्मे च चरमषड्जुग्मे ।

अविरुद्धे एकतमात् बन्धस्थानेषु भङ्गा हि ॥ ५३२ ॥

अर्थ—६ संस्थान, ६ संहनन, विहायोगतिका जोड़ा और अंतके स्थिरआदि ६ युगल इनमें अविरुद्ध एक एकका ग्रहण करनेसे और आपसमें गुणाकार करनेपर बंधस्थानोंमें ४६०८ भङ्ग होते हैं ऐसा नियमसे जानना ॥ ५३२ ॥

तत्थासत्थो णारयसव्वापुण्णेण होदि बंधो दु
एकदराभावादो तत्थेक्को चेव भंगो दु ॥ ५३३ ॥
तत्राशस्तो नारकसर्वापूर्णेन भवति वन्धस्तु ।
एकतमाभावात् तत्रैकत्रैव भङ्गस्तु ॥ ५३३ ॥

अर्थ—उन प्रशस्त तथा अप्रशस्तबंधरूप प्रकृतियोंमें नरकगति सहित तथा त्रसस्थावर युक्त सब अपर्याप्त सहित दुर्भगादि अप्रशस्तप्रकृतियोंका ही बंध होता है, क्योंकि इनमें बंधयोग्य प्रकृतियोंकी प्रतिपक्षी प्रकृतियोंका बंध नहीं होता । इसलिये उनस्थानोंमें अप्रशस्त एक एक प्रकृतिका ही बंध होनेसे एक एक ही भंग है ॥ ५३३ ॥

तत्थासत्थं एदि हु साधारणथूलसव्सुहुमाणं ।
पज्जत्तेण य थिरसुहजुम्मेकदरं तु चदुभंगा ॥ ५३४ ॥
तत्राशस्ता एति हि साधारणस्थूलसर्वसूक्ष्मानाम् ।
पर्याप्तेन च स्थिरशुभयुग्मैकतरं तु चतुर्भङ्गाः ॥ ५३४ ॥

अर्थ—उन एकेन्द्रियके ग्यारहभेदोंमें साधारणवनस्पति और वादरपर्याप्त तथा सूक्ष्मपर्याप्त सहित २५ के बंधस्थानमें एक एक अप्रशस्त प्रकृति ही बंधको प्राप्त होती है । विशेषता यह है कि स्थिर-शुभके युगलोंमेंसे किसी एकका बंध होनेसे २५ के ५ स्थानोंमें चार चार भंग होते हैं ॥ ५३४ ॥

पुढवीआऊतेऊवाऊपत्तेयवियलसण्णीणं ।
सत्थेण असत्थं थिरसुहजसजुम्मट्टभंगा हु ॥ ५३५ ॥
पृथिव्यमेजोवायुप्रत्येकविकलासंज्ञिनाम् ।
शस्तेनाशस्तं स्थिरशुभयशोयुग्ममष्टभङ्गा हि ॥ ५३५ ॥

अर्थ—पृथिवीकाय-जलकाय-तेजकाय-वायुकाय-प्रत्येक वनस्पति-द्विइन्द्रियादि विकल ३-असंज्ञी पंचेन्द्री इनके अविरोधी त्रस वादरादिसे हुए जो २५ प्रकृतिरूपआदि स्थान हैं उनमें त्रस वादर आदि प्रशस्त प्रकृतियोंके साथ यथासंभव दुर्भगादि अप्रशस्त प्रकृतियोंका बंध होता है, इसकारण स्थिर-शुभ-यशस्कीर्ति इन तीन युगलोंकी अपेक्षा आठ २ भंग होते हैं ॥ ५३५ ॥

आगे शेष तिर्यच पंचेन्द्री पर्याप्तसहित कर्मपदोंमें और मनुष्यकर्मपदमें २९ तथा ३० के स्थानोंमें भंग कहनेकेलिये गुणस्थानोंमें विभाग करते हैं;—

सण्णिस्स मणुस्सस्स य ओचेकदरं तु मिच्छभंगा हु ।
छादालसयं अट्ट य विदिये वत्तीससयभंगा ॥ ५३६ ॥

संज्ञिनो मनुष्यस्य च ओघैकतरं तु मिथ्यभङ्गा हि ।

षट्चत्वारिंशच्छतमष्ट च द्वितीये द्वात्रिंशच्छतभङ्गाः ॥ ५३६ ॥

अर्थ—तिर्यचगतिपर्याप्तसहित सैनीका २९ का स्थान और उद्योतसहित ३० के स्थानमें, तथा मनुष्यगति पर्याप्तसहित २९ के स्थानमें सामान्य छह संस्थानादि प्रकृतियोंमेंसे एक एकका क्रमसे बंध होनेसे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ४६०८ भंग होते हैं । और दूसरे गुणस्थानमें ३२०० भंग होते हैं ॥ ५३६ ॥

मिस्साविरदमणुस्सट्ठाणे मिच्छादिदेवजुदठाणे ।

सत्थं तु पमत्तंते थिरसुहजसजुम्मगट्टभंगा हु ॥ ५३७ ॥

मिश्राविरतमनुष्यस्थाने मिथ्यादिदेवयुतस्थाने ।

शस्तं तु प्रमत्तान्ते स्थिरशुभयशोयुग्मकाष्टभङ्गा हि ॥ ५३७ ॥

अर्थ—मिश्र और अविरतगुणस्थानवाले मनुष्यगति सहित स्थानमें, मिथ्यात्वादि गुण-स्थानवाले देवगतिसहित स्थानमें तथा प्रमत्तगुणस्थानपर्यंत जीवोंके प्रशस्तप्रकृतिका बंध अप्रशस्त प्रकृतिके साथ होता है, इससे स्थिर-शुभ-यशस्कीर्ति इन तीनयुगलोंकी अपेक्षा आठ आठ भंग कहे हैं ॥ ५३७ ॥

आगे एक पर्यायको छोड़ना तथा दूसरी पर्यायमें उत्पन्न होना यथासंभव दिखाते हैं,—

णेरयियाणं गमणं सण्णीपज्जत्तकम्मतिरियणरे ।

चरिमचऊतित्थूणे तेरिच्छे चैव सत्तमिया ॥ ५३८ ॥

नैरयिकानां गमनं संज्ञिपर्याप्तकर्मतिर्यग्गरे ।

चरमचतुष्कतीर्थोने तिरश्चि चैव सप्तमिकाः ॥ ५३८ ॥

अर्थ—घर्मादि तीन पृथिवीवाले नारकी जीवोंकी मरणकर उत्पत्ति गर्भजपर्याप्तसैनी पंचेन्द्री कर्मभूमिया तिर्यच अथवा मनुष्यपर्यायमें होती है । अन्तके चार नरकोंवाले जीव तीर्थकरादिके सिवाय पूर्वोक्त तिर्यच अथवा मनुष्यपर्यायमें उत्पन्न होते हैं । परंतु इतनी विशेषता है कि सातवें नरकवाले पूर्वोक्त तिर्यच पर्यायमें ही उत्पन्न होते हैं ॥ ५३८ ॥

तत्थतणऽविरदसम्मो मिस्सो मणुवदुगमुच्चयं णियमा ।

बंधदि गुणपडिचण्णा मरंति मिच्छेव तत्थ भवा ॥ ५३९ ॥

तत्रतनोऽविरतसम्यक् मिश्रो मानवद्विकमुच्चकं नियमात् ।

वध्नाति गुणप्रतिपन्ना मरन्ति मिथ्ये एव तत्र भवाः ॥ ५३९ ॥

अर्थ—उस सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न हुआ असंयतसम्यग्दृष्टि और मिश्रगुणस्थानवर्ती अपने २ गुणस्थानोंमें मनुष्यगति युगल तथा ऊंच गोत्र इनको नियमसे बांधता है । तथा वहां पर उत्पन्न हुए सासादन-मिश्र-असंयत गुणस्थानवाले जिससमय मरण करें उस समय मिथ्यात्वगुणस्थानको प्राप्त होकर ही मरण करते हैं ॥ ५३९ ॥

तेउदुगं तेरिच्छे सेसेगअपुण्णवियलगा य तथा ।

तित्थूणणरेवि तथाऽसणी घम्मे य देवदुगे ॥ ५४० ॥

तेजोद्विकं तिरश्चि शेषैकापूर्णविकलकाश्च तथा ।

तीर्थोन्नरेपि तथा असंज्ञी घर्मे च देवद्विके ॥ ५४० ॥

अर्थ—तिर्यच गतिमें तेजकायिक—वायुकायिक ये दोनों मरणकरके तिर्यच गतिमें ही उत्पन्न होते हैं । शेष एकेन्द्री अर्थात् पृथिवीकाय—जलकाय और वनस्पतिकाय ये वादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त इन सब अवस्थाओंवाले इसीप्रकार दो इन्द्री आदि विकलत्रय—ये सब जीव तिर्यच गतिमें उत्पन्न होते हैं, और तीर्थकरादि त्रेसठ शलाका (पदवी धारक) पुरुषोंके विना शेष मनुष्यपर्यायमें भी उत्पन्न होते हैं । असंज्ञीपंचेन्द्री मरण करके पूर्वोक्त तिर्यच—मनुष्यगतिमें तथा घर्मानामवाले पहले नरकमें और देवयुगलमें अर्थात् भवनवासी—व्यंतरदेवोंमें उत्पन्न होता है ॥ ५४० ॥

सणीवि तथा सेसे णिरये भोगेवि अञ्चुदंतेवि ।

मणुवा जंति चउग्गदिपरियंतं सिद्धिठाणं च ॥ ५४१ ॥

संज्ञी अपि तथा शेषे निरये भोगेपि अच्युतान्तेपि ।

मानवा यान्ति चतुर्गतिपर्यन्तं सिद्धिस्थानं च ॥ ५४१ ॥

अर्थ—इसीप्रकार संज्ञी पंचेन्द्री तिर्यच भी शेष अर्थात् असंज्ञी पंचेन्द्रीकी तरह पूर्वोक्त गतियोंमें, सब नारकी पर्यायोंमें, सब भोगभूमियापर्यायोंमें और अच्युतस्वर्गपर्यंत सब देवोंमें उत्पन्न होता है । और मनुष्य मरण करके चारों ही गतियोंमें तथा सिद्धिस्थान (मोक्ष) में प्राप्त होते हैं ॥ ५४१ ॥

आहारगा दु देवे देवाणं सणिकम्मतिरियणरे ।

पत्तेयपुढविआऊवादरपज्जत्तगे गमणं ॥ ५४२ ॥

भवनतियाणं एवं तित्थूणणरेसु चैव उप्पत्ती ।

ईसाणंताणेगे सदरदुगंताण सणीसु ॥ ५४३ ॥ जुम्मं ।

आहारकास्तु देवे देवानां संज्ञिकर्मतिर्यग्गरे ।

प्रत्येकपृथिव्यब्बादरपर्याप्तके गमनम् ॥ ५४२ ॥

भवनत्रिकानामेवं तीर्थोन्नरेषु चैवोत्पत्तिः ।

ईशानान्तयोरेकस्मिन् शतारद्विकान्तानां संज्ञिषु ॥ ५४३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—आहारकशरीरसहित प्रमत्तगुणस्थानवाले मरण करके कल्पवासी देवोंमें उत्पन्न होते हैं । सब देवोंकी उत्पत्ति सामान्यसे संज्ञी पंचेन्द्री कर्मभूमिया तिर्यच तथा मनुष्यपर्यायमें, और प्रत्येक वनस्पतिकाय—पृथिवीकाय—जलकायवादरपर्याप्तजीवोंमें होती है । विशेष

यह है कि भवनवासी आदि ३ प्रकारके देवोंकी उत्पत्ति तीर्थकरादिकोंमें नहीं होती, अन्य मनुष्योंमें ही होती है । ईशानस्वर्गपर्यंत देवोंकी उत्पत्ति पूर्वोक्त मनुष्य तिर्यचोंमें तथा एकेन्द्रिय पर्यायमें होती है । और शतार—सहस्रार पर्यन्त स्वर्गवाले देवोंकी उत्पत्ति भी पूर्वोक्त मनुष्य तिर्यचोंमें संज्ञीपंचेंद्रीमें होती है ॥ ५४२ ॥ ५४३ ॥ इसप्रकार चारोंगतिके जीवोंकी संक्षेपसे मरण और उत्पत्ति कही है ।

आगे नामकर्मके बंधस्थानोंको चौदह मार्गणाओंमें आठ गाथाओंसे कहते हैं;—

गामस्स बंधठाणा गिरयादिसु णवयवीस तीसमदो ।

आदिमच्छकं सव्वं पणच्छणववीस तीसं च ॥ ५४४ ॥

नामः बन्धस्थानानि निरयादिषु नवकविंशं त्रिंशदतः ।

आदिमषट्कं सर्वं पञ्चषट्कवविंशं त्रिंशच्च ॥ ५४४ ॥

अर्थ—नामकर्मके बंधस्थान नरकादिगतिमें क्रमसे २९—३० के दो, इसके बाद आदिके ६, सबस्थान, तथा ३५—३६—२९—३० स्वरूप ४ स्थान जानना चाहिये ॥ ५४४ ॥ इसप्रकार गतिमार्गणामें बंधस्थान कहे हैं ।

आगे इंद्रियादि मार्गणाओंमें बंधस्थानोंको कहते हैं—

पंचक्खतसे सव्वं अडवीसूणादिच्छकयं सेसे ।

चउमणवयणोराले सड देवं वा विगुव्वदुगे ॥ ५४५ ॥

पञ्चाक्षत्रसे सर्वमष्टविंशोनादिषट्कं शेषे ।

चतुर्मनोवचनौराले सर्वं देवं वा वैगूर्वद्विके ॥ ५४५ ॥

अर्थ—पंचेंद्रीमें, त्रसकायमें तो सब बंधस्थान हैं । और शेष एकेंन्द्रियादिचार इंद्रियोंमें तथा पृथिवीकायादि पांच स्थावरोंमें अट्ठाईसवें स्थानके सिवाय आदिके ६ स्थान हैं अर्थात् ५ स्थान हैं । चार मनोयोग, चार वचनयोग तथा औदारिककाययोगमें सब बंधस्थान हैं । और वैक्रयिककाययोग—वैक्रयिकमिश्रयोग इन दोनोंमें देवगतिकी तरह ४ स्थान होते हैं ॥ ५४५ ॥

अडवीसदु हारदुगे सेसदुजोगेसु छकमादिल्लं ।

वेदकसाये सव्वं पढमिल्लं छक्कमण्णाणे ॥ ५४६ ॥

अष्टविंशद्विकमाहारद्विके शेषद्वियोगयोः षट्कमादिमम् ।

वेदकषाये सर्वं प्राथमिकं षट्कमज्ञाने ॥ ५४६ ॥

अर्थ—आहारक—आहारकमिश्रयोगमें २८ तथा २९ के दो स्थान हैं । शेष कार्माण और औदारिकमिश्र इन दो योगोंमें आदिके ६ स्थान हैं । पुरुषादि तीन वेद तथा अनंतानुबंधीआदि कषायोंमें सब बंधस्थान हैं । और ज्ञान मार्गणामेंसे तीन कुज्ञानोंमें आदिके ६ स्थान हैं ॥ ५४६ ॥

सण्णाणे चरिमपणं केवलजहखादसंजमे सुण्णं ।

सुदमिव संजमतिदए परिहारे णत्थि चरिमपदं ॥ ५४७ ॥

सद्बुद्धाने चरमपञ्च केवल्यथाख्यातसंयमे शून्यम् ।

श्रुतमिव संयमत्रितये परिहारे नास्ति चरमपदम् ॥ ५४७ ॥

अर्थ—मतिज्ञानादि चार सम्यग्ज्ञानोंमें अंतके ५ स्थान हैं, केवलज्ञान और यथाख्या-
तसंयममें शून्य अर्थात् बन्धस्थानका अभाव है । सामायिक आदि तीन संयमोंमें श्रुतज्ञान
की तरह ५ स्थान हैं । परिहारविशुद्धि संयममें अंतका स्थान नहीं है बाकी ४ स्थान
हैं ॥ ५४७ ॥

अंतिमठाणं सुहुमे देसाविरदीसु हारकम्मं वा ।

चक्खुजुगले सब्बं सगसगणाणं व ओहिदुगे ॥ ५४८ ॥

अन्तिमस्थानं सूक्ष्मे देशाविरत्योः आहारकर्म वा ।

चक्षुर्युगले सर्वं स्वकस्वकज्ञानं वा अवधित्विके ॥ ५४८ ॥

अर्थ—सूक्ष्मसांपरायसंयममें अंतका एक ही स्थान है । देशसंयममें आहारककी तरह
२८ और २९ के दो स्थान हैं । असंयतमें कार्माणयोगवत् आदिके ६ स्थान हैं । चक्षुद-
र्शन और अचक्षुदर्शन इन दोनोंमें सब स्थान हैं । अवधिदर्शन—केवलदर्शन इन दोनोंमें
अपने २ ज्ञानकी तरह बंधस्थान समझलेना ॥ ५४८ ॥

कम्मं वा किण्हतिये पणुवीसाळकमट्टवीसचऊ ।

कमसो तेऊजुगले सुक्काए ओहिणाणं वा ॥ ५४९ ॥

कर्म वा कृष्णत्रये पञ्चविंशतिषट्कमष्टाविंशत्तुष्कम् ।

क्रमशः तेजोयुगले शुक्लायामवधिज्ञानं वा ॥ ५४९ ॥

अर्थ—कृष्णआदि तीन लेश्याओंमें कार्माणयोगकी तरह आदिके ६ बंधस्थान हैं ।
तेजोलेश्या और पद्मलेश्या इन दोनोंमें क्रमसे २५ आदि ६ स्थान, तथा २८ आदि चार
स्थान हैं । शुक्कलेश्यामें अवधिज्ञानकी तरह अंतके पांच स्थान हैं ॥ ५४९ ॥

भवे सच्चमभवे किण्हं वा उवसमम्मि खइए य ।

सुक्कं वा पम्मं वा वेदगसम्मत्तठाणाणि ॥ ५५० ॥

भव्ये सर्वमभव्ये कृष्णा वा उपशमे क्षायिके च ।

शुक्कं वा पद्मं वा वेदकसम्यत्त्वस्थानानि ॥ ५५० ॥

अर्थ—भव्यमार्गणामें सब बंधस्थान हैं । अभव्यमें कृष्णलेश्याकी तरह आदिके ६
स्थान हैं । सम्यत्त्वमार्गणामेंसे उपशमसम्यक्त्वमें तथा क्षायिकसम्यक्त्वमें शुक्कलेश्यावत्
५ स्थान हैं । तथा वेदक (क्षायोपशमिक) सम्यक्त्वमें पद्मलेश्यावत् २८ को आदिलेकर
४ बंधस्थान हैं ॥ ५५० ॥

अडवीसतिय दु साणे मिस्से मिच्छे दु किण्हलेस्सं वा ।

सण्णीआहारिदरे सव्वं तेवीसच्छकं तु ॥ ५५१ ॥

अष्टविंशत्रयं तु साने मिश्रे मिथ्ये तु कृष्णलेश्या वा ।

संज्ञिआहारेतरयोः सर्वं त्रयोविंशषट्कं तु ॥ ५५१ ॥

अर्थ—सासादनसम्यक्त्वमें २८ को आदिलेकर ३ स्थान हैं । मिश्रसम्यक्त्व तथा मिथ्यात्वमें कृष्णलेश्यावत् आदिके ६ स्थान हैं । संज्ञीमार्गणामें और आहार मार्गणामें सब बंधस्थान हैं । और असंज्ञी—अनाहारमार्गणामें २३ को आदिलेकर ६ बंधस्थान हैं ॥५५१॥

आगे नामके बंधस्थानोंमें पुनरुक्त (बार बार कहेंगये) भंगोंको कहते हैं;—

णिरयादिजुदट्टाणे भंगेणप्पणम्मि ठाणम्मि ।

ठविदूणमिच्छभंगे सासणभंगा हु अत्थित्ति ॥ ५५२ ॥

अविरदभंगे मिस्सयदेसपमत्ताण सव्वभंगा हु ।

अत्थित्ति ते दु अवणिय मिच्छाविरदापमादेसु ॥५५३॥जुम्मं ।

निरयादियुतस्थाने भङ्गेनात्तात्तानि स्थाने ।

स्थापयित्वा मिथ्यभङ्गे सासनभङ्गा हि अस्तीति ॥ ५५२ ॥

अविरतभङ्गे मिश्रकदेशप्रमत्तानां सर्वभङ्गा हि ।

अस्तीति तांस्तु अपनीय मिथ्याविरताप्रमादेषु ॥ ५५३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—नरकादि गतिसहित स्थानोंको अपने २ भंगोंके साथ अपने २ गुणस्थानोंमें स्थापन करनेसे मिथ्यादृष्टिके बंधस्थानोंके भङ्गोंमें सासादनके भंग गर्भित हो जाते हैं । असंयतके भंगोंमें मिश्र—देशविरत—प्रमत्तके सब बंधस्थानोंके भंग आजाते हैं, इसकारण सासादनके भङ्गोंको तथा मिश्र—देशसंयत—प्रमत्तके भंगोंको घटानेसे मिथ्यादृष्टि—असंयत—अप्रमत्तगुणस्थानोंमें परस्पर बंधस्थानोंके भंग होते हैं, ऐसा निश्चयसे समझना चाहिये ॥ ५५२।५५३ ॥

भुजगारा अप्पदरा अवट्टिदावि य सभंगसंजुत्ता ।

सव्वपरट्टाणेण य णेदव्वा ठाणवंधम्मि ॥ ५५४ ॥

भुजाकारा अल्पतरा अवस्थिता अपि च स्वभङ्गसंयुक्ताः ।

सर्वपरस्थानेन च नेतव्याः स्थानवन्धे ॥ ५५४ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त जो भुजाकार १ अल्पतर २ अवस्थित ३ 'च'से अवक्तव्य ४ बंध हैं वे अपने २ भंगोंकरसहित नामकर्मके बंधस्थानोंमें स्वस्थान—परस्थान दोनों अथवा सब-परस्थानोंके साथ प्राप्त करना ॥ ५५४ ॥

अब उन स्वस्थानादिकोंका लक्षण कहते हैं;—

अप्पपरोभयठाणे वंधट्टाणाण जो दु वंधस्स ।

सट्टाण परट्टाणं सव्वपरट्टाणमिदि सण्णा ॥ ५५५ ॥

आत्मपरोभयस्थानानि बन्धस्थानाना यत्तु बन्धस्य ।
स्वस्थानं परस्थानं सर्वपरस्थानमिति संज्ञा ॥ ५५५ ॥

अर्थ—इच्छित अपनास्थान, अन्यगुणस्थान, अन्यगति—अन्यगुणस्थानस्वरूप उभयस्थान—इन तीनोंमें मिथ्यादृष्टि—असंयत—अप्रमत्तके बन्धस्थानसंबंधी जो भुजाकारादि बंध हैं उनके क्रमसे स्वस्थान, परस्थान, सर्वपरस्थान ऐसे तीन नाम हैं ॥ ५५५ ॥

चतुरेकदुपण पंच य छत्तिगटाणाणि अप्पमत्तंता ।

तिसु उवसमगे संते त्ति य तियतिय दोण्णि गच्छंति ॥ ५५६ ॥

चतुरेकद्विपञ्च पञ्च च पट्त्रिकस्थानानि अप्रमत्तान्ताः ।

त्रिषु उपशामके शान्ते इति च त्रिकत्रिकं द्वे गच्छन्ति ॥ ५५६ ॥

अर्थ—अप्रमत्तपर्यंत गुणस्थानवाले जीव मिथ्यादृष्टि आदिक अपने २ गुणस्थानोंको छोड़के क्रमसे ४, १, २, ५, ५, ६, ३ गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं । अपूर्वकरणादि तीन उपशम श्रेणीवाले तीन तीन गुणस्थानोंको तथा उपशांत कषायवाले दो गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं ॥ ५५६ ॥

आगे उन्हीं गुणस्थानोंको कहते हैं;—

सासनपमत्तवज्जं अपमत्तं समल्लियइ मिच्छो ।

मिच्छत्तं विदियगुणो मिस्सो षडमं चउत्थं च ॥ ५५७ ॥

अविरदसम्मो देसो पमत्तपरिहीणमप्पमत्तं ।

छट्टाणाणि पमत्तो छट्टगुणं अप्पमत्तो दु ॥ ५५८ ॥ जुम्मं ।

सासनप्रमत्तवर्ज्यमप्रमत्तान्तं समाश्रयति मिथ्यः ।

मिथ्यात्वं द्वितीयगुणो मिश्रः प्रथमं चतुर्थं च ॥ ५५७ ॥

अविरतसम्यो देशः प्रमत्तपरिहीनमप्रमत्तान्तम् ।

षट्स्थानानि प्रमत्तः षष्ठगुणमप्रमत्तस्तु ॥ ५५८ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—मिथ्यादृष्टि गुणस्थानवाला सासादन और प्रमत्तगुणस्थानको छोड़कर अप्रमत्तपर्यंत चार गुणस्थानोंको प्राप्त होता है । दूसरे गुणस्थानवाला मिथ्यात्वको तथा मिश्रगुणस्थानवाला पहले—चौथे दो गुणस्थानोंको प्राप्त होता है । अविरतसम्यग्दृष्टि तथा देशसंयत ये दोनों प्रमत्तगुणस्थानके सिवाय अप्रमत्त गुणस्थानतक जाते हैं । प्रमत्तगुणस्थानवाला अप्रमत्तगुणस्थानपर्यंत ६ गुणस्थानोंमें जाता है । और अप्रमत्तगुणस्थानवाला छठे गुणस्थानको प्राप्त होता है ॥ ५५७५५८ ॥

उवसामगा दु सेढिं आरोहंति य पडंति य कमेण ।

उवसामगेषु मरिदो देवतमत्तं समल्लियई ॥ ५५९ ॥

उपशामकास्तु श्रेणिमारोहयन्ति च पतन्ति च क्रमेण ।

उपशामकेषु मृतो देवतमत्वं समाश्रयति ॥ ५५९ ॥

अर्थ—अपूर्वकरणादि उपशमश्रेणीवाले उपशमश्रेणीको क्रमसे चढते भी हैं और उतरते भी हैं । तथा उपशमश्रेणीमें मरे हुए जीव महान् ऋद्धिवाले देव होते हैं ॥ ५५९ ॥

आगे उपशमश्रेणीमें मरण किसजगह होता है यह दिखाते हैं;—

“मिस्सा आहारस्स य खवगा चड्ढाणपढमपुव्वा य ।

पढमुवसम्मा तमतमगुणपडिवण्णा य ण मरंति ॥ ५६० ॥

अणसंजोजिदमिच्छे सुहुत्तअंतं तु णत्थि मरणं तु ।

किदकरणिज्जं जाव तु सव्वपरट्ठाण अट्ठपदा ॥ ५६१ ॥”

अब बद्धायु कृतकृत्यके प्रति पूर्वोक्त तीनस्थानोंमें सर्वपरस्थानोंके अर्थवान् पद कहते हैं—

देवेषु देवमणुवे सुरणरतिरिये चउग्गईसुंपि ।

कदकरणिज्जुप्पत्ती कमसो अंतोमुहुत्तेण ॥ ५६२ ॥

देवेषु देवमनुष्ये सुरनरतिरश्चि चतुर्गतिष्वपि ।

कृतकरणीयोत्पत्तिः क्रमश अन्तमुहूर्तेन ॥ ५६२ ॥

अर्थ—कृतकृत्यवेदकसम्यक्दृष्टिपनेका काल अंतमुहूर्त है उसीमें चार भाग करके क्रमसे मरणको प्राप्त हुआ जीव देवोंमें, देव—मनुष्योंमें, देव—मनुष्यतिर्यंचोंमें तथा चारों-गतियोंमें उत्पन्न होता है ॥ ५६२ ॥

आगे नामकर्मके बंधस्थानोंके भेद कहते हैं;—

तिविहो दु ठाणबंधो भुजगारप्पदरवट्ठिदो पढमो ।

अप्पं बंधंतो बहुबंधे विदियो दु विवरीयो ॥ ५६३ ॥

तदियो सणामसिद्धो सव्वे अविरुद्धठाणबंधभवा ।

ताणुप्पत्तिं कमसो भंगेण समं तु वोच्छामि ॥ ५६४ ॥ जुम्मं ।

त्रिविधस्तु स्थानबन्धो भुजाकाराल्पतरावस्थितः प्रथमः ।

अल्पं वन्नन् बहुबन्धे द्वितीयस्तु विपरीतः ॥ ५६३ ॥

तृतीयः स्वनामसिद्धः सर्वे अविरुद्धस्थानबन्धभवाः ।

तेषामुत्पत्तिं क्रमशो भङ्गेन समं तु वक्ष्यामि । ५६४ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—नामकर्मके बंधस्थान तीन प्रकारके हैं—भुजाकार १ अल्पतर २ अवस्थित ३ । इनमेंसे पहला “भुजाकार बंध” पूर्व थोड़ी प्रकृति बांधता था पीछे बहुत बांधे उस जगह

१ ये दो गाथा ११४ के पृष्ठमें क्षेपकरूपसे लिखेगयेथे उसी जगह इनका अर्थ लिखा गया है सो देखलेना ।

होता है । दूसरा इससे उलटा है अर्थात् पहले बहुत बांधता था अब थोड़ी बांधे वहां “अल्पतर बंध” होता है । “तीसरा अवस्थित बंध” तो अपने नामसे ही प्रसिद्ध है अर्थात् जितनी प्रकृतियां पहले बांधें उतनी ही पीछेके समयमें बांधें वहां होता है । ये सब भुजाकारादिबंध अविरुद्धबंधस्थानोंसे उत्पन्न होते हैं, इसकारण मैं ग्रन्थकर्ता उनकी उत्पत्तिको क्रमसे भंगोंसहित कहता हूं ॥ ५६३।५६४ ॥

अब उसीको दिखाते हैं;—

भूवादरतेवीसं बंधतो सव्वमेव पणुवीसं ।

बंधदि मिच्छादृष्टी एवं सेसाणमाणेज्जो ॥ ५६५ ॥

भूवादरत्रयोविंशं बध्नन् सर्वमेव पञ्चविंशतिः ।

बध्नाति मिथ्यादृष्टिः एवं शेषाणामानेयः ॥ ५६५ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि गुणस्थानवाला वादर पृथिवीकाय २३ के स्थानको बांधता हुआ २५ को आदिलेकर सब स्थानोंको बांधता है । इसीप्रकार त्रैराशिक गणितसे शेष बंधस्थानोंमें भी बंध भेद समझलेना ॥ ५६५ ॥

तेवीसदृष्टाणादो मिच्छतीसोत्ति बंधगो मिच्छो ।

णवरि हु अट्टावीसं पंचिंदियपुण्णगो चेव ॥ ५६६ ॥

त्रयोविंशतिस्थानात् मिथ्यात्वत्रिंशदिति बन्धको मिथ्यः ।

नवरि हि अष्टाविंशं पञ्चेन्द्रियपूर्णकश्चैव ॥ ५६६ ॥

अर्थ—२३ के स्थानसे लेकर मिथ्यात्वमें बंधयोग्य ३० के स्थान पर्यंत स्थानोंके भुजाकारोंको मिथ्यादृष्टि जीव बांधनेवाला कहा है । विशेषता यह है कि जो पंचेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टि हो वही २८ के स्थानको बांधता है ॥ ५६६ ॥

आगे भोगभूमियाके बन्धस्थान कहते हैं;—

भोगे सुरदृवीसं सम्मो मिच्छो य मिच्छगअपुण्णे ।

तिरिउगतीसं तीसं णरउगुतीसं च बंधदि हु ॥ ५६७ ॥

भोगे सुराष्टविंशं सम्यो मिथ्यश्च मिथ्यकापूर्णे ।

तिर्यगेकोनत्रिंशत् त्रिंशत् नरैकोनत्रिंशत् च बध्नाति हि ॥ ५६७ ॥

अर्थ—भोगभूमिमें पर्याप्तपंचेन्द्री सम्यग्दृष्टि वा मिथ्यादृष्टि, ‘च’ शब्दसे निर्वृत्त्यपर्याप्त सम्यग्दृष्टि जीव देवगतिसहित २८ के स्थानको बांधते हैं । निर्वृत्त्यपर्याप्तकमिथ्यादृष्टि जीव तिर्यचगतिसहित २९ के वा ३० के स्थानको बांधते हैं, और मनुष्यगतिसहित २९ के स्थानका बंध नियमसे करते हैं ॥ ५६७ ॥

मिच्छस्स ठाणभंगा एयारं सदरि दुगुणसोल णवं ।

अडदालं वाणउदी सदाण छादाल चत्तधियं ॥ ५६८ ॥

मिथ्यस्य स्थानभङ्गा एकादश सप्ततिः द्विगुणषोडश नव ।

अष्टचत्वारिंशत् द्वात्रिंशत् शतानाम् षट्चत्वारिंशत् चत्वारिंशदधिकम् ॥५६८॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टिके स्थानोंके भंग (भेद) २३ के ११, २५ के ७०, २६ के ३२, २८ के ९, २९ के ९२४८, ३० के ४६४० जानने ॥ ५६८ ॥

आगे अल्पतर भंगोंको कहते हैं;—

विवरीयेणप्पदरा होंति हु तेरासिएण भंगा हु ।

पुव्वपरट्टाणाणं भंगा इच्छा फलं कमसो ॥ ५६९ ॥

विपरीतेनाल्पतरा भवन्ति हि त्रैराशिकेन भङ्गा हि ।

पूर्वापरस्थानानां भङ्गा इच्छा फलं क्रमशः ॥ ५६९ ॥

अर्थ—भुजाकार बंधके भंगोंकी त्रैराशिकसे उलटी त्रैराशिक करनेपर अल्पतरके भंग होते हैं । उसमें पहले स्थानरूप भंगोंको इच्छा राशि तथा पिछले स्थानोंको फलराशि करनेपर क्रमसे भेद होते हैं ॥ ५६९ ॥

आगे कहें हुए इन भेदोंको त्रैराशिक विना थोड़े उपायसे जाननेकी विधि दिखाते हैं;—

लघुकरणं इच्छंतो एयारादीहिं उवरिमं जोग्गं ।

संगुणिदे भुजगारा उवरीदो होंति अप्पदरा ॥ ५७० ॥

लघुकरणमिच्छतः एकादशादिभिरुपरिमं योग्यम् ।

संगुणिते भुजाकारा उपरितो भवन्ति अल्पतराः ॥ ५७० ॥

अर्थ—जो थोड़ेमें जानना चाहता है वह ११ आदि अंकोंसे ऊपरके अंकोंको गुणा करै तब भुजाकार भंग होते हैं । और ऊपरके ३० आदिस्थानोंके भंगोंसे नीचेके भंगोंका गुणाकरै तब अल्पतर भंग होते हैं ॥ ५७० ॥

आगे गुणाकरनेसे जितने भंग हुए उन्हींको कहते हैं;—

भुजगारप्पदराणं भंगसमासो समो हु मिच्छस्स ।

पणतीसं चउणउदी सट्टी चोदालमंककमे ॥ ५७१ ॥

भुजाकाराल्पतरयोः भङ्गसमासो समो हि मिथ्यस्य ।

पञ्चत्रिंशत् चतुर्नवतिः षष्टिः चतुश्चत्वारिंशदङ्कमेण ॥ ५७१ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टिमें कहे हुए भुजाकार और अल्पतरकी भंगसंख्या समान है वह पैं-तीस चौरानवै साठ चवालीसके अंकोंके क्रमसे ४४६०९४३५ प्रमाण होती है । इन दोनोंकी संख्या मिलानेसे ८९२१८८७० प्रमाण अवस्थित भंगोंकी संख्या कही है ॥५७१॥

अब असंयत गुणस्थानमें भुजाकारादि भंगोंको कहते हैं;—

देवट्टवीस णरदेवुगुतीस मणुस्सतीस वंधयदे ।

तिछणवणवदुगभंगा तित्थविहीणा हु पुणरुत्ता ॥ ५७२ ॥

देवाष्टविंशं नरदेवैकोनत्रिंशत् मनुष्यत्रिंशत् बन्धोऽयते ।

त्रिषट्त्नवनवद्विकभङ्गाः तीर्थविहीना हि पुनरुक्ताः ॥ ५७२ ॥

अर्थ—असंयत गुणस्थानमें देवगतिसहित २८ के स्थानमें, मनुष्यगति सहित तथा देवगति सहित २९ के स्थानमें, मनुष्यगतिसहित तीसके बंध स्थानमें ३६९९२ भुजाकारके भंग होते हैं । और तीर्थकर रहित मनुष्यगतिके पुनरुक्त भंग होते हैं ॥ ५७२ ॥

यही दिखाते हैं;—

देवद्वीसबंधे देवुगुतीसम्मि भंग चउसट्टी ।

देवुगुतीसे बंधे मणुवत्तीसेवि चउसट्टी ॥ ५७३ ॥

देवाष्टविंशबन्धे देवैकोनत्रिंशति भङ्गाः चतुष्पष्टिः ।

देवैकोनत्रिंशति बन्धे मानवत्रिंशत्यपि चतुष्पष्टिः ॥ ५७३ ॥

अर्थ—असंयत गुणस्थानमें देवगतिसहित अट्ठाईसका बंध करके देवगतिसहित तथा तीर्थकरप्रकृतिसहित २९ का बंध करता है तब दोनोंके भंगोंको गुणा करनेसे ६४ भंग होते हैं । और देवगतिसहित २९ का बंधकरके मनुष्यगति सहित ३० का जब बंध करता है तब भी ६४ ही भंग होते हैं ॥ ५७३ ॥

तित्थयरसत्तणारयमिच्छो णरऊणतीसबंधो जो ।

सम्मम्मि तीसबंधो तियछक्कडछक्कचउभंगा ॥ ५७४ ॥

तीर्थकरसत्त्वनारकमिथ्यो नरैकोनत्रिंशबन्धो यः ।

सम्यच्चि त्रिंशबन्धः त्रिकषट्पाष्टषट्कचतुर्भङ्गाः ॥ ५७४ ॥

अर्थ—तीर्थकरके सत्त्वसहित नारकी मिथ्यादृष्टि ४६०८ भंगोंकर मनुष्यगति सहित २९ के स्थानका बंध करता है, उसके बाद शरीरपर्याप्ति पूर्ण करके सम्यक्त्वसहित हुआ तीर्थकरमनुष्यसहित ३० को बांधता है उसके ३६८६४ भंग होते हैं । इनमें पूर्व कथित १२८ मिलानेसे ३६९९२ असंयतमें भुजाकार भंग हैं ॥ ५७४ ॥

आगे असंयतमें अल्पतर भंगोंको कहते हैं;—

बावत्तरि अप्पदरा देवुगुतीसा दु णिरयअडवीसं ।

बंधंत मिच्छभंगेणवगयतित्था दु पुणरुक्ता ॥ ५७५ ॥

द्वासप्ततिः अल्पतरा देवैकोनत्रिंशत्तु निरयाष्टविंशतिः ।

बध्नन् मिथ्यभङ्गेनापगततीर्था हि पुनरुक्ताः ॥ ५७५ ॥

अर्थ—पहले जिसने नरकायुका बंध किया है ऐसा मनुष्य असंयत तीर्थकर और देवसहित २९ का बंध करता हुआ, नरकगतिके संमुख होकर अंतर्मुहूर्त मिथ्यादृष्टि होता हुआ नरकगति सहित २८ का बंध करता है तब ८ भंग होते हैं । और देव वा नारकी असंयतने तीर्थ मनुष्यसहित ३० के स्थानको बांधा उसके ८ भंग तथा पीछे मरणकर

तीर्थकरपनेसे माताके गर्भमें उत्पन्न हुआ वहां पर तीर्थ—देव सहित २९ के स्थानका वंध करता है उसके भी ८ भंग होते हैं । इनको आपसमें गुणा करनेसे $८ \times ८ = ६४$ भंग हुए, इनमें पहले ८ मिलानेसे $६४ + ८ = ७२$ अल्पतर भंग असंयतमें होते हैं । यहां तीर्थकरसे रहित मनुष्यगतिवाले २९ को बांधके पीछे देवयुत २८ को बांधै उसके ६४ पुनरुक्त भंग मिथ्यादृष्टिके भंगोंके साथ कह आये हैं इससे नहीं कहे ॥ ५७५ ॥

आगे अप्रमत्तादि गुणस्थानोंमें भुजाकार भंगोंको कहते हैं;—

देवजुदेकट्टाणे णरतीसे अप्पमत्तभुजयारा ।

पणदालिगिहारुभये भंगा पुणरुत्तगा होंति ॥ ५७६ ॥

देवयुतैकस्थाने नरत्रिंशति अप्रमत्तभुजाकाराः ।

पञ्चचत्वारिंशदेकाहारोभयेषु भङ्गाः पुनरुक्तका भवन्ति ॥ ५७६ ॥

अर्थ—देवगतिसहित एकके स्थानमें और मनुष्यगतियुक्त तीसके स्थानमें अप्रमत्तगुणस्थानमें ४५ भुजाकार भंग होते हैं । एक तीर्थकर प्रकृतिसहित, आहारकसहित और दोनों ही सहित—इन तीन स्थानोंमें जो भंग हैं वे पुनरुक्त हैं ॥ ५७६ ॥

अब उन ४५ भुजाकारबंधोंके भंगोंका विधान कहते हैं;—

इगि अड अट्टिगि अट्टिगिभेदड अट्टड दुणव य वीस तीसेके ।

अडिगिगि अडिगिगि विहि उणखिगि इगिइगितीस देवचउ कमसो ॥५७७॥

एकमष्ट अष्टैकमष्टैकभेदमष्टाष्टाष्ट द्विनव च विंशतिः त्रिंशदेकान् ।

अष्टैकमेकमष्टैकैकं द्वाभ्यामेकोनखैकैकैकत्रिंशत् देवचतुष्कं क्रमशः ॥ ५७७ ॥

अर्थ—नीचेकीपंक्तिके १, ८, ८, १, ८, १, १, १, १, १ भंगोंकर सहित २८, २८, २९, २९, ३०, ३०, ३१, ३१, ३१ प्रकृतिरूप स्थानोंमें ऊपरकी पंक्तिके ८, १, १, ८, १, १, १, १, १, १, भंगोंसहित २९, ३०, ३१, ३१, ३१ और देवसहित चार स्थानोंको क्रमसे बांधता है । सो एक २ ऊपरकी पंक्तिके स्थानभंगोंको एक एक नीचेकी पंक्तिके स्थानभंगोंके साथ गुणाकरनेसे सब ४५ भुजाकारभंग होते हैं ॥ ५७७ ॥

आगे अप्रमत्तके अल्पतरभंगोंको कहते हैं;—

इगिविहिगिगि खखतीसे दस णव णवडधियवीसमड्विहं ।

देवचउकेकेके अपमत्तप्पदरछत्तीसा ॥ ५७८ ॥

एकविधिकमेकखखत्रिंशत् दशनव नवाष्टाधिकविंशमष्टविधम् ।

देवचतुष्कमेकैकेन अप्रमत्ताल्पतरपट्टत्रिंशत् ॥ ५७८ ॥

अर्थ—एक एक भंगसहित एक शून्य शून्य शून्य अधिक तीस प्रकृतिरूप स्थानोंको बांधके आठ आठ भंगोंसहित दस नौ नौ आठ अधिक तीस प्रकृतिरूप स्थानोंको तथा एक

एक भंगसहित देवगतियुक्त चार स्थानोंको बांधता है । इस प्रकार अप्रमत्तगुणस्थानमें ३६ अल्पतरं भंग होते हैं ॥ ५७८ ॥

आगे भुजाकारादि भंगोंको एकत्र (इकट्ठे) करके कहते हैं?—

सव्वपरट्टाणेण थ अयदपमत्तिदरसव्वभंगा हु ।

मिच्छस्सभंगमज्झे मिलिदे सव्वे हवे भंगा ॥ ५७९ ॥

सर्वपरस्थानेन च अयतप्रमत्तेतरसर्वभङ्गा हि ।

मिथ्यस्य भङ्गमध्ये मिलिते सर्वे भवन्ति भङ्गाः ॥ ५७९ ॥

अर्थ—सर्वपरस्थानोंकर तथा 'च' शब्दसे स्वस्थान और परस्थानकर सहित जो असंयत और अप्रमत्तके सब भुजाकारादि भंग हैं वे मिथ्यादृष्टिके भंगोंमें मिलाये जानेपर नामकर्मके भुजाकारादि भंग नियमसे होते हैं ॥ ५७९ ॥

आगे उनभंगोंकी सिद्धिका साधारण उपाय दो गाथाओंसे कहते हैं;—

भुजगारा अप्पदरा हवन्ति पुव्ववरठाणसंताणे ।

पयडिसमोऽसंताणोऽपुनरुत्तेत्ति य समुद्धिट्ठो ॥ ५८० ॥

भुजाकारा अल्पतरा भवन्ति पूर्वापरस्थानसंताने ।

प्रकृतिसमः असंतानोऽपुनरुत्तेत्ति च समुद्धिट्ठः ॥ ५८० ॥

अर्थ—पहलेस्थानको तथा पीछेके स्थानको बहुत प्रकृति तथा थोड़ी प्रकृतियों करके यथा संभव मिलान किया जाय तो क्रमसे भुजाकार और अल्पतर भंग होते हैं । और प्रकृतियोंकी समान संख्या होनेपर भी प्रकृतियोंका समुदाय प्रकृतिभेद सहित हो वह अपुनरुक्त भंग कहा गया है ॥ ५८० ॥

भुजगारे अप्पदरेऽवत्तव्वे ठाइदूण समबंधो ।

होदि अवट्ठिदबंधो तव्वभंगा तस्स भंगा हु ॥ ५८१ ॥

भुजाकारानल्पतरानवक्तव्यान् स्थापयित्वा समबन्धः ।

भवति अवस्थितबन्धः तद्भङ्गाः तस्य भङ्गा हि ॥ ५८१ ॥

अर्थ—भुजाकार, अल्पतर और अवक्तव्यभंगोंको स्थापनकरके जिनजिन भंगोंसहित प्रकृतियोंका एक समयमें बंध होकर उन उन प्रकृतियोंका द्वितीयादि समयमें भी समान बंध हो उसे अवस्थित बंध कहते हैं । और उन तीनोंके जितने भंग हैं उतने ही अवस्थितके भंग होते हैं ॥ ५८१ ॥

आगे उन अवक्तव्यभंगोंको कहते हैं;—

पडिय मरियेक्कमेक्कूणतीस तीसं च बंधगुवसंते ।

बंधो हु अवत्तव्वो अवट्ठिदो विदियसमयादी ॥ ५८२ ॥

पतित्वा मृत्वा एकमेकोनत्रिंशत् त्रिंशच्चबन्धकोपशान्ते ।

बन्धस्तु अवक्तव्य अवस्थितो द्वितीयसमयादिः ॥ ५८२ ॥

अर्थ—उपशांतकषायगुणस्थानसे पड़कर एकके स्थानको बाधै सो एकतो यह अप्थवा मरणके देव असंयत होनेपर आठ २ भंगोंसहित मनुष्यगतियुक्त २९ के स्थान को तथा तीर्थ-कर मनुष्यसहित ३० के स्थानको बांधे इन दोनोंके १६—इसतरह १७ अवक्तव्यभंग जानना चाहिये । और द्वितीयादिसमयमें भी उन्हींके समान बंध हो वहां पर उतने ही अवस्थितबंध होते हैं ॥ ५८२ ॥ इस प्रकार नामकर्मके बंधस्थान कहे हैं ।

आगे नामकर्मके उदयस्थानोंको २२ गाथाओंसे कहते हैं;—

विग्रहकम्मसरीरे सरीरमिस्से सरीरपज्जत्ते ।

आणावचिपज्जत्ते क्रमेण पंचोदये काला ॥ ५८३ ॥

विग्रहकर्मशरीरे शरीरमिश्रे शरीरपर्याप्ते ।

आनवचःपर्याप्ते क्रमेण पञ्च उदये कालाः ॥ ५८३ ॥

अर्थ—नामकर्मके उदयस्थान विग्रहगति अथवा कार्माण शरीरमें, मिश्र (अपर्याप्त) शरीरमें, शरीर पर्याप्तमें, आनपर्याप्ति अर्थात् श्वासोच्छ्वास पर्याप्तिमें, वचनपर्याप्तिमें नियत-काल हैं अर्थात् जिसकालमें उदय योग्य हैं उसी कालमें उदय होते हैं । इसतरह इनके पांच काल हुए ॥ ५८३ ॥

अब इन कालोंका प्रमाण कहते हैं;—

एकं व दो व तिण्णि व समया अंतोमुहुत्तयं तिसुवि ।

हेट्ठिमकालूणाओ चरिमस्स य उदयकालो दु ॥ ५८४ ॥

एको व द्वौ वा त्रयो वा समया अन्तर्मुहूर्त्तकः त्रिष्वपि ।

अधस्तनकालोनः चरमस्य च उदयकालस्तु ॥ ५८४ ॥

अर्थ—उन उदय कालोंका प्रमाण क्रमसे १ समय वा २ समय अथवा ३ समय वि-ग्रहगतिमें, और शरीरमिश्रादि ३ में अंतर्मुहूर्त्त २ प्रमाण है, और अंतकी भाषापर्याप्तिमें पूर्वकथित चारोंका काल घटानेसे शेषमुज्यमान आयुप्रमाण काल जानना ॥ ५८४ ॥

आगे उन पांच कालोंको जीवसमासमें दिखलाते हैं;—

सवापज्जत्ताणं दोण्णिवि काला चउक्कमेयक्खे ।

पंचवि होंति तसाणं आहारस्सुवरिमचउक्कं ॥ ५८५ ॥

सर्वापर्याप्तानां द्वावपि कालौ चतुष्कमेकाक्षे ।

पञ्चापि भवन्ति त्रसानामाहारस्योपरिमचतुष्कम् ॥ ५८५ ॥

अर्थ—सब लब्धपर्याप्तकोंमें पहलेके २ काल, एकेंद्रोंमें ४ काल, त्रसोंमें ५ काल हैं और आहारकशरीरमें पहलेके विना आगेके ४ काल हैं ॥ ५८५ ॥

अर्थ—२१ के स्थानके चारोंगतिके जीव स्वामी हैं, २४ क एकेंद्री, २५ के विशेष-मनुष्य-देव-नारकी-एकेंद्री स्वामी हैं, २६ के एकेंद्री-तेइंद्री-चौइंद्री-पंचेंद्री-सामान्य-जीव स्वामी हैं, २७ के विशेषपुरुष-देव-नारकी-एकेंद्री स्वामी हैं, २८ और २९ के स्थानके सामान्यपुरुष-पंचेंद्री-विकलेंद्री-विशेषपुरुष-देव-नारकी स्वामी हैं, ३० के पंचेंद्री-विकलेंद्री-सामान्यपुरुष स्वामी हैं, ३१ के सयोगकेवली-पंचेंद्री-दोइंद्रीआदि-विकलेंद्री जीव स्वामी हैं ॥ ५९३।५९४ ॥ ९ और ८ के स्थानके अयोगकेवली स्वामी हैं ।

एगे इगिवीसपणं इगिळ्वीसट्टवीसतिण्णि णरे ।

सयले वियलेवि तहा इगितीसं चावि वचिटाणे ॥ ५९५ ॥

सुरणिरयविसेसणरे इगिपणसगवीसतिण्णि समुघादे ।

मणुसं वा इगिवीसे वीसं रूवाहियं तित्थं ॥ ५९६ ॥

वीसदु चउवीसचऊ पणळ्वीसादिपंचयं दोसु ।

उगुतीसति पणकाले गयजोगे होंति णव अट्टं ॥५९७॥विसेसयं ।

एकस्मिन्नेकविंशतिपञ्च एकपड्डिंशाष्टविंशत्रीणि नरे ।

सकलेविकलेपि तथा एकत्रिंशत् चापि वचःस्थाने ॥ ५९५ ॥

सुरनिरयविशेषनरे एकपञ्चसप्तविंशत्रीणि समुद्धाते ।

मनुष्यं वा एकविंशे विंशं रूपाधिकं तीर्थम् ॥ ५९६ ॥

विंशद्विकं चतुर्विंशचतुष्कं पञ्चपाड्डिंशादिपञ्चकं द्वयोः ।

एकोनत्रिंशत्रिकं पञ्चकालेषु गतयोगे भवन्ति नवाष्ट ॥५९७॥ विशेषकम् ।

अर्थ—पहले कहे हुए पांचकालोंमें यथासंभव क्रमसे एकेन्द्रीके उदय योग्य २१ आदि पांच स्थान हैं, मनुष्यके उदययोग्य २१-२६ और २८ आदि तीन स्थान, इस तरह ५ स्थान हैं; सकलेन्द्री अर्थात् पंचेंद्री और दोइन्द्रीआदि विकलेंद्रीतिर्थोंके उदययोग्य २१ आदि ५ स्थान और भाषापर्याप्तिसमें ३१ का स्थान—इसप्रकार ६ स्थान हैं, देव नारकी, आहारक और केवल सहित विशेष मनुष्य इनके २१-२५-२७ आदि ३, इसप्रकार ५ स्थान उदय योग्य हैं; समुद्धातकेवलीके मनुष्यकी तरह २१ मेंसे २० का ही स्थान होता है क्योंकि आनुपूर्वी कम हो जाती है । तीर्थकर समुद्धातकेवलीके तीर्थकर प्रकृति बढ़नेसे २१ का स्थान होता है, इस प्रकार केवलीके २० और २१ के दो स्थान उदय योग्य हैं; मिश्रशरीरकालमें २४ आदि ४ चार स्थान, शरीर पर्याप्तिकालमें २५ आदि ५ स्थान, आनप्रान (श्वासोच्छ्वास) पर्याप्तिकालमें २६ आदि पांच स्थान, भाषापर्याप्तिकालमें २९ आदि ३ स्थान उदय योग्य हैं । और अयोगीकेवलीके ९ और ८ का ये दो स्थान उदय योग्य हैं ॥ ५९५।५९६।५९७ ॥

अत्र अयोगीगुणस्थानके दो स्थानोंका स्वरूप कहते हैं;—

गयजोगस्स य वारे तदियाउगगोद इदि विहीणेसु ।

णामस्स य णव उदया अट्टेव य तित्थहीणेसु ॥ ५९८ ॥

गतयोगस्य च द्वादश तृतीयायुष्कगोत्रमिति विहीनेषु ।

नाम्नश्च नव उदया अष्टैव च तीर्थहीनेषु ॥ ५९८ ॥

अर्थ—अयोगकेवलीकी १२ उदय प्रकृतियोंमेंसे वेदनीय-आयु-गोत्र इनकी ३ प्रकृतियां कम करनेपर नाम कर्मकी ९ उदय योग्य हैं । और जो तीर्थकर प्रकृति नहीं हो तो ८ ही उदय योग्य हैं ॥ ५९८ ॥

आगे नामकर्मके उदय स्थानोंमें भंगोंको कहते हैं;—

संठाणे संहडणे विहायजुम्मे य चरिमचदुजुम्मे ।

अविरुद्धेक्कदरादो उदयट्ठाणेसु भंगा हु ॥ ५९९ ॥

संस्थाने संहनने विहाययुग्मे च चरमचतुर्युग्मे ।

अविरुद्धैकतरस्मात् उदयस्थानेषु भङ्गा हि ॥ ५९९ ॥

अर्थ—६ संस्थानोंमेंसे, ६ संहननोंमेंसे, विहायोगतियुगलमेंसे, और अंतके सुभग आदि ४ युगलोंमेंसे अविरोधी एक एक प्रकृतिका ग्रहण करनेपर नामकर्मके भंग होते हैं । इन सबको आपसमें गुणाकरनेसे ११५२ भंग हो जाते हैं ॥ ५९९ ॥

आगे उन भंगोंमेंसे नारक आदि ४१ जीव पदोंमें संभव होनेवाले भंगोंको ३ गाथाओंसे कहते हैं;—

तत्थासत्था णारयसाधारणसुहुमगे अपुण्णे य ।

सेसेगविगलऽसण्णीजुदठाणे जसजुगे भंगा ॥ ६०० ॥

तत्राशस्ता नारकसाधारणसूक्ष्मके अपूर्णे च ।

शेषैकविकलासंज्ञियुतस्थाने यशोयुग्मे भङ्गाः ॥ ६०० ॥

अर्थ—उन उदय प्रकृतियोंमेंसे अप्रशस्त प्रकृतियोंका उदय नारकी-साधारणवनस्पती-सब सूक्ष्म-लब्धपर्याप्तक इन सबमें है इस कारण एक एक भंग है । शेष एकेन्द्री-विकलेन्द्री-असंज्ञीपंचेद्री इनमें पूर्वकथित अप्रशस्तका उदय तो है ही परंतु यशस्कीर्ति-अयशस्कीर्ति इन दोनोंमेंसे किसी एकका उदय होनेसे उदयस्थानोंमें दो दो भंग हो जाते हैं अर्थात् एक यशस्कीर्ति उदयस्थान १ दूसरा अयशस्कीर्ति उदयस्थान २ इस तरह दो भेद होते हैं ॥ ६०० ॥

सण्णिम्मि मणुस्सम्मि य ओघेक्कदरं तु केवले वज्जं ।

सुभगादेज्जसाणि य तित्थजुदे सत्थमेदीदि ॥ ६०१ ॥

संज्ञिनि मनुष्ये च ओघैकतरं तु केवले वज्रम् ।

सुभगादेययशांसि च तीर्थयुते शस्तमेतीति ॥ ६०१ ॥

अर्थ—संज्ञी पंचेन्द्रीके और मनुष्यके सामान्यकथनवत् एक एकका उदय होनेसे ११५२ भंग होते हैं । केवलज्ञानअवस्थामें वज्रर्षभनाराचसंहनन १ सुभग २ आदेय ३ यशस्कीर्ति ४ इनका उदय होता है । तीर्थकरप्रकृति सहित केवलीके अर्थात् तीर्थकर केवलीके सब प्रशस्त प्रकृतियोंका ही उदय होनेसे उनके उदयस्थानोंमें एक एक ही भंग है ॥ ६०१ ॥

देवाहारे सत्थं कालविथप्पेसु भंगमाणेज्जो ।

वोच्छिण्णं जाणित्ता गुणपडिवण्णेसु सत्त्वेसु ॥ ६०२ ॥

देवाहारे शस्तं कालविकल्पेषु भङ्ग आनेयः ।

व्युच्छिन्नं ज्ञात्वा गुणप्रतिपन्नेषु सर्वेषु ॥ ६०२ ॥

अर्थ—चारप्रकारके देवोंमें और आहारकशरीरसहित प्रमत्तमें प्रशस्तप्रकृतियोंका ही उदय है, इसकारण उनके सबकालके उदयस्थानोंमें एक एक ही भंग है । और सासादनादिगुणस्थानोंको प्राप्त हुए जीवोंमें अथवा विग्रहगतिकार्माणिकादिकके कालमें व्युच्छिन्न प्रकृतियोंको जानकर शेष प्रकृतियोंके भंग यथासंभव समझलेना ॥ ६०२ ॥

वीसादीणं भंगा इगिदालपदेसु संभवा कमसो ।

एकं सट्ठी चेव य सत्तावीसं च उगुवीसं ॥ ६०३ ॥

वीसुत्तरछच्चसया वारस पण्णत्तरीहि संजुत्ता ।

एक्कारससयसंखा सत्तरससयाहिया सट्ठी ॥ ६०४ ॥

ऊणत्तीससयाहियएक्कावीसा तदोवि एकट्ठी ।

एक्कारससयसहिया एक्केक विसरिसया भंगा ॥ ६०५ ॥ विसेसयं ।

विंशादीनां भङ्गा एकचत्वारिंशत्पदेषु संभवाः क्रमशः ।

एकः षष्टिः चैव च सप्तविंशं च एकोनविंशम् ॥ ६०३ ॥

विंशोत्तरषट् च शतानि द्वादश पञ्चसप्ततिभिः संयुक्ताः ।

एकादशशतसंख्या सप्तदशशताधिकाः षष्टिः ॥ ६०४ ॥

एकोनत्रिंशच्छताधिकैकविंशं ततोपि एकषष्टिः ।

एकादशशतसहिता एकैकं विसदृशगा भङ्गाः ॥ ६०५ ॥ विशेषकम् ।

अर्थ—२० के स्थान को आदिलेकर स्थानोंके भंग ४१ जीवपदोंकी अपेक्षा यथासंभव क्रमसे १, ६०, २७; १९, ६२०, १२, ११७५, १७६०, २९२१, ११६१, तीर्थसमुद्धातकेवलीका १ पुनरुक्तभंग, अयोगकेवलीके तीर्थकर प्रकृति सहितका १ और तीर्थकर रहितका १ भंग—इसप्रकार ७७५८ भंग होते हैं ॥ ६०३ । ६०४ । ६०५ ॥

आगे उन पुनरुक्तभंगोंको कहते हैं;—

सामण्णकेवलिस्स समुग्घादगदस्स तस्स वचि भंगा ।
तित्थस्सवि सगभंगा समेदि तत्थेक्कमवणिज्जो ॥ ६०६ ॥

सामान्यकेवलिनः समुद्धातगतस्य तस्य वचसि भङ्गाः ।
तीर्थस्यापि स्वकभङ्गाः समा इति तत्रैकोपनेयः ॥ ६०६ ॥

अर्थ—भाषापर्याप्तिकालमें सामान्यकेवलीके तथा समुद्धातसहितसामान्यकेवलीके २४ भंग समान हैं । और तीर्थकर केवली व तीर्थकर समुद्धातकेवलीके ३१ के स्थानमें एक एक भंग है वह समान है इसकारण २५ भंग पुनरुक्त होनेसे ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ ६०६ ॥

आगे गुणस्थानोंमें उन भंगोंको कहते हैं;—

णारयसण्णिमणुस्ससुराणं उवरिमगुणाण भंगा जे ।
पुणरुत्ता इदि अवणिय भणिया मिच्छस्स भंगेसु ॥ ६०७ ॥

नारकसंज्ञिमनुष्यसुराणामुपरितनगुणानां भङ्गा ये ।
पुनरुक्ता इति अपनीय भणिता मिथ्यस्य भङ्गेषु ॥ ६०७ ॥

अर्थ—नारकी-संज्ञीतिर्येच-मनुष्य-देव इनके ऊपरके अर्थात् सासादनादिगुणस्थानोंमें जो भंग हैं वे मिथ्यादृष्टिके भंगोंके समान होनेसे पुनरुक्त हैं, इसलिये वे घटाकर केवल मिथ्यादृष्टिके भंगोंमें कहे गये हैं ॥ ६०७ ॥

अब उन भंगोंका सब जोड़ कहते हैं;—

अडवण्णा सत्तसया सत्तसहस्सा य होंति पिंडेण ।
उदयट्टाणे भंगा असहायपरक्कमुद्दिट्ठा ॥ ६०८ ॥
अष्टपञ्चाशत् सप्तशतानि सप्तसहस्राणि च भवन्ति पिण्डेन ।
उदयस्थाने भङ्गा असहायपराक्रमोद्दिष्टाः ॥ ६०८ ॥

अर्थ—सहायतारहित पराक्रमवाले श्री महावीर स्वामीने सब मिलाकर ७७५८ भंग उदयस्थानोंमें कहे हैं ॥ ६०८ ॥

आगे नामकर्मके सत्त्वस्थानका प्रकरण १९ गाथाओंसे कहते हैं;—

तिदुइगिणउदी णउदी अडचउदोअहियसीदि सीदी य ।
ऊणासीदट्टत्तरि सत्तत्तरि दस य णव सत्ता ॥ ६०९ ॥
त्रिद्वयैकनवतिः नवतिः अष्टचतुर्द्वयधिकाशीतिरशीतिश्च ।
एकोनाशीत्यष्टसप्तती सप्ततिः दश च नव सत्त्वानि ॥ ६०९ ॥

अर्थ—९३, ९२, ९१, ९०, ८८, ८४, ८२, ८०, ७९, ७८, ७७, १० और ९ प्रकृतिरूप—नामकर्मके १३ सत्त्व स्थान हैं ॥ ६०९ ॥

अत्र उनकी विधि बतलाते हैं;—

सर्वं तित्थाहारुभऊणं सुरणिरयणरदुचारिदुगे ।

उव्वेह्लिदे हदे चउ तेरे जोगिस्स दसणवयं ॥ ६१० ॥

सर्व तीर्थाहारोभयोनं सुरनिरयणरद्विचतुद्विके ।

उद्वेलिते हते चतुष्कं त्रयोदश योगिनः दशनवकम् ॥ ६१० ॥

अर्थ—नामकर्मकी प्रकृतिरूप सब ९३ का स्थान है, उनमेंसे तीर्थकर घटानेसे ९२ का स्थान, आहारकयुगल घटानेसे ९१ का, तीनों घटानेसे ९० का स्थान होता है, उस ९० के स्थानमें देवगति १ देवगत्यानुपूर्वी इन दोनोंकी उद्वेलना होनेसे ८८ का स्थान होता है, इसमें भी नरकगति आदि ४ प्रकृतियोंकी उद्वेलना होनेपर ८४ का स्थान होता है, इसमें भी मनुष्यगति—मनुष्यगत्यानुपूर्वी इन दोनोंकी उद्वेलना होनेसे ८२ का स्थान होता है, तथा ९३ आदि चार (९३—९२—९१—९०) स्थानोंमें अनिवृत्तिकरणमें क्षय होनेवाली १३ प्रकृतियोंके घटानेसे ८०—७९—७८—७७ के स्थान होते हैं । और अयोगकेवलीके १० का और ९ का स्थान होता है ॥ ६१० ॥

आगे उन १० के तथा ९ के स्थानमें प्रकृतियोंको कहते हैं;—

गयजोगस्स दु तेरे तदियाउगगोदइदि विहीणेसु ।

दस णामस्स य सत्ता णव चैव य तित्थहीणेसु ॥ ६११ ॥

गतयोगस्य तु त्रयोदशसु तृतीयायुष्कगोत्रेति विहीनेषु ।

दश नाम्नश्च सत्ता नव चैव च तीर्थहीनेषु ॥ ६११ ॥

अर्थ—अयोगकेवलीके १३ प्रकृतियोंमेंसे वेदनीय—आयु—गोत्र, ये तीन प्रकृतियां कम करनेसे नामकर्मकी १० प्रकृतियोंका सत्त्व है । यदि तीर्थकर प्रकृति भी घटादी जावे तो ९ प्रकृतियोंका सत्त्वस्थान होता है ॥ ६११ ॥

आगे उद्वेलनास्थानोंमें विशेषता कहते हैं;—

गुणसंजादप्पयडिं मिच्छे बंधुदयगंधहीणम्मि ।

सेसुव्वेह्लणपयडिं णियमेणुव्वेह्लिदे जीवो ॥ ६१२ ॥

गुणसंजातप्रकृतिं मिथ्ये बन्धोदयगन्धहीने ।

शेषोद्वेलनप्रकृतिं नियमेनोद्वेह्लयति जीवः ॥ ६१२ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमें जिनप्रकृतियोंके बंधकी अथवा उदयकी वासनाभी नहीं ऐसीं सम्यक्तत्वगुणसे उत्पन्न हुईं सम्यक्त्वमोहनीय—मिश्रमोहनीय—आहारकयुगल, इन चार प्रकृतियोंकी तथा शेष उद्वेलनप्रकृतियोंकी उद्वेलना यह जीव मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें करता है ॥ ६१२ ॥

अब उसका क्रम कहते हैं;—

सत्थत्तादाहारं पुवं उव्वेल्लदे तदो सम्मं ।

सम्मामिच्छं तु तदो एगो विगलो य सगलो य ॥ ६१३ ॥

शस्तत्वादाहारं पूर्वमुद्वेलयति ततः सम्यक् ।

सम्यग्मिथ्यं तु तत एको विकलश्च सकलश्च ॥ ६१३ ॥

अर्थ—आहारकयुगल प्रशस्तप्रकृतियां है इसलिये चारों गतिके मिथ्यादृष्टि जीव पहले इन दोनोंकी उद्वेलना करते हैं । पीछे सम्यक्त्वप्रकृतिकी, उसके बाद सम्यग्मिथ्यात्वमोहनीयकी उद्वेलना करते हैं । उसके बाद एकेन्द्री—विकलेंद्री और सकलेन्द्रिय जीव शेष देवद्विकादिकोंकी उद्वेलना करते हैं ॥ ६१३ ॥

आगे उस उद्वेलनाके अवसरका काल कहते हैं;—

वेदगजोग्गे काले आहारं उवसमस्स सम्मत्तं ।

सम्मामिच्छं चेगे वियले वेगुव्वल्लकं तु ॥ ६१४ ॥

वेदकयोग्ये काले आहारमुपशमस्य सम्यक्त्वम् ।

सम्यग्मिथ्यं चैकस्मिन् विकले वैगूर्वषट्ठं तु ॥ ६१४ ॥

अर्थ—वेदकसम्यक्त्वयोग्यकालमें आहारककी उद्वेलना, उपशमकालमें सम्यक्त्वप्रकृति वा सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी उद्वेलना करता है । और एकेन्द्रिय तथा दोइन्द्रिय पर्यायमें वैक्रियिकषट्ककी उद्वेलना करता है ॥ ६१४ ॥

आगे उन दोनों कालोंका लक्षण कहते हैं;—

उदधिपुधत्तं तु तसे पल्लासंखूणमेगमेयक्खे ।

जाव य सम्मं मिस्सं वेदगजोग्गो य उवसमस्स तदो ॥ ६१५ ॥

उदधिपृथत्तवं तु त्रसे पल्यासंख्योनमेकमेकाक्षे ।

यावच्च सम्यं मिश्रं वेदकयोग्यश्च उपशमस्य ततः ॥ ६१५ ॥

अर्थ—सम्यक्त्वमोहनीयकी और मिश्रमोहनीयकी स्थितिमेंसे पृथक्त्वसागर काल त्रसके शेष रहै और पल्यके असंख्यातवें भाग कम एक सागर काल एकेन्द्रीके शेष रह जावे वह “वेदकयोग्य काल” है । और उससे भी सत्तारूप स्थिति कम हो तो वह उपशमकाल कहा जाता है ॥ ६१५ ॥

आगे तेजकाय और वायुकायके उद्वेलन प्रकृतियोंको दिखाते हैं;—

तेउदुगे मणुवदुगं उच्चं उव्वेल्लदे जहण्णिणदरं ।

पल्लासंखेज्जदिमं उव्वेल्लणकालपरिमाणं ॥ ६१६ ॥

तेजोद्विके मनुष्यद्विकमुच्चमुद्वेल्यते जघन्येतरत् ।

पल्यासंख्येयिममुद्वेल्लनकालपरिमाणम् ॥ ६१६ ॥

अर्थ—तेजकाय और वायुकायके मनुष्यगतियुगल और उच्चगोत्र—इन तीनकी उद्वेलना

होती है । और उस उद्वेलनाके कालका प्रमाण जघन्य अथवा उत्कृष्ट पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ॥ ६१६ ॥

अब उसीको कहते हैं;—

पल्लासंखेज्जदिमं ठिदिमुव्वेह्जदि मुहुत्तअंतेण ।

संखेज्जसायरठिदिं पल्लासंखेज्जकालेण ॥ ६१७ ॥

पल्यासंख्येयिमां स्थितिमुद्वेलयति मुहूर्तान्तरेण ।

संख्येयसागरस्थितिं पल्यासंख्येयकालेन ॥ ६१७ ॥

अर्थ—पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थितिकी अंतर्मुहूर्तकालमें उद्वेलना करता है तो संख्यातसागर प्रमाण मनुष्यद्विकादिकी सत्त्वारूपस्थितिकी उद्वेलना त्रैराशिकसे पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण कालमें ही करसकता है ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ६१७ ॥

आगे सम्यक्त्वादिककी विराधना (छोड़देना) कितनी वार होती है यह कहते हैं—

सम्मत्तं देसजमं अणसंजोजणविहिं च उक्कस्सं ।

पल्लासंखेज्जदिमं वारं पडिवज्जदे जीवो ॥ ६१८ ॥

सम्यत्तवं देशयममनसंयोजनविधिं च उत्कृष्टम् ।

पल्यासंख्येयं वारं प्रतिपद्यते जीवः ॥ ६१८ ॥

अर्थ—प्रथमोपशमसम्यक्त्व, वेदक (क्षायोपशमिक) सम्यक्त्व, देशसंयम और अनन्तानुबंधीकषायके विसंयोजनकी विधि—इन चारोंको यह जीव उत्कृष्टपने अर्थात् अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यातवें भाग समयोंके प्रमाण वार छोड़ २ के ग्रहण करता है । पीछे नियमसे सिद्धपदको ही पाता है ॥ ६१८ ॥

चत्तारि वारमुवसमसेठिं समरुहदि खविदकम्मंसो ।

वत्तीसं वाराइं संजममुवलहिय णिव्वादि ॥ ६१९ ॥

चतुरो वारानुपशमश्रेणिं समारोहति क्षपित्तकर्माशः ।

द्वात्रिंशद्द्वारान् संयममुपलभ्य निर्वाति ॥ ६१९ ॥

अर्थ—उपशमश्रेणीपर अधिकसे अधिक चार दफे चढता है पीछे कर्मोंके अंशोंको क्षय करता हुआ क्षपकश्रेणी चढ मोक्षको ही जाता है । और सकलसंयमको उत्कृष्टपनेसे ३२ वार ही धारणकरके पीछे मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ६१९ ॥

आगे चारोंगतियोंकी अपेक्षासे गुणस्थानोंमें नामकर्मके सत्त्वस्थानोंकी योजना करते हैं;—

तित्थाहाराणुभयं सव्वं तित्थं ण मिच्छगादितिये ।

तस्सत्तकम्मियाणं तग्गुणठाणं ण संभवई ॥

सुरणरसम्मे पढमो सासणहीणेसु होदि वाणउदी ।

सुरसम्मे णरणारयसम्मे मिच्छे य इगिणउदी ॥ ६२० ॥

सुरनरसम्ये प्रथमं सासनहीनेषु भवति द्वानवतिः ।

सुरसम्ये नरनारकसम्ये मिथ्ये च एकनवतिः ॥ ६२० ॥

अर्थ—पहला ९३ का सत्त्वस्थान असंयतसम्यग्दृष्टि देवके तथा मनुष्यके होता है, सासादन रहित चारोंगतिके जीवोंके ९२ का स्थान होता है और ९१ का स्थान देव सम्यग्दृष्टीके तथा मनुष्य और नारकी सम्यग्दृष्टी अथवा मिथ्यादृष्टिके होता है ॥ ६२० ॥

णउदी चटुग्गदिम्मि य तेरसखवगोत्ति तिरियणरमिच्छे ।

अडचउसीदी सत्ता तिरिक्खमिच्छम्मि वासीदी ॥ ६२१ ॥

नवतिः चतुर्गतौ च त्रयोदशक्षपक इति तिर्यग्गरमिथ्ये ।

अष्टचतुरशीतिः सत्ता तिर्यञ्चमिथ्ये द्व्यशीतिः ॥ ६२१ ॥

अर्थ—९० का सत्त्वस्थान १३ प्रकृतियोंके क्षयवाले अनिवृत्तिकरण गुणस्थानपर्यंत चारोंगतियोंके जीवोंके होता है, ८८-८४ के दोनों स्थानोंकी सत्ता मिथ्यादृष्टि तिर्यच और मनुष्यके है, और ८२ का सत्त्वस्थान तिर्यचमिथ्यादृष्टिके होता है ऐसा जानना चाहिये ॥ ६२१ ॥

सीदादिचउट्टाणा तेरसखवगादु अणुवसमगेसु ।

गयजोगस्स दुचरिमं जाव य चरिमम्हि दसणवयं ॥ ६२२ ॥

अशीत्यादिचतुःस्थानानि त्रयोदशक्षपकादनुपशामकेषु ।

गतयोगस्य द्विचरमं यावच्च चरमे दशनवकम् ॥ ६२२ ॥

अर्थ—८० को आदिलेकर चार स्थान अर्थात् ८०-७९-७८-७७-के स्थान तेरह-प्रकृतिके क्षय करनेवाले क्षपक अनिवृत्ति करण गुणस्थानसे लेकर अयोगीके द्विचरमसमय तक पाये जाते हैं। और १० का तथा ९ का सत्त्वस्थान अयोगकेवलीके अंतसमयमें होता है ॥ ६२२ ॥

आगे ४१ जीव पदोंमें उन सत्त्वस्थानोंको कहते हैं;—

णिरये वा इगिणउदी णउदी भूआदिसवतिरियेसु ।

वाणउदी णउदी अडचउवासीदी य होंति सत्ताणि ॥ ६२३ ॥

निरये द्वयेकनवतिः नवतिः भ्वादि सर्वतिर्यक्षु ।

द्वानवतिः नवतिः अष्टचतुद्व्यशीतिश्च भवन्ति सत्त्वानि ॥ ६२३ ॥

अर्थ—नामकर्मके सत्त्वस्थान नारकी जीवोंमें ९२-९१-९० के इसतरह ३ हैं। और पृथिवीकायादि सब तिर्यचोंमें ९२-९०-८८-८४-८२ के इसतरह पांचपांच हैं ॥ ६२३ ॥

वासीदिं वज्जित्ता वारसठाणाणि होंति मणुवेसु ।

सीदादिचउट्टाणा छट्टाणा केवल्लिदुगेसु ॥ ६२४ ॥

द्वयशीतिं वर्जयित्वा द्वादशस्थानानि भवन्ति मानवेषु ।

अशीत्यादिचतुःस्थानानि पट्स्थानानि केवलिद्विकयोः ॥ ६२४ ॥

अर्थ—मनुष्योंमें ८२ के स्थानको छोड़कर शेष १२ स्थान होते हैं; परंतु सयोगकेवलीके ८० को आदिलेकर चार सत्त्वस्थान हैं, अयोगकेवलीके ८० को आदिलेकर ६ सत्त्वस्थान हैं ॥ ६२४ ॥

समविसमट्टाणाणि य कमेण तित्थिदरकेवलीसु हवे ।

तिट्टणवदी आहारे देवे आदिमचउक्कं तु ॥ ६२५ ॥

समविषमस्थानानि च क्रमेण तीर्थंतरकेवलिनोः भवेयुः ।

त्रिद्विनवतिः आहारे देवे आदिमचतुष्कं तु ॥ ६२५ ॥

अर्थ—केवलीके जो स्थान कहे थे वे समसंख्यावाले तीर्थंकर केवलीके और विषमसंख्यावाले स्थान तीर्थंकरप्रकृति रहित सामान्यकेवलीके होते हैं । आहारकमें ९३-९२ के दो स्थान हैं । और विमानवासी देवोंमें आदिके ४ सत्त्वस्थान होते हैं ॥ ६२५ ॥

वाणउदिणउदिसत्ता भवणतियाणं च भोगभूमीणं ।

हेट्टिमपुढविचउक्कभवणं च य सासणे णउदी ॥ ६२६ ॥

द्वानवतिनवतिसत्ता भवनत्रिकानां च भोगभूमीनाम् ।

अधस्तनपृथिवीचतुष्कभवानां च च सासने नवतिः ॥ ६२६ ॥

अर्थ—भवनत्रिक देवोंके, भोगभूमियाओंके और नीचेकी अंजनादि चार नरकपृथिवी-योंमें ९२-९० इन दो स्थानोंकी सत्ता है । तथा सासादन गुणस्थानमें सब जीवोंके ९० का ही सत्त्वस्थान है ॥ ६२६ ॥ इस प्रकार बंधोदयसत्त्वकी अपेक्षा भंग कहे ।

आगे प्रकृतियोंके बंधोदयसत्त्वके त्रिसंयोगी भंग कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं;—

मूलोत्तरपयडीणं बंधोदयसत्तठाणभंगा हु ।

भणिदा हु तिसंजोगे एत्तो भंगे परूवेमो ॥ ६२७ ॥

मूलोत्तरप्रकृतीनां बन्धोदयसत्त्वस्थानभङ्गा हि ।

भणिता हि त्रिसंयोगे इतो भङ्गान् प्ररूपयामः ॥ ६२७ ॥

अर्थ—इसप्रकार मूलप्रकृतियोंके और उत्तरप्रकृतियोंके बंधोदयसत्त्वरूप स्थान तथा भंग कहे। इसके बाद अब हम बंध—उदय—सत्ता इनके त्रिसंयोगी भंगोंका निरूपण करते हैं ॥ ६२७ ॥ यही कहते हैं;—

अट्टविहसत्तच्छब्धगेषु अट्टेव उदयकम्मंसा ।

एयविहे तिवियप्पो एयवियप्पो अबंधम्मि ॥ ६२८ ॥

अष्टविधसप्तपद्मबन्धकेषु अष्टैव उदयकर्मांशाः ।

एकविधे त्रिविकल्प एकविकल्प अबन्धे ॥ ६२८ ॥

अर्थ—ज्ञानावरणादि ८ प्रकारके बंधवाले—सात प्रकार बंधवाले छह प्रकार बंधवाले जीवोंके उदय और सत्त्व आठ आठ प्रकार ही जानना । जिसके एक प्रकार मूल प्रकृतिका बंध है उसके उदय ७ प्रकार सत्त्व ८ प्रकार, उदय—सत्त्व दोनों सात सात प्रकार अथवा चार चार प्रकारके होनेसे तीन भेद होते हैं । जिसके एक प्रकृतिका भी बंध नहीं है उसके उदय और सत्त्व चार २ प्रकारके होनेसे एक ही विकल्प होता है ॥ ६२८ ॥

आगे इन त्रिसंयोगी भंगोंको गुणस्थानोंमें घटित करते हैं;—

मिस्से अपुव्वजुगले विदियं अपमत्तओत्ति पढमदुगं ।

सुहुमादिसु तदियादी बंधोदयसत्तभंगेसु ॥ ६२९ ॥

मिश्रे अपूर्वयुगले द्वितीयमप्रमत्त इति प्रथमद्विकम् ।

सूक्ष्मादिषु तृतीयादिः बन्धोदयसत्त्वभङ्गेषु ॥ ६२९ ॥

अर्थ—उन बंध उदय सत्त्वके भंगोंमेंसे गुणस्थानोंकी अपेक्षा मिश्रगुणस्थान—अपूर्वकरण—अनिवृत्तिकरण, इन तीन गुणस्थानोंमें दूसरा भंग है । मिश्रके विना अप्रमत्तगुणस्थान—पर्यंत ६ गुणस्थानोंमें पहला और दूसरा भंग है । और सूक्ष्मसांपराय आदि अयोगीपर्यंत तीसरा भंग आदि क्रमसे जानना ॥ ६२९ ॥

आगे उत्तरप्रकृतियोंमें त्रिसंयोगी भंगोंको कहते हैं;—

बंधोदयकम्मंसा णाणावरणंतरायिए पंच ।

बंधोपरमेवि तहा उदयंसा होंति पंचेव ॥ ६३० ॥

बन्धोदयकर्मांशा ज्ञानावरणान्तराययोः पञ्च ।

बन्धोपरमेपि तथा उदयांशा भवन्ति पञ्चैव ॥ ६३० ॥

अर्थ—ज्ञानावरण और अंतरायकर्मकी पांच पांच प्रकृतिरूप बंध उदय और सत्त्व सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानपर्यंत हैं । और बंधके अभाव होनेपर भी इन दोनोंकी उपशांतमोह और क्षीणमोहमें उदय सत्त्वरूप पांच पांच ही प्रकृतियां है ॥ ६३० ॥

विदियावरणे णवबंधगेसु चदुपंचउदय णवसत्ता ।

छवंधगेसु एवं तह चदुबंधे छडंसा य ॥ ६३१ ॥

उवरदबंधे चदुपंचउदय णव छच्च सत्त चदु जुगलं ।

तदियं गोदं आउं विभज्ज मोहं परं वोच्छं ॥ ६३२ ॥ जुम्मं ।

द्वितीयावरणे नवबन्धकेषु चतुःपञ्चोदयः नवसत्ता ।

षट्बन्धकेषु एवं तथा चतुर्वन्धे षडंशाश्च ॥ ६३१ ॥

उपरतबन्धे चतुःपञ्चोदयः नव पट् च सत्त्वं चतुष्कं युगलम् ।

तृतीयं गोत्रमायुर्विभज्य मोहं परं वक्ष्ये ॥ ६३२ ॥ युमम् ।

अर्थ— दूसरे दर्शनावरणकी ९ प्रकृतियोंके बंध करनेवालेके उदय ५ का अथवा ४ का और सत्ता ९ की ही होती है । ६ प्रकृतियोंके बंधकके इसीप्रकार उदय और सत्ता जानना । और ४ प्रकृतियोंके बंध करनेवालेके पूर्वोक्तप्रकार तथा ६ का भी सत्त्व पाया जाता है । जिसके बंधका अभाव है उसके उदय तो ४ वा ५ का है और सत्त्व ९ वा ६ का है तथा उदय—सत्त्व दोनोंही चार चारके हैं । अब वेदनीय गोत्रआयु, इन तीनोंके भंगोंको विभागकरके उसके बाद मोहनीयके भंगोंको कहूंगा ॥ ६३१।६३२ ॥

अब पहले वेदनीयके भंगोंको कहते हैं;—

सादासादेकदरं बंधुदया होंति संभवदृष्टाणे ।

दोसत्तं जोगिति य चरिमे उदयागदं सत्तं ॥ ६३३ ॥

छट्टोत्ति चारि भंगा दो भंगा होंति जाव जोगिजिणे ।

चउभंगाऽजोगिजिणे ठाणं पडि वेयणीयस्स ॥६३४॥ जुम्मं ।

सातासातैकतरं बन्धोदयौ भवतः संभवस्थाने ।

द्विसत्त्वं योगीति च चरमे उदयागतं सत्त्वम् ॥ ६३३ ॥)

षष्ठ इति चत्वारो भङ्गा द्वौ भङ्गौ भवतो यावत् योगिजिनम् ।

चतुर्भङ्गा अयोगिजिने स्थानं प्रति वेदनीयस्य ॥ ६३४ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—साता और असाता इन दोनोंमें एक ही का बंध तथा उदय योग्यस्थानमें होता है और सत्त्व दो दो का ही सयोगीपर्यंत है । अयोगीके जिसका उदय उसीका सत्त्व होता है । इसलिये वेदनीयकर्मके गुणस्थानों प्रति भंग इस प्रकार कहे हैं कि—प्रमत्तगुणस्थानपर्यंत चार भंग हैं, सयोगीजिनपर्यंत दो भंग होते हैं, और अयोगी गुणस्थानमें ४ भंग कहे हैं ॥ ६३३।६३४ ॥

आगे गोत्रकर्मके भंग कहते हैं;—

णीचुच्चाणेकदरं बंधुदया होंति संभवदृष्टाणे ।

दोसत्ताजोगिति य चरिमे उच्चं हवे सत्तं ॥६३५ ॥

नीचोच्चयोरेकतरं बंधोदयौ भवतः संभवस्थाने ।

द्विसत्त्वमयोगीति च चरमे उच्चं भवेत् सत्त्वम् ॥ ६३५ ॥

अर्थ—नीचगोत्र और ऊंचगोत्र इन दोनोंमेंसे एक ही का बंध तथा उदय यथायोग्य स्थानोंमें होता है । और सत्त्व तो अयोगीके अंतके दूसरे समयपर्यंत दोनोंका ही पाया जाता है । तथा अयोगीके अंतके समयमें उच्चगोत्रका ही सत्त्व होता है ॥ ६३५ ॥

उच्चुव्वेह्निदत्तेऊ वाउम्मि य णीचमेव सत्तं तु ।

सेसिगिवियले सयले णीचं च दुगं च सत्तं तु ॥ ६३६ ॥

उच्चोद्वेलिततेजसि वायौ च नीचमेव सत्त्वं तु ।

शेषैकविकले सकले नीचं च द्विकं च सत्त्वं तु ॥ ६३६ ॥

जिसके ऊंचगोत्रकी उद्वेलना हुई ऐसे तेजकायिक और वायुकायिकजीवोंके नीचगोत्रका ही सत्त्व है । और शेष एकेन्द्री-विकलेन्द्री तथा पंचेद्री, इनके नीचगोत्रका अथवा दोनोंका सत्त्व है ॥ ६३६ ॥

यही दिखलाते हैं;—

उच्चुव्वेल्लिदतेऊ वाऊ सेसे य वियलसयलेसु ।

उत्पण्णपढमकाले णीचं एयं हवे सत्तं ॥ ६३७ ॥

उच्चोद्वेलिततेजसि वायौ शेषे च विकलसकलेषु ।

उत्पन्नप्रथमकाले नीचमेकं भवेत् सत्त्वम् ॥ ६३७ ॥

अर्थ—उच्चगोत्रकी उद्वेलना सहित तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंके एक नीचगोत्रका ही सत्त्व है । और इन दोनोंका मरण होकर शेष एकेन्द्री-विकलेन्द्री और पंचेन्द्रीमें उत्पन्न होनेके अंतर्मुहूर्तकाल पहले एक नीचगोत्रका ही सत्त्व है, पीछे उच्चगोत्रको बांधनेसे दोनोंका सत्त्व होता है ॥ ६३७ ॥

मिच्छादिगोदभंगा पण चटु तिसु दोण्णि अट्टाणेसु ।

एकेका जोगिजिणे दो भंगा होंति णियमेण ॥ ६३८ ॥

मिथ्यादौ गोत्रभङ्गाः पञ्च चत्वारः त्रिषु द्वौ अष्टस्थानेषु ।

एकैकः अयोगिजिने द्वौ भङ्गौ भवन्ति नियमेन ॥ ६३८ ॥

अर्थ—गोत्रके भंग नियमसे मिथ्यादृष्टि और सासादन गुणस्थानोंमें क्रमसे ५ और ४ होते हैं, मिश्रादि तीन गुणस्थानोंमें दो दो भंग हैं, प्रमत्तादि आठ गुणस्थानोंमें गोत्रकर्मका एक एक ही भंग है, और अयोगकेवलीके दो भंग होते हैं ॥ ६३८ ॥

आगे आयुके भंग १३ गाथाओंसे कहते हैं;—

सुरणिरया णरतिरियं छम्मासवसिट्टगे सगाउस्स ।

णरतिरिया सत्ताउं तिभागसेसम्मि उक्कस्सं ॥ ६३९ ॥

भोगभूमा देवाउं छम्मासवसिट्टगे य वंधंति ।

इगिविगला णरतिरियं तेउदुगा सत्तगा तिरियं ॥ ६४० ॥ जुम्मं ।

सुरनिरया नरतिर्यञ्चं षण्मासावशिष्टके स्वकायुषः ।

नरतिर्यञ्चः सर्वायूषि त्रिभागशेषे उत्कृष्टम् ॥ ६३९ ॥

भोगभूमा देवायुः षण्मासावशिष्टके च वध्नन्ति ।

एकविकला नरतिर्यञ्चं तेजोद्विकौ सप्तकाः तिर्यञ्चम् ॥ ६४० ॥ युग्मम् ।

अर्थ—भुज्यमान अपनी आयुके अधिकसे अधिक ६ महीने शेष रहनेपर देव और

नारकी मनुष्यायु—तिर्यंचायुका बंध करते हैं । मनुष्य और तिर्यंच, अपनी आयुके तीसरे भागके शेष रहनेपर चारों आयुओंको बांधते हैं । भोगभूमिया जीव अपनी आयुके ६ महीने बाकी रहनेपर देवायुका बंध करते हैं । एकेन्द्री और विकलत्रय जीव, मनुष्यायु वा तिर्यंचायुको बांधते हैं, परंतु तेजकायिक—वायुकायिकजीव और सातवीं पृथिवीके नारकी तिर्यंचआयुका ही बंध करते हैं ॥ ६३९।६४० ॥ इसप्रकार आयुके बंधको कहा ।

अब आयुके उदयसत्त्वको कहते हैं;—

सगसगदीणमाजं उदेदि बंधे उदिण्णगेण समं ।

दो सत्ता हु अबंधे एक्कं उदयागदं सत्तं ॥ ६४१ ॥

स्वकस्वकगतीनामायुरुदेति बन्धे उदीर्णकेन समम् ।

द्वे सत्त्वे हि अबन्धे एकमुदयागतं सत्त्वम् ॥ ६४१ ॥

अर्थ—नारकीआदि जीवोंके अपनी अपनी गतिकी एक आयु ही उदय होती है । और परभवकी आयुका भी बंध हो जावे तो उदयरूप आयुसहित दो आयुकी सत्ता है, और जो परभवकी आयुका बंध न हो तो एक ही उदयागत आयुकी सत्ता है; ऐसा नियमसे जानना ॥ ६४१ ॥

एक्के एक्कं आज्ज एक्कभवे बंधमेदि जोग्गपदे ।

अडवारं वा तत्थवि तिभागसेसे व सव्वत्थ ॥ ६४२ ॥

एकस्मिन्नेकमायुरेकभवे बन्धमेति योग्यपदे ।

अष्टवारं वा तत्रापि त्रिभागशेषे एव सर्वत्र ॥ ६४२ ॥

अर्थ—एकजीवके एकभवमें जो एक ही आयु बंधरूप होती है वह योग्यकालमें आठवार बंधती है, वहां पर सब जगह आयुका तीसरा २ भाग शेष रहनेपर ही बंधती है ॥ ६४२ ॥

इगिवारं वज्जित्ता वड्ढी हाणी अवट्ठिदी होदि ।

ओवट्ठणघादो पुण परिणामवसेण जीवाणं ॥ ६४३ ॥

एकवारं वर्जयित्वा वृद्धिः हानिः अवस्थितिः भवति ।

अपवर्तनघातः पुनः परिणामवशेन जीवानाम् ॥ ६४३ ॥

अर्थ—पूर्वकथित आठ अपकर्षणों (त्रिभागों) में पहलीवारके विना द्वितीयादिवारमें जो पहले आयु बांधी थी उसकी स्थितिकी वृद्धि—हानि अथवा अवस्थिति होती है । और आयुके बंध करनेपर जीवोंके परिणामोंके निमित्तसे उदयप्राप्त आयुका अपवर्तनघात (कदलीघात—घटजाना) भी हो जाता है ॥ ६४३ ॥

एवमदंधे बंधे उवरदबंधेवि होंति भंगा हु ।

एक्कस्सेक्कस्मि भवे एक्काउं पडि तये णियमा ॥ ६४४ ॥

एवमबन्धे बन्धे उपरतबन्धेपि भवन्ति भङ्गा हि ।

एकस्यैकस्मिन् भवे एकायुः प्रति त्रयो नियमात् ॥ ६४४ ॥

अर्थ—इसप्रकार बंध होनेपर अथवा बन्ध नहीं होनेपर व आगामी बंध अवस्थामें एक जीवके एकपर्यायमें एक एक आयुके प्रति तीन तीन भंग नियमसे होते हैं ॥६४४॥

एक्काउस्स तिभंगा संभवआऊहिं ताडिदे णाणा ।

जीवे इगिभवभंगा रूऊणगुणूणमसरित्थे ॥ ६४५ ॥

एकायुषः त्रिभङ्गाः संभवायुर्भिस्ताडिते नाना ।

जीवेषु एकभवभङ्गा रूपोनगुणोनमसदृशे ॥ ६४५ ॥

अर्थ—उन एक एक आयुके तीन तीन भंगोंको गतिमें संभव होनेवाली आयुकी संख्या से गुणाकरनेपर नाना जीवोंकी अपेक्षा एक एक भवके भंग होते हैं । और अपुनरुक्त भंगोंकी अपेक्षा बध्यमान आयुकी संख्यारूप गुणाकारमें एक घटाके जो प्रमाण हो उसे पूर्व-कथित भंगोंमें घटानेसे अपुनरुक्त भंग होते हैं ॥ ६४५ ॥

अब गुणस्थानोंमें आयुके अपुनरुक्त भंगोंको दिखाते हैं;—

पण णव णव पण भंगा आउचउक्केसु होंति मिच्छम्मि ।

णिरयाउबंधभंगेणूणा ते चेव विदियगुणे ॥ ६४६ ॥

पञ्च नव नव पञ्च भङ्गा आयुश्चतुष्केषु भवन्ति मिथ्ये ।

निरयायुर्वन्धभङ्गेनोनास्ते चैव द्वितीयगुणे ॥ ६४६ ॥

अर्थ—वे अपुनरुक्तभंग मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमें नरकादिगतिकी चार आयुओंमें क्रमसे ५, ९, ९, ५, जानना चाहिये । और दूसरे गुणस्थानमें नरकायुके बंधरूप भंग विना होते हैं अर्थात् वहांपर ५, ८, ८, ५ भंग जानना ॥ ६४६ ॥

सच्चाउबंधभंगेणूणा मिस्सम्मि अयदसुरणिरये ।

णरतिरिये तिरियाऊ तिण्णाउगबंधभंगूणा ॥ ६४७ ॥

सर्वायुर्वन्धभङ्गेनोना मिश्रे अयतसुरनिरये ।

नरतिरश्चि तिर्यगायुः त्रिकायुष्कबन्धभङ्गेनाः ॥ ६४७ ॥

अर्थ—जोकि पहले आयुबंधकी अपेक्षा भंग कहे गये थे वे सब कमकरनेसे मिश्रगुण-स्थानमें नरकादि गतियोंमें क्रमसे ३, ५, ५, ३ भंग होते हैं, और असंयतगुणस्थानमें देव-नरकगतिमें तो तिर्यंचआयुका बंधरूप भंग न होनेसे चार चार भंग हैं तथा मनुष्य तिर्य-चगतिमें आयुबंधकी अपेक्षा नरकतिर्यंचमनुष्यायुबंधरूप तीन भंग न होनेसे छह छह भंग हैं, क्योंकि इनके बंधका सासादनगुणस्थानमें ही व्युच्छेद (बंधका अभाव) हो जाता है ॥६४७॥

देस णरे तिरिये तियतियभंगा होंति छट्टसत्तमगे ।

तियभंगा उवसमगे दो दो खवगेसु एक्केको ॥ ६४८ ॥

देशे नरे तिरश्चि त्रिकत्रिकभङ्गा भवन्ति षष्ठसप्तमके ।

त्रयभङ्गा उपशमके द्वौ द्वौ क्षपकेषु एकैकः ॥ ६४८ ॥

अर्थ—देशसंयतगुणस्थानमें तिर्यच और मनुष्योंमें बंध—अबंध—उपरतबंधकी अपेक्षा तीन तीन भंग होते हैं । छठे सातवें गुणस्थानमें मनुष्यके ही देवायुके बंध आदिकी अपेक्षा तीन तीन भंग होते हैं । उपश्रमश्रेणीमें देवायुका भी बंध न होनेसे देवायुके अबंध—उपरतबंधकी अपेक्षा दो दो भंग हैं । और क्षपकश्रेणीमें उपरतबंधके भी न होनेसे अबंधकी अपेक्षा एक एक ही भंग है ऐसा जानना चाहिये ॥ ६४८ ॥

आगे गुणस्थानोंमें जो सब गतियों संबंधी आयुके भंग कहे गये हैं उनका सब जोड़ कहते हैं;—

अडछद्दीसं सोलस वीसं छत्तिगतिगं च चदुसु दुगं ।

असरिसभंगा तत्तो अजोगिअंतेसु एकैको ॥ ६४९ ॥

अष्टषड्विंशतिः षोडश विंशतिः षड् त्रिकत्रिकं च चतुर्षु द्विकम् ।

असदृशभंगाः तत अयोग्यन्तेषु एकैकः ॥ ६४९ ॥

अर्थ—सब मिलकर अपुनरुक्तभंग मिथ्यादृष्टि आदि ७ गुणस्थानोंमें क्रमसे २८, २६, १६, २०, ६, ३, ३, हैं । उपशमश्रेणीवाले चार गुणस्थानोंमें दो दो भंग जानना । उसके बाद क्षपकश्रेणीसे लेकर अयोगिगुणस्थानतक एक एक भंग कहा गया है ॥ ६४९ ॥

आगे वेदनाय—गोत्र—आयु इन तीनोंके मिथ्यादृष्टिआदि गुणस्थानोंमें भंगोंकी संख्या कहते हैं;—

वादांलं पणुवीसं सोलसअहियं सयं च वेयणिये ।

गोदे आउम्मि हवे मिच्छादिअजोगिणो भंगा ॥ ६५० ॥

द्वाचत्वारिंशत् पञ्चविंशतिः षोडशाधिकं शतं च वेदनीये ।

गोत्रे आयुपि भवेयुः मिथ्याद्ययोगिनो भङ्गाः ॥ ६५० ॥

अर्थ—पहले जो मिथ्यादृष्टि आदि अयोगीपर्यंत गुणस्थानोंमें भंग कहे थे वे सब मिलकर वेदनीयके ४२, गोत्रके २५ और आयुके ११६ होते हैं ॥ ६५० ॥

आगे पूर्वोक्त वेदनीय—गोत्र—आयु इनके सामान्यरीतिसे मूल भंगोंकी संख्या कहते हैं;—

वेयणिये अडभंगा गोदे सत्तेव होंति भंगा हु ।

पण णव णव पण भंगा आउचउक्केसु विसरित्था ॥ ६५१ ॥

वेदनीये अष्ट भङ्गा गोत्रे सप्तैव भवन्ति भङ्गा हि ।

पञ्च नव नव पञ्च भङ्गा आयुश्चतुष्केषु विसदृशाः ॥ ६५१ ॥

अर्थ—अपुनरुक्त भंग वेदनीयके ८, गोत्रके ७ होते हैं तथा चारों आयुओंके क्रमसे ५, ९, ९, ५ होते हैं ॥ ६५१ ॥

आगे मोहनीयके त्रिसंयोगी भंगोंको कहते हैं;—

मोहस्स य बंधोदयसत्तट्टाणाण सव्वभंगा हु ।

पत्तेउत्तं व हवे तियसंजोगेवि सव्वत्थ ॥ ६५२ ॥

मोहस्य च बन्धोदयसत्त्वस्थानानां सर्वभङ्गा हि ।

प्रत्येकोक्तं व भवन्ति त्रिकसंयोगेपि सर्वत्र ॥ ६५२ ॥

अर्थ—मोहनीयकर्मके बंध उदय सत्त्वस्थानोंके सब भंग जिसतरह पहले जुदे २ कहे थे उसीतरह बंधादिके संयोगरूप त्रिसंयोगमें भी सब जगह भंग होते हैं ॥ ६५२ ॥

आगे गुणस्थानोंमें मोहके स्थानोंकी संख्या कहते हैं;—

अट्टसु एको बंधो उदया चदु ति दुसु चउसु चत्तारि ।

तिण्णि य कमसो सत्तं तिण्णेगदु चउसु पणग तियं ॥ ६५३ ॥

अणियट्ठीबंधतियं पणदुगएकारसुहुमउदयंसा ।

इगि चत्तारि य संते सत्तं तिण्णेव मोहस्स ॥ ६५४ ॥ जुम्मं ।

अष्टसु एको बन्ध उदयाः चत्वारः त्रयः द्वयोः चतुर्षु चत्वारः ।

त्रीणि च क्रमशः सत्त्वं त्र्येकद्विकं चतुर्षु पञ्चकं त्रिकम् ॥ ६५३ ॥

अनिवृत्तिबन्धत्रिकं पञ्चद्विकैकादश सूक्ष्मोदयांशाः ।

एकः चत्वारश्च शान्ते सत्त्वं त्रीण्येव मोहस्य ॥ ६५४ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—मोहनीयके पूर्वोक्त बंध उदय सत्त्वस्थानोंमें यथासंभव बंधस्थान मिथ्यादृष्टि आदि ८ गुणस्थानोंमें तो एक एक ही है । उदयस्थान पहले गुणस्थानमें ४, इससे आगे दो गुणस्थानोंमें तीन तीन, इसके बाद चारगुणस्थानोंमें चार चार, एकमें तीन—इसतरह क्रमसे जानना । और सत्त्वस्थान हैं वे क्रमसे मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानोंमें तो ३, १, २ जानना, इसके बाद चारगुणस्थानोंमें पांच पांच, इससे आगेके गुणस्थानमें ३ ही हैं । और अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमें बंध उदय सत्त्वस्थान क्रमसे ५, २, ११ जानने चाहिये । सूक्ष्मसांपरायमें उदयस्थान और सत्त्वस्थान क्रमसे १ और ४ हैं । उपशांतकषाय नामा ग्यारवें गुणस्थानमें बंध—उदयका अभाव होनेसे सत्त्वस्थान ही ३ पाये जाते हैं ॥ ६५३।६५४ ॥

आगे वे कौन २ से स्थान हैं उनको दिखाते हैं;—

वावीसं दसयचऊ अडवीसतियं च मिच्छबंधादी ।

इगिवीसं णवयतियं अट्टावीसे च विदियगुणे ॥ ६५५ ॥

द्वाविंशतिः दशकचतुष्कमष्टाविंशतित्रिकं च मिथ्ये वन्धादिः ।

एकविंशतिः नवकत्रिकमष्टाविंशतिश्च द्वितीयगुणे ॥ ६५५ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें बंध उदय सत्त्वस्थान क्रमसे २२ का, १० वें को लेकर

चार, २८ वें को लेकर तीन हैं । और सासादनगुणस्थानमें बंधस्थान २१ वां, उदयस्थान ९ वें से लेकर तीन अर्थात् ९ वां ८ वां ७ वां तथा सत्त्वस्थान २८ का जानना चाहिये ॥ ६५५ ॥

सत्तरसं णवयतियं अडचउवीसं पुणोवि सत्तरसं ।

णवचउ अडचउवीस य तिवीसतियमंसयं चउसु ॥ ६५६ ॥

सप्तदश नवकत्रयमष्टचतुर्विंशं पुनरपि सप्तदश ।

नवचतुष्कमष्टचतुर्विंशं च त्रयोविंशत्रयमंशकं चतुर्षु ॥ ६५६ ॥

अर्थ—मिश्रगुणस्थानमें बंध उदय सत्त्वस्थान ये तीनों क्रमसे १७ का, ९ को आदिलेकर तीन, २८—२४ के दो स्थान हैं । उसके बाद असंयतगुणस्थानमें बंधादि तीन क्रमसे १७ का, ९ को आदिलेकर चार स्थान, २८—२४ और २३ को आदिलेकर तीन इसतरह पांच, हैं । इसीतरह ५ सत्त्वस्थान असंयतादि अप्रमत्तगुणस्थानतक चार गुणस्थानोंमें जानने चाहिये ॥ ६५६ ॥

तेरट्टचऊ देसे पमदिदरे णव सगादिचत्तारि ।

तो णवगं छादितियं अडचउरिगिवीसयं च बंधतियं ॥ ६५७ ॥

त्रयोदश अष्टचतुष्कं देशे प्रमत्तेतरयोः नव सप्तकादिचत्तारि ।

अतो नवकं षडादित्रयमष्टचतुरेकविंशकं च बंधत्रयम् ॥ ६५७ ॥

अर्थ—देशसंयतगुणस्थानमें बंध उदय सत्त्व ये तीनों स्थान क्रमसे १३ का, ८ को आदिलेकर चार स्थान, तथा पूर्ववत् ५ हैं । प्रमत्तगुणस्थान और अप्रमत्तगुणस्थान इन दोनोंमें बंधादिस्थान क्रमसे ९ का, ७ को लेकर चार, तथा पहलेकी तरह ५ हैं । इसके बाद अपूर्वकरणगुणस्थानमें तीनोंस्थान क्रमसे ९ का, ६ को आदिले तीन, २८—२४—२१ का इसप्रकार हैं, और क्षपकके २१ का ही स्थान है ॥ ६५७ ॥

पंचादिपंचबंधो णवमगुणे दोणिण एकमुदयो दु ।

अट्टचदुरेक्कवीसं तेरादीअट्टयं सत्तं ॥ ६५८ ॥

पञ्चादिपञ्चबंधो नवमगुणे द्वौ एक उदयस्तु ।

अष्टचतुरेकविंशं त्रयोदशाद्यष्टकं सत्त्वम् ॥ ६५८ ॥

अर्थ—नवमे गुणस्थानमें ५ को आदिलेकर पांच बंधस्थान हैं । २ का १ का इसप्रकार दो उदयस्थान हैं । और २८—२४—२१ का इसतरह तीन सत्त्वस्थान हैं । तथा क्षपकश्रेणीवालेके १३ के को आदिलेकर ८ सत्त्वस्थान हैं ॥ ६५८ ॥

लोहेक्कुदओ सुहुमे अडचउरिगिवीसमेक्यं सत्तं ।

अडचउरिगिवीसंसां संते मोहस्स गुणठाणे ॥ ६५९ ॥

लोभैकोदयः सूक्ष्मे अष्टचतुरेकविंशमेकं सत्त्वम् ।

अष्टचतुरेकविंशांशाः शान्ते मोहस्य गुणस्थाने ॥ ६५९ ॥

अर्थ—सूक्ष्मसांपरायणगुणस्थानमें उदयस्थान एक सूक्ष्मलोभरूप ही है । और सत्त्वस्थान २८-२४-२१ के तीन तथा क्षपकश्रेणीवालेके १ प्रकृतिरूप एक ही है । उपशांतकषाय गुणस्थानमें सत्त्वस्थान ही २८-२४-२१ के तीन हैं । “यहां पर इतना और समझना कि दशवें गुणस्थानमें बंधस्थानका अभाव होनेसे दो स्थान कहे हैं, ग्यारवेंमें उदयका भी अभाव होनेसे एक ही स्थान कहा है । इससे आगे मोहका सत्त्व भी नहीं रहता ” इसप्रकार मोहनीयके बंधादि स्थान गुणस्थानोंमें जानना चाहिये ॥ ६५९ ॥

आगे मोहनीयके बंध उदय और सत्त्वस्थानोंके त्रिसंयोगमें विशेषता दिखाते हैं;—

बंधपदे उदयंसा उदयट्टाणेचि बंध सत्तं च ।

सत्ते बंधुदयपदं इगिअधिकरणे दुगाधेज्जं ॥ ६६० ॥

बन्धपदे उदयांशा उदयस्थानेपि बन्धः सत्त्वं च ।

सत्त्वे बन्धोदयपदमेकाधिकरणे द्विकाधेयम् ॥ ६६० ॥

अर्थ—बन्धस्थानमें उदयस्थान और सत्त्वस्थान ये दो स्थान, उदयस्थानमें बंधस्थान और सत्त्वस्थान, तथा सत्त्वस्थानमें भी बंधस्थान और उदयस्थान होते हैं । इसप्रकार एक अधिकरणमें दो आधेय रहते हैं ऐसा समझना चाहिये ॥ ६६० ॥

उनमेंसे पहले बंधस्थानमें उदय सत्त्वस्थानोंको कहते हैं;—

वावीसयादिवंधेसुदयंसा चटुतितिगिचऊपंच ।

तिसु इगि छटो अट्ट य एकं पंचेव तिट्टाणे ॥ ६६१ ॥

द्वाविंशकादिवन्धेपूदयांशाः चतुस्त्रिंशकैकचतुःपञ्च ।

त्रिष्वेकः षट् द्वौ अष्ट च एकः पञ्चैव त्रिस्थाने ॥ ६६१ ॥

अर्थ—बाईसके स्थानको आदिलेकर बंधस्थानोंमें क्रमसे उदयस्थान और सत्त्वस्थान “ २२ के में ४ उदयस्थान और ३ सत्त्वस्थान हैं, दूसरे बंधस्थानमें ३ उदयस्थान १ सत्त्वस्थान है, इससे आगेके तीन स्थानोंमें उदयस्थान चार चार और सत्त्वस्थान पांच पांच हैं, इसके बाद एक बंधस्थानमें उदयस्थान १ सत्त्वस्थान ६ हैं, उससे आगेके एक बंधस्थानमें उदयस्थान २ सत्त्वस्थान ८ हैं, उसके बाद तीन बंधस्थानोंमें उदयस्थान १ सत्त्वस्थान पांच पांच हैं” इसप्रकार कहे हैं ॥ ६६१ ॥

आगे उन्हीं उदयादिस्थानोंको दिखाते हैं;—

दसयचऊ पढमतियं णवतियमडवीसयं णवादिचऊ ।

अडचटुतिदुइगिवीसं अडचटु पुवं व सत्तं तु ॥ ६६२ ॥

दशकचतुष्कं प्रथमत्रिकं नवत्रिकमष्टाविंशकं नवादिचतुष्कम् ।

अष्टचतुस्त्रिद्वयेकविंशमष्टचतुष्कं पूर्वं व सत्त्वं तु ॥ ६६२ ॥

अर्थ—उन उदयादिस्थानोंमेंसे बाईसके बंधस्थानमें १० के स्थानको आदिलेकर चार उदयस्थान हैं और २८ को आदिलेकर तीन सत्त्वस्थान हैं । २१ के बंधस्थानमें ९ के स्थानसे लेकर तीन उदयस्थान हैं और सत्त्वस्थान एक अट्ठाईसका ही है । १७ के बंधस्थानमें ९ के स्थानसे लेकर ४ उदयस्थान हैं और सत्त्वस्थान २८—२४—२३—२२—२१ के पांच हैं । १३ के बंधस्थानमें ८ के स्थानसे लेकर ४ उदयस्थान हैं और सत्त्वस्थान पूर्व कहे हुए ५ हैं ॥ ६६२ ॥

सगचउ पुवं वंसा दुगमडचउरेक्कीस तेरतियं ।

दुगमेकं च य सत्तं पुवं वा अत्थि पणगदुगं ॥ ६६३ ॥

सप्तचतुष्कं पूर्वं वांशा द्विकमष्टचतुरेकविंशं त्रयोदशत्रयम् ।

द्विकमेकं च च सत्त्वं पूर्वं वा अस्ति पञ्चकद्विकम् ॥ ६६३ ॥

अर्थ—९ के बंधस्थानमें ७ को आदिलेकर ४ उदयस्थान हैं और सत्त्वस्थान पूर्वकथित ५ हैं । ५ के बंधस्थानमें २ का ही एक उदयस्थान है और सत्त्वस्थान उपशमकके २८—२४—२१ के तीन तथा क्षपकके १३ से लेकर तीन, इसप्रकार ६ हैं । ४ के बंधस्थानमें २ और १ प्रकृतिरूप दो उदयस्थान हैं और सत्त्वस्थान पूर्वोक्त कहे हुए ६ तथा पांच को आदिलेकर २ इसतरह ८ हैं ॥ ६६३ ॥

तिसु एक्केकं उदओ अडचउरिगिगीससत्तसंजुत्तं ।

चदुत्तिदयं तिदयदुगं दो एक्कं मोहणीयस्स ॥ ६६४ ॥

त्रिषु एकैक उदय अष्टचतुरेकविंशसत्त्वसंयुक्तम् ।

चतुस्त्रितयं त्रितयद्विकं द्वे एकं मोहनीयस्य ॥ ६६४ ॥

अर्थ—३—२—१ प्रकृतिरूप तीन बंधस्थानोंमें उदयस्थान एक एक प्रकृतिरूप ही हैं और सत्त्वस्थान २८—२४—२१ के तीन स्थानोंमें तीनके बंध स्थानके ४—३ के स्थानोंको मिलानेसे ५ होते हैं २ के बंधस्थानके २—३ के स्थानोंको पूर्वोक्त तीन स्थानोंमें मिलानेसे ५ होते हैं, तथा १ के बंधस्थानके सत्त्वस्थान पूर्वोक्त तीन स्थानोंमें २—१ के स्थानको मिलानेसे ५ हो जाते हैं । भावार्थ—जिस जीवके जिस समयमें २२ का बंध है उसके उदय १० का अथवा ९ वा ८ का अथवा ७ का भी पाया जाता है और सत्त्व २८ का २७ का अथवा २६ का भी पाया जाता है इसतरह आगेका कथन भी ऐसा ही समझलेना ॥ इसप्रकार मोहनीयके बंध स्थानोंको अधिकरण मानके उदय सत्त्व इन दोनोंके आधेयरूप भंग गुणस्थानोंकी विवक्षासे कहे गये हैं ॥ ६६४ ॥

आगे उदयस्थानको अधिकरण बनाके बंधस्थान—सत्त्वस्थानके आधेयरूप भंगको कहते हैं;—

दसयादिसु बंधसा इगितिय तियछक चारिसत्तं च ।

पणपण तियपण दुगपण इगितिग दुगछच्चऊणवर्यं ॥ ६६५ ॥

दशकादिषु बन्धांशा एकत्रिकं त्रिकषट्कं चतुःसप्त च ।

पञ्चपञ्च त्रिकपञ्च द्विकपञ्च एकत्रिकं द्विकषट् चतुर्नवकम् ॥ ६६५ ॥

अर्थ—१० के स्थानको आदि लेकर उदयस्थानोंमें बंधस्थान और सत्त्वस्थान क्रमसे १-३, ३-६, ४-७, ५-५, ३-५, २-५, १-३, २-६, और ४-९ जानने चाहिये ॥ ६६५ ॥

अब उन्हींको दिखाते हैं;—

पढमं पढमतिचउपणसत्तरतिग चदुसु बंधयं कमसो ।

पढमतिछस्सगमडचउतिदुइगिवीसंसयं दोसु ॥ ६६६ ॥

प्रथमं प्रथमत्रिचतुःपञ्चसप्तदशत्रिकं चतुर्षु बन्धकं क्रमशः ।

प्रथमत्रिषट्सप्त अष्टचतुस्त्रिद्विकैकविंशं द्वयोः ॥ ६६६ ॥

अर्थ—पहले उदयस्थानमें बंधस्थान पहला (२२ का) है, उसके बाद चारस्थानोंमें क्रमसे २२ के को आदि लेकर ३, २२ के को लेकर ४, २२ के को आदि लेकर ५, १७ के स्थानको आदि लेकर तीन बंधस्थान हैं । और सत्त्वस्थान पहले बंधस्थानमें २८ आदि तीन हैं, दूसरेमें पहले २८ वेंको आदिलेकर ६ हैं, तीसरेमें २८ वेंको आदि लेकर ७ हैं, और चौथा तथा पांचवां इन दो उदयस्थानोंमें २८-२४-२३-२२-२१ के इसतरह पांच सत्त्वस्थान हैं ॥ ६६६ ॥

तेरदु पुव्वं वंसा णवमडचउरेक्कावीससत्तमदो ।

पणदुगमडचउरेक्कावीसं तेरसतियं सत्तं ॥ ६६७ ॥

त्रयोदशद्विकं पूर्व वांशा नवममष्टचतुरेकविंशसत्त्वमतः ।

पञ्चद्विकमष्टचतुरेकविंशं त्रयोदशत्रिकं सत्त्वम् ॥ ६६७ ॥

अर्थ—पांचप्रकृतिके उदयस्थानमें १३ के स्थानको लेकर दो बंधस्थान हैं और सत्त्वस्थान पहलेकी तरह ५ हैं, चारके उदयस्थानमें ९ का बंधस्थान है और २८-२४ २१ के तीन सत्त्वस्थान हैं, उसके बाद २ के उदयस्थानमें ५ के स्थानको लेकर दो बंधस्थान हैं और २८-२४-२१-१३ के को आदि लेकर तीन, इसतरह ६ सत्त्व-स्थान हैं ॥ ६६७ ॥

चरिमे चदुतिदुगेकं अट्टयचदुरेकसंजुदं वीसं ।

एकारादीसव्वं क्रमेण ते मोहणीयस्स ॥ ६६८ ॥

चरमे चतुस्त्रिद्विकैकमष्टचतुरेकसंयुतं विंशम् ।

एकादशादिसर्वं क्रमेण तानि मोहनीयस्य ॥ ६६८ ॥

अर्थ—अंतके १ प्रकृतिवाले उदयस्थानमें ४-३-२-१ के चार बंध हैं और २८-२४-२१- और ११ के स्थानसे लेकर सब ६ स्थान, इसप्रकार ९ सत्त्वस्थान है । इसरीतिसे ये सब मोहनीयके स्थान क्रमसे जानने चाहिये ॥ ६६८ ॥

आगे सत्त्वको अधिकरण मानके और बंधउदयको आधेयरूप समझकर भंगोंको कहते हैं;—

सत्त्वपदे बंधुदया दसणव इगिति दुसु अडड तिपण दुसु ।
अडसग दुगि दुसु विविगिगि दुगि तिसु इगिसुण्णमेकं च ॥ ६६९ ॥

सत्त्वपदे बन्धोदया दशनव एकत्रिकं द्वयोः अष्टाष्ट त्रिपञ्च द्वयोः ।

अष्टसप्त द्व्येकं द्वयोः द्विद्विकमेकैकं द्व्येकं त्रिषु एकशून्यमेकं च ॥ ६६९ ॥

अर्थ—२८ के स्थानको आदिलेकर सत्त्वस्थानोंमें जो क्रमसे बंधउदयस्थान कहे हैं वे पहले स्थानमें १०-९, उसके बाद दोस्थानोंमें १-३, उसके आगेके स्थानमें ८-८, उसके बाद दो स्थानोंमें ३-५, उससे आगेके स्थानमें ८-७, उसके बाद दो स्थानोंमें २-१, उसके आगे २-२, उसके बाद १-१, उसके बाद तीनस्थानोंमें २-१ और एक सत्त्वस्थानमें १ अथवा शून्य-१ स्थान हैं ॥ ६६९ ॥

अब उन्हीं स्थानोंको दिखाते हैं;—

सव्वं सयलं पढमं दसतिय दुसु सत्तरादियं सव्वं ।

णवयप्पहुदीसयलं सत्तरति णवादिपण हुपदे ॥ ६७० ॥

सत्तरसादि अडादीसव्वं पण चारि दोण्णि दुसु तत्तो ।

पंचउक्क दुगेक्कं चटुरिगि चटुतिण्णि एकं च ॥ ६७१ ॥

तत्तो तियदुगमेक्कं दुप्पयडीएक्कमेक्कठाणं च ।

इगिणभवंधो चरिमे एउदओ मोहणीयस्स ॥ ६७२ ॥ विसेसयं ।

सर्वं सकलं प्रथमं दशत्रिकं द्वयोः सप्तदशादिकं सर्वम् ।

नवकप्रभृति सकलं सप्तदशत्रिकं नवादिपञ्च द्विपदे ॥ ६७० ॥

सप्तदशादि अष्टादि सर्वं पञ्च चत्वारि द्वे द्वयोः ततः ।

पञ्चचतुष्कं द्विकैकं चतुरेकं चतुस्त्रीणि एकं च ॥ ६७१ ॥

ततः त्रिकद्विकमेकं द्विप्रकृत्येकमेकस्थानं च ।

एकनभोवन्धो चरमे एकोदयो मोहनीयस्य ॥ ६७२ ॥ विशेषकम् ।

अर्थ—मोहनीयके सत्त्वस्थानोंमेंसे पहले २८ के सत्त्वस्थानमें बंधस्थान और उदय-स्थान क्रमसे २२ को लेकर सब (१०)-१० को आदि लेकर सब (९), उसके बाद २७ और २६ के दोस्थानोंमें २२ का-१० को लेकर तीन, २४ के सत्त्वस्थानमें १७ को लेकर सब (८)-९ को लेकर सबस्थान, उसके बाद २३ और २२ के दो सत्त्व-

स्थानोंमें १७ को लेकर तीन—९ को लेकर पांच हैं । २१ के सत्त्वस्थानमें बंध उदयस्थान १७ को लेकर सब—८ को आदि लेकर सब, उसके बाद १३ और १२ के दो सत्त्वस्थानोंमें पांच चार—२ का स्थान, उसके बाद ११ के स्थानमें ५ और चारका—२ और १ का, ५ के सत्त्वस्थानमें ४ का—१ का, ४ के सत्त्वस्थानमें ४ और ३ के—१ का है । उसके बाद ३ के सत्त्वस्थानमें बंध उदयस्थान ३ और २ के—१ का, २ के सत्त्वस्थानमें २ और १ के—१ का और १ के सत्त्वस्थानमें बंधस्थान १ का अथवा शून्य तथा उदयस्थान १ का है ॥ ६७० । ६७१ । ६७२ ॥

आगे मोहनीयके बंध उदय और सत्त्वमें दो आधार एक आधेयकर भंग कहते हैं;—

बंधुदये सत्तपदं बंधंसे णेयमुदयठाणं च ।

उदयंसे बंधपदं दुट्टाणाधारमेकमाधेज्जं ॥ ६७३ ॥

बन्धोदये सत्त्वं बन्धांशे ज्ञेयमुदयस्थानं च ।

उदयांशे बन्धपदं द्विस्थानाधारमेकमाधेयम् ॥ ६७३ ॥

अर्थ—बंध उदयके स्थानोंमें सत्त्वस्थान, बंधसत्त्वस्थानोंमें उदयस्थान और उदय सत्त्वस्थानोंमें बंधस्थान इसप्रकार दोस्थान आधार तथा एकस्थान आधेयको लेकर तीन-प्रकार भंग जानना चाहिये ॥ ६७३ ॥

अब उनमेंसे पहले प्रकारको ६ गाथाओंसे कहते हैं;—

वावीसेण गिरुद्धे दसचउरुदये दसादिठाणतिये ।

अट्टावीसति सत्तं सत्तुदये अट्टवीसेव ॥ ६७४ ॥

द्वाविंशेन निरुद्धे दशचतुष्कोदये दशादिस्थानत्रये ।

अष्टाविंशत्रिकं सत्त्वं सप्तोदये अष्टविंशमेव ॥ ६७४ ॥

अर्थ—२२ के बंधसहित जीवके १० के स्थानको आदि ले चारउदयस्थानोंमेंसे दशसे लेकर तीनस्थानोंमें तो २८ के को आदिलेकर तीन सत्त्वस्थान हैं, और ७ के उदयस्थानमें २८ के स्थानका ही सत्त्व है ॥ ६७४ ॥

इगिवीसेण गिरुद्धे णवयतिये सत्तमट्टवीसेव ।

सत्तरसे णवचदुरे अडचउत्तिदुगेक्कवीसंसा ॥ ६७५ ॥

एकविंशेन निरुद्धे नवकये सत्त्वमष्टविंशमेव ।

सप्तदशे नवचतुष्के अष्टचतुस्त्रिद्विकैकविंशांशाः ॥ ६७५ ॥

अर्थ—२१ के बंधसहित जीवके ९ को आदि लेकर ३ के उदय होनेपर २८ का ही सत्त्वस्थान हैं, और १७ के बंधसहित जीवके ९ आदिलेकर ४ के उदय होनेपर २८-२४-२३-२२-२१ के सत्त्वस्थान हैं ॥ ६७५ ॥

यहांपर कुछ विशेषता कहते हैं;—

इगिवीसं ण हि षडमे चरिमे तिदुवीसयं ण तेरणवे ।
 अडचउसगचउरुदये सत्तं सत्तरसयं व हवे ॥ ६७६ ॥
 एकविंशं न हि प्रथमे चरमे त्रिद्विविंशकं न त्रयोदशनवके ।
 अष्टचतुःसप्तचतुरुदये सत्त्वं सप्तदशकं व भवेत् ॥ ६७६ ॥

अर्थ—पहले (९ के) का उदय होनेपर २१ का सत्त्व नहीं होता है और ६ के उदय होनेपर २३ तथा २२ का सत्त्व नहीं होता, और १३ के बंधसहित ८ के स्थानको आदि लेकर चार उदयस्थानोंके होनेपर अथवा ९ के बंधसहित ७ को आदि लेकर ४ चार उदयस्थानोंके होनेसे सत्त्वस्थान १७ के बंधसहितस्थानमें जैसे कहे हैं उसतरह जानने चाहिये ॥ ६७६ ॥

और भी विशेषता कहते हैं;—

णवरि य अपुव्वणवगे छादितियुदयेवि णत्थि तिदुवीसा ।
 पणबंधे दोउदये अडचउरिगिवीसतेरसादितियं ॥ ६७७ ॥
 नवरि च अपूर्वनवके षडादित्रयोदयेपि नास्ति त्रिद्विविंशम् ।
 पञ्चबन्धे द्विकोदये अष्टचतुरेकविंशत्रयोदशादित्रयम् ॥ ६७७ ॥

अर्थ—इतनी विशेषता है कि अपूर्वकरणगुणस्थानमें ९ के बंधसहित ६ के स्थानको आदिलेकर ३ के उदय होनेपर भी २३ और २२ का सत्त्व नहीं होता है, और पांचके बंधसहित दोके उदय होते समय २८-२४-२१-और १३ को आदि लेकर तीन सत्त्वस्थान हैं ॥ ६७७ ॥

चदुबंधे दोउदये सत्तं पुव्वं व तेण एकुदये ।
 अडचउरेक्कावीसा एयारतिगं च सत्ताणि ॥ ६७८ ॥
 चतुर्बन्धे द्विकोदये सत्त्वं पूर्वं व तेन एकोदये ।
 अष्टचतुरेकविंशानि एकादशत्रिकं च सत्त्वानि ॥ ६७८ ॥

अर्थ—४ के बंधसहित दोके उदयहोनेपर पहलेकी तरह (५ के बंधसहित) कहा हुआ सत्त्व जानना चाहिये, उसी ४ के बंधसहित १ के उदय होनेपर २८-२४-२१ और ११ के को आदिले ३ सत्त्वस्थान जानने योग्य हैं ॥ ६७८ ॥

तिदुइगिवंधेकुदये चदुतियठाणेण तिदुगठाणेण ।
 दुगिठाणेण य सहिता अडचउरिगिवीसया सत्ता ॥ ६७९ ॥
 त्रिद्विकैकबन्धे एकोदये चतुस्त्रयस्थानेन त्रिद्विकस्थानेन ।
 द्विकैकस्थानेन च सहितानि अष्टचतुरेकविंशकानि सत्त्वानि ॥ ६७९ ॥

अर्थ—३-२-१ के बंधसहित एकके उदय होनेसे २८-२४-२१ के तीन सत्त्व स्थानोंमें क्रमसे ४ और ३ के दो सत्त्वस्थानमिलानेसे, ३ और २ के दो सत्त्वस्थानमि-

लानेसे, २ और १ के दो सत्त्वस्थानमिलानेसे सब जगह पांच पांच सत्त्वस्थान होते हैं ॥ ६७९ ॥

आगे बंध—सत्त्वको आधारकर और उदयको आधेय समझकर ५ गाथाओंसे भंग कहते हैं;—

वावीसे अडवीसे दसचउरुदओ अणे ण सगवीसे ।

छव्वीसे दसयतियं इगिअडवीसे दुणवयतियं ॥ ६८० ॥

द्वाविंशतौ अष्टविंशतौ दशचतुष्कोदय अने न सप्तविंशतौ ।

षड्विंशतौ दशकत्रयमेकाष्टविंशतौ तु नवकत्रयम् ॥ ६८० ॥

अर्थ—२२के बंधसहित चारगतिके मिथ्यादृष्टि जीवोंके २८ का सत्त्व होनेपर १० के को आदि लेकर चार उदयस्थान हैं, क्योंकि वहां अनंतानुबंधी रहित भी उदयस्थानोंका संभव है; २७—२६ का सत्त्व होनेपर १० को आदि तीन उदयस्थान होतेहैं, २१ के बंधसहित सासादन गुणस्थानवालोंके २८ का सत्त्व होनेपर ९ को आदि लेकर तीनस्थानोंका उदय होता है ॥ ६८० ॥

सत्तरसे अडचदुवीसे णवयचदुरुदयमिगिवीसे ।

णो पढमुदओ एवं तिदुवीसे णंतिमस्सुदओ ॥ ६८१ ॥

सप्तदश अष्टचतुर्विंशे नवकचतुष्कोदय एकविंशे ।

नो प्रथमोदय एवं त्रिद्विविंशे नान्तिमस्योदयः ॥ ६८१ ॥

अर्थ—१७ के बंधसहित चारोंगतिके जीवोंके २८—२४ का सत्त्वहोनेसे ९ को आदि लेकर ४ उदयस्थान हैं, २१ का सत्त्व होनेपर पहला (९ का) उदयस्थान नहीं शेष ८ को आदि लेकर ३ ही उदयस्थान हैं, इसीप्रकार २३—२२ का सत्त्व स्थान होनेपर अंतका (६ का) स्थान नहीं है इसलिये यहांपर ९ को आदि लेकर ३ ही उदयस्थान हैं ॥ ६८१ ॥

तेरणवे पुवंसे अडादिचउ सगचउणहमुदयाणं ।

सत्तरसं व वियारो पणगुवसंते सगेसु दो उदया ॥ ६८२ ॥

त्रयोदशानवमे पूर्वांशे अष्टादिचतुष्कं सप्तचतुष्कमुदयानाम् ।

सप्तदशं व विचारः पञ्चकोपशान्ते स्वकेपु द्वौ उदयौ ॥ ६८२ ॥

अर्थ—१३ के बंधसहित तिर्यंचमनुष्यदेशसंयतके और ९ के बंधसहित प्रमत्त दोनों श्रेणियोंवाले अपूर्वकरणके पूर्ववत् १७ के बंधकी तरह सत्त्व होनेपर क्रमसे ८ केको आदि लेकर ४ उदयस्थान और ७ के को आदि लेकर चार उदयस्थान होते हैं । इसमें विशेष वातका विचार १७ के बंधकी तरह समझलेना । तथा उपशांतकपाय गुणस्थानमें

२८ आदिके सत्त्व होनेपर ५ के बंधसहित २ का उदय है और ५-४ के बंधसहितभी २ का उदय है ॥ ६८२ ॥

यही कहते हैं;—

तेणेवं तेरतिये चदुबंधे पुव्वसत्तगेषु तहा ।

तेणुवसंतंसेयारतिए एक्को हवे उदओ ॥ ६८३ ॥

तेनैवं त्रयोदशत्रये चतुर्वन्धे पूर्वसत्त्वकेषु तथा ।

तेनोपशान्तांशे एकादशत्रये एको भवेत् उदयः ॥ ६८३ ॥

अर्थ—उन ५ के बंधसहित क्षपक अनिवृत्तिकरणमें पूर्ववत् १३ आदिक तीनके सत्त्व होनेपर तथा ४ के बंधसहित २८ के को आदिलेकर ३ का अथवा १३ को आदिलेकर ३ का सत्त्व होनेपर २ का उदय होता है । और ४ के बंधसहित उपशांतकषायमें पूर्वोक्त २८ को आदिलेकर ३ का सत्त्व होनेपर तथा ११ को आदिलेकर तीनका सत्त्व होनेपर १ का ही उदय है ॥ ६८३ ॥

तिदुइगिवंधे अडचउरिगिवीसे चदुतिएण ति दुगेण ।

दुगिसत्तेण य सहिदे कमेण एक्को हवे उदओ ६८४ ॥

त्रिद्विकेबन्धे अष्टचतुरेकविंशे चतुस्त्रिकेण त्रिद्विकेन ।

द्वयेकसत्त्वेन च सहिते क्रमेण एको भवेत् उदयः ॥ ६८४ ॥

अर्थ—अनिवृत्तिकरणमें ३-२-१ के बंधसहित क्रमसे २८-२४-२१ के सत्त्व होनेपर अथवा ४-३ का सत्त्व होनेसे वा ३-२ का सत्त्व होनेसे वा २-१ सत्त्व होनेसे एक एकका ही उदय होता है ॥ ६८४ ॥ यहां नवक समयप्रबद्धकी विवक्षा औ अविवक्षासे दो प्रकारके सत्त्व कहेगये हैं ।

आगे उदय-सत्त्व आधार और बंधको आधेयकरके ७ गाथाओंसे कहते हैं;—

दसगुदये अडवीसतिसत्ते वावीसबंध णवअट्टे ।

अडवीसे वावीसतिचउबंधो सत्तवीसदुगे ॥ ६८५ ॥

वावीसबंध चदुतिदुवीसंसे सत्तरसयददुगबंधो ।

अट्टुदये इगिवीसे सत्तरबंधं विसेसं तु ॥ ६८६ ॥ जुम्मं ।

दशकोदये अष्टविंशत्रिसत्त्वे द्वाविंशबन्धः नवाष्टके ।

अष्टविंशतौ द्वाविंशतित्रिचतुर्वन्धः सप्तविंशद्विके ॥ ६८५ ॥

द्वाविंशबन्धः चतुस्त्रिद्विविंशांशे सप्तदशायतद्विकबन्धः ।

अष्टोदये एकविंशे सप्तदशबन्धा विशेषस्तु ॥ ६८६ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—१० के उदयसहित २८ को आदिलेकर ३ का सत्त्व होनेपर २२ का बंध होता है, ९ के उदयसहित असंयतपर्यंत वा ८ के उदयसहित देशसंयतगुणस्थानत

२८ का सत्त्व होनेपर क्रमसे २२ को आदिलेकर ३ और ४ का बंधस्थान है तथा उन्हींमें २७ का वा २६ का उदय होनेपर २२ का बंध होता है । और पूर्वोक्त उदय-सहित मिश्रगुणस्थानमें २४ का सत्त्व होनेपर तथा असंयतगुणस्थानमें २४-२३-२१ इन तीन सत्त्वोंके होनेपर १७ का बंध है । देशसंयतगुणस्थानमें ८ के उदयसहित २४ को आदिलेकर तीनसत्त्व होनेपर १३ का बंध है । इतना विशेष है कि २१ के सत्त्व होनेपर क्षायिक सम्यग्दृष्टि असंयतके १७ का बंध होता है ॥ ६८५।६८६ ॥

सत्तुदये अडवीसे बन्धो बावीसपंचयं तेण ।

चउवीसतिगे अयदतिबंधो इगिवीसगयददुगबंधो ॥ ६८७ ॥

सप्तोदये अष्टविंशे बन्धो द्वाविंशपञ्चकं तेन ।

चतुर्विंशत्रिके अयतत्रिवन्ध एकविंशके अयतद्विकवन्धः ॥ ६८७ ॥

अर्थ—७ के उदयसहित २८ का सत्त्वहोनेपर २२ को आदिलेकर ५ बंधस्थान हैं । पूर्वोक्त उदयसहित २४ को आदि लेकर ३ सत्त्व होनेपर असंयतगुणस्थानमें १७ को आदि लेकर ३ बंध होते हैं और पूर्वोक्त उदय सहित २१ का सत्त्व होनेपर असंयतयु-गलमें कथित १७-१३ इन दोका बंध होता है ॥ ६८७ ॥

छप्पणउदये उवसंतंसे अयदतिगदेसदुगबंधो ।

तेण त्तिदोवीसंसे देसदुणवबंधयं होदि ॥ ६८८ ॥

षट्पञ्चोदये उपशान्तांशे अयतत्रिकदेशद्विकवन्धः ।

तेन त्रिद्विविंशांशे देशद्विनववन्धकं भवति ॥ ६८८ ॥

अर्थ—६ और ५ के उदयसहित उपशांतकपायमें कहे हुए तीन सत्त्वस्थान होनेपर क्रमसे असंयतयुगलकथित १७ को आदिलेकर ३ तथा देशसंयतयुगलकथित १३ को आदि लेकर दो बंध स्थान हैं । और पूर्वोक्त ६-५ के उदयसहित २३-२२ के सत्त्व होनेपर देशसंयतयुगलकथित १३ का बंधस्थान तथा ९ का बंधस्थान होता है ॥ ६८८ ॥

चउरुदयुवसंतंसे णवबंधो दोणिणउदयपुवंसे ।

तेरसतियसत्तेवि य पण चउ ठाणाणि बंधस्स ॥ ६८९ ॥

चतुरुदयोपशान्तांशे नववन्धो द्विकोदयपूर्वांशे ।

त्रयोदशत्रयसत्त्वेपि च पञ्चचतुःस्थानानि बन्धस्य ॥ ६८९ ॥

अर्थ—४ के उदयसहित उपशांतकपायोक्त २८-२४-२१ के सत्त्व होनेपर ९ का बंध पाया जाता है । २ के उदयसहित पूर्ववत् ३ सत्त्व होनेपर तथा १३ को आदि लेकर तीनसत्त्व होनेपर भी ५ का अथवा ४ का बंधस्थान है ॥ ६८९ ॥

एकुदयुवसंतसे बंधो चदुरादिचारि तेणेव ।

एयारदु चदुबंधो चदुरंसे चदुतियं बंधो ॥ ६९० ॥

एकोदयोपशान्तांशे बन्धः चतुरादिचत्वारः तेनव ।

एकादशद्विके चतुर्वन्धः चतुरंशे चतुस्त्रिको बन्धः ॥ ६९० ॥

अर्थ—एकके उदयसहित उपशांतकपायोक्त २८—२४—२१ के सत्त्व होनेपर ४ के को आदिलेकर चार बंधस्थान हैं । एकके ही उदय सहित ११—५ ये दो सत्त्व होनेपर ४ का बंधस्थान हैं । और ४ के सत्त्व होनेपर ४ वा ३ का बंधस्थान है ॥ ६९० ॥

तेण तिये त्तिदुबंधो दुगसत्ते दोणिण एक्कयं बंधो ।

एकंसे इगिवंधो गयणं वा मोहणीयस्स ॥ ६९१ ॥

तेन त्रये त्रिद्विबन्धो द्विकसत्त्वे द्वौ एको बन्धः ।

एकांशे एकबन्धो गगनं वा मोहनीयस्य ॥ ६९१ ॥

अर्थ—उसी एकके उदयसहित अनिवृत्तिकरणोक्त ३ का सत्त्व होनेपर ३ का वा २ का बंध होता है । २ का सत्त्व होनेपर २ का वा १ का बंध होता है । और मोहनीयके १ के स्थानका सत्त्व होनेपर १ हीका बंध स्थान होता है अथवा गगन अर्थात् बंधाभाव होता है ॥ ६९१ ॥ इसप्रकार मोहनीयके त्रिसंयोगी भंग कहे ।

आगे नामकर्मके बंधादिस्थानोंके त्रिसंयोग कहते हैं;—

णामस्स य बंधोदयसत्तट्टाणाण सव्वभंगा हु ।

पत्तेउत्तं व हवे तियसंजोगेवि सव्वत्थ ॥ ६९२ ॥

नामश्च बन्धोदयसत्त्वस्थानानां सर्वभङ्गा हि ।

प्रत्येकोक्तं व भवेयुः त्रिकसंयोगेपि सर्वत्र ॥ ६९२ ॥

अर्थ—नामकर्मके बंध—उदय—सत्त्वस्थानोंके सब भंग (भेद) जैसे जुदे २ कथनमें पहले कहे थे उसीतरह त्रिसंयोगमें भी सब जगह भंग होते हैं ऐसा प्रगट जानना ॥ ६९२ ॥

छणवत्तियसगइगि दुगतिगदुग तिणिणअट्टचत्तारि ।

दुगदुगचदु दुगपणचदु चदुरेयचदू पणेयचदू ॥ ६९३ ॥

एगेगमट्ट एगेगमट्ट चदुमट्ट केवल्लिजिणाणं ।

एगचदुरेगचदुरो दोचदु दोछक्क बंधउदयंसा ॥ ६९४ ॥ जुम्मं ।

षट्त्नवषट् त्रिकसप्तैकं द्विकत्रिकद्विकं त्रिकाष्टचत्वारि ।

द्विकद्विकचतुष्कं द्विकपञ्चचतुष्कं चतुरेकचतुष्कं पञ्चैकचतुष्कम् ॥ ६९३ ॥

एकैकाष्ट एकैकाष्ट चतुरष्ट केवल्लिजिनानाम् ।

एकचतुष्कमेकचतुष्कं द्विचतुष्कं द्विषट्कं बन्धोदयांशाः ॥ ६९४ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—नामकर्मके बंधस्थान-उदयस्थान और सत्त्वस्थान मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें क्रमसे ६-९-६, ३-७-१, २-३-२, ३-८-४, २-२-४, २-५-४, ४-१-४, ५-१-४, १-१-८, १-१-८, इसके बाद बंधका अभावहोनेसे १-४, १-४, २-४, और अयोगकेवलीके २-६ हैं ॥ ६९३।६९४ ॥

गामस्स य बंधोदयसत्ताणि गुणं पडुच्च उत्ताणि ।

पत्तेयादो सत्त्वं भणिद्वं अत्थजुत्तीए ॥ ६९५ ॥

नामश्च बन्धोदयसत्त्वानि गुणं प्रतीत्य उक्तानि ।

प्रत्येकात् सर्वं भणितव्यमर्थयुक्त्या ॥ ६९५ ॥

अर्थ—नामकर्मके बंध-उदय-सत्त्वस्थान जो गुणस्थानोंको लेकर कहे गये हैं उन सबको अर्थकी युक्तिसे जुदे २ कहते हैं ॥ ६९५ ॥

तेवीसादी बंधा इगिवीसादीणि उदयठाणाणि ।

वाणउदादी सत्तं बंधा पुण अट्टवीसत्तियं ॥ ६९६ ॥

इगिवीसादीएकत्तीसंता सत्तअट्टवीसूणा ।

उदया सत्तं णउदी बंधा पुण अट्टवीसदुगं ॥ ६९७ ॥

एगुणतीसत्तिदयं उदयं वाणउदिणउदियं सत्तं ।

अयदे बंधट्टाणं अट्टवीसत्तियं होदि ॥ ६९८ ॥

उदया चउवीसूणा इगिवीसप्पहुदिएकत्तीसंता ।

सत्तं पढमचउकं अपुव्वकरणोत्ति णायव्वं ॥ ६९९ ॥ कलावयं ।

त्रयोविंशादयो बन्धा एकविंशादीनि उदयस्थानानि ।

द्वानवत्यादि सत्त्वं बन्धाः पुनः अष्टविंशत्रयम् ॥ ६९६ ॥

एकविंशाद्येकात्रिंशदन्ता सप्ताष्टविंशोनाः ।

उदयाः सत्त्वं नवतिः बन्धाः पुनः अष्टविंशद्विकम् ॥ ६९७ ॥

एकोनत्रिंशत्रितयं उदयः द्वानवतिनवतिकं सत्त्वम् ।

अयते बन्धस्थानमष्टाविंशत्रयं भवति ॥ ६९८ ॥

उदयाः चतुर्विंशोना एकविंशप्रभृत्येकात्रिंशदन्ताः ।

सत्त्वं प्रथमचतुष्कमपूर्वकरण इति ज्ञातव्यम् ॥ ६९९ ॥ कलापकम् ।

अर्थ—गुणस्थानोंमेंसे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें २३ को आदि लेकर ६ बंधस्थान हैं, २१ को आदि लेकर ९ उदयस्थान हैं, ९२ के स्थानको आदि लेकर ६ सत्त्वस्थान हैं । उसके बाद दूसरे गुणस्थानमें बंधस्थान २८ के को आदि लेकर ३ हैं, २७-२८ के स्थान-कर रहित २१ को आदि लेकर ३१ के स्थानपर्यंत ७ उदयस्थान हैं, सत्त्वस्थान ९० का ही है । उसके बाद तीसरे गुणस्थानमें बंधस्थान २८ को आदि लेकर दो हैं, २९ को

आदि लेकर ३ उदयस्थान हैं, ९२-९० के दो सत्त्वस्थान हैं । तथा असंयत गुण-स्थानमें बंधस्थान २८ को आदि लेकर ३ हैं, उदयस्थान २४ के विना २१ के को आदि लेकर ३१ के स्थानपर्यंत ८ हैं, सत्त्वस्थान ९३ के को आदि लेकर ४ हैं । ये चारोंही सत्त्वस्थान अपूर्वकरण गुणस्थानतक जानने चाहिये । ६९६।६९७।६९८।६९९॥

अडवीसदुगं बंधो देसे पमदे य तीसदुगमुदओ ।

पणवीससत्तवीसप्पहुदीचत्तारि ठाणाणि ॥ ७०० ॥

अष्टविंशद्विकं बन्धो देशे प्रमत्ते च त्रिंशद्विकमुदयः ।

पञ्चविंशसप्तविंशप्रभृतिचत्वारि स्थानानि ॥ ७०० ॥

अर्थ—देशसंयतगुणस्थानमें २८ को आदि लेकर २ बंधस्थान हैं, ३० को आदि लेकर २ उदयस्थान हैं, सत्त्वस्थान पूर्ववत् ४ हैं । प्रमत्तमें देशसंयतकी तरह २ बंध-स्थान हैं, २५ का स्थान तथा २७ के को आदि लेकर ४ स्थान इसतरह ५ उदयस्थान हैं, सत्त्वस्थान पूर्ववत् ४ हैं ॥ ७०० ॥

अपमत्ते य अपुव्वे अडवीसादीण बंधमुदओ दु ।

तीसमणियट्टिसुहुमे जसकित्ती एक्कयं बंधो ॥ ७०१ ॥

उदओ तीसं सत्तं पढमचउक्कं च सीदिचउ संते ।

खीणे उदओ तीसं पढमचऊ सीदिचउ सत्तं ॥७०२॥ जुम्मं ।

अप्रमत्ते च अपूर्वे अष्टाविंशादीनां बन्ध उदयस्तु ।

त्रिंशदनिवृत्तिसूक्ष्मयोः यशस्कीर्तिरेका बन्धः ॥ ७०१ ॥

उदयः त्रिंशत् सत्त्वं प्रथमचतुष्कं च अशीतिचतुष्कं शान्ते ।

क्षीणे उदयः त्रिंशत् प्रथमचतुष्कमशीतिचतुष्कं सत्त्वम् ॥ ७०२ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—अप्रमत्तगुणस्थान और अपूर्वकरण गुणस्थानमें २८ को आदि लेकर ४ तथा ५ बंधस्थान क्रमसे होते हैं, उदयस्थान ३० का ही है, सत्त्वस्थान पूर्ववत् ४ हैं । अनि-वृत्तिकरण और सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानमें एक यशस्कीर्ति नामकर्मका ही बंधस्थान है, उदय-स्थान ३० का ही है, सत्त्वस्थान पहले (९३ के) स्थानको आदि ले ४ और ८० को आदि लेकर ४ इसतरह ८ हैं । उपशांतकषाय और क्षीणकषाय गुणस्थानमें उदयस्थान ३० का है, सत्त्वस्थान २३ के को आदि लेकर ४ तथा ८० को आदि लेकर ४ क्रमसे जानना चाहिये ॥ ७०१ ॥ ७०२ ॥

जोगिम्मि अजोगिम्मि य तीसिगितीसं णवट्टयं उदओ ।

सीदादिचउक्कं कमसो सत्तं समुद्धिट्ठं ॥ ७०३ ॥

योगिनि अयोगिनि च त्रिंशदेकत्रिंशत् नवाष्टकमुदयः ।

अशीत्यादिचतुःषट्कं क्रमशः सत्त्वं समुद्धिट्ठम् ॥ ७०३ ॥

अर्थ—सयोगकेवली और अयोगकेवलीके क्रमसे उदयस्थान ३०-३१ के दो, ९-८ के दो, सत्त्वस्थान ८० के आदि लेकर ४ तथा ६ जानने । 'इन चार गुणस्थानोंमें नामकर्मके बंधाभावसे दो स्थानही कहे हैं' इसप्रकार गुणस्थानोंमें बंधादि स्थान कहे गये हैं ॥ ७०३ ॥

आगे चौदह जीव समासोंमें इन स्थानोंको दिखलाते हैं;—

पणदोपणगं पणचटुपणगं बंधुदयसत्त पणगं च ।

पणछक्कपणगछ्छक्कपणगमट्टट्टमेयारं ॥ ७०४ ॥

सत्तेव अपज्जत्ता सामी सुहुमो य वादरो चेव ।

वियल्लिंदिया य तिविहा होन्ति असण्णी कमा सण्णी ॥७०५॥ जुम्मम् ।

पञ्चद्विपञ्चकं पञ्चचतुःपञ्चकं वन्धोदयसत्त्वं पञ्चकं च ।

पञ्चपट्टपञ्चकं पट्टपट्टपञ्चकमष्टाष्टैकादश ॥ ७०४ ॥

सप्तैव अपर्याप्ताः स्वामिनः सूक्ष्मश्च वादरश्चैव ।

विकलेन्द्रियाश्च त्रिविधा भवन्ति असंज्ञिनः क्रमात् संज्ञिनः ॥७०५॥ युग्मम् ।

अर्थ—उन १४ जीवसमासों (भेदों) मेंसे क्रमसे अपर्याप्तक ७ जीवसमासोंमें बंध-उदयसत्त्वस्थान ५-२-२-५ हैं । सब सूक्ष्म जीवोंके ५-४-५ हैं । सब वादर एकेंद्री जीवोंके ५-५-५ हैं । विकलत्रय अर्थात् दो इंद्री तेइंद्री चौइंद्रीके ५-६-५ स्थान हैं । असंज्ञी पंचेंद्रीके ६-६-५ हैं । और ८-८-११ बंधादिस्थानोंके संज्ञीजीव स्वामी होते हैं ॥ ७०४।७०५ ॥

आगे उन्हीं स्थानोंको कहते हैं;—

बंधा तियपणलणववीसत्तीसं अपुण्णगे उदओ ।

इगिचउवीसं इगिछवीसं थावरतसे कमसो ॥ ७०६ ॥

वाणउदीणउदिचऊ सत्तं एमेव बंधयं अंसा ।

सुहुमिदरे वियलत्तिये उदया इगिधीसयादिचउपणयं ॥७०७॥

इगिछक्कडणववीसत्तीसिगितीसं च वियलठाणं वा ।

बंधतियं सण्णिदरे भेदो बंधदि हु अडवीसं ॥७०८॥ विसेसयं ।

वन्धाः त्रिकपञ्चपणवविंशत्रिंशदपूर्णके उदयः ।

एकचतुर्विंशं एकपट्टिंशं स्थावरत्रसे क्रमशः ॥ ७०६ ॥

द्वानवतिनवतिचतुष्कं सत्त्वं एवमेव वन्धकः अंशाः ।

सूक्ष्मेतरयोः विकलत्रये उदया एकविंशकादिचतुःपञ्चकम् ॥ ७०७ ॥

एकपट्टाष्टनवविंशत्रिंशदेकत्रिंशच्च विकलस्थानं वा ।

वन्धत्रयं संज्ञीतरस्मिन् भेदो चप्राप्ति हि अष्टविंशम् ॥ ७०८ ॥ विशेषकम् ।

आदि लेकर ३ उदयस्थान हैं, ९२-९० के दो सत्त्वस्थान हैं । तथा असंयत गुण-स्थानमें बंधस्थान २८ को आदि लेकर ३ हैं, उदयस्थान २४ के विना २१ के को आदि लेकर ३१ के स्थानपर्यंत ८ हैं, सत्त्वस्थान ९३ के को आदि लेकर ४ हैं । ये चारोंही सत्त्वस्थान अपूर्वकरण गुणस्थानतक जानने चाहिये । ६९६।६९७।६९८।६९९॥

अडवीसदुगं वंधो देसे पमदे य तीसदुगमुदओ ।

पणवीससत्तवीसप्पहुदीचत्तारि ठाणाणि ॥ ७०० ॥

अष्टविंशद्विकं वन्धो देशे प्रमत्ते च त्रिंशद्विकमुदयः ।

पञ्चविंशसप्तविंशप्रभृतिचत्वारि स्थानानि ॥ ७०० ॥

अर्थ—देशसंयतगुणस्थानमें २८ को आदि लेकर २ बंधस्थान हैं, ३० को आदि लेकर २ उदयस्थान हैं, सत्त्वस्थान पूर्ववत् ४ हैं । प्रमत्तमें देशसंयतकी तरह २ बंध-स्थान हैं, २५ का स्थान तथा २७ के को आदि लेकर ४ स्थान इसतरह ५ उदयस्थान हैं, सत्त्वस्थान पूर्ववत् ४ हैं ॥ ७०० ॥

अपमत्ते य अपुव्वे अडवीसादीण वंधमुदओ दु ।

तीसमणियट्टिसुहुमे जसकित्ती एक्कयं वंधो ॥ ७०१ ॥

उदओ तीसं सत्तं पढमचउक्कं च सीदिचउ संते ।

खीणे उदओ तीसं पढमचऊ सीदिचउ सत्तं ॥७०२॥ जुम्मं ।

अप्रमत्ते च अपूर्वे अष्टाविंशादीनां वन्ध उदयस्तु ।

त्रिंशदनिवृत्तिसूक्ष्मयोः यशस्कीर्तिरेका वन्धः ॥ ७०१ ॥

उदयः त्रिंशत् सत्त्वं प्रथमचतुष्कं च अशीतिचतुष्कं शान्ते ।

क्षीणे उदयः त्रिंशत् प्रथमचतुष्कमशीतिचतुष्कं सत्त्वम् ॥ ७०२ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—अप्रमत्तगुणस्थान और अपूर्वकरण गुणस्थानमें २८ को आदि लेकर ४ तथा ५ बंधस्थान क्रमसे होते हैं, उदयस्थान ३० का ही है, सत्त्वस्थान पूर्ववत् ४ हैं । अनि-वृत्तिकरण और सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानमें एक यशस्कीर्ति नामकर्मका ही बंधस्थान है, उदय-स्थान ३० का ही है, सत्त्वस्थान पहले (९३ के) स्थानको आदि ले ४ और ८० को आदि लेकर ४ इसतरह ८ हैं । उपशांतकषाय और क्षीणकषाय गुणस्थानमें उदयस्थान ३० का है, सत्त्वस्थान २३ के को आदि लेकर ४ तथा ८० को आदि लेकर ४ क्रमसे जानना चाहिये ॥ ७०१ ॥ ७०२ ॥

जोगिम्मि अजोगिम्मि य तीसिगितीसं णवट्ठयं उदओ ।

सीदादिचउक्कं कमसो सत्तं समुद्दिट्ठं ॥ ७०३ ॥

योगिनि अयोगिनि च त्रिंशदेकत्रिंशत् नवाष्टकमुदयः ।

अशीत्यादिचतुःषट्कं क्रमशः सत्त्वं समुद्दिष्टम् ॥ ७०३ ॥

अर्थ—सयोगकेवली और अयोगकेवलीके क्रमसे उदयस्थान ३०-३१ के दो, ९-८ के दो, सत्त्वस्थान ८० के आदि लेकर ४ तथा ६ जानने । 'इन चार गुणस्थानोंमें नामकर्मके बंधाभावसे दो स्थानही कहे हैं' इसप्रकार गुणस्थानोंमें बंधादि स्थान कहे गये हैं ॥ ७०३ ॥

आगे चौदह जीव समासोंमें इन स्थानोंको दिखलाते हैं;—

पणदोपणगं पणचहुपणगं बंधुदयसत्त पणगं च ।

पणछक्कपणगछक्कपणगमट्टट्टमेयारं ॥ ७०४ ॥

सत्तेव अपज्जत्ता सामी सुहुमो य वादरो चेव ।

वियल्लिंदिया य तिविहा होन्ति असण्णी कमा सण्णी ॥७०५॥ जुम्मम् ।

पञ्चद्विपञ्चकं पञ्चचतुःपञ्चकं वन्धोदयसत्त्वं पञ्चकं च ।

पञ्चपट्टपञ्चकं पट्टपट्टपञ्चकमष्टाष्टैकादश ॥ ७०४ ॥

सप्तैव अपर्याप्ताः स्वामिनः सूक्ष्मश्च वादरश्चैव ।

विकलेन्द्रियाश्च त्रिविधा भवन्ति असंज्ञिनः क्रमात् संज्ञिनः ॥७०५॥ युग्मम् ।

अर्थ—उन १४ जीवसमासों (भेदों) मेंसे क्रमसे अपर्याप्तक ७ जीवसमासोंमें बंध-उदयसत्त्वस्थान ५-२-२-५ हैं । सब सूक्ष्म जीवोंके ५-४-५ हैं । सब वादर एकेंद्री जीवोंके ५-५-५ हैं । विकलत्रय अर्थात् दो इंद्री तेइंद्री चौइंद्रीके ५-६-५ स्थान हैं । असंज्ञी पंचेंद्रीके ६-६-५ हैं । और ८-८-११ बंधादिस्थानोंके संज्ञीजीव स्वामी होते हैं ॥ ७०४।७०५ ॥

आगे उन्हीं स्थानोंको कहते हैं;—

बंधा तियपणलणववीसत्तीसं अपुण्णगे उदओ ।

इगिचउवीसं इगिछवीसं थावरतसे कमसो ॥ ७०६ ॥

वाणउदीणउदिचऊ सत्तं एमेव बंधयं अंसा ।

सुहुमिदरे वियलतिये उदया इगिवीसयादिचउपणयं ॥७०७॥

इगिछक्कडणववीसत्तीसिगितीसं च वियलठाणं वा ।

बंधतियं सण्णिदरे भेदो बंधदि हु अडवीसं ॥७०८॥ विसेसयं ।

वन्धाः त्रिकपञ्चषणवविंशत्रिंशदपूर्णके उदयः ।

एकचतुर्विंशं एकषड्विंशं स्थावरत्रसे क्रमशः ॥ ७०६ ॥

द्वानवतिनवतिचतुष्कं सत्त्वं एवमेव वन्धकः अंशाः ।

सूक्ष्मेतरयोः विकलत्रये उदया एकविंशकादिचतुःपञ्चकम् ॥ ७०७ ॥

एकषट्पाष्टनवविंशत्रिंशदेकत्रिंशच्च विकलस्थानं वा ।

वन्धत्रयं संज्ञीतरस्मिन् भेदो वध्नाति हि अष्टविंशम् ॥ ७०८ ॥ विशेषकम् ।

अर्थ—अपर्याप्तक ७ जीवसमासोंमें बंधस्थान २३-२५-२६-२९-३०के पांच हैं, उदयस्थान क्रमसे स्थावर लब्धपर्याप्तकमें २१-२४के दो हैं और त्रस लब्धपर्याप्तकके २१-२६ के दो हैं, सत्त्वस्थान ९२ का और ९० को आदि लेकर चार इसतरह ५ हैं । तथा सूक्ष्म-बादर और विकलत्रय इनमें बंधस्थान और सत्त्वस्थान इन अपर्याप्तकोंकी तरह जानना, उदयस्थान सूक्ष्ममें २१ को आदि लेकर ४ और बादरमें ५ जानना, विकल-त्रयमें २१-२६-२७-२८-२९-३०-३१ के छह हैं । असेंनी पंचेंद्रीमें बंधादि तीनस्थान विकलत्रयकी तरह समझ लेना, परंतु इतनी विशेषता है कि यह २८ के स्थानको भी बांधता है । इसकारण बंधस्थान ६ होजाते हैं ॥ ७०६।७०७।७०८ ॥

सण्णिम्मि सव्वबंधो इगिवीसप्पहुदिएकतीसंता ।

चउवीसूणा उदओ दसणवपरिहीणसव्वयं सत्तं ॥ ७०९ ॥

संज्ञिनि सर्ववन्ध एकविंशप्रभृत्येकत्रिंशदन्ताः ।

चतुर्विंशोना उदयो दशनवपरिहीनसर्वकं सत्त्वम् ॥ ७०९ ॥

अर्थ—संज्ञीपंचेंद्रीके बंधस्थान सब (८) हैं, उदयस्थान २४ को विना २१ को आदि लेकर ३१ तक आठ हैं, और सत्त्वस्थान १०-९ के विना सब ११ हैं ॥७०९॥ इसप्रकार जीवसमासोंमें नामकर्मके बंधादिस्थान कहे हैं ।

आगे चौदहमार्गणाओंमें नामके बन्धादि स्थानोंको कहनेवाले पहले गतिमार्गणामें कहते हैं;—

दोछक्कट्टचउकं गिरयादिसु णामबंधठाणाणि ।

पणणवएगारपणयं तिपंचवारसचउकं च ॥ ७१० ॥

द्विषट्काष्टचतुष्कं निरयादिषु नामबन्धस्थानानि ।

पञ्चनवैकादशपञ्चकं त्रिपञ्चद्वादशचतुष्कं च ॥ ७१० ॥

अर्थ—नामकर्मके बंधस्थान नरकआदि चारगतियोंमें क्रमसे २-६-८-४ हैं, उदयस्थान ५-९-११-५ हैं, सत्त्वस्थान ३-५-१२-४ कहेगये हैं ॥ ७१० ॥

अब इंद्रियमार्गणामें कहते हैं;—

एगे वियले सयले पण पण अड पंच छक्केगार पणं ।

पणतेरं बंधादी सेसादेसेवि इदि णेयं ॥ ७११ ॥

एके विकले सकले पञ्च पञ्चाष्ट पञ्च षट्त्रैकादश पञ्च ।

पञ्चत्रयोदश बन्धादीनि शेषादेशेषि इति ज्ञेयम् ॥ ७११ ॥

अर्थ—एकेंद्री विकलेंद्री और पंचेंद्रीके क्रमसे ९-५-८ बंधस्थान हैं, ५-६-११ उदयस्थान हैं, ५-५-१३ तत्त्वस्थान हैं । इसीप्रकार शेष कायादिक मार्गणाओंमें बंधादि स्थान जानने चाहिये ॥ ७११ ॥

आगे उन्हीं स्थानोंको दिखाते हैं;—

णिरयादिनामबंधा उगुतीसं तीसमादिमं छकं ।

सव्वं पणच्छकुत्तरवीसुगुतीसंदुगं होदि ॥ ७१२ ॥

निरयादिनामबन्धा एकोनत्रिंशत् त्रिंशदादिमं पटम् ।

सर्वं पञ्चपट्टोत्तरविंशैकोनत्रिंशद्विकं भवति ॥ ७१२ ॥

अर्थ—नामकर्मके बंधस्थान नरकादि गतियोंमें क्रमसे २९-३० के दो, आदिके (२३ के) स्थानको आदि लेकर ६, सब आठों, २५-१६-२९-३० के चार हैं ॥ ७१२ ॥

उदया इगिपणसगअडणववीसं एकवीसपहुदिणवं ।

चउवीसहीणसव्वं इगिपणसगअट्टणववीसं ॥ ७१३ ॥

उदया एकपञ्चसप्ताष्टनवविंशमेकविंशप्रभृतिनव ।

चतुर्विंशहीनं सर्वमेकपञ्चसप्ताष्टनवविंशम् ॥ ७१३ ॥

अर्थ—उदयस्थान नरकगतिमें २१-२५-२७-२८-२९ के पांच हैं, तिर्यचगतिमें २१ को आदि लेकर ९ हैं, मनुष्यगतिमें २४ के स्थानके विना सब हैं, देवगतिमें २१-२५-२७-२८-२९ के पांच हैं ॥ ७१३ ॥

सत्ता वाणउदितियं वाणउदीणउदिअट्टसीदितियं ।

वासीदिहीणसव्वं तेणउदिचउक्कयं होदि ॥ ७१४ ॥

सत्ता द्वानवतित्रयं द्वानवतिनवत्यष्टाशीतित्रयम् ।

द्वयशीतिहीनसर्वं त्रिनवतिचतुष्कं भवति ॥ ७१४ ॥

अर्थ—सत्त्वस्थान नरकगतिमें ९२ को आदि लेकर ३ हैं, तिर्यचगतिमें ९२-९०-८८ को आदि लेकर तीन इसतरह ५ हैं, मनुष्यगतिमें ८२ के विना सब हैं, देवगतिमें ९३ को आदि लेकर ४ हैं ॥ ७१४ ॥

इगिविगल बंधठाणं अडवीसूणं तिवीसछकं तु ।

सयलं सयले उदया एगे इगिवीसपंचयं वियले ॥ ७१५ ॥

इगिच्छकडणववीसं तीसदु चउवीसहीणसव्वुदया ।

णउदिचऊ वाणउदी एगे वियले य सव्वयं सयले ॥ ७१६ ॥ जुम्मं ।

एकविकले बन्धस्थानमष्टविंशोनं त्रयोविंशपट्टं तु ।

सकलं सकले उदया एकस्मिन्नेकविंशपञ्चकं विकले ॥ ७१५ ॥

एकषट्पाष्टनववंशं त्रिंशद्विकं चतुर्विंशहीनं सर्वमुदयाः ।

नवतिचतुष्कं द्वानवतिः एके विकले च सर्वं सकले ॥ ७१६ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—बंधस्थान एकेंद्री विकलेंद्रीके २८ के विना २३ को आदि लेकर ६ हैं, पंचेंद्रीके सब हैं । और उदयस्थान एकेंद्रीके २१ के को आदि लेकर ५ हैं, विकलेंद्रीके

२१-२६-२८-२९-३०-३१, के ६ हैं, पंचेन्द्रीके २४ के विना सब हैं । तथा सत्त्वस्थान एकेन्द्री और विकलेन्द्रीके ९२ का तथा ९० को आदि लेकर ४ हैं, सकल अर्थात् पंचेन्द्रीके सब हैं ॥ ७१५।७१६ ॥

अब कायमार्गणामें कहते हैं;—

पुढवीयादीपंचसु तसे कमा बंधउदयसत्ताणि ।

एयं वा सयलं वा तेउदुगे णत्थि सगवीसं ॥ ७१७ ॥

पृथिव्यादिपञ्चसु त्रसे क्रमात् बन्धोदयसत्त्वानि ।

एकं वा सकलं वा तेजोद्विके नास्ति सप्तविंशम् ॥ ७१७ ॥

अर्थ—पृथ्वीकायआदि पांच स्थावरोंमें और त्रसकायमें बंधउदयसत्त्वस्थान एकेन्द्रीवत् और पंचेन्द्रीवत् जानना, परंतु इतनी विशेषता है कि तेजःकायिक और वायुकायिक इन दोनोंमें २७ का स्थान नहीं है क्योंकि उसका उदय इन दोनोंके नहीं होता ॥७१७॥

आगे योगमार्गणामें दिखाते हैं;—

मणिवचि बंधुदयंसा सव्वं णववीसतीसइगितीसं ।

दसणवदुसीदिवज्जिदसव्वं ओरालतम्मिस्से ॥ ७१८ ॥

सव्वं तिवीसल्लकं पणुवीसादेकतीसपेरंतं ।

चउल्लकसत्तवीसं दुसु सव्वं दसयणवहीणं ॥ ७१९ ॥ जुम्मं ।

मनोवचसोः बन्धोदयांशाः सर्वे नवविंशत्रिंशदेकत्रिंशत् ।

दशनवद्वयशीतिवर्जितसर्वमौरालतन्मिश्रे ॥ ७१८ ॥

सर्वे त्रयोविंशषट्कं पञ्चविंशदेकत्रिंशत्पर्यन्तम् ।

चतुःषट्सप्तविंशं द्वयोः सर्वे दशकनवहीनम् ॥ ७१९ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—मनयोग वचनयोगमें बंधस्थान सब हैं, उदयस्थान २९-३०-३१ के तीन हैं, सत्त्वस्थान १०-९ और ८२ के विना सब हैं । औदारिकयोगमें बंधस्थान सब हैं, और औदारिकमिश्रमें २३ के को आदि लेकर ६ हैं, उदयस्थान औदारिकयोगमें २५ को आदि लेकर ३१ पर्यंत सात हैं और औदारिकमिश्रमें २४-२६-२७ के तीन हैं, सत्त्वस्थान औदारिकयोग तथा औदारिकमिश्रयोग इन दोनोंमें १०-९ के विना सब हैं ॥७१८।७१९॥

वेगुव्वे तम्मिस्से बंधंसा सुरगदीव उदयो दु ।

सगवीसतियं पणजुदवीसं आहारतम्मिस्से ॥ ७२० ॥

बंधतियं अडवीसदु वेगुव्वं वा तिणउदिव्वाणउदी ।

कम्मे वीसदुगुदओ ओरालियमिस्सयं व बंधंसा ॥७२१॥ जुम्मं ।

वैगूर्वे तन्मिश्रे बन्धांशाः सुरगतिरिव उदयस्तु ।

सप्तविंशत्रयं पञ्चयुतविंशमाहारतन्मिश्रे ॥ ७२० ॥

बन्धत्रयमष्टविंशद्विकं वैगूर्वं वा त्रिनवतिद्वानवती ।

कर्मणि विंशद्विकोदय औरालिकमिश्रकं व बन्धांशाः ॥ ७२१ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—वैक्रियिक योग और वैक्रियिकमिश्रयोगमें बंधस्थान तथा सत्त्वस्थान देवगतिके समान जानना, उदयस्थान वैक्रियिकयोगमें २७ को आदि लेकर तीन हैं वैक्रियिकमिश्रमें २५ का ही है । आहारक तथा आहारकमिश्रयोगमें बंधादि तीन स्थान क्रमसे २८-२९ के दो, वैक्रियिकयोगवत् २७ को आदि लेकर तीन, ९३-९२ के दो हैं । और कार्माणयोगमें उदयस्थान २०-२१ के दो हैं, तथा बंधस्थान-सत्त्वस्थान औदारिकमिश्रयोगके समान जानने चाहिये ॥ ७२० ॥ ७२१ ॥

आगे वेदमार्गणा और कषायमार्गणामें बंधादि स्थानोंको कहते हैं;—

वेदकसाये सव्वं इगिवीसणवं तिणउदिण्कारं ।

थीपुरिसे चउवीसं सीदडसदरी ण थीसंढे ॥ ७२२ ॥

वेदकपाये सर्वमेकविंशनवं त्रिनवत्येकादश ।

स्त्रीपुरुषे चतुविंशमशीत्यष्टसप्तती न स्त्रीपण्ढे ॥ ७२२ ॥

अर्थ—वेदमार्गणा और कषायमार्गणामें बंधस्थान सब हैं, उदयस्थान २१ को आदि लेकर ९ हैं, सत्त्वस्थान ९३ को आदि लेकर ११ हैं । परंतु इतनी विशेषता है कि स्त्री-पुरुषवेदमें २४ के का उदय नहीं है और स्त्री-नपुंसकवेदमें ८०-७८ के दो सत्त्वस्थान नहीं हैं ॥ ७२२ ॥

अब ज्ञानादि मार्गणाओंमें बंधादिस्थानोंको दिखलाते हैं;—

अण्णाणदुगे बंधो आदीच्छ णउंसयं व उदयो दु ।

सत्तं दुणउदिच्छकं विभंगबंधा हु कुमदिं व ॥ ७२३ ॥

उदया उणतीसतियं सत्ता णिरयं व मदिसुदोहीए ।

अडवीसपंच बंधा उदया पुरिसं व अट्टेव ॥ ७२४ ॥

पठमचऊ सीदिचऊ सत्तं मणपज्जवम्हि बंधंसा ।

ओहिं व तीसमुदयं ण हि बंधो केवले णाणे ॥ ७२५ ॥

उदओ सव्वं चउपणवीसूणं सीदिच्छकयं सत्तं ।

सुदमिव सामयियदुगे उदओ पणुवीससत्तवीसचऊ ॥ ७२६ ॥ कलावयं ।

अज्ञानद्विके बन्ध आदिषट् नपुंसकं व उदयस्तु ।

सत्त्वं द्विनवतिषट्कं विभङ्गबन्धा हि कुमतिर्व ॥ ७२३ ॥

उदया एकोनत्रिंशत्रयं सत्ता निरयं व मतिश्रुतावधिपु ।

अष्टविंशपञ्चबन्धा उदया पुरुषो व अष्टैव ॥ ७२४ ॥

प्रथमचतुष्कमशीतिचतुष्कं सत्त्वं मनःपर्यये बन्धांशाः ।
 अवधिरिव त्रिंशदुदयो न हि बन्धः केवले ज्ञाने ॥ ७२५ ॥
 उदयः सर्वं चतुःपञ्चविंशोनमशीतिपट्टं सत्त्वम् ।
 श्रुतमिव सामायिकद्विके उदयः पञ्चविंशसप्तविंशचतुष्कम् ॥ ७२६ ॥ कलापकम् ।

अर्थ—कुमतिज्ञान और कुश्रुतज्ञान इन दोनोंमें बंधस्थान २३ को आदि लेकर ६ हैं, उदयस्थान नपुंसकवेदवत् ९ हैं, सत्त्वस्थान ९२ को आदि लेकर ६ हैं । विभंग (कु अवधि) ज्ञानमें बंधस्थान तो कुमतिज्ञानकी तरह हैं, उदयस्थान २९ को आदि लेकर ३ हैं, सत्त्वस्थान नरकगतिवत् हैं । मतिज्ञान—श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानमें बंधस्थान २८ को आदि लेकर ५ हैं, उदयस्थान पुरुषवेदवत् ८ हैं, सत्त्वस्थान ९३ को आदि लेकर ४ तथा ८० को आदि लेकर ४ इसतरह ८ हैं । मनःपर्ययज्ञानमें बंधस्थान और सत्त्वस्थान अवधिज्ञानकी तरह हैं, उदयस्थान ३० का ही है । केवलज्ञानमें बंधस्थानका तो अभाव है और उदयस्थान २४—२५ के बिना सब हैं, सत्त्वस्थान ८० को आदि लेकर ६ हैं । तथा संयममार्गणामेंसे सामायिक—छेदोपस्थापना इन दो में बंधस्थान और सत्त्वस्थान श्रुतज्ञानवत् जानने चाहिये, उदयस्थान २५ का—२७ को आदि लेकर चार इसतरह ५ हैं ॥ ७२३।७२४।७२५।७२६ ॥

परिहारे बंधतियं अडवीसचऊ य तीसमादिचऊ ।

सुहुमे एको बंधो मणं व उदयंसठाणाणि ॥ ७२७ ॥

परिहारे बन्धत्रयमष्टविंशचतुष्कं च त्रिंशमादिचतुष्कम् ।

सूक्ष्मे एको बन्धो मनो व उदयांशस्थानानि ॥ ७२७ ॥

अर्थ—परिहारविशुद्धिमें बंध-उदय-सत्त्वस्थान क्रमसे २८ को आदि लेकर ४, ३० का, ९३ के को लेकर ४ हैं । सूक्ष्मसांपरायसंयममें बंध १ का ही है, उदयस्थान और सत्त्वस्थान मनःपर्यायज्ञानवत् जानने चाहिये ॥ ७२७ ॥

जहखादे बंधतियं केवल्यं वा तिणउदिचउ अत्थि ।

देसे अडवीसदुगं तीसदु तेणउदिचारि बंधतियं ॥ ७२८ ॥

यथाख्याते बन्धत्रयं केवलं वा त्रिनवतिचतुष्कमस्ति ।

देशे अष्टविंशद्विकं त्रिंशद्विकं त्रिनवतिचत्वारि बन्धत्रयम् ॥ ७२८ ॥

अर्थ—यथाख्यातसंयममें बंधादि तीन स्थान केवल ज्ञानवत् हैं, परंतु इतना विशेष है कि सत्त्व ९३ को आदि लेकर ४ का भी पाया जाता है । देशसंयतके बंधादि तीन स्थान क्रमसे २८ को आदि लेकर दो, ३० को आदि लेकर दो, ९३ को आदि लेकर ४ हैं ॥ ७२८ ॥

अविरमणे बंधुदया कुमदिं व तिणउदिसत्तयं सत्तं ।
 पुरिसं वा चक्खिदरे अत्थि अचक्खुम्मि चउवीसं ॥ ७२९ ॥
 अविरमणे बन्धोदयाः कुमतिर्व त्रिनवतिसप्तकं सत्त्वम् ।
 पुरुषं वा चक्षुरितरयोरस्ति अचक्षुपि चतुर्विंशम् ॥ ७२९ ॥

अर्थ—असंयतके बंधस्थान और उदयस्थान कुमतिज्ञानवत् हैं, सत्त्वस्थान ९३ को आदि लेकर ७ हैं । तथा दर्शनमार्गणामेंसे चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शनमें बंधादिस्थान पुरुषवेदकी तरह हैं, परंतु इतना विशेष है कि अचक्षुदर्शनमें २४ के स्थानका भी उदय होता है ॥ ७२९ ॥

ओहिदुगे बंधतियं तण्णाणं वा किलिट्टलेस्सतिये ।
 अविरमणं वा सुहज्जुगलुदओ पुंवेदयं व हवे ॥ ७३० ॥
 अडवीसचऊ बंधा पणल्लव्वीसं च अत्थि तेउम्मि ।
 पढमचउकं सत्तं सुक्के ओहिं व वीसयं चुदओ ॥ ७३१ ॥ जुम्मं ।
 अवधिट्टिके बन्धत्रयं तज्ज्ञानं वा क्लिष्टलेश्यत्रये ।
 अविरमणं वा शुभयुगलोदयः पुंवेदको व भवेत् ॥ ७३० ॥
 अष्टविंशचतुरो बन्धाः पञ्चषड्विंशं चास्ति तेजसि ।
 प्रथमचतुष्कं सत्त्वं शुक्लायामवधिर्व विंशकं चोदयः ॥ ७३१ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—अवधिदर्शन और केवलदर्शनमें बंधादि तीनस्थान अवधिज्ञान और केवल-ज्ञानवत् जानने चाहिये । तथा लेश्यामार्गणामेंसे कृष्णादि तीन अशुभ लेश्याओंमें बंधादि तीन स्थान असंयतवत् हैं । तेजोलेश्या और पद्मलेश्यामें उदयस्थान पुरुषवेदकी तरह हैं, बंधस्थान पद्मलेश्यामें २८ को लेकर ४ हैं और तेजोलेश्यामें ये चार तथा २५--२६ के दो इसप्रकार ६ हैं, सत्त्वस्थान तेजोलेश्या और पद्मलेश्या इन दोनोंमें आदिके ४ हैं । शुक्ललेश्यामें बंधादि स्थान अवधिज्ञानवत् जानना, परंतु इतना विशेष है कि २० के स्थानका भी इसमें उदय होता है ॥ ७३०-७३१ ॥

भव्वे सव्वमभव्वे बंधुदया अविरदव्व सत्तं तु ।
 णउदिचउ हारबंधणदुगहीणं सुदमिवुवसमे बंधो ॥ ७३२ ॥
 उदया इगिपणवीसं णववीसतियं च पढमचउ सत्तं ।
 उवसम इव बंधंसा वेदगसम्मि ण इगिवंधो ॥ ७३३ ॥
 उदया मदिं व खइये बंधादी सुदमिवत्थि चरिमदुगं ।
 उदयसे वीसं च य साणे अडवीसतियबंधो ॥ ७३४ ॥

उदया इगिवीसचऊ णववीसतियं च णउदियं सत्तं ।
 मिस्से अडवीसदुगं णववीसतियं च बंधुदया ॥ ७३५ ॥
 वाणउदिणउदिसत्तं मिच्छे कुमदिं व होदि बंधतियं ।
 पुरिसं वा सण्णीये इदरे कुमदिं व णत्थि इगिणउदी ॥ ७३६ ॥ कुलयं ।

भव्ये सर्वमभव्ये वन्धोदया अविरत इव सत्त्वं तु ।
 नवतिचतुष्कमाहारवन्धनद्विकहीनं श्रुतमिवोपशमे वन्धः ॥ ७३२ ॥
 उदया एकपञ्चविंशं नवविंशत्रयं च प्रथमचतुष्कं सत्त्वम् ।
 उपशम इव वन्धांशा वेदकसम्ये नैकवन्धः ॥ ७३३ ॥
 उदया मतिर्व क्षायिके वन्धादि श्रुतमिवास्ति चरमद्विकम् ।
 उदयांशे विंशं च च साने अप्रविंशत्रिकवन्धः ॥ ७३४ ॥
 उदया एकविंशचत्वारः नवविंशत्रयश्च नवतिकं सत्त्वम् ।
 मिश्रे अप्रविंशद्विकं नवविंशत्रयं च वन्धोदयाः ॥ ७३५ ॥
 द्वानवतिनवतिसत्त्वं मिथ्ये कुमतिर्व भवति वन्धत्रयम् ।
 पुरुषो वा संज्ञिनि इतरस्मिन् कुमतिर्व नास्ति एकनवतिः ॥ ७३६ ॥ कुलकम् ।

अर्थ—भव्यमार्गणामें भव्यके बंध उदय सत्त्वस्थान सत्र हैं, और अभव्यके बंध उदय-स्थान असंयमवत् जानना तथा सत्त्वस्थान ९० को आदि लेकर ४ हैं, परंतु इतना विशेष है कि आहारद्विक सहित ३० का बंध नहीं है किंतु उद्योत सहित है । सम्यक्त्वमार्गणामेंसे उपशमसम्यक्त्वमें बंधस्थान श्रुतज्ञानवत् हैं, उदयस्थान २१-२५-२९ को आदि लेकर ३ इसतरह ५ हैं, सत्त्वस्थान ९३ के स्थानको आदि लेकर ४ हैं । वेदक सम्यक्त्वमें बंधस्थान और सत्त्वस्थान तो उपशमसम्यक्त्वकी तरह हैं परंतु इतना विशेष है कि एकका बंधस्थान नहीं है, उदयस्थान मतिज्ञानवत् ८ हैं । क्षायिकसम्यक्त्वमें बंधादिस्थान श्रुतज्ञानवत् ५-८-८ हैं इतना विशेष है कि उदय सत्त्वमें अंतके दो दो स्थान अन्यभी पाये जाते हैं तथा उदयमें २० का स्थान भी पाया जाता है । सासादनसम्यक्त्वमें बंधस्थान २८ को लेकर ३ हैं, उदयस्थान २१ को आदि लेकर ४-२९ को लेकर ३ इसतरह ७ हैं, और सत्त्वस्थान ९० का ही है । मिश्ररुचिके बंधस्थान २८ को आदि लेकर २ हैं, उदयस्थान २९ को आदि लेकर ३ हैं, सत्त्वस्थान ९२-९० के दो हैं । मिथ्यारुचिके बंधादि तीन स्थान कुमतिज्ञानवत् जानने चाहिये । संज्ञीमार्गणामें संज्ञीके बंधादिस्थान पुरुषवेदकी तरह हैं । असंज्ञीके कुमतिज्ञानवत् हैं परंतु इतना विशेष है कि ९१ का सत्त्वस्थान नहीं है ॥ ७३२।७३३।७३४।७३५।७३६ ॥

आहारे बंधुदया संढं वा णवरि णत्थि इगिवीसं ।
 पुरिसं वा कम्मंसा इदरे कम्मं व बंधतियं ॥ ७३७ ॥

आहारे बन्धोदया षण्ढो वा नवरि नास्ति एकविंशम् ।

पुरुषो वा कर्माशाः इतरस्मिन् कर्म व बन्धत्रयम् ॥ ७३७ ॥

अर्थ—आहारमार्गणामें बंध उदयस्थान नपुंसकवेदवत् हैं, परंतु इतना विशेष है कि २१ का उदयस्थान नहीं है, सत्त्वस्थान पुरुषवेदवत् हैं । अनाहारकके बंधादि तीन स्थान कार्माणकाययोगवत् हैं ॥ ७३७ ॥

अत्थि णवट्ट य दुदओ दसणवसत्तं च विज्जदे एत्थ ।

इदि बंधुदयप्पहुदीसुदणामे सारमादेसे ॥ ७३८ ॥

अस्ति नवाष्ट च द्व्युदयो दशनवसत्त्वं च विद्यतेऽत्र ।

इति बन्धोदयप्रभृतिश्रुतनाम्नि सारमादेशे ॥ ७३८ ॥

अर्थ—उस अनाहार मार्गणामें इतना विशेष है कि अयोगीके उदयस्थान ९-८ को दो हैं, सत्त्वस्थान १०-९ के दो हैं । इसप्रकार मार्गणाओंमें नामकर्मके बंधउदयसत्त्वका त्रिसंयोग प्रगटरीतिसे सारभूत कहागया है ॥ ७३८ ॥

चारुसुदंसणधरणे कुवलयसंतोसणे समत्थेण ।

माधवचंदेण महावीरेणत्थेण वित्थरिदो ॥ ७३९ ॥

चारुसुदर्शनधरणे कुवलयसन्तोपणे समर्थेन ।

माधवचन्द्रेण महावीरेनार्थेन विस्तरितः ॥ ७३९ ॥

अर्थ—इसप्रकार पूर्वोक्त कथन, उत्कृष्ट सम्यग्दर्शनके धारण करनेमें समर्थ तथा पृथ्वी-मंडलको आनन्द उत्पन्न करनेवाले ऐसे श्रीमाधवचंद्र अर्थात् नेमिनाथ तीर्थकर और महावीर तीर्थकर इन दोनोंने परमार्थसे विस्ताररूप किया है ॥ अथवा माधवचंद्र और वीरनंदि ये दोनों आचार्योंके नाम हैं ऐसा भी अर्थ निकलता है सो ऐसा अर्थ करनेमेंभी कोई हानि नहीं है ॥ ७३९ ॥

आगे इस बंधादि त्रिसंयोगको एक आधार और दो आधेयकी अपेक्षा कहते हैं;—

णवपंचोदयसत्ता तेवीसे षण्णुवीस छबीसे ।

अट्टचदुरट्टवीसे णवसत्तुगुतीसतीसम्मि ॥ ७४० ॥

एगेगं इगितीसे एगे एगुदयमट्टसत्ताणि ।

उवरदबंधे दसदस उदयंसा होंति णियमेण ॥७४१॥ जुम्मं ।

नवपञ्चोदयसत्ताः त्रयोविंशे पञ्चविंशे षड्विंशे ।

अष्टचतुष्कमष्टाविंशे नवसप्तैकोनत्रिंशत्रिंशतोः ॥ ७४० ॥

एकैकमेकत्रिंशतौ एकस्मिन्नेकोदयोऽष्टसत्त्वानि ।

उपरतबन्धे दश दश उदयांशा भवन्ति नियमेन ॥ ७४१ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—२३-२५-२६ के बंधस्थानमें उदयस्थान ९ और सत्त्वस्थान ५ हैं । २८

के बंधस्थानमें उदयस्थान ८ और सत्त्वस्थान ४ हैं । २९ और ३० के बंधस्थानमें उदयस्थान ९ और सत्त्वस्थान ७ हैं । ३१ के बंधस्थानमें उदयस्थान १ और सत्त्वस्थान १ है । १ के बंधस्थानमें उदयस्थान १ और सत्त्वस्थान ८ हैं । तथा उपरतबंध अर्थात् बंधरहितस्थानमें उदयस्थान और सत्त्वस्थान दस दस नियमसे होते हैं ॥ ७४०।७४१ ॥

उदयंसद्वाणाणि य सामित्तादो ढु जाणिद्वानि ।

बंधुदयं च णिरुंभिय सत्तस्स य संभवगदीए ॥ १ ॥

अब उक्तस्थानोंकी संख्या कहते हैं,—

तियपणलुवीसबंधे इगिवीसादेकतीसचरिसुदया ।

वाणउदी णउदिचऊ सत्तं अडवीसगे उदया ॥ ७४२ ॥

पुवं व ण चउवीसं वाणउदिचउक्कसत्तमुगुतीसे ।

तीसे पुवं बुदया पढमिहं सत्तयं सत्तं ॥ ७४३ ॥ जुम्मं ।

त्रिकपञ्चषड्विंशवन्धे एकविंशदेकत्रिंशचरसोदयाः ।

द्वानवतिः नवतिचतुष्कं सत्त्वमष्टविंशके उदयाः ॥ ७४२ ॥

पूर्वं व न चतुर्विंशं द्वानवतिचतुष्कसत्त्वमेकोनत्रिंशे ।

त्रिंशे पूर्वं वोदयाः प्रथमाद्यं सप्तकं सत्त्वम् ॥ ७४३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—२३—२५—२६ के बंधस्थानोंमें २१ को आदि लेकर ३१ पर्यंत उदयस्थान ९ हैं, सत्त्वस्थान ९२—९० को आदि लेकर ४ इसप्रकार ५ हैं । २८ के बंधस्थानमें उदयस्थान पूर्ववत् ९ मेंसे २४ का न होनेसे ८ हैं, सत्त्वस्थान ९२ को आदि लेकर ४ हैं । तथा २९—३० के बंधस्थानमें उदयस्थान पूर्ववत् ९ हैं, सत्त्वस्थान पहले (९३) को आदि लेकर ७ हैं ॥ ७४२।७४३ ॥

इगितीसे तीसुदओ तेणउदी सत्तयं हवे एगे ।

तीसुदओ पढमचऊ सीदादिचउक्कमवि सत्तं ॥ ७४४ ॥

एकत्रिंशे त्रिंशोदयः त्रिनवतिः सत्त्वं भवति एकस्मिन् ।

त्रिंशोदयः प्रथमचतुष्कमशीत्यादिचतुष्कमपि सत्त्वम् ॥ ७४४ ॥

अर्थ—३१ के बंधस्थानमें उदयस्थान ३० का है, सत्त्वस्थान ९३ का है । १ के बंधस्थानमें उदयस्थान ३० का है, सत्त्वस्थान ९३ को आदि लेकर ४ और ८० के को आदि लेकर ४ इसतरह ८ हैं ॥ ७४४ ॥

उवरदबंधेसुदया चउपणवीसूण सव्वयं होदि ।

सत्तं पढमचउक्कं सीदादीलुक्कमवि होदि ॥ ७४५ ॥

उपरतवन्धेपूदयाः चतुःपञ्चविंशोनं सर्वं भवति ।

सत्त्वं प्रथमचतुष्कमशीत्यादिषट्कमपि भवति ॥ ७४५ ॥

अर्थ—बंधरहितमें उदयस्थान २४—२५ के विना सब (१०) हैं, सत्त्वस्थान ९३ को आदि लेकर ४ और ८० को आदि लेकर ६ इसतरह १० हैं ॥ ७४५ ॥

आगे दूसरा भेद उदयको आधार तथा बंध—सत्त्वको आधेय मानकर कहते हैं;—

वीसादिसु बंधंसा णभट्टु छण्णव पणपणं च छसत्तं ।

छण्णव छड दुसु छहस अट्टदसं छक्कछक्क णभति दुसु ॥७४६॥

विंशादिपु वन्धांशा नभद्विकं षण्णव पञ्चपञ्च च षट्सप्त ।

षण्णव षडष्ट द्वयोः षड्दश अष्टदश षट्षट्टं नभत्रिकं द्वयोः ॥ ७४६ ॥

अर्थ—२० को आदि लेकर उदयस्थानोंमें बंधस्थान और सत्त्वस्थान क्रमसे अर्थात् २० के उदयस्थानमें शून्य—२, २१ के में ६—९, २४ के में ५—५, २५ के में ६—७, २६ के में ३—९, २७—२८ के में ६—८, २९ के में ६—१०, ३० के में ८—१०, ३१ के में ६—६, ९—८ के में शून्य—३ जानने चाहिये ॥ ७४६ ॥

अब उन्हीं स्थानोंको दिखलाते हैं;—

वीसुदये बंधो ण हि उणसीदीसत्तसत्तरी सत्तं ।

इगिवीसे तेवीसप्पहुदीतीसंतया बंधा ॥ ७४७ ॥

सत्तं तिणउदिपहुदीसीदंता अट्टसत्तरी य हवे ।

चउवीसे पढमतिथं णववीसं तीसयं बंधो ॥ ७४८ ॥

वाणउदी णउदिचऊ सत्तं पणछस्सगट्टणववीसे ।

बंधा आदिमछक्कं पढमिल्लं सत्तयं सत्तं ॥ ७४९ ॥

ते णवसगसदरिजुदा आदिमछस्सीदिअट्टसदरीहिं ।

णवसत्तसत्तरीहिं सीदिचउक्केहिं सहिदाणि ॥७५०॥ कलावयं ।

विंशोदये वन्धो न हि एकोनाशीतिसप्तसप्तती सत्त्वम् ।

एकविंशे त्रयोविंशप्रभृतित्रिंशान्तका वन्धाः ॥ ७४७ ॥

सत्त्वं त्रिनवतिप्रभृत्यशीत्यन्तानि अष्टसप्ततिश्च भवेत् ।

चतुर्विंशे प्रथमत्रयं नवविंशं त्रिंशत्कं वन्धः ॥ ७४८ ॥

द्वानवतिः नवतिचतुष्कं सत्त्वं पञ्चषट्सप्ताष्टनवविंशे ।

वन्धा आदिमषट्टं प्रथमाद्यं सप्तकं सत्त्वम् ॥ ७४९ ॥

तानि नवसप्तसप्ततियुतानि आदिमषडशीत्यष्टसप्ततिभिः

नवसप्तसप्ततिभिरशीतिचतुष्कैः सहितानि ॥ ७५० ॥ कलापकम् ।

अर्थ—२० के उदयस्थानमें बंध नहीं हैं, सत्त्वस्थान ७९—७७ के दो हैं । २१ के

उदयस्थानमें बंधस्थान २३ को आदि लेकर ३० के अन्ततक ६ हैं, सत्त्वस्थान ९३ को आदि लेकर ८० के अंततक हैं और ७८ का भी है । २४ के उदयस्थानमें बंधस्थान आदिके ३ और २९-३० के दो इसतरह ५ हैं, सत्त्वस्थान ९२ का-९० को आदि लेकर ४ इसप्रकार ५ हैं । २५-२६-२७-२८-२९ के उदयस्थानमें बंधस्थान २३ को आदि लेकर ६ हैं, सत्त्वस्थान क्रमसे २५ केमें आदिके ७ हैं-२६ केमें पहले सात तथा ७९ और ७७ के दो इसप्रकार ९ हैं-२७ केमें आदिके ६ तथा ८० और ७८ के दो इसप्रकार ८ हैं-२८ केमें आदिके ६ तथा ७९ और ७७ के दो इसतरह ९ हैं-२९ केमें आदिके ६ तथा ८० को आदि लेकर ४ इसतरह १० हैं ॥ ७४७।७४८।७४९।७५० ॥

तीसे अष्टवि बंधो ऊणत्तीसं व होदि सत्तं तु ।

इगितीसे तेवीसप्पहुदीतीसंतयं बंधो ॥ ७५१ ॥

सत्तं दुणउदिणउदीतिय सीदडहत्तरी य णवगट्टे ।

बंधो ण सीदिपहुदीसुसमविसमं सत्तमुद्दिट्ठं ॥ ७५२ ॥ जुम्मं ।

त्रिंशे अष्टापि वन्ध एकोनत्रिंशं न भवति सत्त्वं तु ।

एकत्रिंशे त्रयोविंशप्रभृतित्रिंशान्तको वन्धः ॥ ७५१ ॥

सत्त्वं द्विनवतिनवतित्रिकमष्टाशीत्यष्टसप्ततिश्च नवकाष्टसु ।

वन्धो न अशीतिप्रभृतिसुसमविपमं सत्त्वमुद्दिष्टम् ॥ ७५२ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—३० के उदयस्थानमें बंधस्थान ८, सत्त्वस्थान २९ की तरह १० हैं । ३१ के उदयस्थानमें बंधस्थान २३ को आदि लेकर ३० के स्थानतक ६ हैं, सत्त्वस्थान ९२-९० को आदि लेकर ३-८० और ७८ के इसतरह ६ हैं । ९-८ के उदयस्थानमें बंधस्थान नहीं हैं, सत्त्वस्थान ८० को आदि लेकर ६ स्थानोंमेंसे समरूप ३ तथा विषमसंख्या-रूप ३ यथाक्रमसे जानने चाहिये ॥ ७५१।७५२ ॥

आगे सत्त्वस्थानको आधारकर तथा बंध-उदयस्थान आधेय मानके ७ गाथाओंसे कहते हैं;—

सत्ते बंधुदया चतुसग सगणव चतुसगं च सगणवयं ।

छण्णव पणणव पणचदु चदुसिगिळ्ळकं णभेक्क सुण्णेगं ॥ ७५३ ॥

सत्त्वे वन्धोदया चतुःसप्त सप्तनव चतुःसप्त च सप्तनवकम् ।

षण्णव पञ्चनव पञ्चचतुष्कं चतुर्ष्वेकषट्कं नभैकं शून्यमेकम् ॥ ७५३ ॥

अर्थ—सत्त्वस्थानोंमें बंधस्थान और उदयस्थान क्रमसे ४-७, ७-९, ४-७, ७-९, ६-९, ५-९, ५-४, चार सत्त्वस्थानोंमें १-६, शून्य-१, शून्य-१ जानने चाहिये ॥ ७५३ ॥

अब उन्हीं स्थानोंको स्पष्टरीतिसे बतलाते हैं;—

तेणउदीए बंधा उगुतीसादीचउक्कमुदओ दु ।

इगिषणछस्सगअट्टयणववीसं तीसयं णेयं ॥ ७५४ ॥

त्रिनवत्यां बन्धा एकोनत्रिंशद्विचतुष्कमुदयस्तु ।

एकपञ्चषट्सप्ताष्टकनवविंशं त्रिंशत्को ज्ञेयः ॥ ७५४ ॥

अर्थ—९३ के सत्त्वस्थानमें बंधस्थान २९ के को आदि लेकर ४ हैं, उदयस्थान २१—२५—२६—२७—२८—२९—३० के हैं ॥ ७५४ ॥

वाणउदीए बंधा इगितीसूणाणि अट्टाणाणि ।

इगिंवीसादीएक्कत्तीसंता उदयठाणाणि ॥ ७५५ ॥

द्वानवत्यां बन्धा एकत्रिंशोनानि अष्टस्थानानि ।

एकविंशाद्येकत्रिंशान्तानि उदयस्थानानि ॥ ७५५ ॥

अर्थ—९२ के सत्त्वस्थानमें बंधस्थान ३१ के विना आठ अर्थात् ७ हैं, उदयस्थान २१ के को आदि लेकर ३१ पर्यंत ९ हैं ॥ ७५५ ॥

इगिणवदीए बंधा अडवीसत्तिदयमेक्कयं चुदओ ।

तेणउदिं वा णउदीबंधा वाणउदियं व हवे ॥ ७५६ ॥

चरिमहुवीसूणुदयो तिसु दुसु बंधा छतुरियहीणं च ।

वासीदी बंधुदया पुवं विगिवीसचत्तारि ॥ ७५७ ॥ जुम्मं ।

एकनवत्यां बन्धा अष्टविंशत्रितयमेकश्चोदयः ।

त्रिनवतिर्वा नवतिवन्धा द्वानवतिर्व भवेत् ॥ ७५६ ॥

चरमद्विंशिनोदयः ततः द्वयोर्वन्धाः षट्पुरीयहीनं च ।

द्वयशीत्यां बन्धोदयाः पूर्वं इवैकविंशचत्वारः ॥ ७५७ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—९१ के सत्त्वस्थानमें बंधस्थान २८को आदि लेकर ३ और १ का इसतरह ४ हैं, उदयस्थान ९३ की तरह ७ हैं । ९० के सत्त्वस्थानमें बंधस्थान ९२ की तरह ७ हैं, उदयस्थान अंतके दो तथा वीसका इन तीनोंके विना ९ हैं । ८८—८४ के सत्त्वस्थानमें उदयस्थान येही ९ हैं, परंतु बंधस्थान क्रमसे २३ को आदि लेकर ६ तथा चौथा (२८वां) विना शेष ५ हैं । ८२ के सत्त्वस्थानमें बंधस्थान पहलेकी तरह अर्थात् ८४ केकी तरह ५ हैं, उदयस्थान २१ को आदि लेकर ४ हैं ॥ ७५६।७५७ ॥

सीदादिचउसु बंधा जसकित्ती समपदे हवे उदओ ।

इगिसगणवधियवीसं तीसेक्कत्तीसणवगं च ॥ ७५८ ॥

वीसं छडणववीसं तीसं चट्टं च विसमठाणुदया ।

दसणवगे ण हि बंधो कमेण णवअट्टयं उदओ ॥७५९॥ जुम्मं ।

अशीत्यादिचतुर्षु बन्धो यशस्कीर्तिः समपदे भवेदुदयः ।
 एकसप्तनवाधिकविंशं त्रिंशैकत्रिंशन्वकं च ॥ ७५८ ॥
 विंशः षडष्टनवविंशं त्रिंशच्चाष्ट च विषमस्थानोदयाः ।
 दशन्वके न हि बन्धः क्रमेण नवाष्टक उदयः ॥ ७५९ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—८० केको आदि लेकर ४ सत्त्वस्थानोंमें बंधस्थान एक यशस्कीर्तिप्रकृति है, उदयस्थान समसंख्यारूप ८०-७८ केमें २१-२७-२९-३०-३१-९ के ६ हैं, तथा विषमसंख्यारूप ७९-७७ के सत्त्वस्थानोंमें २०-२६-२८-२९-३०-८ के ६ उदयस्थान हैं । १०-९ के सत्त्वस्थानोंमें बंधस्थान नहीं हैं, उदयस्थान क्रमसे ९ का और ८ का है ॥ ७५८।७५९ ॥

आगे बंधस्थान-उदयस्थान इन दोनोंको आधार करके आधेयभूत सत्त्वस्थानोंको ९ गाथाओंसे कहते हैं;—

तेवीसबंधगे इगिवीसणवुदयेसु आदिमचउक्के ।
 वाणउदिणउदिअडचउवासीदी सत्तठाणाणि ॥ ७६० ॥
 तेणुवरिमपंचुदये ते चेवंसा विवज्ज वासीदिं ।
 एवं पणञ्जवीसे अडवीसे एक्कवीसुदये ॥ ७६१ ॥
 वाणउदिणउदिसत्तं एवं पणुवीसयादिपंचुदये ।
 पणसगवीसे णउदी विगुव्वणे अत्थिणाहारे ॥ ७६२ ॥ विसेसयं ।
 त्रयोविंशबन्धके एकविंशन्वोदयेषु आदिमचतुष्के ।
 द्वानवतिनवत्यष्टचतुर्द्व्यशीतिः सत्त्वस्थानानि ॥ ७६० ॥
 तेनोपरिमपञ्चोदये ते चेवांशा विवर्ज्य द्व्यशीतिम् ।
 एवं पञ्चपट्विंशे अष्टविंशेन एकविंशोदये ॥ ७६१ ॥
 द्वानवतिनवतिसत्त्वमेवं पञ्चविंशकादिपञ्चकोदये ।
 पञ्चसप्तविंशे नवतिर्विगूर्वणे अस्ति नाहारे ॥ ७६२ ॥ विशेषकम् ।

अर्थ—२३ के बंधस्थानमें २१ को आदि लेकर जो ९ उदयस्थान हैं उनमेंसे आदिके ४ उदयस्थानोंमें सत्त्वस्थान ९२-९०-८८-८४-८२ के पांच हैं । और उसी २३ के बंधस्थानसहित ऊपरके ५ उदयस्थानोंमें सत्त्वस्थान ८२ के बिना सब (४) ही हैं । २५-२६ के बंधसहित उदयस्थानोंमें पूर्ववत् सत्त्व जानना । २८ के बंधसहित २१ के उदयस्थानमें ९२-९० का सत्त्वस्थान है । इसीप्रकार २८ के बंधसहित २५ को आदि लेकर ५ उदयस्थानोंमें सत्त्वस्थान जानने, परंतु इतना विशेष है कि २५-२७ के उदयमें जो ९० का सत्त्व है वह वैकल्पिककी अपेक्षासे है आहारककी अपेक्षासे नहीं है ॥ ७६०। ७६१।७६२ ॥

तेण णभिगितीसुदये वाणउदिचउक्कमेकतीसुदये ।
 णवरि ण इगिणउदिपदं णववीसिगिवीसबंधुदये ॥ ७६३ ॥
 तेणवदिसत्तसत्तं एवं पणलक्कवीसठाणुदये ।
 चउवीसे वाणउदी णउदिचउक्कं च सत्तपदं ॥ ७६४ ॥ जुम्मं ।
 तेन नभएकत्रिंशोदये द्वानवतिचतुष्कमेकत्रिंशोदये ।
 नवरि न एकनवतिपदं नवविंशैकविंशबन्धोदययोः ॥ ७६३ ॥
 त्रिनवतिसप्तसत्त्वमेवं पञ्चषट्ठविंशस्थानोदये ।
 चतुर्विंशे द्वानवतिः नवतिचतुष्कं च सत्त्वपदम् ॥ ७६४ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—उस २८ के बंधसहित ३०-३१ का उदय होनेपर ९२ को आदि लेकर ४ स्थानोंका सत्त्व है । परंतु इतनी विशेषता है कि ३१ के उदय होनेपर ९१ का सत्त्व नहीं है । २९ के बंधसहित २१ के उदय होनेपर ९३ को आदि लेकर ७ स्थानोंका सत्त्व है, इसीप्रकार पूर्वोक्त बंधसहित २५-२६ के उदय होनेपरभी सत्त्व जानना चाहिये । २९ के बंधसहित २४ का उदय होनेपर ९२ का तथा ९० को आदि लेकर ४ का सत्त्व है ॥ ७६३।७६४ ॥

सगवीसचउक्कुदये तेणउदीलक्कमेवमिगितीसे ।
 तिगिणउदी ण हि तीसे इगिपणसगअट्टणवयवीसुदये ॥७६५॥
 तेणउदिलक्कसत्तं इगिपणवीसेसु अत्थि वासीदी ।
 तेण ल्ळचउवीसुदये वाणउदी णउदिचउसत्तं ॥७६६॥ जुम्मं ।
 सप्तविंशचतुष्कोदये त्रिनवतिषट्ठमेवमेकत्रिंशे ।
 त्र्येकनवतिर्न हि त्रिंशे एकपञ्चसप्ताष्टनवकविंशोदये ॥ ७६५ ॥
 त्रिनवतिषट्ठसत्त्वमेकपञ्चविंशयोरस्ति द्वयशीतिः ।
 तेन षट्चतुर्विंशोदये द्वानवतिः नवतिचतुष्कसत्त्वम् ॥ ७६६ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—२९ के बंधसहित २७ को आदि लेकर ४ स्थानोंके उदय होनेपर ९३ को आदि लेके ६ का सत्त्व है; इसीप्रकार ३१ के उदयमें भी जानना, विशेष यह है कि इस स्थानमें ९३-९१ का सत्त्व नहीं है । ३० के बंधसहित २१-२५-२७-२८-२९ के उदय होनेपर ९३ को आदि लेकर ६ का सत्त्व है, विशेषता यह है कि ८२ के स्थानका सत्त्व २१-२५ के उदय होनेपर ही होता है अन्य जगह नहीं । ३० के बंधसहित २४-२६ के उदय होनेपर ९२ का—९० आदि ४ का इसप्रकार ५ स्थानोंका सत्त्व पाया जाता है ॥ ७६५।७६६ ॥

एवं खिगितीसे ण हि वासीदी एकतीसबंधेण ।
तीसुदये तेणउदी सत्तपदं एकमेव हवे ॥ ७६७ ॥

एवं खैकत्रिंशे न हि द्वयशीतिरेकत्रिंशवन्धेन ।

त्रिंशोदये त्रिनवतिः सत्त्वपदमेकमेव भवेत् ॥ ७६७ ॥

अर्थ—३० के बंधसहित ३०—३१ के उदय होनेपर सत्त्वस्थान इसीप्रकार २४ के उदयकी तरह जानना चाहिये, इतना विशेष है कि यहांपर ८२ का सत्त्वस्थान नहीं होता । ३१ के बंधसहित ३० का उदय होनेपर सत्त्वस्थान एक ८३ का ही है ॥ ७६७ ॥

इगिवंधट्टाणेण तु तीसट्टाणोदये णिरुंधम्मि ।

पठमचऊसीदिचऊ सत्तट्टाणाणि णामस्स ॥ ७६८ ॥

एकबन्धस्थानेन तु त्रिंशस्थानोदये निरोधे ।

प्रथमचतुष्काशीतिचतुष्कं सत्त्वस्थानानि नाम्नः ॥ ७६८ ॥

अर्थ—१ के बंधसहित ३० के उदय होनेपर ९३ को आदि लेकर ४ और ८० को आदि लेकर ४ सत्त्वस्थान नामकर्मके कहे गये हैं ॥ ७६८ ॥

आगे बंधसत्त्वको आधार करके और उदयस्थानको आधेय मानके ६ गाथाओंसे कहते हैं;—

तेवीसबंधठाणे दुखणउदडचदुरसीदि सत्तपदे ।

इगिवीसादिणउदओ वासीदे एकवीसचऊ ॥ ७६९ ॥

त्रयोविंशबन्धस्थाने द्विखनवत्यष्टचतुरशीतिसत्त्वपदे ।

एकविंशादिनवोदयः द्वयशीतौ एकविंशचतुष्कम् ॥ ७६९ ॥

अर्थ—२३ के बंधस्थानसहित ९२—९०—८८—८४ के सत्त्वस्थान होनेपर २१ को आदि लेकर ९ उदयस्थान हैं, और ८२ का सत्त्व होनेपर २१ को आदि लेकर ४ उदयस्थान हैं ॥ ७६९ ॥

एवं पणछव्वीसे अडवीसे बंधगे दुणउदंसे ।

इगिवीसादिणवुदया चउवीसट्टाणपरिहीणा ॥ ७७० ॥

इगिणउदीए तीसं उदओ णउदीए तिरियसण्णिं वा ।

अडसीदीए तीसदु णववीसे बंधगे तिणउदीए ॥ ७७१ ॥

इगिवीसादट्टुदओ चउवीसूणो दुणउदिणउदितिये ।

इगिवीसणविगिणउदे णिरयं व छवीसतीसधिया ॥ ७७२ ॥

वासीदे इगिचउपणछव्वीसा तीसबंधतिगिणउदी ।

सुरमिव दुणउदिणउदी चउसुदओ ऊणतीसं वा ॥ ७७३ ॥ कलावयं ।

एवं पञ्चषड्विंशे अष्टविंशे बन्धके तु द्वानवत्यंशे ।

एकविंशादिनवोदयाः चतुर्विंशस्थानपरिहीनाः ॥ ७७० ॥

एकनवत्यां त्रिंश उदयो नवत्यां तिर्यक्संज्ञी वा ।
 अष्टाशीतौ त्रिंशद्विकं नवविंशे बन्धके त्रिनवत्याम् ॥ ७७१ ॥
 एकविंशादष्टोदयः चतुर्विंशोनो द्विनवतिनवतित्रये ।
 एकविंशानव एकनवत्यां निरयो व षड्विंशत्रिंशाधिकाः ॥ ७७२ ॥
 द्व्यशीत्यामेकचतुःपञ्चषड्विंशः त्रिंशबन्धे त्र्येकनवतौ ।
 सुर इव द्विनवतिनवतिचतुर्षूदय एकोनत्रिंशं वा ॥ ७७३ ॥ कलापकम् ।

अर्थ—२५—२६ के बंधसहित भी सत्त्वस्थानोंमें उदयस्थान २३ की तरह जानना ।
 २८ के बंधसहित ९२ के सत्त्व होनेपर २४ के विना २१ को आदि लेकर ९ उदयस्थान
 हैं । ९१ का सत्त्व होनेपर ३० का उदयस्थान है, ९० का सत्त्व होनेपर तिर्यच संज्ञीके
 कहे हुए २१ आदि उदयस्थान हैं, ८८ का सत्त्व होनेपर ३०—३१ के उदयस्थान हैं ।
 २९ के बंधसहित ९३ का सत्त्व होनेपर २४ के विना २१ को आदिलेकर ८ उदयस्थान
 हैं, ९२ का—९० को आदिलेकर ३ का सत्त्व होनेपर २१ को आदिले ९ का उदय
 होता है, ९१ का सत्त्व होनेपर नरकगतिकी तरह २१ को आदिलेकर तथा २६—३०
 ये दोनों मिलाकर उदयस्थान हैं । ८२ का सत्त्व होनेपर २१—२४—२५—२६ के उदय-
 स्थान हैं, तथा ३० के बंधसहित ९३—९१ का सत्त्व होनेपर देवगतिवत् ५ उदयस्थान
 हैं, ९२ का—९० को आदिलेकर ४ का सत्त्व होनेपर २९ के बंधसहितके समान
 ९ उदयस्थान होतेहैं ॥ ७७०।७७१।७७२।७७३ ॥

इगितीसबंधठाणे तेणउदे तीसमेव उदयपदं ।

इगिवंध तिणउदिचऊ सीदिचउक्केवि तीसुदओ ॥ ७७४ ॥

एकत्रिंशबन्धस्थाने त्रिनवत्यां त्रिंशमेव उदयपदम् ।

एकबन्धे त्रिनवतिचतुष्के अशीतिचतुष्केपि त्रिंशोदयः ॥ ७७४ ॥

अर्थ—३१ के बंधस्थानसहित ९३ का सत्त्व होनेपर ३० का ही उदयस्थान है ।
 १ के बंधसहित ९३ को आदिलेकर ४ का—८० को आदिलेकर ४ का सत्त्व होनेपर भी
 ३० का ही उदयस्थान है ॥ ७७४ ॥

आगे उदयस्थान सत्त्वस्थानको आधार तथा बंधस्थानको आधेयमानके १० गाथाओंसे
 भंग कहते हैं;—

इगिवीसट्टाणुदये तिगिणउदे णवयवीसदुगबंधो ।

तेण दुखणउदिसत्ते आदिमल्लकं हवे बंधो ॥ ७७५ ॥

एवमडसीदितिदए ण हि अडवीसं पुणोवि चउवीसे ।

दुखणउदडसीदितिए सत्ते पुवं व बंधपदं ॥ ७७६ ॥ जुम्मं ।

एकविंशस्थानोदये त्र्येकनवत्यां नवविंशद्विकबन्धः ।
 तेन द्विखनवतिसत्त्वे आदिमपट्टं भवेद्बन्धः ॥ ७७५ ॥
 एवमष्टाशीतित्रितये न हि अष्टविंशं पुनरपि चतुर्विंशे ।
 द्विखनवत्यष्टाशीतित्रये सत्त्वे पूर्वं व बन्धपदम् ॥ ७७६ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—२१ के उदयसहित ९३-९१ का सत्त्व होनेपर २९-३० के बंधस्थान हैं, ९२-९० का सत्त्व होनेपर आदिके ६ बंधस्थान हैं, इसीप्रकार ८८ को आदिलेकर ३ का सत्त्व होनेपर उक्त बंधस्थान होते हैं परंतु २८ का बंधस्थान नहीं होता, २४ के उदयसहित ९२-९० का-८८ आदिलेकर ३ का सत्त्व होनेपर पूर्वोक्त ५ ही बंधस्थान हैं ॥ ७७५।७७६ ॥

पणवीसे तिगिणउदे एगुणतीसंदुगं दुणउदीए ।
 आदिमच्छकं बंधो णउदिचउक्केवि णउडवीसं ॥ ७७७ ॥
 पञ्चविंशे त्र्येकनवतौ एकोनत्रिंशद्विकं द्विनवत्याम् ।
 आदिमपट्टं बन्धो नवतिचतुष्केपि नाष्टविंशम् ॥ ७७७ ॥

अर्थ—२५ के उदयसहित ९३-९१ का सत्त्व होनेपर २९-३० के बंधस्थान हैं, ९२ का सत्त्व होनेपर आदिके ६ बंधस्थान हैं, ९० को आदिलेकर ४ का सत्त्व होनेपर २८ के विना पूर्वोक्त ही बंधस्थान हैं ॥ ७७७ ॥

छवीसे तिगिणउदे उणतीसं बंध दुगखणउदीए ।
 आदिमच्छकं एवं अडसीदितिए ण अडवीसं ॥ ७७८ ॥
 षड्विंशे त्र्येकनवतौ एकोनत्रिंशं बन्धो द्विकखनवत्याम् ।
 आदिमपट्टमेवमष्टाशीतित्रये नाष्टविंशम् ॥ ७७८ ॥

अर्थ—२६ के उदयसहित ९३-९१ का सत्त्व होनेपर २९ का बंधस्थान है, ९२-९० का सत्त्व होनेपर आदिके ६ स्थान हैं, इसीप्रकार ८८ को आदिलेकर ३ का सत्त्व होनेपर २८ के विना पूर्वोक्त ६ स्थान अर्थात् पांच बंधस्थान हैं ॥ ७७८ ॥

सगवीसे तिगिणउदे णववीसदुबंधयं दुणउदीए ।
 आदिमच्छणउदितिए एयं अडवीसयं णत्थि ॥ ७७९ ॥
 सप्तविंशे त्र्येकनवतौ नवविंशद्विबंधको द्विनवत्याम् ।
 आदिमषण्णवतित्रये एवमष्टविंशकं नास्ति ॥ ७७९ ॥

अर्थ—२७ के उदयसहित ९३-९१ का सत्त्व होनेपर २९ को आदिलेकर २ बंधस्थान हैं, ९२ का सत्त्व होनेपर आदिके ६ बंधस्थान हैं, ९० को आदिलेकर ३ सत्त्व होनेपर २८ के विना पूर्वोक्त ६ बंधस्थान हैं ॥ ७७९ ॥

अडवीसे तिगिणउदे उणतीसदु दुजुदणउदिणउदितिये ।
बंधो सगवीसं वा णउदीए अत्थि णडवीसं ॥ ७८० ॥

अष्टविंशे त्र्येकनवत्यामेकोनत्रिंशद्विकं द्वियुतनवतिनवतित्रये ।

बन्धः सप्तविंशं वा नवतौ अस्ति नाष्टविंशम् ॥ ७८० ॥

अर्थ—२८ के उदयसहित ९३-९१ का सत्त्व होनेपर २९-३० के दोबंधस्थान हैं, ९२ का-९० को आदिलेकर ३ स्थानोंका सत्त्व होनेपर २७ के उदयसहितके समान बंधस्थान हैं परंतु विशेष इतना है कि ९० का सत्त्व होनेपर २८ का बंधस्थान नहीं है ॥ ७८० ॥

अडवीसमिबुणतीसे तीसे तेणउदिसत्तगे बंधो ।

णववीसेकत्तीसं इगिणउदी अट्टवीसदुगं ॥ ७८१ ॥

तेण दुणउदे णउदे अडसीदे बंधमादिमंछकं ।

चुलसीदेवि य एवं णवरि ण अडवीसबंधपदं ॥७८२॥ जुम्मं ।

अष्टविंश इवैकोनत्रिंशे त्रिंशे त्रिनवतिसत्त्वके बन्धः ।

नवविंशैकत्रिंशमेकनवत्यामष्टविंशद्विकम् ॥ ७८१ ॥

तेन द्विनवतौ नवतौ अष्टाशीतौ बन्ध आदिमषट्कम् ।

चतुरशीत्यामपि च एवं नवरि न अष्टविंशबन्धपदम् ॥ ७८२ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—२९ के उदयसहित ९३ आदिका सत्त्व होनेपर २८ के उदयसहितके समान बंधस्थान हैं । ३० के उदयसहित ९३ का सत्त्व होनेपर २९-३० के बंधस्थान हैं, ९१ का सत्त्व होनेपर २८-२९ के बंधस्थान हैं । तथा ९२-९०-८८ का सत्त्व होनेपर आदिके ६ बंधस्थान हैं, ८४ का सत्त्व होनेपर भी इसीप्रकार ६ बंधस्थान हैं परंतु इतना विशेष है कि २८ का बंधस्थान नहीं है ॥ ७८१।७८२ ॥

तीसुदयं विगितीसे सजोग्गवाणउदिणउदितियसत्ते ।

उवसंतचउक्कुदये सत्ते बंधस्स ण वियारो ॥ ७८३ ॥

त्रिंशोदयं वैकत्रिंशे स्वयोग्यद्वानवतिनवतित्रयसत्त्वे ।

उपशान्तचतुष्कोदये सत्त्वे बन्धस्य न विचारः ॥ ७८३ ॥

अर्थ—३१ के उदयसहित अपने २ योग्य ९२-९० को आदिलेकर ३ स्थानोंका सत्त्व होनेपर ३० के उदयमें कहे गये बंधस्थान हैं । तथा उपशांतकषायादि चार गुण-स्थानोंमें उदय-सत्त्व स्थान होनेपर बंधस्थानका विचार नहीं किया गया है क्योंकि उनमें बंधका अभाव है ॥ ७८३ ॥

गामस्स य बंधादिसु दुतिसंजोगा परूविदा एवं ।


सुदवणवसंतगुणगणसायरचंदेण सम्मदिणा ॥ ७८४ ॥

नाम्रश्च वन्धादिषु द्वित्रिसंयोगाः प्ररूपिता एवम् ।

श्रुतवनवसन्तगुणगणसागरचन्द्रेण सन्मतिना ॥ ७८४ ॥

अर्थ—इसप्रकार नामकर्मके बंध—उदय—सत्त्वस्थानोंमें द्विसंयोग और त्रिसंयोगी भंग (भेद), जैनसिद्धान्तरूपी वनको प्रफुलितकरनेमें वसंतऋतुके समान, गुणोंका समूहरूप-सागरके बढानेकेलिये चंद्रमाके समान ऐसे सम्यक्ज्ञानके धारक श्रीवर्द्धमानस्वामीने कहे हैं ॥ ७८४ ॥

इति श्री नेमिचन्द्राचार्यविरचित पंचसंग्रह द्वितीयनामवाले गोम्भटसार ग्रंथके कर्म-कांडमें बंधउदयसत्त्वस्थानसमुत्कीर्तन नामका पांचवां अधिकार समाप्त हुआ ॥ ५ ॥



दोहा ।

आस्रवभाव अभावतें भये स्वभावस्वरूप ।

नमों सहज आनंदमय अचलित अमल अनूप ॥ १ ॥

आगे प्रत्ययके अर्थात् कर्म आनेका कारण जो आस्रव है उसके अधिकारको आरंभ करनेवाले आचार्य निर्विघ्नतासे समाप्त होनेकेलिये अपने इष्ट गुरुको नमस्कार करते हुए उसके कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं;—

णमिऊण अभयणंदिं सुदसायरपारगिंदणंदिगुरुं ।

वरवीरणंदिणाहं पयडीणं पच्चयं वोच्छं ॥ ७८५ ॥

नत्वा अभयनन्दिं श्रुतसागरपारगेन्द्रनन्दिगुरुम् ।

वरवीरनन्दिनाथं प्रकृतीनां प्रत्ययं वक्ष्ये ॥ ७८५ ॥

अर्थ—मैं “नेमिचंद्र आचार्य” अभयनन्दि नामा सुनीश्वरको, शास्त्रसमुद्रके पारगामी इन्द्रनन्दि नामा गुरुको तथा उत्कृष्ट वीरनंदि नामा स्वामीको नमस्कार करके कर्मप्रकृति-योंके प्रत्यय अर्थात् कारण ऐसे आस्रवोंको कहता हूं ॥ ७८५ ॥

अब उन आस्रवोंको भेदसहित दिखलाते हैं;—

मिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य आसवा होंति ।

पण वारस पणुवीसं पण्णरसा होंति तच्चेया ॥ ७८६ ॥

मिथ्यात्वमविरमणं कपाययोगौ च आस्रवा भवन्ति ।

पञ्च द्वादश पञ्चविंशं पञ्चदश भवन्ति तद्भेदाः ॥ ७८६ ॥

अर्थ—मिथ्यात्व १ अविरत २ कपाय ३ योग ४—ये चार मूल आस्रव हैं । तथा इनके भेद क्रमसे ५, १२, २५, १५, होते हैं ॥ भावार्थ—जिन्होंकर कार्माणवर्गणा-

रूप पुद्गलस्क्ंध कर्मपनेको प्राप्त होवें उनका नाम आश्रव है । वे मिथ्यात्वादि परिणाम हैं । उनमेंसे “मिथ्यात्व” एकांत विनयादिके भेदसे पांचप्रकार है, “अविरत” ५ इंद्री तथा छठा मन इनको बशीभूत नहीं करनेसे ६ भेद और पृथिवीकायादि ५ स्थावरकाय तथा १ त्रसकाय इनकी दया न करनेसे ६ भेद इसतरह १२ प्रकारका है, कषायके अनंतानुबंधी आदि १६ कषाय तथा हास्यादि ९ नोकषाय इसतरह २५ भेद हैं, मनोयोगादिके भेदसे १५ प्रकार योग हैं, इसप्रकार सब ५७ भेद होते हैं ॥ ७८६ ॥

आगे मूलप्रत्ययोंको गुणस्थानोंमें कहते हैं;—

चदुपच्चइगो बंधो पढमे णंतरतिगे तिपच्चइगो ।

मिस्सगविदियं उवरिमदुगं च देसेकदेसम्मि ॥ ७८७ ॥

चतुःप्रत्ययको बन्धः प्रथमे अनन्तरत्रिके त्रिप्रत्ययकः ।

मिश्रकद्वितीय उपरिमद्विकं च देशैकदेशे ॥ ७८७ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमें ४ प्रत्ययोंसे बंध होता है, उसके बाद सासादन आदि तीन गुणस्थानोंमें मिथ्यात्वके विना ३ प्रत्ययोंसे ही बंध है, तथा एकदेश असंयमके त्यागनेवाले देशसंयतगुणस्थानमें दूसरा अविरतप्रत्यय विरतकर मिला हुआ तथा आगेके दो प्रत्यय—इसप्रकार ३ प्रत्ययोंसे ही बंध है ॥ ७८७ ॥

उवरिल्लपंचये पुण दुपच्चया जोगपच्चओ तिण्हं ।

सामण्णपच्चया खलु अट्टण्हं होंति कम्माणं ॥ ७८८ ॥

उपरिमपञ्चके पुनः द्विप्रत्ययौ योगप्रत्ययः त्रयाणाम् ।

सामान्यप्रत्ययाः खलु अष्टानां भवन्ति कर्मणाम् ॥ ७८८ ॥

अर्थ—इस पांचवें स्थानसे आगेके ५ गुणस्थानोंमें २ प्रत्ययोंसे बंध है, इससे आगे ३ गुणस्थानोंमें १ योगप्रत्ययसे ही बंध होता है । इसतरह निश्चयकर ८ कर्मोंके सामान्यप्रत्यय होते हैं ॥ ७८८ ॥

आगे उत्तरप्रत्ययोंको गुणस्थानोंमें दिखलाते हैं;—

पणवण्णा पण्णासा तिदाल छादाल सत्ततीसा य ।

चदुवीसा वावीसा वावीसमपुव्वकरणोत्ति ॥ ७८९ ॥

थूले सोलसपहुदी एगूणं जाव होदि दसठाणं ।

सुहुमादिसु दस णवयं णवयं जोगिम्मि सत्तेव ॥ ७९० ॥ जुम्मं ।

पञ्चपञ्चाशत् पञ्चाशत् त्रिचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत्सप्तत्रिंशच्च ।

चतुर्विंशतिः द्वाविंशतिः द्वाविंशसपूर्वकरण इति ॥ ७८९ ॥

स्थूले षोडशप्रभृतय एकोना यावत् भवति दशस्थानम् ।

सूक्ष्मादिषु दश नवकं नवकं योगिनि सप्तैव ॥ ७९० ॥ युग्मम् ।

अर्थ—मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें आहारकयुगलके न होनेसे ५५ प्रत्यय हैं, सासादनमें ५ मिथ्यात्व भी नहीं है इसलिये ५० प्रत्यय हैं, मिश्रमें ४३ हैं, असंयतमें ४६ हैं, देशसंयतमें ३७ हैं, प्रमत्तमें २४ हैं, अप्रमत्तमें २२ प्रत्यय हैं, अपूर्वकरणमें भी २२ हैं। अनिवृत्तिकरणमें १६ को आदिलेकर एक एक कम १० भेदतक हैं, सूक्ष्मसांपरायमें १० हैं, उपशांतकषायमें ९ तथा क्षीणकषायमें भी ९ प्रत्यय हैं, और सयोगकेवलीमें ७ प्रत्यय हैं ॥ ७८९।७९० ॥ अयोगीके प्रत्ययका अभाव है ।

आगे प्रत्ययोंकी व्युच्छित्ति तथा अनुदयके उपयोगी गाथा केशववर्णीकृत कहते हैं;—

पण चदु सुणं णवयं पणारस दोणिण सुण्णच्छकं च ।

एकैकं दस जाव य एकं सुणं च चारि सग सुणं ॥ १ ॥

दोणिण य सत्त य चोद्दसणुदयेवि एयार वीस तेत्तीसं ।

पणतीस दुसिगिदालं सत्तेतालट्टदाल दुसु पणं ॥२॥ जुम्मं ।

पञ्चचतुष्कं शून्यं नवकं पञ्चदश द्वे शून्यं षट्कं च ।

एकैकं दश यावच्च एकं शून्यं च चत्वारि सप्त शून्यम् ॥ १ ॥

द्वौ च सप्त च चतुर्दशानुदयेपि एकादश विंशं त्रयस्त्रिंशत् ।

पञ्चत्रिंशत् द्वयोरेकचत्वारिंशत्सप्तचत्वारिंशदष्टचत्वारिंशत् द्वयोःपञ्च ॥२॥ युग्मम् ।

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें क्रमसे ५, ४, शून्य, ९, १५, २, शून्य, ६, इसके बाद १० आस्रवोंके रहनेतक १, १, १, शून्य, ४, ७, शून्यरूप आस्रवोंकी व्युच्छित्ति है। तथा गुणस्थानोंमें जो अनुदय अर्थात् आस्रवका अभाव है वह क्रमसे २, ७, १४, ११, २०, ३३, ३५, ४१, ४७, ४८, ५० का जानना चाहिये ॥१।२॥

अब उन व्युच्छित्तियोंको दिखलाते हैं;—

मिच्छे पणमिच्छत्तं पढमकसायं तु सासणे मिस्से ।

सुणं अविरदसम्मि वेदियकसायं विगुव्वदुग कम्मं ॥ ३ ॥

ओरालमिस्स तसवह णवयं देसम्मि अविरदेक्कारा ।

तदियकसायं पणार पमत्तविरदम्मि हारदुगछेदो ॥ ४ ॥

सुणं पमादरहिदे पुव्वे छण्णोकसाय वोच्छेदो ।

अणियट्टिमि य कमसो एकैकं वेदतियकसायतियं ॥ ५ ॥

सुहुमे सुहुमो लोहो सुणं उवसंतगेषु खीणेषु ।

अलीयुभयवयणमणचउ जोगिमि य सुणह वोच्छामि ॥ ६ ॥

सञ्चाणुभयं वयणं मणं च ओरालकायजोगं च ।

ओरालमिस्स कम्मं उवयारेणेव सञ्भाओ ॥ ७ ॥ कुलयं ।

मिथ्ये पञ्चमिथ्यात्वं प्रथमकषायस्तु सासादने मिश्रे ।

शून्यमविरतसम्ये द्वितीयकषायः वैगूर्वद्विकं कर्म ॥ ३ ॥

ओरालमिश्रं त्रसवधः नवकं देशे अविरता एकादश ।

तृतीयकषायः पञ्चदश प्रमत्तविरते आहारकद्विकच्छेदः ॥ ४ ॥

शून्यं प्रमादरहिते अपूर्वे षण्णोकषायव्युच्छेदः ।

अनिवृत्तौ च क्रमश एकैकं वेदत्रयकषायत्रयम् ॥ ५ ॥

सूक्ष्मे सूक्ष्मो लोभः शून्यमुपशान्तकेषु क्षीणेषु ।

अलीकोभयवचनमनश्चतुष्कं योगिनि च शृणुत वक्ष्यामि ॥ ६ ॥

सत्यानुभयं वचनं मनश्च ओरालकाययोगश्च ।

ओरालमिश्रं कर्मणसुपचारेणैव सद्भावः ॥ ७ ॥ कुलकम् ।

अर्थ—मिथ्यात्वगुणस्थानमें ५ मिथ्यात्वाश्रवोंकी व्युच्छित्ति होती है। सासादनमें प्रथम अनंतानुबंधी ४ कषायकी, मिश्रमें शून्य, अविरतमें दूसरी चार कषाय—वैक्रियिकद्विक कर्मणयोग—औदारिकमिश्रयोग—त्रसहिंसा ये ९ आस्रवोंकी, देशसंयतमें ११ अविरत तीसरी प्रत्याख्यानी ४ कषाय इसतरह १५ आस्रवोंकी, प्रमत्तविरतमें आहारकयुगलयोगकी, अप्रमत्तमें शून्य, अपूर्वकरणमें हास्यादि नोकषायकी, अनिवृत्तिकरणमें क्रमसे एक एककर ३ वेद संज्वलन ३ तीनकषायोंकी, सूक्ष्मसांपरायमें सूक्ष्मलोभ की व्युच्छित्ति होती है, उपशांतकषायमें शून्य, क्षीणकषायमें असत्य उभय वचनयोग तथा मनोयोग इसप्रकार ४ की व्युच्छित्ति है । सयोगकेवलीके अब व्युच्छित्ति कहते हैं सो तुम हे शिष्य सुनो । सत्य अनुभय वचनयोग—मनोयोग, औदारिक—औदारिकमिश्रयोग—कर्मणकाय-योग इसप्रकार ७ योग हैं सो उपचारसे कहे गये हैं ॥३।४।५।६।७॥

आगे आस्रवको विशेषतासे कहनेकेलिये अधिकार कहते हैं;—

अवरादीणं ठाणं ठाणपयारा पयारकूडा य ।

कूडुच्चारणभंगा पंचविहा होंति इगिसमये ॥ ७९१ ॥

अवरादीनां स्थानं स्थानप्रकाराः प्रकारकूटाश्च ।

कूटोच्चारणभङ्गाः पञ्चविधा भवन्ति एकसमये ॥ ७९१ ॥

अर्थ—जघन्य मध्यम उत्कृष्टस्थान, स्थानोंके प्रकार, कूटप्रकार, कूटोच्चारण, भंग, इसतरह प्रत्ययोंके पांच प्रकार एक समयमें होते हैं ॥ ७९१ ॥

आगे उन प्रकारोंको क्रमसे ६ गाथाओंकर कहते हैं;—

दस अट्टारस दसयं सत्तर णव सोलसं च दोणहंपि ।

अट्ट य चोद्दस पणयं सत्त तिये दुति दुगोगमेगमदो ॥ ७९२ ॥

दश अष्टादश दशकं सप्तदश नव षोडश च द्वयोरपि ।

अष्ट च चतुर्दश पञ्चकं सप्त त्रिके द्वित्रिकं द्विकैकमेकमतः ॥ ७९२ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें क्रमसे मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमें एक जीवके एकही समय 'आस्रव' जघन्य तो १०—मध्यम एक एक अधिक—उत्कृष्ट १८ होते हैं, सासादनमें जघन्य १० उत्कृष्ट १७, मिश्र और अविरत इन दोमें जघन्य ९ उत्कृष्ट १६ देशसंयतमें जघन्य ८ उत्कृष्ट १४ का स्थान, प्रमत्तादि तीनमें जघन्य ५ का उत्कृष्ट ७ का स्थान, अनिवृत्तिकरणमें जघन्य २ का उत्कृष्ट ३ का, सूक्ष्मसांपरायमें २ का ही स्थान है, इससे आगे उपशांतकषायादि गुणस्थानोंमें एकका ही स्थान है, अयोगीके शून्य है ॥ ७९२ ॥ एकजीवके एककालमें संभवते प्रत्ययोंके समूहको स्थान कहते हैं ।

आगे स्थानोंके प्रकार कहते हैं;—

एकं च तिण्णि पंच य हेडुवरीदो दु मज्झिमे छकं ।

मिच्छे ठाणपयारा इगिदुगमिदरेसु तिण्णि देसोत्ति ॥ ७९३ ॥

एकः च त्रयः पञ्च च अधस्तनोपरितस्तु मध्यमे षट्कम् ।

मिथ्ये स्थानप्रकारा एकद्विकमितरेषु त्रयः देश इति ॥ ७९३ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टिमें जो ९ स्थान कहे हैं उनमें ऊपर नीचेके तीन युगलस्थानोंमें १, ३, ५ प्रकार हैं । मध्यके ३ स्थानोंके छह छह प्रकार हैं । सासादनादि देशसंयत-पर्यंत ऊपरके अंतके २ युगलस्थानोंके क्रमसे १—२ प्रकार हैं, मध्यस्थानके तीन तीन प्रकार हैं ॥ ७९३ ॥

आगे इन कहे हुए स्थानप्रकारोंके जाननेके लिये कूटप्रकार कहते हैं;—

भयदुगरहियं पढमं एकदरजुदं दुसहियमिदि तिण्णं ।

सामण्णा तियकूडा मिच्छा अणहीणतिण्णिवि य ॥ ७९४ ॥

भयद्विकरहितं प्रथममेकतरयुतं द्विसहितमिति त्रयः ।

सामान्यानि त्रयकूटानि मिथ्या अनहीनत्रीण्यपि च ॥ ७९४ ॥

अर्थ—भय—जुगुप्सा इन दोनोंसे रहित पहला कूट, भय जुगुप्सा इन दोनोंमेंसे कोई एकसहित दूसरा कूट, अथवा दोनों सहित तीसरा कूट इसप्रकार ३ कूट तो सामान्य तथा अनंतानुबंधी विसंयोजनकरनेवाले मिथ्यादृष्टिके अनंतानुबंधी कषाय रहित ३ कूट अन्य भी जानने चाहिये ॥ ७९४ ॥

आगे जो स्थानप्रकार कहे गये हैं उनके बोलनेके विधानकेलिये कूटोच्चारणप्रकार कहते हैं;—

मिच्छत्ताण्णदरं एक्केणक्खेण एक्ककायादी ।

तत्तो कसायवेददुजुगलाणेकं च जोगाणं ॥ ७९५ ॥

मिथ्यात्वानामन्यतरमेकेनाक्षेण एककायादि ।

ततः कषायवेदद्वियुगलानामेकं च योगानाम् ॥ ७९५ ॥

अर्थ—५ मिथ्यात्वोंमेंसे १ भेद ६ इंद्रियोंमेंसे १ भेद कायमेंसे १ काय इसके बाद कषायोंमेंसे १ कषाय वेदोंमेंसे १ वेद हास्यादि दो युगलोंमेंसे १ भेद, 'च'से भय जुगुप्सा-मेंसे १ या दो और योगोंमेंसे १ भेद कहना चाहिये, इसप्रकार कूटोच्चारणका विधान होता है ॥ ७९५ ॥

आगे इन भंगोंका प्रमाण लानेकेलिये भंगोंके लानेका प्रकार कहते हैं;—

अणरहिदसहिदकूडे वावत्तरिसय सयाण तेणउदी ।

सट्ठी धुवा हु मिच्छे भयदुगसंजोगजा अधुवा ॥ ७९६ ॥

अनरहितसहितकूटे द्वासप्ततिशतं शतानां त्रिनवतिः ।

षष्टिः ध्रुवा हि मिथ्ये भयद्विकसंयोगजा अध्रुवाः ॥ ७९६ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमें मिथ्यादृष्टिके अनंतानुबंधीरहित कूटमें ५ मिथ्यात्व ५ इंद्रिय इत्यादिको आपसमें गुणाकरनेसे ७२००, अनंतानुबंधीसहित कूटके आकार रचना-में परस्पर गुणनसे ९३६०, येदोनों ध्रुवगुण्य हैं और एक एकके प्रति भय जुगुप्साके सं-बंधसे ४ भंग तथा कायहिंसाके ६३ भंग इसप्रकार ४ और ६३ अध्रुवगुणकार हैं । इनको परस्पर गुणाकरनेसे सब ४१७३१२० भंग होते हैं ॥ ७९६ ॥

आगे पूर्वोक्त भंगोंकी संख्या कहते हैं,—

चउवीसट्टारसयं तालं चोद्दस असीदि सोलसयं ।

छण्णउदी वारसयं वत्तीसं विसद सोल विसदं च ॥ ७९७ ॥

सोलस विसदं कमसो ध्रुवगुणगारा अपुव्वकरणोत्ति ।

अद्धुवगुणिदे भंगा ध्रुवभंगाणं ण भेदादो ॥ ७९८ ॥ जुम्मं ।

चतुर्विंशाष्टादशशतं चत्वारिंशच्चतुर्दशाशीतिः षोडशशतम् ।

पण्णवतिः द्वादशशतं द्वात्रिंशद्विशतं षोडश द्विशतं च ॥ ७९७ ॥

षोडश द्विशतं क्रमशो ध्रुवगुणकारा अपूर्वकरण इति ।

अध्रुवगुणिते भङ्गा ध्रुवभङ्गानां न भेदात् ॥ ७९८ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—'ध्रुवगुण्य' अपूर्वकरणगुणस्थानपर्यंत क्रमसे मिथ्यादृष्टिमें पूर्वोक्त, सासादनमें १८२४ मिश्रमें १४४० असंयतमें १६८० देशसंयतमें १२९६ प्रमत्तमें २३२ अप्रमत्तमें २१६ अपूर्वकरणमें २१६ हैं । इनको अपने २ अध्रुवगुणकारोंके साथ गुणाकरनेसे उस २ जगह भंग होते हैं । इससे आगे ध्रुवभंगोंका भेद नहीं है केवल ध्रुव भंग ही हैं ॥७९७।७९८॥

आगे कायवधमें पूर्वोक्त प्रत्येक द्विसंयोगी आदि भंगोंके साधनेकेलिये दूसरा उपाय बतलाते हैं;—

छप्पंचादेयंतं रूवुत्तरभाजिदे कमेण हदे ।

लद्धं मिच्छचउक्के देसे संजोगगुणगारा ॥ ७९९ ॥

षट्पञ्चादेकान्तं रूपोत्तरभाजिते क्रमेण हते ।

लब्धं मिथ्यचतुष्के देशे संयोगगुणकाराः ॥ ७९९ ॥

अर्थ—कायवधके ६ तथा ५ के प्रमाणसे लेकर १ पर्यंत संख्या रखकर क्रमसे गुणाकार करनेसे तथा एक एक अधिक आगेकी संख्यासे भागदेनेपर जो लब्ध हो वह मिथ्यात्वादि चार गुणस्थानोंमें तथा देशसंयतमें प्रत्येक द्विसंयोगी आदि गुणाकार रूप भंग जानने चाहिये ॥ ७९९ ॥

आगे प्रत्ययोंके उदयके कार्यभूत जीवके परिणामोंको ज्ञानावरणादिकर्मबंधका कारणपना दिखलाते हैं;—

पडिणीगमंतराए उवघादो तप्पदोसणिहवणे ।

आवरणदुगं भूयो बंधदि अच्चासणाएवि ॥ ८०० ॥

प्रत्यनीकमन्तराय उपघातस्तत्प्रदोषनिहवने ।

आवरणद्विकं भूयो बध्नाति अत्यासादनयापि ॥ ८०० ॥

अर्थ—प्रत्यनीकसे अर्थात् शास्त्र वा शास्त्रके जाननेवाले पुरुषोंमें अविनयरूप प्रवृत्ति करमेसे, ज्ञानमें विच्छेदकरनेरूप अंतरायसे, मन वचनकर प्रशंसायोग्य ज्ञानमें द्वेष रखनेरूप वा ज्ञानीजीवोंको भूख प्यास आदिमें बाधा करनेरूप उपघातसे, तत्त्वज्ञानमें हर्ष नहीं माननेरूप अथवा मोक्षसाधनभूत तत्त्वज्ञानका उपदेश होना अच्छा नहीं लगनेपर अंतरंगमें द्वेष होनेरूप प्रद्वेषसे, आप जानता भी है परंतु किसी कारणसे “ऐसा नहीं है अथवा मैं नहीं जानता अथवा कोईके उपदेशको तीर्थकरादिक गुरुका कहना” इत्यादि स्वरूप निहवसे तथा किसीके प्रशंसायोग्य उपदेशकी अनुमोदना (तारीफ़) न करनेरूप वा अन्य अप्रसंगकी बातको बीचमें प्रारंभकर उसके उपदेशको रोकदेनेरूप आसादनासे स्थिति और अनुभाग बंधकी बाहुल्यताकर ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण इन दो कर्मोंको बांधता है ॥८००॥ ये ६ कारण ज्ञानमें हों तो ज्ञानावरणके बंधके कारण और जो दर्शनमें हों तो दर्शनावरणके बंधके कारण होते हैं ऐसा भी जानना ।

आगे वेदनीयके बंधके कारण दिखलाते हैं;—

भूदाणुकंपवदजोगजुंजिदो खंतिदाणगुरुभत्तो ।

बंधदि भूयो सादं विवरीयो बंधदे इदरं ॥ ८०१ ॥

भूतानुकम्पव्रतयोगयुञ्जितः क्षान्तिदानगुरुभक्तः ।

बध्नाति भूयः सातं विपरीतो बध्नाति इतरत् ॥ ८०१ ॥

अर्थ—सब प्राणियोंपर दयाकरना, अहिंसादि व्रत और समाधि परिणामरूप योग इनकर सहित हो तथा क्रोधके त्यागरूप क्षमा, आहारादि ४ प्रकारका दान अरहंतादि पांच परमेष्ठी गुरुमें भक्तिकर सहित हो ऐसा जीव बहुधाकरके सातावेदनीयको बांधता है । इससे विपरीत अदया आदिका धारक जीव तीव्रस्थिति अनुभागसहित असाता वेदनीय कर्मका बंध करता है ॥ ८०१ ॥

आगे दर्शनमोहनीयके प्रत्यय (आस्रव) कहते हैं;—

अरहंतसिद्धचैदियतवसुदगुरुधम्मसंघपडिणीगो ।

बंधदि दंसणमोहं अणंतसंसारिओ जेण ॥ ८०२ ॥

अर्हत्सिद्धचैत्यतपःश्रुतगुरुधर्मसंघप्रत्यनीकः ।

बध्नाति दर्शनमोहमनन्तसांसारिको येन ॥ ८०२ ॥

अर्थ—जो जीव, अरहंत सिद्ध प्रतिमा तपश्चरण निर्दोषशास्त्र निर्ग्रंथगुरु वीतरागप्रणीतधर्म और मुनिआदिका समूहरूप संघ—इनसे प्रतिकूल हो अर्थात् इनके स्वरूपसे विपरीतका ग्रहण करै वह दर्शनमोहको बांधता है कि जिसके उदयसे वह अनंतसंसारमें भटकता है ॥ ८०२ ॥

अब चारित्रमोहके बंधकारण कहते हैं;—

तिव्वकसाओ बहुमोहपरिणदो रागदोससंतत्तो ।

बंधदि चरित्तमोहं दुविहंपि चरित्तगुणघादी ॥ ८०३ ॥

तीव्रकषायो बहुमोहपरिणतो रागद्वेषसंतप्तः ।

बध्नाति चारित्रमोहं द्विविधमपि चारित्रगुणघाती ॥ ८०३ ॥

अर्थ—जो जीव तीव्र कषाय और हास्यादि नोकषाय सहित हो, बहुत मोहरूप परिणमता हो, राग और द्वेषमें अत्यंत लीन हो तथा चारित्रगुणके नाशकरनेका जिसका स्वभाव हो ऐसा जीव कषाय और नोकषाय रूप दो प्रकारके चारित्रमोहनीयकर्मको बांधता है ॥ ८०३ ॥

आगे नरकायुके बंधकारण दिखाते हैं;—

मिच्छो हु महारंभो गिस्सीलो तिव्वलोहसंजुत्तो ।

गिरयाउगं णिवंधइ पावमई रुद्रपरिणामी ॥ ८०४ ॥

मिथ्यो हि महारम्भो निःशीलः तीव्रलोभसंयुक्तः ।

निरयायुष्कं निबध्नाति पापमतिः रुद्रपरिणामी ॥ ८०४ ॥

अर्थ—जो जीव मिथ्यादृष्टि हो, बहुत आरंभी हो, शील रहित हो, तीव्रलोभी हो, रौद्र परिणामी हो, पापकार्य करनेकी बुद्धिसहित हो वह जीव नरकायुको बांधता है ॥ ८०४ ॥

आगे तिर्यंच आयुके कारण कहते हैं;—

उम्मग्गदेसगो मग्गणासगो गूढहियय माइल्लो ।

सठसीलो य ससल्लो तिरियाउं वंधदे जीवो ॥ ८०५ ॥

उन्मार्गदेशको मार्गनाशको गूढहृदयो मायावी ।

शठशीलश्च सशल्यः तिर्यंगायुष्कं वध्नाति जीवः ॥ ८०५ ॥

अर्थ—जो जीव विपरीत मार्गका उपदेश करनेवाला हो भले मार्गका नाशक हो गूढ अर्थात् दूसरेको न मालूम होवे ऐसा हृदयका परिणाम जिसका हो मायाचारी हो मूर्खता सहित जिसका स्वभाव हो मिथ्या आदि ३ शल्योंकर सहित हो वह जीव तिर्यंच आयुको बांधता है ॥ ८०५ ॥

आगे मनुष्यायुके बंधकारणोंको कहते हैं;—

पयडीए तणुकसाओ दाणरदी सीलसंजमविहीणो ।

मज्झिमगुणोहिं जुत्तो मणुवाऊं वंधदे जीवो ॥ ८०६ ॥

प्रकृत्या तनुकषायो दानरतिः शीलसंयमविहीनः ।

मध्यमगुणैः युक्तो मानवायुष्कं वध्नाति जीवः ॥ ८०६ ॥

अर्थ—जो जीव स्वभावसे ही मंद क्रोधादिकषायवाला हो, दानमें प्रीतियुक्त हो, शील संयमकर रहित हो, मध्यमगुणोंकर सहित हो अर्थात् न तो उत्कृष्ट गुण हों न दोष हों, वह जीव मनुष्यायुको बांधता है ॥ ८०६ ॥

अब देवायुके बंधकारणोंको कहते हैं;—

अणुवदमहव्वदेहिं य वालतवाकामणिज्जाराए य ।

देवाउगं णिवंधइ सम्माइट्ठी य जो जीवो ॥ ८०७ ॥

अणुव्रतमहाव्रतैश्च वालतपोकामनिर्जरया च ।

देवायुष्कं निवध्नाति सम्यग्दृष्टिश्च यो जीवः ॥ ८०७ ॥

अर्थ—जो जीव सम्यग्दृष्टि है वह केवल सम्यक्त्वसे वा साक्षात् अणुव्रत महाव्रतोंसे देवायुको बांधता है तथा जो मिथ्यादृष्टि है वह अज्ञानरूपवाले तपश्चरणसे वा विना इच्छा बंधादिसे हुई अकामनिर्जरासे देवायुको बांधता है ॥ ८०७ ॥

आगे नामकर्मके कारण कहते हैं;—

मणवयणकायवक्रो माइल्लो गारवेहिं पडिवद्धो ।

असुहं वंधदि णामं तप्पडिवक्खेहिं सुहणामं ॥ ८०८ ॥

मनोवचनकायवक्रो मायावी गर्वैः प्रतिबद्धः ।

अशुभं वध्नाति नाम तत्प्रतिपक्षैः शुभनाम ॥ ८०८ ॥

अर्थ—जो 'जीव' मन वचनकायसे कुटिल हो अर्थात् सरल न हो, कपटकरनेवाला हो, अपनीप्रशंसा चाहनेवाला तथा करनेवाला हो वह नरकगति आदि अशुभ नामकर्मको बांधता है । और पूर्वोक्तसे विपरीत स्वभाववाला हो अर्थात् सरलयोगवाला निष्कपट प्रशंसा न चाहनेवाला हो वह शुभनामकर्मका बंध करता है ॥ ८०८ ॥

आगे गोत्रकर्मके बंधकारणोंको कहते हैं;—

अरहंतादिसु भक्तो सुत्तरुची पठणुमाणगुण्येही ।

बंधदि उच्चागोदं विवरीओ बंधदे इदरं ॥ ८०९ ॥

अर्हदादिषु भक्तः सूत्ररुचिः पठनानुमननगुणदर्शी ।

बध्नाति उच्चगोत्रं विपरीतो बध्नातीतरत् ॥ ८०९ ॥

अर्थ—जो जीव अर्हतादि पांच परमेष्ठियोंमें भक्तिवंत हो, वीतरागकथित शास्त्रमें प्रीति रखता हो, पठना विचार करना इत्यादि गुणोंका दर्शक हो वह जीव ऊंच गोत्रका बंध करता है । और पूर्वोक्तसे विपरीत करनेवाला नीचगोत्रको बांधता है ॥ ८०९ ॥

आगे अंतरायकर्मके बंधकारणोंको दिखलाते हैं;—

पाणवधादीसु रदो जिणपूजामोक्षमग्गविग्घयरो ।

अज्जेइ अंतरायं ण लहइ जं इच्छियं जेण ॥ ८१० ॥

प्राणवधादिषु रतो जिनपूजामोक्षमार्गविघ्नकरः ।

अर्जयति अन्तरायं न लभते यदीप्सितं येन ॥ ८१० ॥

अर्थ—जो जीव अपने वा परके प्राणोंकी हिंसा करनेमें लीन हो और जिनेश्वरकी पूजा तथा रत्नत्रयकी प्राप्तिरूप मोक्षमार्गमें विघ्न डाले वह अंतरायकर्मका उपार्जन करता है जिसके उदयसे वांछितवस्तुको नहीं पाता है ॥ ८१० ॥

इति श्री नेमिचन्द्राचार्य विरचित पंचसंग्रह द्वितीयनामवाले गोम्मटसार ग्रंथके कर्मकांडमें प्रत्ययनिरूपण नामका छठा अधिकार समाप्त हुआ ॥ ६ ॥



दोहा ।

करि अभाव भवभाव सब, सहजभावनिज पाय ।

जय अपुनर्भवभावमय, भये परम शिवराय ॥ १ ॥

आगे भावचूलिका नामा अधिकारके कहनेकी नमस्कारात्मक मङ्गलाचरणपूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं;—

गोम्मटजिणिंदचंदं पणमिय गोम्मटपयत्थसंजुत्तं ।

गोम्मटसंगहविसयं भावगयं चूलियं वोच्छं ॥ ८११ ॥

गोम्मटजिनेन्द्रचन्द्रं प्रणम्य गोम्मटपदार्थसंयुक्तम् ।

गोम्मटसंग्रहविषयं भावगतं चूलिकां वक्ष्ये ॥ ८११ ॥

अर्थ—मैं नेमिचन्द्र आचार्य, नेमिनाथस्वामीरूप चंद्रमाको नमस्कार करके समीचीन पद और अर्थकर सहित अथवा उत्तम पदार्थोंके वर्णन सहित ऐसे गोमटसार ग्रंथमें प्राप्त भावोंके अधिकारको कहता हूं ॥ ८११ ॥

जंहिं दु लक्खिजंते उवसमआदीसु जणिदभावेहिं ।

जीवा ते गुणसण्णा णिद्धिटा सव्वदरसीहिं ॥ ८१२ ॥

येसु लक्ष्यन्ते उपशमादिषु जनितभावैः ।

जीवास्तौ गुणसंज्ञा निर्दिष्टाः सर्वदर्शभिः ॥ ८१२ ॥

अर्थ—जिन अपने प्रतिपक्षीकर्मोंके उपशमादिकके होनेपर उत्पन्न हुए ऐसे औपशमि-
त्वादि भावोंकर जीव पहचाने जावें वे भाव 'गुण' ऐसी संज्ञारूप सर्व दर्शियोंने कहे हैं ॥ ८१२ ॥
अब उन भावोंके नाम भेदसहित कहते हैं;—

उवसम खइओ मिरसो ओदयियो पारिणामियो भावो ।

भेदा दुग णव तत्तो दुगुणिगिवीसं तियं कमसो ॥ ८१३ ॥

औपशमिकः क्षायिको मिश्र औदयिकः पारिणामिको भावः ।

भेदा द्विकं नव ततो द्विगुणमेकविंशतिः त्रयः कमशः ॥ ८१३ ॥

अर्थ—ये भाव औपशमिक १ क्षायिक २ मिश्र ३ औदयिक ४ पारिणामिक ५ इस-
तरह पांच प्रकार हैं और उनके भेद क्रमसे २, ९, १८, २१, ३ इसतरह जानने चाहिये ८१३
अब इन भावोंकी उपशमा प्रकार कहते हैं;—

कम्मउवसमम्मि उवसमभावो खीणम्मि खइयभावो दु ।

उदयो जीवस्स गुणो न्वओवसमिओ हवे भावो ॥ ८१४ ॥

कम्मउदयजकम्मिगुणो ओदयियो तत्थ होदि भावो दु ।

कारणणिरयंक्खभावो सभावियो होदि परिणामो ॥ ८१५ ॥ जुम्मं ।

कर्मोपशमो उपशमभावः शीघ्रो क्षायिकभावम्बु ।

उदयो जीवस्स गुणः क्षयोपशमिहो भवेन भावः ॥ ८१४ ॥

कर्मोदयजकमिगुण औदयिकमत्र भवति भावम्बु ।

कारणणिरयंक्खभावः सभावियो भवति परिणामः ॥ ८१५ ॥ जुम्मं ।

अर्थ—परिपक्षीकर्मोंके उपशम होनेमें 'औपशमिकभाव' होता है, उन कर्मोंके निवृत्त्य-
कर होनेमें 'क्षायिकभाव' होता है, और उक्त प्रतिपक्षीकर्मोंका उदय भी हो परंतु जीवका
गुण भी उपशम होने कदा मिश्ररूप क्षयोपशमिकभाव होता है । कर्मोंके उदयमें उपशम हुआ
अपक्षीकर्मोंका उदय गुण जो उक्त औदयिक भाव है और उपशमादिकारणोंके बिना भाव-
रहित, उक्त उदय उदय उदयभाव है ॥ ८१४ ॥ ८१५ ॥

आगे भावोंके भेदरूप उत्तरभावोंको कहते हैं;—

उपशमभावो उपशमसम्भं चरणं च तारिसं खड्गो ।
खाड्य णाणं दंसण सम्भ चरित्तं च दाणादी ॥ ८१६ ॥

उपशमभाव उपशमसम्यक्त्वं चरणं च तादृशः क्षायिकः ।
क्षायिकं ज्ञानं दर्शनं सम्यक्त्वं चारित्रं च दानादयः ॥ ८१६ ॥

अर्थ—औपशमिक भाव है वह उपशमसम्यक्त्व और उपशमचारित्रके भेदसे २ तरह-
का है । उसीप्रकार 'क्षायिकभाव' क्षायिकज्ञान १ दर्शन २ सम्यक्त्व ३ चारित्र ४ दान ५
शुभ ६ भोग ७ उपभोग ८ वीर्य ९ ऐसे ९ प्रकार है ॥ ८१६ ॥

खाओवसमियभावो चउणाण तिदंसणं तिअण्णाणं ।
दाणादिपंच वेदगसरागचारित्तदेसजमं ॥ ८१७ ॥

क्षायोपशमिकभावः चतुर्ज्ञानं त्रिदर्शनं त्र्यज्ञानम् ।
दानादिपञ्च वेदकसरागचारित्रदेशयमम् ॥ ८१७ ॥

अर्थ—'क्षायोपशमिकभाव' मतिज्ञानादि ४ ज्ञान, चक्षुरादि ३ दर्शन, कुमति आदि ३
अज्ञान, दानादि ५, वेदकसम्यक्त्व १ सरागचारित्र १ और देशसंयम-इसतरह १८ भेदों
सहित हैं ॥ ८१७ ॥

ओदयिया पुण भावा गदिलिङ्गकसाय तह य मिच्छत्तं ।
लेस्सासिद्धासंजमअण्णाणं होंति इगिवीसं ॥ ८१८ ॥

औदयिकाः पुनः भावा गतिलिङ्गकपायास्तथा च मिथ्यात्वम् ।
लेश्यासिद्धासंयमाज्ञानं भवन्ति एकविंशतिः ॥ ८१८ ॥

अर्थ—और 'औदयिकभाव' ४ गति ३ लिंग (वेद) ४ कषाय एक मिथ्यात्व ६
लेश्या १ असिद्धत्व १ चारित्रके अभावरूपअसंयम १ अज्ञान—इसरीतिसे २१ प्रकार है ॥ ८१८ ॥

जीवत्तं भवत्तमभवत्तादी हवन्ति परिणामा ।
इदि मूलुत्तरभावा भंगवियप्पे बहू जाणे ॥ ८१९ ॥

जीवत्वं भव्यत्वमभव्यत्वादयो भवन्ति परिणामाः ।
इति मूलोत्तरभावा भङ्गविकल्पे बहवो जानीहि ॥ ८१९ ॥

अर्थ—जीवत्व १ भव्यत्व १ अभव्यत्व १ ये तीन पारिणामिकभाव हैं, इनमें किसी
कर्मका निमित्त नहीं है ये तो स्वाभाविक होते हैं । इसतरह मूलभाव ५ उत्तरभाव ५३ हैं
यदि इनके भी भेद किये जावें तो बहुत होसके हैं ऐसा जानना ॥ ८१९ ॥

ओघादेसे संभवभावं मूलुत्तरं ठवेदूण ।
पत्तेये अविरुद्धे परसगजोगेवि भंगा हु ॥ ८२० ॥

ओघादेशे संभवभावं मूलोत्तरं स्थापयित्वा ।

प्रत्येके अविरुद्धे परस्वकयोगेपि भङ्गा हि ॥ ८२० ॥

अर्थ—गुणस्थान और मार्गणाओमें संभवते मूलभाव और उत्तरभावोंको स्थापन करके प्रमादोंके अक्षसंचार (भेदोंके बोलनेका) विधानके समान यहांपर भी प्रत्येक भंग और विरोधरहित परसंयोगी तथा स्वसंयोगीमें भंग होते हैं ॥ ८२० ॥

आगे मूलभावोंकी संख्या और स्वपरके संयोगरूप संख्याको कहते हैं;—

मिच्छति ये तिचउके दोसुवि सिद्धेवि मूलभावा हु ।

तिग पण पणगं चउरो तिग दोण्णि य संभवा होंति ॥ ८२१ ॥

मिथ्यत्रये त्रिचतुष्के द्वयोरपि सिद्धेपि मूलभावा हि ।

त्रिकं पञ्च पञ्चकं चत्वारः त्रिकं द्वौ च संभवा भवन्ति ॥ ८२१ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानोंमें, असंयतादि चार गुणस्थानोंमें, उपशमश्रेणीके ४ गुणस्थानोंमें, क्षपकश्रेणीके चारोंमें—इसतरह तीन चौकड़ीमें तथा सयोगी अयोगी इनदोनोंमें और सिद्धजीवमें क्रमसे संभव होनेवाले मूलभाव ३, ५, ५, ४, ३, २ जानने चाहिये ॥ ८२१ ॥

तत्थेव मूलभंगा दसल्लवीसं क्रमेण पणतीसं ।

उगुवीसं दस पणगं ठाणं पडि उत्तरं वोच्छं ॥ ८२२ ॥

तत्रैव मूलभङ्गा दश षड्विंशं क्रमेण पञ्चत्रिंशत् ।

एकोनविंशं दश पञ्चकं स्थानं प्रति उत्तरं वक्ष्यामि ॥ ८२२ ॥

अर्थ—उन पूर्वकथित छह भेदोंमें क्रमसे मूलभंग १०, २६, ३५, १९, १०, ५ होते हैं । इसके बाद गुणस्थानोंके प्रति उत्तरभावोंको कहूंगा ॥ ८२२ ॥

उत्तरभावोंके भेद सामान्य पनेसे गुणस्थानोंमें कहते हैं—मिथ्यादृष्टिमें औदयिकके २१, ३ अज्ञान २ दर्शन ५ लब्धि इसप्रकार क्षायोपशमिकके १०, पारिणामिकके ३ भेद—इसतरह ३४ भाव हैं । सासादनमें मिथ्यात्वके औदयिकके २०, क्षायोपशमिकके १०, जीवत्व—भव्यत्व इसतरह पारिणामिकके २ भेद सब ३२ भेद हैं । मिश्रगुणस्थानमें औदयिकके २०, मिश्ररूप ३ ज्ञान ३ दर्शन ५ लब्धिरूप क्षायोपशमिकके ११ भेद, भव्यत्व—जीवत्व ऐसे पारिणामिकके २ भेद—सब मिलकर ३३ भेद हैं । असंयत गुणस्थानमें औदयिकके २०, ३ ज्ञान ३ दर्शन ५ लब्धि १ सम्यक्त्व ऐसे क्षायोपशमिकके १२, उपशमसम्यक्त्व १, क्षायिकसम्यक्त्व १, जीवत्व—भव्यत्व ऐसे पारिणामिकभावके २ भेद इसतरह सब ३६ भेद हैं । देशसंयतमें मनुष्यगति—तिर्य्यचगति ४ कषाय ३ लिंग ३ शुभलेश्या १ असिद्धत्व १ अज्ञान ऐसे औदयिकके १४ भेद, ३ ज्ञान ३ दर्शन ५ लब्धि १ सम्यक्त्व १ देशचारित्र ऐसे क्षायोपशमिकके १३, उपशमसम्यक्त्व, क्षायिकसम्यक्त्व, जीवत्व—भव्यत्व ऐसे पारिणामिकके दो भेद—इसतरह सब ३१ भेद हैं । इनमें तिर्य्यचगति और देशचारित्र कमकरके तथा

मनःपर्ययज्ञान—सरागचारित्र ये दो भेद मिलानेसे ३१—३१ प्रमत्त और अप्रमत्तमें होते हैं । इन भेदोंमें पीतलेश्या—पद्मलेश्या—क्षायोपशमिकसम्यक्त्व—क्षायोपशमिकचारित्र घटाके उपशम चारित्र—क्षायिक चारित्र मिलानेसे २९—२९ भाव अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणमें हैं । इन भेदोंमेंसे लोभके विना ३ कषाय ३ लिंग घटानेसे सूक्ष्मसांपरायमें २३ भाव हैं । इनमें भी लोभकषाय १ क्षायिक चारित्र १ कम करनेसे उपशांतकषायमें २१ भेद हैं । इनमें औपशमिकके २ दो भेद घटाकर क्षायिकचारित्र मिलानेसे क्षीणकषायमें २० भेद हैं । मनुष्य-गति—शुक्लेश्या—असिद्धत्व ऐसे औदयिकके ३ भेद, क्षायिकके ९ पारिणामिकके जीवत्व—भव्यत्व ऐसे दो भेद इसतरह सयोगी गुणस्थानमें १४ भाव हैं । इन भेदोंमेंसे शुक्लेश्या घटानेपर अयोगीके १३ भाव हैं । तथा सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन वीर्य ऐसे क्षायिकके ४ भेद जीवत्व पारिणामिकभाव—इसतरह सिद्धजीवोंके ५ भाव हैं । इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा ये ५३ भाव कहे गये हैं ।

अब उत्तरभावोंके भेद दूसरे प्रकारसे कहते हैं;—

उत्तरभंगा दुविहा ठाणगया पदगयात्ति पढमम्मि ।

सगजोगेण य भंगाणयणं णत्थित्ति णिद्धिं ॥ ८२३ ॥

उत्तरभङ्गा द्विविधाः स्थानगताः पदगता इति प्रथमे ।

स्वकयोगेन च भङ्गानयनं नास्तीति निर्दिष्टम् ॥ ८२३ ॥

अर्थ—उत्तरभावोंके भंग दो प्रकार हैं—स्थानगत और पदगत । पहले स्थानगत भंगमें स्वसंयोगीभंग नहीं पाये जाते हैं क्योंकि एक ही समय एक स्थानमें दूसरा कोई स्थानका होना संभव नहीं है ऐसा कहा है ॥ ८२३ ॥ एक जीवके एककालमें जितने जितने भाव पाये जावें उनके समूहका नाम स्थान है उसकी अपेक्षाकर जो भंग करना वे स्थानगत हैं । तथा एक जीवके एकही काल जो जो भाव पाये जावें उनकी एक जातिका वा जुदे २ का नाम पद है उसकी अपेक्षा जो भंग करना उनको पदगत कहते हैं ।

मिच्छदुगे मिस्सतिये पमत्तसत्ते य मिस्सठाणाणि ।

तिग दुग चउरो एकं ठाणं सब्बत्थ ओदयियं ॥ ८२४ ॥

मिथ्यद्विके मिश्रत्रये प्रमत्तसप्तके च मिश्रस्थानानि ।

त्रिकं द्विकं चत्वारि एकं स्थानं सर्वत्र औदयिकम् ॥ ८२४ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदि दो गुणस्थानोंमें, मिश्रादि तीनमें और प्रमत्त आदि सात गुणस्थानोंमें क्रमसे क्षायोपशमिक भावके स्थान ३, २, ४ जानने । तथा औदयिक भावका स्थान सब गुणस्थानोंमें एक एक ही है ॥ ८२४ ॥

तत्थावरणजभावा पणल्लस्सत्तेव दाणपंचेव ।

अयदचउके वेदगसम्मं देसम्मि देसजमं ॥ ८२५ ॥

तत्रावरणजभावा पञ्चषट्सप्तैव दानपञ्चैव ।

अयतचतुष्के वेदकसम्यं देशे देशयमम् ॥ ८२५ ॥

अर्थ—उन पूर्वोक्त तीनोंमें ज्ञानावरण दर्शनावरणके निमित्तसे उत्पन्न हुए क्षायोपश-
मिक भाव मिथ्यादृष्टि आदि दो गुणस्थानोंमें ३ अज्ञान २ दर्शन ऐसे ५ हैं । मिश्रादि
तीनमें आदिके ३ ज्ञान ३ दर्शन इसतरह ६ हैं । प्रमत्तादि सात गुणस्थानोंमें आदिके ४
ज्ञान ३ दर्शन इसरीतिसे ७ हैं । दानादिक पांच भाव मिथ्यादृष्टिसे लेकर बारवें तक हैं ।
वेदक सम्यक्त्व असंयतादि ४ गुणस्थानोंमें है । देशसंयम देशसंयत गुणस्थानमें होता है ॥ ८२५ ॥

रागजमं तु प्रमत्ते इदरे मिच्छादिजेष्टाणाणि ।

वेभंगेण विहीणं चक्षुर्विहीणं च मिच्छदुगे ॥ ८२६ ॥

रागयमं तु प्रमत्ते इतरस्मिन् मिथ्यादिजेष्टस्थानानि ।

वैभङ्गेन विहीनं चक्षुर्विहीनं च मिथ्यद्विके ॥ ८२६ ॥

अर्थ—सरागचारित्र प्रमत्त और अप्रमत्तगुणस्थानमें है, “इसतरह यथा संभव भाव मि-
लानेसे मिथ्यादृष्टि आदि क्षीण कपाय पर्यंत क्रमसे क्षायोपशमिक भावके उत्कृष्ट स्थान
१०, १०, ११, १२, १३, १४, १२, १२, १२, १२, १२ रूप जानने” तथा मि-
थ्यादृष्टि आदि दो गुणस्थानोंमें विभंग रहित ९ का स्थान और चक्षुदर्शनसे भी रहित ८
का स्थान और पूर्वोक्त १० का स्थान—इसतरह तीन तीन स्थान हैं ॥ ८२६ ॥

अवधिदुगेण विहीणं मिस्सति ए होदि अण्णठाणं तु ।

मण्णणेणवधिदुगेणुभयेणूणं तदो अण्णे ॥ ८२७ ॥

अवधिद्विकेन विहीनं मिश्रत्रये भवति अन्यत्स्थानं तु ।

मनोज्ञानेनावधिद्विकेनोभयेनोनं ततः अन्यानि ॥ ८२७ ॥

अर्थ—मिश्रादि तीन गुणस्थानोंमें एक तो अपना अपना उत्कृष्ट स्थान और अवधि
ज्ञान अवधिदर्शन इन दोनोंसे रहित मिश्रमें ९ का स्थान, असंयतमें १० का देशसंयतमें
११ का इसतरह दो दो स्थान हैं । प्रमत्तादि सातमें एक तो अपना अपना स्थान तथा
एक मनःपर्ययज्ञान रहित एक अवधिज्ञान अवधिदर्शनरहित, एक स्थान अवधिज्ञान-
अवधिदर्शन—मनःपर्ययज्ञानरहित—इसप्रकार प्रमत्त अप्रमत्तमें १३—१२—११ के तीन तीन
स्थान, अपूर्वकरणादि पांचमें ११—१०—९ के तीन तीन स्थान, ऐसे चार चार स्थान
जानने चाहिये ॥ ८२७ ॥

आगे औदयिकके स्थानोंमें भावोंके बदलनेसे जो भंग होते हैं उनको गुणस्थानोंमें
कहते हैं;—

लिंगकसाया लेस्सा संगुणिदा चदुगदीसु अविरुद्धा ।

चारस वावत्तरियं तत्तियमेत्तं च अडदालं ॥ ८२८ ॥

लिङ्गकपाया लेश्याः संगुणिता चतुर्गतिषु अविरुद्धा ।

द्वादश द्वासप्ततिः तावन्मात्रं च अष्टचत्वारिंशत् ॥ ८२८ ॥

अर्थ—नरकादि चार गतियोंमें विरोधरहित यथासंभव लिंग-कपाय-लेश्याओंको आप-समें गुणाकार करनेपर क्रमसे १२, ७२, ७२, ४८, भंग होते हैं ॥ ८२८ ॥

णवरि विसेसं जाणे सुर मिस्से अविरदे य सुहलेस्सा ।

चदुवीस तत्थ भंगा असहायपरक्कमुद्धिटा ॥ ८२९ ॥

नवरि विशेषं जानीहि सुरे मिश्रे अविरते च शुभलेश्याः ।

चतुर्विंशं तत्र भङ्गा असहायपराक्रमोद्धिटाः ॥ ८२९ ॥

अर्थ—इतना विशेष जानना चाहिये कि मिश्र और अविरत गुणस्थानमें देवगतिमें ३ शुभलेश्या ही हैं इसकारण वहांपर २४ ही भंग होते हैं, ऐसे असहाय पराक्रमवाले श्रीवर्द्धमानस्वामीने कहे हैं ॥ ८२९ ॥

चक्रवृण मिच्छसासणसम्मा तेरिच्छगा हवंति सदा ।

चारिकसायतिलेस्साणव्भासे तत्थ भंगा हु ॥ ८३० ॥

चक्षुरुत्तं मिथ्यसासनसम्यञ्चः तैरश्चिका भवन्ति सदा ।

चतुःकपायत्रिलेश्यानामभ्यासे तत्र भङ्गा हि ॥ ८३० ॥

अर्थ—चक्षुदर्शन रहित मिथ्यादृष्टि और सासादन सम्यग्दृष्टि हमेशा तिर्यच ही होते हैं, इसकारण १ नपुंसकवेद ४ चार कपाय और ३ लेश्याओंको आपसमें गुणा करनेसे वहांपर १२ भंग नियमसे जानने चाहिये ॥ ८३० ॥

खाइयअविरदसम्मि चउ सोल विहत्तरी य वारं च ।

तद्देशो मणुसेव य छत्तीसा तव्भवा भंगा ॥ ८३१ ॥

क्षायिकाविरतसम्ये चत्वारः षोडश द्वासप्ततिश्च द्वादश च ।

तद्देशो मनुष्य एव च षट्त्रिंशत् तद्भवा भङ्गाः ॥ ८३१ ॥

अर्थ—क्षायिक अविरत सम्यग्दृष्टीके नारकी आदि चार गतियोंमें क्रमसे ४, १६, ७२, १२ भंग होते हैं । और क्षायिकसम्यग्दृष्टी देशसंयत मनुष्य ही होता है, वहांपर वेद कपाय शुभलेश्याओंको गुणा करनेसे ३६ भंग होते हैं ॥ ८३१ ॥

परिणामो दुट्टाणो मिच्छे सेसेसु एक्कठाणो दु ।

सम्मि अण्णं सम्मं चारित्ते णत्थि चारित्तं ॥ ८३२ ॥

परिणामो द्विस्थानो मिथ्ये शेषेषु एकस्थानस्तु ।

सम्ये अन्यत्सम्यं चारित्रे नास्ति चारित्रम् ॥ ८३२ ॥

अर्थ—पारिणामिक भावके मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें दो स्थान हैं जीवत्व भव्यत्व, जीवत्व अभव्यत्व । शेषद्वितीयादि गुणस्थानोंमें १ स्थान ही है जीवत्व भव्यत्व । तथा सम्यक्त्वं

सहित स्थानमें दूसरा सम्यक्त्व नहीं होता और चारित्रसहित स्थानमें दूसरा चारित्र नहीं होता ॥ ८३२ ॥

मिच्छदुगयदचउक्के अट्टाणेण खयिथठाणेण ।

जुद परजोगजभंगा पुध आणिय मेलिदवा हु ॥ ८३३ ॥

मिथ्यद्विकायतचतुष्के अष्टस्थानेन क्षायिकस्थानेन ।

युतं परयोगजभङ्गा पृथगानीय मेलयितव्या हि ॥ ८३३ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदि दो स्थानोंमें, असंयतादि चार गुणस्थानोंमें, क्षायोपशमिकके ८ के स्थानमें पूर्वकथित औदयिक भंगोंकर सहित तथा क्षायिक सम्यक्त्वके स्थानमें पूर्वकथित औदयिक भंगोंकर सहित परसंयोगसे उत्पन्न हुए भंगोंको जुदे २ लेकर अपनी अपनी राशिमें मिलाना चाहिये ॥ ८३३ ॥

अब पूर्वोक्त गुण्योंके गुणाकार और क्षेप प्रगट करते हैं;—

उदयेणक्खे चडिदे गुणगारा एव होंति सव्वत्थ ।

अवसेसभावठाणेणक्खे संचारिदे खेवा ॥ ८३४ ॥

उदयेनाक्षे चटिते गुणकारा एव भवन्ति सर्वत्र ।

अवशेषभावस्थानेनाक्षे संचारिते क्षेपाः ॥ ८३४ ॥

अर्थ—औदयिक भावके स्थानकर अक्षका (भेदोंका) संचार विधानकर (बदलनेसे) सब जगह जो भंग हों वे भंग गुणकार जानने । और शेष भावोंके स्थानमें अक्षसंचारकर जो भंग हों वे क्षेप जानने ॥ ८३४ ॥ जिसको मिलाया जावे उसे क्षेप कहते हैं ।

आगे पूर्वोक्त गुण्यादिकोंको दिखलाते हैं;—

दुसु दुसु देसे दोसुवि चउरुत्तर दुसदगसिदिसहिदसदं ।

वावत्तरि छत्तीसा वारमपुव्वे गुणिज्जपमा ॥ ८३५ ॥

वारचउत्तिदुगमेकं थूले तो इगि हवे अजोगित्ति ।

पुण वार वार सुण्णं चउसद छत्तीस देसोत्ति ॥ ८३६ ॥ जुम्मं ।

द्वयोः द्वयोः देशे द्वयोरपि चतुरुत्तरद्विशतकमशीतिसहितशतम् ।

द्वासप्ततिः पट्त्रिंशत् द्वादश अपूर्वे गुण्यप्रमा ॥ ८३५ ॥

द्वादशचतुस्त्रिद्विकैकं स्थूले अतः एको भवेत् अयोगीति ।

पुनः द्वादश द्वादश शून्यं चतुःशतं पट्त्रिंशत् देश इति ॥ ८३६ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—औदयिक भावके गुण्यरूप भंग मिथ्यादृष्टि आदिक दो गुणस्थानोंमें २०४ प्रत्येक हैं, मिश्रादि दो गुणस्थानोंमें १८० हैं, देशसंयतमें ७२ हैं, प्रमत्तादि दो गुणस्थानोंमें ३६ हैं, अपूर्वकरणमें १२ हैं, अनिवृत्तिकरणके भागोंमें क्रमसे १२-४-३-२-१

हैं, इसके बाद अयोगीपर्यंत एक एक है । फिर मिथ्यादृष्टिआदि देशसंयतपर्यंत क्षायिक सम्यक्त्वकी अपेक्षा क्रमसे १२, १२, शून्य, १०४, ३६ हैं ॥ ८३५।८३६ ॥

वामे दुसु दुसु दुसु तिसु खीणे दोसुवि क्रमेण गुणगारा ।

गव छञ्चारस तीसं वीसं वीसं चउक्कं च ॥ ८३७ ॥

वामे द्वयोः द्वयोः द्वयोः त्रिपु क्षीणे द्वयोरपि क्रमेण गुणकाराः ।

नव पद् द्वादश त्रिंशं विंशं विंशं चतुष्कं च ॥ ८३७ ॥

अर्थ—जिनसे गुणाकिया जावे ऐसे 'गुणकार' क्रमसे मिथ्यादृष्टिमें ९, सासादनादि दो में ६, असंयतादि २ में १२, प्रमत्तादि दो में ३०, अपूर्वकरणादि तीन गुणस्थानोंमें २०, क्षीणकषायमें २०, सयोगी अयोगीमें ४ हैं ॥ ८३७ ॥

पुणरवि देसोत्ति गुणो तिदुणभच्छक्यं पुणो खेवा ।

पुव्वपदे अड पंचयमेगारसुगुतीससुगुवीसं ॥ ८३८ ॥

पुनरपि देश इति गुणः त्रिद्विनभःषट्षट्ठं पुनः क्षेपाः ।

पूर्वपदे अष्ट पञ्चकमेकादश एकोनत्रिंशमेकोनविंशम् ॥ ८३८ ॥

अर्थ—फिर उनमेंभी चक्षुदर्शनरहित वा क्षायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टिसे लेकर देशसंयततक गुणकार ३, २, शून्य, ६, ६ जानना । और 'क्षेप' पूर्वोक्त स्थानमें अर्थात् मिथ्यादृष्टिमें ८, सासादनादि दो गुणस्थानोंमें ५, असंयतादि दो में ११, प्रमत्तादि दो में २९ अपूर्वकरणादि तीनमें १९ हैं ॥ ८३८ ॥

उगुवीस तियं तत्तो तिदुणभच्छक्यं च देसोत्ति ।

चउसुवसमगेसु गुणा तालं रुऊणया खेवा ॥ ८३९ ॥

एकोनविंशं त्रयः ततः त्रिद्विनभःषट्षट्ठं च देश इति ।

चतुर्पुपशामकेषु गुणाः चत्वारिंशत् रूपोनाः क्षेपाः ॥ ८३९ ॥

अर्थ—क्षीणकषायमें १९, सयोगी अयोगीमें ३ हैं, तथा चक्षुदर्शनरहित वा क्षायिक सम्यग्दृष्टीकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टी आदि देशसंयतपर्यंत क्रमसे ३, २, शून्य, ६, ६ क्षेप हैं । और उपशमश्रेणीके चार गुणस्थानोंमें गुणाकार ४० तथा क्षेप उसमेंसे १ कम अर्थात् ३९ हैं ॥ ८३९ ॥

मिच्छादिठाणभंगा अट्टारसया हवंति तेसीदा ।

वारसया पणवण्णा सहस्ससहिया हु पणसीदा ॥ ८४० ॥

मिथ्यादिस्थानभङ्गा अष्टादशशतं भवन्ति त्र्यशीतिः ।

द्वादशशतं पञ्चपञ्चाशत् सहस्रसहिताहि पञ्चाशीतिः ॥ ८४० ॥

अर्थ—पूर्वोक्त गुण्योंको गुणाकारोंसे गुणनेपर और क्षेपोंको मिलानेसे मिथ्यादृष्टि-

आदि गुणस्थानोंमें स्थानोंके भंग क्रमसे मिथ्यादृष्टिमें १८८३, सासादनमें १२५५, मिश्र-
में १०८५ होते हैं ॥ ८४० ॥

रूवहियडवीससया सगणउदा दससया णवेणहिया ।
एकारसया दोण्हं खवगेषु जहाकमं वोच्छं ॥ ८४१ ॥

रूपाधिकाष्टविंशशतानि सप्तनवतिः दशशतानि नवेनाधिकाः ।
एकादशशतानि द्वयोः क्षपकेषु यथाक्रमं वक्ष्यामि ॥ ८४१ ॥

अर्थ—असंयतगुणस्थानमें २८०१, देशसंयतमें १०९७, प्रमत्तादि दो गुणस्थानोंमें
११०९ भंग होते हैं । क्षपकश्रेणीवालोंके यथाक्रम कहंगा ॥ ८४१ ॥

पुव्वंपंचणियट्टीसुहुमे खीणे दहाण छव्वीसा ।
तत्तियमेत्तो दसअडछच्चदुचदुचदुय एगूणं ॥ ८४२ ॥

अपूर्वपञ्चानिवृत्तिसूक्ष्मे क्षीणे दशानां षड्विंशतिः ।
तावन्मात्रा दशाष्टषट्चतुश्चतुश्चतुष्कमेकोनम् ॥ ८४२ ॥

अर्थ—अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरणके पांच भाग, सूक्ष्मसांपराय, क्षीणकषाय इन आठ
क्षपकस्थानोंमें क्रमसे दशगुणे छव्वीस १ कम अर्थात् २५९, उतने ही अर्थात् २५९, ९९,
७९, ५९, ३९, ३९ भंग होते हैं ॥ ८४२ ॥

उवसामगेषु दुगुणं रूवहियं होदि सत्त जोगिम्मिह ।
सत्तेव अजोगिम्मि य सिद्धे तिण्णेव भंगा हु ॥ ८४३ ॥

उपशामकेषु द्विगुणं रूपाधिकं भवति सप्त योगिनि ।
सप्तैव अयोगिनि च सिद्धे त्रय एव भङ्गा हि ॥ ८४३ ॥

अर्थ—उपशमश्रेणीके चार गुणस्थानोंमें पूर्वोक्त भंगोंसे दूने और १ अधिक भंग जानने
चाहिये । सयोगीमें ७ अयोगीमें भी ७ और सिद्ध भगवानके ३ ही भंग होते हैं ॥ ८४३ ॥
इसप्रकार स्थानभंग कहे ।

आगे पदभंगोंको कहते हैं;—

दुविहा पुण पदभंगा जादिगपदसत्त्वपदभवान्ति हवे ।
जातिपदखड्गमिस्से पिण्डेव य होदि सगजोगो ॥ ८४४ ॥

द्विविधाः पुनः पदभङ्गा जातिगपदसर्वपदभवा इति भवेत् ।
जातिपदक्षायिकमिश्रे पिण्डे एव च भवति स्वकयोगः ॥ ८४४ ॥

अर्थ—पदभंग दो तरहके होते हैं एक तो जातिपदभंग १ दूसरे सर्व पदभंग २,
उनमेंसे जातिपदरूप जो क्षायिक भाव मिश्रभाव इनके पिण्डपदस्वरूप भावोंमें स्वसंयोगी
भी भंग पाये जाते हैं ॥ ८४४ ॥

अयदुवसमगचउके एकं दो उवसमस्स जादिपदो ।

खइगपदं तत्येकं खवगे जिणसिद्धगेषु दु पण चदू ॥ ८४५ ॥

अयतौपशमिकचतुष्के एकं द्वे उपशमस्य जातिपदम् ।

क्षाधिकपदं तत्रैकं क्षपके -जिनसिद्धकेषु द्वे पञ्च चत्वारि ॥ ८४५ ॥

अर्थ—औपशमिक भावके जातिपद असंयतादि चार गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वरूप एक ही है, उपशमश्रेणीके चार गुणस्थानोंमें सम्यक्त्व और चारित्र इसतरह दो जातिपद हैं । क्षायिकभावके जातिपद असंयतादि चारमें क्षायिकसम्यक्त्वरूप एक ही है, क्षपकश्रेणीके चार गुणस्थानोंमें सम्यक्त्व चारित्र ऐसे दो जातिपद हैं, सयोगी अयोगी केवलीके सम्यक्त्व १ ज्ञान २ दर्शन ३ चारित्र ४ लब्धि ५—इसतरह ५ जातिपद हैं, सिद्धोंमें चारित्रके विना ४ जातिपद होते हैं ॥ ८४५ ॥

मिच्छतिये मिस्सपदा तिणिण य अयदम्मि होंति चत्तारि ।

देसतिये पंचपदा ततो खीणोत्ति तिणिणपदा ॥ ८४६ ॥

मिथ्यत्रये मिश्रपदानि त्रीणि च अयते भवन्ति चत्वारि ।

देशत्रये पञ्चपदानि ततः क्षीण इति त्रिपदानि ॥ ८४६ ॥

अर्थ—मिश्रभावके जातिपद मिथ्यादृष्टिआदि तीन गुणस्थानोंमें तीन तीन हैं, असंयत गुणस्थानमें चारित्रके विना ४ हैं, देशसंयतादि तीनगुणस्थानोंमें ५ पद हैं, उसके बाद क्षीणकषायपर्यंत ज्ञान १ दर्शन २ लब्धि ३ इसतरह तीन पद हैं ॥ ८४६ ॥

मिच्छे अट्टुदयपदा ते तिसु सत्तेव तो सवेदोत्ति ।

छस्सुहुमोत्ति य पणगं खीणोत्ति जिणेषु चदुत्तिदुगं ॥ ८४७ ॥

मिथ्ये अष्टोदयपदानि तानि त्रिषु सत्तैवातः सवेद इति ।

षट् सूक्ष्म इति च पञ्चकं क्षीण इति जिनेषु चतुस्त्रिद्विकम् ॥ ८४७ ॥

अर्थ—औदयिकभावके जातिपद मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ८, सासादनादि तीनगुणस्थानोंमें मिथ्यात्वके विना ७, इसके बाद अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके सवेदभागपर्यंत असंयमके विना ६, इससे आगे सूक्ष्मसांपरायपर्यंत वेद विना ५, इसके बाद क्षीणकषायपर्यंत कषायके विना ४, सयोगीके अज्ञान विना ३, अयोगीमें लेश्या विना गति और असिद्ध ये दो हैं ॥ ८४७ ॥

मिच्छे परिणामपदा दोणिण य सेसेसु होदि एकं तु ।

जातिपदं पडि वोच्छं मिच्छादिसु भंगपिंडं तु ॥ ८४८ ॥

मिथ्ये परिणामपदे द्वे च शेषेषु भवति एकं तु ।

जातिपदं प्रति वक्ष्यामि मिथ्यादिषु भङ्गपिण्डं तु ॥ ८४८ ॥

अर्थ—पारिणामिकभावके जातिपद मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें जीवत्व भव्यत्व वा जीवत्व अभव्यत्व ऐसे दो हैं । शेष गुणस्थानोंमें भव्यत्व—जीवत्वरूप एक ही है । तथा मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें अब जातिपदकी अपेक्षा भंगोंका समुदाय कहता हूँ ॥ ८४८ ॥

आगे गुण्यादिकोंकी संख्या कहते हैं;—

अट्ट गुणिज्जा वामे तिसु सग छच्चउसु छक्क पणगं च ।

थूले सुहुमे पणगं दुसु चउतियदुगमदो सुण्णं ॥ ८४९ ॥

अष्ट गुण्यानि वामे त्रिषु सप्त षट् चतुर्षु षट्कं पञ्चकं च ।

स्थूले सूक्ष्मे पञ्चकं द्वयोः चतुस्त्रिकद्विकमतः शून्यम् ॥ ८४९ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें गुण्य ८ सासादनादि तीनमें ७ देशसंयतादि ३ और क्षपकश्रेणी—उपशमश्रेणीका अपूर्वकरण इसतरह चार गुणस्थानोंमें ६, अनिवृत्तिकरणमें ६ वा ५ सूक्ष्मसांपरायमें ५ उपशांतकषायादि दोमें ४ सयोगीमें ३ अयोगीमें २ गुण्य इसके बाद सिद्ध भगवानके शून्य जानने चाहिये ॥ ८४९ ॥

वारट्टुछवीसं तिसु तिसु वत्तीसयं च चउवीसं ।

तो तालं चउवीसं गुणगारा वार वार णभं ॥ ८५० ॥

द्वादशाष्टषड्विंशं त्रिषु त्रिषु द्वात्रिंशत्कं च चतुर्विंशम् ।

अतः चत्वारिंशत् चतुर्विंशं गुणकारा द्वादश द्वादश नभः ॥ ८५० ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टिमें गुणकार १२ सासादनमें ८ मिश्रमें ८ असंयतमें २६ देशसंयतादि तीनमें ३२ क्षपक अपूर्वकरणादि तीनमें २४ उपशम अपूर्वकरणादि चारमें ४० क्षीणकषायमें २४ सयोगीमें १२ अयोगीमें १२ गुणकार हैं इसके बाद सिद्ध भगवानके शून्य अर्थात् कोई गुणकार नहीं है ॥ ८५० ॥

वामे चउदस दुसु दस अडवीसं तिसु हवंति चोत्तीसं ।

तिसु छव्वीस दुदालं खेवा छव्वीस वार वार णवं ॥ ८५१ ॥

वामे चतुर्दश द्वयोः दश अष्टविंशं त्रिषु भवन्ति चतुस्त्रिंशत् ।

त्रिषु षड्विंशं द्विचत्वारिंशत् क्षेपाः षड्विंशं द्वादश द्वादश नव ॥ ८५१ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें क्षेपसंख्यारूप पद १४, सासादनादि दोमें १०, असंयतमें २८ देशसंयतादि तीनमें ३४, क्षपक अपूर्वकरणादि तीनमें २६, उपशमक अपूर्वकरणादि चारमें ४२ क्षीणकषायमें २६ सयोगीके १२ अयोगीके १२ क्षेपपद हैं और सिद्धके ९ जानने चाहिये ॥ ८५१ ॥

अब गुण्यको गुणाकारके साथ गुणाकरनेसे तथा क्षेपोंके मिलानेसे भंगोंकी संख्या दिखलाते हैं;—

एकारं दसगुणियं दुसु छावट्टी दसाहियं विसयं ।
 तिसु छवीसं विसयं वेदुवसामोत्ति दुसय वासीदी ॥ ८५२ ॥
 वादालं वेणिसया तत्तो सुहुमोत्ति दुसय दोसहियं ।
 उवसंतम्मि य भंगा खवगेसु जहाकमं वोच्छं ॥ ८५३ ॥ जुम्मं ।

एकादश दशगुणितं द्वयोः षट्षष्टिः दशाधिकं द्विशतम् ।

त्रिषु षड्विंशं द्विशतं वेदोपशम इति द्विशतं त्र्यशीतिः ॥ ८५२ ॥

द्वाचत्वारिंशद्विशतं ततः सूक्ष्म इति द्विशतं द्विसहितम् ।

उपशान्ते च भङ्गाः क्षपकेषु यथाक्रमं वक्ष्यामि ॥ ८५३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—मिथ्यादृष्टिमें ११० भंग हैं, सासादनादि दोगुणस्थानोंमें ६६ भंग हैं, असं-
 यतमें २१०, देशसंयतादि तीनमें २२६, उपशमक अपूर्वकरणादि अनिवृत्तिकरणके सवे-
 दभागतक २८२ भंग हैं । इससे आगे उपशमक वेदरहित अनिवृत्तिकरण सूक्ष्मसांपरायतक
 २४२ हैं, उपशांतकषायमें २०२ भंग हैं । अब क्षपकमें यथाक्रमसे कहता हूं ॥ ८५२।८५३ ॥

सत्तरसं दसगुणिदं वेदित्ति सयाहियं तु छादालं ।

सुहुमोत्ति खीणमोहे वावीससयं हवे भंगा ॥ ८५४ ॥

अडदालं छत्तीसं जिणेषु सिद्धेषु होंति णव भंगा ।

एत्तो सव्वपदं पडि मिच्छादिसु सुणह वोच्छामि ॥ ८५५ ॥ जुम्मं ।

सप्तदश दशगुणितं वेद इति शताधिकं तु षट्चत्वारिंशत् ।

सूक्ष्म इति क्षीणमोहे द्वाविंशशतं भवेयुः भङ्गाः ॥ ८५४ ॥

अष्टचत्वारिंशत् षट्त्रिंशत् जिनेषु सिद्धेषु भवन्ति नव भङ्गाः ।

एतस्मात्सर्वपदं प्रति मिथ्यादिषु शृणुत वक्ष्यामि ॥ ८५५ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—अपूर्वकरणसे सवेद अनिवृत्तिकरणतक १७०, वेदरहित अनिवृत्तिकरणसे सूक्ष्म-
 सांपरायतक १४६, क्षीणकषायमें १२२ भंग होते हैं । सयोगीके ४८ अयोगीके ३६ और
 सिद्धोंके ९ भंग होते हैं । इससे आगे अब मैं सर्वपदोंकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि आदिमें भंग
 कहता हूं सो हे भव्यो ! तुम सुनो ॥ ८५४।८५५ ॥ सर्वपद दो प्रकार हैं पिंडपद १ प्रत्येकपद २ ।

अब उन दो भेदोंमेंसे पिंडपदोंको दिखलाते हैं;—

भविदराणण्णदरं गदीण लिंगाण कोहपहुदीणं ।

इगिसमये लेस्साणं सम्मत्ताणं च णियमेण ॥ ८५६ ॥

भव्येतरयोन्यतरत् गतीनां लिङ्गानां क्रोधप्रभृतीनाम् ।

एकसमये लेश्यानां सम्यक्त्वानां च नियमेन ॥ ८५६ ॥

अर्थ—एकसमयमें एकजीवके भव्यत्व अभव्यत्व इन दोनोंमेंसे एकही नियमसे होता
 है । गति—लिंग—क्रोधादिकषाय—लेश्या—सम्यक्त्व इनमें भी अपने अपने भेदोंमेंसे एक

एक ही संभव होता है इसकारण ये पिंडपद हैं ॥ ८५६ ॥ एक कालमें एक जीवके भाव-समूहमेंसे एक एक ही पाया जावे उन भावोंको पिंडपद कहते हैं ।

पत्तेयपदा मिच्छे पण्णरसा पंच चैव उवजोगा ।

दाणादी ओदयिये चत्तारि य जीवभावो य ॥ ८५७ ॥

प्रत्येकपदानि मिथ्ये पञ्चदश पञ्च चैव उपयोगाः ।

दानादयः औदयिके चत्वारि च जीवभावश्च ॥ ८५७ ॥

अर्थ—एक समयमें जो पाये जावें ऐसे प्रत्येकपद, मिथ्यादृष्टिमें ५ उपयोग, दानादि-क पांच क्षयोपशमलब्धियां और औदयिक भावोंके मिथ्यात्वादि ४ और १ जीवत्वरूप पारिणामिकभाव—इसतरह १५ हैं ॥ ८५७ ॥

पिंडपदा पंचेव य भविदरदुगं गदी य लिंगं च ।

कोहादी लेस्सावि य इदि वीसपदा हु उट्टेण ॥ ८५८ ॥

पिण्डपदानि पञ्चैव च भव्येतरद्विकं गतिश्च लिङ्गं च ।

क्रोधादयः लेश्या अपि च इति विंशपदानि हि वृद्ध्या ॥ ८५८ ॥

अर्थ—उन १५ प्रत्येक पदोंके ऊपर पिंडपद मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ५ हैं उनके 'भव्य अभव्यका युगल, गति, लिंग, क्रोधादिकषाय और लेश्या' ऐसे नाम हैं । सब मिलकर $१५+५=२०$ पद होते हैं सो इनको ऊपर ऊपर स्थापन करना चाहिये ॥ ८५८ ॥

पत्तेयाणं उवरिं भविदरदुगस्स होदि गदि लिंगे ।

कोहादिलेस्ससम्मत्ताणं रयणा तिरिच्छेण ॥ ८५९ ॥

प्रत्येकानामुपरि भव्येतरद्विकस्य भवति गतिलिङ्गयोः ।

क्रोधादिलेश्यासम्यक्त्वानां रचना तिरश्चा ॥ ८५९ ॥

अर्थ—प्रत्येकपदोंके ऊपर जो स्थापना किये गये भव्य अभव्यत्व युगल, गति, लिंग, क्रोधादि ४ कषाय, लेश्या और सम्यक्त्व हैं उनकी रचना तिरछी (वरावर) करनी चाहिये ॥ ८५९ ॥

एकादि दुगुणकमा एकेकं रुधिऊण हेट्टम्मि ।

पदसंजोगे भंगा गच्छं पडि होंति उवरुवरिं ॥ ८६० ॥

एकादि द्विगुणक्रमादेकैकं रुद्ध्वा अधस्तने ।

पदसंयोगे भङ्गा गच्छं प्रति भवन्ति उपर्युपरि ॥ ८६० ॥

अर्थ—एकसे लेकर दूने दूने क्रमसे एक एक पदका आश्रयकरके नीचेके पदोंके संयोगसे जौनसा पद होवे उसके प्रमाण प्रति ऊपर ऊपरके भंग होते हैं ॥ ८६० ॥

आगे भंगोंके योग (मिलाने)के लिये गाथासूत्र कहते हैं;—

इष्टपदे रुजणे दुगसंवग्गम्मि होदि इष्टधणं ।

असरित्थाणंतधणं दुगुणेगूणे सगीयसव्वधणं ॥ ८६१ ॥

इष्टपदे रूपोने द्विकसंवर्गे भवति इष्टधनम् ।

असदृशानामन्तधनं द्विगुणे एकोने स्वकीयसर्वधनम् ॥ ८६१ ॥

अर्थ—विवक्षितपदमें एक कम करनेसे जो शेष रहें उतने दो दोके अंक लिखकर वर्ग करनेसे (आपसमें गुणाकरनेसे) विवक्षितपदमें भंगोंका प्रमाणरूप इष्टधन होता है यही प्रत्येकपदका अंतधन है । उस इष्टधनको दूना करके उसमें १ घटानेसे जो प्रमाण हो उतना प्रथमपदसे लेकर विवक्षित पदतक सब पदोंके भंगोंका जोड़रूप सर्वधन है ॥ ८६१ ॥

आगे इसीकथनको गाथाओंसे दिखलाते हैं;—

तेरिच्छा हु सरित्था अविरददेसाण खयियसम्मत्तं ।

मोत्तण संभवं पडि खयिगस्सवि आणए भंगे ॥ ८६२ ॥

तिर्यक्च हि सदृशानि अविरतदेशयोः क्षायिकसम्यक्त्वम् ।

मुक्त्वा संभवं प्रति क्षायिकस्यापि आनयेत् भङ्गान् ॥ ८६२ ॥

अर्थ—पिंडपदरूप भावोंकी तिर्यक् (वरोवर) रचनाकर और असंयत तथा देशसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यक्त्वको छोड़कर अन्यभावोंमें गुणस्थानोंका आश्रयकर यथासंभव भंग जानने चाहिये । इसीप्रकार क्षायिकसम्यक्त्वके भी यथासंभव जुदे २ भंग समझने चाहिये ॥ ८६२ ॥

उद्धतिरिच्छपदानं दव्वसमासेण होदि सव्वधणं ।

सव्वपदानं भंगे मिच्छादिगुणेषु णियमेण ॥ ८६३ ॥

उर्ध्वतिर्यक्पदानां द्रव्यसमासेन भवति सर्वधनम् ।

सर्वपदानां भंगे मिथ्यादिगुणेषु नियमेन ॥ ८६३ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टिआदि गुणस्थानोंमें प्रत्येकपद और पिंडपदके भंगरूप धनको मिलानेसे उस उस गुणस्थानके सर्वपदोंका भंगरूप सर्वधन नियमसे होता है ॥ ८६३ ॥

मिच्छादीणं दुति दुसु अपुव्वअणियद्विखवगसमगेसु ।

सुहुसुवसमगे संते सेसे पत्तेयपदसंखा ॥ ८६४ ॥

पण्णर सोलट्टारस वीसुगुवीसं च वीसमुगुवीसं ।

इगिवीस वीसचउदसतेरसपणंगं जहाकमसो ॥ ८६५ ॥ जुम्मं ।

मिथ्यादीनां द्वित्रिषु द्वयोः अपूर्वानिवृत्तिक्षपकोपशमकेपु ।

सूक्ष्मोपशमके शान्ते शेषे प्रत्येकपदसंख्या ॥ ८६४ ॥

पञ्चदश षोडशाष्टादश विंशैकोनविंशं च विंशमेकोनविंशम् ।

एकविंशं विंशचतुर्दशत्रयोदशपञ्चकं यथाक्रमशः ॥ ८६५ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—वे 'प्रत्येकपद' मिथ्यादृष्टि आदि दो गुणस्थानोंमें १५, मिश्रादि तीन गुणस्थानोंमें १६, प्रमत्तादि दो गुणस्थानोंमें १८, क्षपक उपशम दोनों श्रेणियोंके अपूर्व और अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें २०—१९, उपशमक सूक्ष्मसांपरायमें २०, उपशांतकषायमें १९, शेष क्षपकसूक्ष्मसांपरायमें २१, क्षीणकषायमें २०, सयोगीमें १४, अयोगीमें १३ सिद्धमें ५ क्रमसे जानने चाहिये ॥ ८६४।८६५ ॥

मिच्छादृष्टिपहुदिं खीणकसाओत्ति सव्वपदभंगा ।

पण्णट्ठिं च सहस्सा पंचसया होंति छत्तीसा ॥ ८६६ ॥

मिथ्यादृष्टिप्रभृति क्षीणकषाय इति सर्वपदभङ्गाः ।

पञ्चषष्टिः च सहस्राणि पञ्चशतानि भवन्ति षट्त्रिंशत् ॥ ८६६ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषायगुणस्थानतक ६५५३६ सर्वपद भंग गुण्यरूप होते हैं ॥ ८६६ ॥

तग्गुणगारा कमसो पण्णउदेयत्तरीसयाण दलं ।

ऊणट्टारसयाणं दलं तु सत्तहियसोलसयं ॥ ८६७ ॥

तद्गुणकाराः क्रमशः पञ्च नवत्येकसप्ततिशतानां दलम् ।

एकोनसष्टादशशतानां दलं तु सप्ताधिकषोडशशतम् ॥ ८६७ ॥

अर्थ—उस गुण्यके गुणकार क्रमसे मिथ्यादृष्टिआदि गुणस्थानोंमें ७१९५ के आधे प्रमाण एक कम १८०० के आधे प्रमाण, १६०७ हैं ॥ ८६७ ॥

तेवत्तरिं सयाइं सत्तावट्टी य अविरदे सम्मे ।

सोलस चैव सयाइं चउसट्टी खयियसम्मस्स ॥ ८६८ ॥

त्रिसप्ततिशतानि सप्तषष्टिश्च अविरते सम्मे ।

षोडश चैव शतानि चतुःषष्टिः क्षायिकसम्यस्य ॥ ८६८ ॥

अर्थ—असंयतसम्यग्दृष्टीके ७३६७ गुणकार हैं, उसमें क्षायिकसम्यग्दृष्टीके १६६४ हैं ॥ ८६८ ॥

उणत्तीससयाइं एकाणउदी य देसविरदम्मि ।

छावत्तरि पंचसया खइयणरे णत्थि तिरियम्मि ॥ ८६९ ॥

एकोनत्रिंशच्छतानि एकनवतिश्च देशविरते ।

पट्सप्ततिः पञ्चशतानि क्षायिकनरे नास्ति तिरिश्चि ॥ ८६९ ॥

अर्थ—देशसंयतगुणस्थानमें २९९१ गुणकार हैं, उसमेंभी क्षायिकसम्यग्दृष्टी मनुष्यके ५७६ हैं तिरिचके नहीं हैं ॥ ८६९ ॥

इगिदालं च सयाइं चउदालं च य पमत्त इदरे य ।

पुव्वुवसमगे वेदाणियट्ठिभागे सहस्समट्ठणं ॥ ८७० ॥

एकचत्वारिंशच्च शतानि चतुश्चत्वारिंशच्च च प्रमत्ते इतरस्मिंश्च ।
अपूर्वोपशमके वेदानिवृत्तिभागे सहस्रमष्टोनम् ॥ ८७० ॥

अर्थ—प्रमत्त और अप्रमत्तगुणस्थानमें ४१४४ गुणकार हैं, उपशमश्रेणीके अपूर्वकरण तथा सवेद अनिवृत्तिकरणमें ८ कम एक हजार अर्थात् ९९२ हैं ॥ ८७० ॥

अडसट्टी एकसयं कसायभागम्मि सुहुमगे संते ।
अडदालं चउवीसं खवगेसु जहाकमं वोच्छं ॥ ८७१ ॥

अष्टषष्टिः एकशतं कषायभागे सूक्ष्मके शान्ते ।
अष्टचत्वारिंशत् चतुर्विंशं क्षपकेषु यथाक्रमं वक्ष्यामि ॥ ८७१ ॥

अर्थ—कषायसहित और वेदरहित अनिवृत्तिकरणके भागमें १६८ गुणकार हैं, सूक्ष्मसांपरायमें ४८ हैं, उपशांतकषायमें २४ हैं । अब क्षपकश्रेणीमें यथाक्रमसे कहता हूं ॥ ८७१ ॥

अडदालं चारिसयापुव्वे अणियट्टिवेदभागे य ।
सीदी कसायभागे ततो वत्तीस सोलं तु ॥ ८७२ ॥

अष्टचत्वारिंशत् चतुःशतान्यपूर्वे अनिवृत्तिवेदभागे च ।
अशीतिः कषायभागे ततो द्वात्रिंशत् षोडश तु ॥ ८७२ ॥

अर्थ—अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके वेदभागमें ४४८ गुणकार हैं, कषायसहित वेदरहित अनिवृत्तिकरणके भागमें ८० हैं, उससे आगे सूक्ष्मसांपरायमें ३२ और क्षीणकषायमें १६ हैं ॥ ८७२ ॥

जोगिम्मि अजोगिम्मि य वेसदछप्पणयाण गुणगारा ।
चउसट्टी वत्तीसा गुणगुणिदेक्कणया सव्वे ॥ ८७३ ॥

योगिनि अयोगिनि च द्विशतषट्पञ्चाशतां गुणकाराः ।
चतुःषष्टिः द्वात्रिंशत् गुण्यगुणिते एकोनकाः सर्वे ॥ ८७३ ॥

अर्थ—सयोगी और अयोगीके २५६ गुण्य है, तथा गुणकार क्रमसे ६४—३२ हैं । इसतरह गुण्यको गुणकारोंके साथ गुणाकरके जो प्रमाण हो उसमें १ कम करनेसे सर्वपदभंगोंका प्रमाण होता है ॥ ८७३ ॥

सिद्धेसु सुद्धभंगा एकत्तीसा हवंति णियमेण ।
सव्वपदं पडि भंगा असहायपरकमुद्धिटा ॥ ८७४ ॥

सिद्धेषु शुद्धभङ्गा एकत्रिंशत् भवन्ति नियमेन ।
सर्वपदं प्रति भङ्गा असहायपराक्रमोद्धिटाः ॥ ८७४ ॥

अर्थ—सिद्धोंमें गुण्य गुणकारके भेदरहित शुद्ध ३१ सर्वपदभंग नियमसे होते हैं । इसप्रकार सहायरहित पराक्रमवाले श्रीमहावीरस्वामीने सर्वपदोंके भंग कहे हैं ॥ ८७४ ॥

आदेशेवि य एवं संभवभावेहिं ठाणभंगाणि ।

पदभंगाणि य कमसो अव्यामोहेण आणेज्जो ॥ ८७५ ॥

आदेशेपि च एवं संभवभावैः स्थानभङ्गा ।

पदभङ्गाश्च क्रमशः अव्यामोहेन आनेयाः ॥ ८७५ ॥

अर्थ—इसीप्रकार यथासंभव भावोंकर मार्गणास्थानमें भी स्थानभंग और पदभंग क्रमसे सावधान होके जानने चाहिये ॥ ८७५ ॥

आगे जिनमें सर्वथा एकनयका ग्रहण पाया जावे ऐसे जो एकांतमत हैं उनके भेदोंको कहते हैं;—

असिदिसदं किरियाणं अक्किरियाणं च आहु चुलसीदी ।

सत्तट्टण्णाणीण वेणयियाणं तु वत्तीसं ॥ ८७६ ॥

अशीतिशतं क्रियानामक्रियाणां चाहुः चतुरशीतिः ।

सप्तषष्टिरज्ञानिनां वैनयिकानां तु द्वात्रिंशत् ॥ ८७६ ॥

अर्थ—क्रियावादियोंके १८०, अक्रियावादियोंके ८४, अज्ञानवादियोंके ६७ और वैनयिकवादियोंके ३२ भेद हैं ॥ ८७६ ॥

अब उनमेंसे क्रियावादियोंके मूलभंग कहते हैं;—

अत्थि सदो परदोवि य णिच्चाणिच्चत्तणेण य णवत्था ।

कालीसरप्पणियदिसहावेहि य ते हि भंगा हु ॥ ८७७ ॥

अस्ति स्वतः परतोपि च नित्यानित्यत्वेन च नवार्थाः ।

कालेश्वरात्मनियतिस्वभावैश्च ते हि भङ्गा हि ॥ ८७७ ॥

अर्थ—पहले 'अस्ति' ऐसा पद लिखना उसके ऊपर 'आपसे' 'परसे' 'नित्यपनेसे' 'अनित्यपनेसे' ऐसे ४ पद लिखने, उनके ऊपर जीवादि ९ पदार्थ लिखने, उनके ऊपर 'काल' 'ईश्वर' 'आत्मा' 'नियति' 'स्वभाव' इसतरह ५ पद लिखने—इसप्रकार १×४×९×५ का गुणा करनेसे १८० भंग होते हैं ॥ ८७७ ॥

अत्थि सदो परदोवि य णिच्चाणिच्चत्तणेण य णवत्था ।

एसिं अत्था सुगमा कालादीणं तु वोच्छामि ॥ ८७८ ॥

अस्ति स्वतः परतोपि च नित्यानित्यत्वेन च नवार्थाः ।

एषामर्थाः सुगमाः कालादीनां तु वक्ष्यामि ॥ ८७८ ॥

अर्थ—अस्ति-अपनेसे-परसे-नित्यपनेकर-अनित्यपनेकर-नवपदार्थ—इन १४ का अर्थ तो सुगम (सीधा) है । और कालवादादिकोंका अर्थ क्रमसे कहता हूं ॥ ८७८ ॥

कालो सच्चं जणयदि कालो सच्चं विणस्सदे भूदं ।

जागत्ति हि सुतेसुवि ण सक्कदे वंचिदुं कालो ॥ ८७९ ॥

कालः सर्वं जनयति कालः सर्वं विनाशयति भूतम् ।
जागर्ति हि सुषेष्वापि न शक्यते वञ्चितुं कालः ॥ ८७९ ॥

अर्थ—काल ही सबको उत्पन्न करता है और काल ही सबका नाश करता है, सोते हुए प्राणियोंमें काल ही जागता है ऐसे कालके ठगनेको कौन समर्थ हो सक्ता है । इसप्रकार कालसे ही सबको मानना यह कालवादका अर्थ है ॥ ८७९ ॥

अण्णाणी हु अणीसो अप्पा तस्स य सुहं च दुक्खं च ।
सग्गं गिरयं गमणं सव्वं ईसरकयं होदि ॥ ८८० ॥
अज्ञानी हि अनीश आत्मा तस्य च सुखं च दुःखं च ।
स्वर्गं निरयं गमनं सर्वमीश्वरकृतं भवति ॥ ८८० ॥

अर्थ—आत्मा ज्ञानरहित है, अनाथ है अर्थात् कुछभी नहीं करसकता, उस आत्माके सुख-दुःख, स्वर्ग तथा नरकमें गमन वगैरः सब ईश्वरकर कियाहुआ होता है—ऐसे ईश्वरकर किया सब कार्य मानना ईश्वरवादका अर्थ है ॥ ८८० ॥

एक्यो चेव महप्पा पुरिसो देवो य सव्ववावी य ।
सव्वंगणिगूढोवि य सचेयणो णिग्गुणो परमो ॥ ८८१ ॥
एकश्चैव महात्मा पुरुषो देवश्च सर्वव्यापी च ।
सर्वाङ्गनिगूढोपि च सचेतनो निर्गुणः परमः ॥ ८८१ ॥

अर्थ—संसारमें एक ही महात्मा है, वही पुरुष है, वही देव है और सबमें व्यापक है, सर्वांगपनेसे अगम्य (छुपा हुआ) है, चेतना सहित है, निर्गुण है और उत्कृष्ट है । ऐसे आत्मासे ही सबको मानना आत्मवादका अर्थ है ॥ ८८१ ॥

जत्तु जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तत्तु तदा ।
तेण तहा तस्स हवे इदि वादो णियदिवादो दु ॥ ८८२ ॥
यत्तु यदा येन यथा यस्य च नियमेन भवति तत्तु तदा ।
तेन तथा तस्य भवेदिति वादो नियतिवादस्तु ॥ ८८२ ॥

अर्थ—जो जिससमय जिससे जैसे जिसके नियमसे होता है वह उससमय उससे तैसे उसके ही होता है—ऐसा नियमसे ही सब वस्तुको मानना उसे नियतिवाद कहते हैं ॥ ८८२ ॥

को करइ कंटयाणं तिक्खत्तं मियविहंगमादीणं ।
विविहत्तं तु सहाओ इदि सव्वंपि य सहाओत्ति ॥ ८८३ ॥
कः करोति कण्टकानां तीक्ष्णत्वं मृगविहङ्गमादीनाम् ।
विविधत्वं तु स्वभाव इति सर्वमपि च स्वभाव इति ॥ ८८३ ॥

अर्थ—कांटेको आदि लेकर जो तीक्ष्ण (चुभनेवाली) वस्तु हैं उनके तीक्ष्णपना कौन करता है और मृग तथा पक्षीआदिकोंके अनेकतरहपना जो पाया जाता है उसे कौन करता है ऐसा प्रश्न होनेपर यही उत्तर है कि सबमें स्वभाव ही है—ऐसे सबको कारणके विना स्वभावसे ही मानना स्वभाववादका अर्थ है ॥ ८८३ ॥ इसप्रकार कालादिकर एकांत लेनेसे क्रियावाद होता है ।

आगे अक्रियावादके भंग कहते हैं;—

णत्थि सदो परदोवि य सत्तपयत्था य पुण्णपाऊणा ।

कालादियादिभंगा सत्तरि चटुपंतिसंजादा ॥ ८८४ ॥

नास्ति स्वतः परतोपि च सप्तपदार्थाश्च पुण्यपापोनाः ।

कालादिकादिभङ्गाः सप्ततिः चतुःपङ्क्तिसंजाताः ॥ ८८४ ॥

अर्थ—पहले 'नास्ति' पद लिखना उसके ऊपर 'आपसे' 'परसे' ये दो पद लिखने चाहिये, उनके ऊपर पुण्य—पापके विना सात पदार्थ लिखने, उनके ऊपर कालको आदि-लेकर ५ पद लिखने चाहिये, इस प्रकार चार पंक्तियोंको गुणा करनेसे $1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$ भंग होते हैं ॥ ८८४ ॥

णत्थि य सत्तपदत्था णियदीदो कालदो तिपंतिभवा ।

चोइस इदि णत्थित्ते अक्किरियाणं च चुलसीदी ॥ ८८५ ॥

नास्ति च सप्तपदार्था नियतितः कालतः त्रिपङ्क्तिभवाः ।

चतुर्दश इति नास्तित्वे अक्रियाणां च चतुरशीतिः ॥ ८८५ ॥

अर्थ—पहले 'नास्ति' पद लिखना, उसके ऊपर सात पदार्थ लिखने, उनके ऊपर 'नियति' 'काल' ऐसे दो पद लिखने—इसप्रकार तीन पंक्तियोंके गुणाकरनेसे $1 \times 3 \times 2 = 6$ भेद नास्तिपनेमें हुए । पहलेके ७० और १४ ये सब मिलकर ८४ अक्रिया-वादियोंके भेद होते हैं ॥ ८८५ ॥

आगे अज्ञानवादके भेद कहते हैं;—

को जाणइ णवभावे सत्तमसत्तं दयं अवच्चमिदि ।

अवयणजुद सत्ततयं इदि भंगा होंति तेसट्ठी ॥ ८८६ ॥

को जानाति नवभावेपु सत्त्वमसत्त्वं द्वयमवाच्यमिति ।

अवचनयुतं सप्ततयमिति भङ्गा भवन्ति त्रिषष्टिः ॥ ८८६ ॥

अर्थ—जीवादिक नव पदार्थोंमें एक एकका सप्त भंगसे न जानना जैसे कि 'जीव' अस्तिस्वरूप है ऐसा कौन जानता है तथा नास्ति अथवा दोनों वा अवक्तव्य वा तीन भंग अवक्तव्यसे मिली हुई इसतरह ७ भंगोंसे कौन जीवको जानता है । इसप्रकार ९ भावोंको ७ नयोंसे गुणा करनेपर ६३ भंग होते हैं ॥ ८८६ ॥

को जाणइ सत्तचऊ भावं सुद्धं खु दोण्णिपंतिभवा ।
चत्तारि होंति एवं अण्णाणीणं तु सत्तट्ठी ॥ ८८७ ॥

को जानाति सत्त्वचतुष्कं भावं शुद्धं खलु द्विपङ्क्तिभवाः ।

चत्वारो भवन्ति एवमज्ञानिनां तु सप्तषष्टिः ॥ ८८७ ॥

अर्थ—पहले 'शुद्धपदार्थ' ऐसा लिखना उसके ऊपर अस्तिआदि चार लिखने, इन दोनों पंक्तियोंसे उत्पन्न ४ चार भंग होते हैं । जैसे—शुद्धपदार्थ अस्ति आदिरूप है ऐसे कौन जानता है । इसतरह ४ तो ये और पूर्वोक्त ६३ सब मिलकर अज्ञान वादके ६७ भेद होते हैं ॥ ८८७ ॥

आगे वैनयिकवादके मूलभंग कहते हैं;—

मणवयणकायदाणगविणवो सुरणिवइणाणिजदिवुद्धे ।

वाले मादुपिदुम्मि च कायवो चेदि अट्टचऊ ॥ ८८८ ॥

मनोवचनकायदानविनयः सुरनृपतिज्ञानियतिवृद्धे ।

वाले मातृपित्रोश्च कर्तव्यः चेति अष्टचतुष्कम् ॥ ८८८ ॥

अर्थ—देव राजा ज्ञानी यति बुद्धा बालक माता पिता इन आठोंका मन वचन काय और दान—इन चारोंसे विनयकरना । इसप्रकार वैनयिकवाद ८ गुणित ४ अर्थात् ३२ होते हैं ॥ ८८८ ॥ ये विनयवादी गुण अगुणकी परीक्षा किये विना विनयसे ही सिद्धि मानते हैं ।

सच्छंददिट्ठीहिं वियप्पियाणि तेसट्टिजुत्ताणि सयाणि तिण्णि ।

पाखंडिणं वाउलकारणाणि अण्णाणिचित्तानि हरंति ताणि ॥ ८८९ ॥

स्वच्छन्ददृष्टिभिः विकल्पितानि त्रिषष्टियुक्तानि शतानि त्रीणि ।

पाखण्डिनां व्याकुलकारणानि अज्ञानिचित्तानि हरन्ति तानि ॥ ८८९ ॥

अर्थ—स्वच्छंद अर्थात् अपने मनमाना है श्रद्धान जिनका ऐसे पुरुषोंने ३६३ भेद कल्पना किये हैं, जो कि वे पाखंडी जीवोंको व्याकुलता उत्पन्न करनेवाले और अज्ञानी जीवोंके चित्तको हरनेवाले हैं ॥ ८८९ ॥

आगे अन्य भी एकांतवाद कहते हैं;—

आलसहो णिरुच्छाहो फलं किंचिं ण भुजदे ।

थणक्खीरादिपाणं वा पउरुसेण विणा ण हि ॥ ८९० ॥

आलस्याढ्यो निरुत्साहः फलं किञ्चिन्न भुङ्क्ते ।

स्तनक्षीरादिपानं वा पौरुषेण विना न हि ॥ ८९० ॥

अर्थ—जो आलसकर सहित हो तथा उद्यम करनेमें उत्साह रहित हो वह कुछभी फल नहीं भोगता । जैसे—स्तनोंका दूध पीना विना पुरुषार्थके कभी नहीं बनसकता । इसी-प्रकार पुरुषार्थसे ही सब-कार्यकी सिद्धि होती है—ऐसा पुरुषवाद है ॥ ८९० ॥

दइवमेव परं मण्णे धिप्पउरुसमणत्थयं ।

एसो सालसमुत्तुंगो कण्णो हण्णइ संगरे ॥ ८९१ ॥

दैवमेव परं मन्ये धिक् पौरुषमनर्थकम् ।

एष सालसमुत्तुङ्गः कर्णो हन्यते संगरे ॥ ८९१ ॥

अर्थ—मैं केवल दैव (भाग्य) को ही उत्तम मानता हूँ निरर्थक पुरुषार्थको धिक्कार हो, देखो कि किल्लाके समान ऊंचा जो वह कर्णनामा राजा युद्धमें मारा गया—ऐसा दैववाद है, इसीसे सर्वसिद्धि मानी है ॥ ८९१ ॥

संयोगमेवेति वदन्ति तण्णा णेवेक्कचक्केण र्हो पयादि ।

अंधो य पंगू य वणं पविट्ठा ते संपजुत्ता णयरं पविट्ठा ॥ ८९२ ॥

संयोगमेवेति वदन्ति तज्ज्ञा नैवैकचक्केण रथः प्रयाति ।

अन्धश्च पङ्गुश्च वनं प्रविष्टौ तौ संप्रयुक्तौ नगरं प्रविष्टौ ॥ ८९२ ॥

अर्थ—यथार्थज्ञानी संयोगसे ही कार्यसिद्धि मानते हैं क्योंकि जैसे एक पहियेसे रथ नहीं चलसकता तथा एक अंधा दूसरा पांगला ये दोनों वनमें प्रविष्ट थे सो किसी समय आग लगजानेसे ये दोनों मिलकर अर्थात् अंधेके ऊपर पांगला चढकर अपने नगरमें पहुंचगये । इसप्रकार संयोगवाद है ॥ ८९२ ॥

सइउट्टिया पसिद्धी दुव्वारा मेलिदेहिंवि सुरेहिं ।

मज्झिमपण्डवखित्ता माला पंचसुवि खित्तेव ॥ ८९३ ॥

सकृदुत्थिता प्रसिद्धिः दुर्वारा मिलितैरपि सुरैः ।

मध्यमपाण्डवक्षिप्ता माला पञ्चस्वपि क्षिप्तेव ॥ ८९३ ॥

अर्थ—एक ही वार उठी हुई “द्रौपदीकर अर्जुनपाण्डवके ही गलेमें डाली हुई माला पांचों पाण्डवोंके पहनाई है” ऐसी लोकप्रसिद्धि देवोंसे भी मिलकर दूर नहीं होसकती अन्यकी तो बात क्या है । इसप्रकार लोकवादी लोकप्रवृत्तिको ही सर्वस्व मानते हैं ॥ ८९३ ॥

अब आचार्य महाराज इन मतोंका विवाद मेंटनेके लिये सारांश कहते हैं;—

जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होंति णयवादा ।

जावदिया णयवादा तावदिया चेव होंति परसमया ॥ ८९४ ॥

यावन्तो वचनपथाः तावन्तश्चैव भवन्ति नयवादाः ।

यावन्तो नयवादास्तावन्तश्चैव भवन्ति परसमयाः ॥ ८९४ ॥

अर्थ—बहुतकहनेसे क्या । सारांश इतना है कि जितने वचन बोलनेके मार्ग हैं उतने ही नयवाद हैं और जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय हैं ॥ भावार्थ— जो कुछ वचन बोलाजाता है वह किसी अपेक्षाको लिये हुए ही होता है उसजगह जो अपेक्षा है

वही नय है और विना अपेक्षाके बोलना अथवा एक ही अपेक्षासे अनन्तधर्मवाली वस्तुको सिद्धकरना यही परमतोंमें मिथ्यापना है ॥ ८९४ ॥

आगे परमती जो मिथ्यामती कहे हैं उनके वचन किसतरह मिथ्या हैं उसका कारण दिखलाते हैं;—

परसमयाणं वयणं मिच्छं खलु होइ सव्वहा वयणा ।

जेणाणं पुण वयणं सम्मं खु कहंचिवयणादो ॥ ८९५ ॥

परसमयानां वचनं मिथ्या खलु भवति सर्वथा वचनात् ।

जैनानां पुनः वचनं सम्यक्खलु कथंचिद्वचनात् ॥ ८९५ ॥

अर्थ—परमतोंके वचन 'सर्वथा' कहनेसे नियमसे असत्य होते हैं और जैनमतके वचन 'कथंचित्' (किसी एक प्रकारसे) बोलनेसे सत्य हैं । **भावार्थ—**जैनमत स्याद्वादरूप है वह अनन्तधर्मस्वरूप वस्तुको कथंचित् वचनसे कहता है इससे सत्य है क्योंकि एकवचनसे वस्तुका एक धर्मही कहा जाता है । यदि सर्वथा कहै कि यही वस्तुका स्वरूप है तो वाकीके धर्मोंके अभावका प्रसंग होनेसे वह भी झूठा कहलावै । अन्यवादी वस्तुके एक धर्मको लेकर यही है ऐसा सर्वथा वचनसे वस्तुका स्वरूप कहते हैं सो पूर्वोक्त हेतुसे झूठे हैं । इसप्रकार अन्यमतोंका विवाद एक स्याद्वादसे ही मिटसकता है ऐसा सारांश समझना चाहिये ॥८९५॥

इति श्री नेमिचन्द्राचार्य विरचित पंचसंग्रह द्वितीयनामवाले गोम्मटसार ग्रंथके कर्मकांडमें भावचूलिका नामका सातवां अधिकार समाप्त हुआ ॥ ७ ॥

दोहा ।

करि निजकारजकरणकरि, कर्मसमूह खिपाइ ।

भये शुद्धपरमात्मा, नमों नमों शिवराय ॥ १ ॥

आगे त्रिकरणचूलिकाको कहनेकी इच्छावाले आचार्य चामुंडरायको गुरुकेलिये नमस्कार करनेका उपदेश करते हैं;—

गमह गुणरयणभूषण सिद्धंतामियमहद्विभवभावं ।

वरवीरणंदिचंद्रं णिम्लगुणमिंदणंदिगुरुं ॥ ८९६ ॥

नमत गुणरत्नभूषण सिद्धान्तामृतमहाविधभवभावम् ।

वरवीरनन्दिचन्द्रं निर्मलगुणमिन्द्रनन्दिगुरुम् ॥ ८९६ ॥

अर्थ—हे गुणरूपीरत्नके आभूषण चामुंडराय ! तुम सिद्धान्तशास्त्ररूपी अमृतमय महासमुद्रमें उत्पन्न हुए ऐसे उत्कृष्ट वीरनंदि नामा आचार्यरूपी चंद्रमाको नमस्कार करो, तथा निर्मलगुणोंवाले इंद्रनंदि नामा गुरुको नमस्कार करो ॥ ८९६ ॥ पहले जीवकांडमें प्रसंग पाके गुणस्थानाधिकारमें तीन करणोंका स्वरूप कहा था ।

अब आचार्य यहांपर जुदा अधिकार करके तीन करणोंका स्वरूप कहते हैं;—

इगिवीसमोहखवणुवसमणणिमित्ताणि तिकरणाणि तर्हि ।

पढमं अधापवत्तं करणं तु करेदि अपमत्तो ॥ ८९७ ॥

एकविंशतिमोहक्षपणोपशमननिमित्तानि त्रिकरणानि तस्मिन् ।

प्रथममधःप्रवृत्तं करणं तु करोति अप्रमत्तः ॥ ८९७ ॥

अर्थ—अनंतानुबंधी कषायकी चौकड़ीके विना शेष २१ चारित्रमोहनीयकी प्रकृतियोंके क्षयकरनेके लिये अथवा उपशमकरनेके निमित्त अधःप्रवृत्तादि तीन करण कहे गये हैं । उनमेंसे पहले अधःप्रवृत्तकरणको सातिशय अप्रमत्तगुणस्थानवाला प्रारंभ करता है ॥ ८९७ ॥
करण नाम परिणामका है ।

आगे अधःप्रवृत्तकरणका शब्दार्थसे सिद्ध लक्षण कहते हैं;—

जम्हा उवरिमभावा हेट्टिमभावेहिं सरिसगा होंति ।

तम्हा पढमं करणं अधापवत्तोत्ति णिदिट्ठं ॥ ८९८ ॥

यस्मादुपरितनभावा अधस्तनभावैः सदृशका भवन्ति ।

तस्मात् प्रथमं करणमधःप्रवृत्तमिति निर्दिष्टम् ॥ ८९८ ॥

अर्थ—जिसकारण इस पहले करणमें ऊपरके समयके परिणाम नीचेके समयसंबंधी भावोंके समान होते हैं इसकारण पहले करणका नाम अधःप्रवृत्त ऐसा अन्वर्थ (अर्थके अनुसार) कहा गया है ॥ ८९८ ॥

अंतोमुहुत्तमेत्तो तक्कालो होदि तत्थ परिणामा ।

लोगाणमसंखपमा उवरुवरिं सरिसवट्ठिगया ॥ ८९९ ॥

अन्तर्मुहूर्तमात्रः तत्कालो भवति तत्र परिणामाः ।

लोकानासंख्यप्रमा उपर्युपरि सदृशवृद्धिगताः ॥ ८९९ ॥

अर्थ—उस अधःप्रवृत्तकरणका काल अन्तर्मुहूर्त है । उसकालमें संभवते विशुद्धता (मन्दता) रूप कषायोंके परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण हैं । और वे परिणाम पहले समयसे लेकर आगे २ के समयोंमें समान वृद्धि (चय) कर बढ़ते हुए हैं ॥ ८९९ ॥
आगे अंकोंकी सहनानी (संकेत)से कथन दिखलाते हैं;—

वावत्तरितिसहरसा सोलस चउ चारि एक्यं चैव ।

धणअद्धाणविसेसे तियसंखा होइ संखेजे ॥ ९०० ॥

द्वासप्ततित्रिसहस्राणि षोडश चतुष्कं चत्वारि एकं चैव ।

धनाध्वानविशेषाः त्रयसंख्या भवति संख्येये ॥ ९०० ॥

अर्थ—अधःकरणके परिणामोंकी संख्याके साधनेकेलिये सर्वधन ३०७२, ऊर्ध्वगच्छ १६ तिर्यग्गच्छ ४ ऊर्ध्वविशेष ४ तिर्यक् विशेष १ और चयके सिद्ध करनेके लिये संख्यातकी सहनानी ३ का अंक समझना ॥ ९०० ॥

आदिधणादौ सव्वं पचयधणं संखभागपरिमाणं ।

करणे अधापवृत्ते होदित्ति जिणेहिं णिद्विट्ठं ॥ ९०१ ॥

आदिधनात्सर्वं प्रचयधनं संख्यभागपरिमाणम् ।

करणे अधःप्रवृत्ते भवतीति जिनैर्निर्दिष्टम् ॥ ९०१ ॥

अर्थ—अधःप्रवृत्तकरणमें सर्व प्रचय धन आदिधनसे संख्यातवें भाग प्रमाण है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ ९०१ ॥ प्रचयधनको उत्तरधन भी कहते हैं ।

उभयधणे संमिलिते पदकदिगुणसंखरूपहृदपचयं ।

सव्वधणं तं तम्हा पदकदिसंखेण भाजिते पचयं ॥ ९०२ ॥

उभयधने संमिलिते पदकृतिगुणसंख्यरूपहृत्प्रचयः ।

सर्वधनं तत्तस्मात् पदकृतिसंख्येन भाजिते प्रचयम् ॥ ९०२ ॥

अर्थ—आदिधन और उत्तरधन दोनोंको मिलानेसे सर्वधन होता है और उसका प्रमाण गच्छके वर्गको संख्यातसे गुणाकरे फिर चयसे गुणाकरे जो संख्या आवे उतना है । इसी-कारणसे गच्छका वर्ग और संख्यात इन दोनोंका भाग सर्वधनमें देनेसे चयका प्रमाण होता है ॥ ९०२ ॥

चयधणहीणं दव्वं पदभजिते होदि आदिपरिमाणं ।

आदिम्मि चये उहे पडिसमयधणं तु भावाणं ॥ ९०३ ॥

चयधनहीनं द्रव्यं पदभक्ते भवति आदिपरिमाणम् ।

आदौ चये वृद्धे प्रतिसमयधनं तु भावानाम् ॥ ९०३ ॥

अर्थ—सर्वधनमेंसे चयधन कमकरके जो प्रमाण हो . उसमें गच्छका भाग देनेसे पहले समयसंबंधी विशुद्ध भावोंका प्रमाण होता है और उन प्रथमसमयके परिणामोंमें एक एक चय बढ़ा देनेसे हरएक समयके भावोंका प्रमाण होता है ॥ ९०३ ॥

पचयधणस्साणयणे पचयं पभवं तु पचयमेव हवे ।

रूऊणपदं तु पदं सव्वत्थवि होदि णियमेण ॥ ९०४ ॥

प्रचयधनस्थानयने प्रचयः प्रभवस्तु प्रचय एव भवेत् ।

रूपोत्पदं तु पदं सर्वत्रापि भवति नियमेन ॥ ९०४ ॥

अर्थ—प्रचयधनके लानेके लिये सब जगह उत्तर और आदि ये दोनों प्रचयके प्रमाण होते हैं; और यहां गच्छका प्रमाण विवक्षितगच्छके प्रमाणसे १ कम नियमसे होता है, क्योंकि पहले स्थानमें चयका अभाव है ॥ ९०४ ॥

सण्णिसुववादवरं णिव्वत्तिगदस्स सुहुमजीवस्स ।

एयंतवद्धिअवरं लद्धिदरे थूलथूले य ॥ २३७ ॥

संज्ञिन उपपादवरं निर्वृत्तिगतस्य सूक्ष्मजीवस्य ।

एकान्तवृद्ध्यवरं लब्धीतरस्मिन् स्थूलस्थूले च ॥ २३७ ॥

अर्थ—उससे अधिक संज्ञीपंचेद्री निर्वृत्त्यपर्याप्तकका उत्कृष्ट उपपादयोगस्थान, उससे अधिक सूक्ष्म एकेंद्री निर्वृत्त्यपर्याप्तकका जघन्य एकांतानुवृद्धि योगस्थान है, उससे अधिक एकेंद्री लब्धि अपर्याप्तकका और वादर (स्थूल) एकेंद्री निर्वृत्त्यपर्याप्तकका जघन्य तानुवृद्धि योगस्थान क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भागकर गुणा है ॥ २३७ ॥

तह सुहुमसुहुमजेट्टं तो वादरवादरे वरं होदि ।

अंतरमवरं लद्धिगसुहुमिदरवरंपि परिणामे ॥ २३८ ॥

तथा सूक्ष्मसूक्ष्मज्येष्ठं ततो वादरवादरे वरं भवति ।

अन्तरमवरं लब्धिकसूक्ष्मेतरवरमपि परिणामे ॥ २३८ ॥

अर्थ—इसीप्रकार उससे सूक्ष्म एकेंद्रीलब्ध्यपर्याप्तक और सूक्ष्म एकेंद्री निर्वृत्त्यपर्याप्तक दोनोंके उत्कृष्ट योगस्थान क्रमसे अधिक हैं। उससे अधिक वादर एकेंद्री लब्ध्यपर्याप्तक वादर एकेंद्री निर्वृत्ति अपर्याप्तक इन दोनोंके उत्कृष्ट एकांतानुवृद्धि योगस्थान हैं। के वाद अंतरं अर्थात् वादर एकेंद्री निर्वृत्त्यपर्याप्तकका उत्कृष्ट एकान्तानुवृद्धियोगस्थान सूक्ष्म एकेंद्री लब्ध्यपर्याप्तकका जघन्य परिणामयोगस्थान इन दोनोंके बीचमें च्छेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान पहला अंतर है। इस अंतरके स्थानोंका कोई भी नहीं है अर्थात् ये स्थान किसी जीवके नहीं होते इसकारण यह अंतर पड़ा। इन दोनोंको उलंघकर (छोड़कर) सूक्ष्म एकेंद्री और वादर एकेंद्री लब्ध्यपर्याप्तक इन दोनोंके जघन्य और उत्कृष्ट परिणामयोगस्थान क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भागकर गुणे तने ॥ २३८ ॥

अंतरमुवरीवि पुणो तत्पुण्णाणं च उवरि अंतरियं ।

एयंतवद्धिठाणा तसपणलद्धिस्स अवरवरा ॥ २३९ ॥

अन्तरमुपर्यपि पुनः तत्पूर्णाणां च उपर्यन्तरितम् ।

एकान्तवृद्धिस्थानानि त्रसपञ्चलब्धेरवरवराः ॥ २३९ ॥

अर्थ—इसके ऊपर दूसरा अंतर है अर्थात् वादर एकेंद्री लब्ध्यपर्याप्तके उत्कृष्ट परिणामयोगस्थानके आगे जगच्छेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण योगस्थान स्वामीरहित हैं। को छोड़कर सूक्ष्म एकेंद्री और वादर एकेंद्री पर्याप्तकोंके जघन्य और उत्कृष्ट परिणामयोगस्थान क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भागसे गुणे हैं। फिर इस वादर एकेंद्री पर्याप्तके

गस्थानके आगे तीसरा अंतर है । उसको छोड़कर पांच त्रसोंके अर्थात् दो इंद्री पर्याप्तकआदि पांचके जघन्य और उत्कृष्ट एकांतानुवृद्धि योगस्थान क्रमसे पल्यके वें भागसे गुणे हैं ॥ २३९ ॥

लद्धीणिवृत्तीणं परिणामेयंतवृद्धिटाणाओ ।

परिणामट्टाणाओ अंतरअंतरिय उवरुवरिं ॥ २४० ॥

लब्धिनिर्वृत्तीनां परिणामैकान्तवृद्धिस्थानानि ।

परिणामस्थानानि अन्तरान्तरितान्युपर्युपरि ॥ २४० ॥

—इसके आगे चौथा अंतर है । इसकेबाद लब्धि अपर्याप्तक और निर्वृत्ति अपर्याप्तक जीवोंके परिणामयोगस्थान, एकांतानुवृद्धियोगस्थान और परिणामयोगस्थान तथा पर बीच २ में अंतर सहित स्थान हैं । ये तीनों स्थान उत्कृष्ट और जघन्यपने लिये- ग्री रीतिसे क्रमपूर्वक जानने । इसतरह ८४ स्थान (ठिकाने) योगोंके कहे हैं । यह है कि इनस्थानोंमें अविभाग प्रतिच्छेद एकके बाद दूसरेमें आगे आगे पल्यके तवें भाग गुणे हैं । ऐसा क्रम जानना ॥ २४० ॥

इस कहेहुए गुणाकारको ग्रंथकर्ता स्वयं कहते हैं;—

एदेसिं टाणाओ पल्लासंखेज्जभागगुणिदकमा ।

हेट्ठिमगुणहाणिसला अण्णोण्णभत्थमेत्तं तु ॥ २४१ ॥

एतेषां स्थानानि पल्यासंख्येयभागगुणितक्रमाणि ।

अधस्तनगुणहानिशला अन्योन्याभ्यस्तमात्रं तु ॥ २४१ ॥

—ये ८४ स्थान क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भागकर गुणाकार किये गये हैं । अन्य तथा उत्कृष्ट योगस्थानोंके बीचकी जो अधस्तन गुणहानि नामकी शलाका (भेद) हैं वे असंख्यातरूप कम पल्यकी वर्गशलाका प्रमाण हैं । इसी संख्याको अभ्यस्तराशिकी “गुणाकार शलाका” कहते हैं ॥ २४१ ॥

इन उपपादादि तीनों स्थानोंका जघन्य और उत्कृष्टकी अपेक्षा निरंतर (एक-) प्रवर्तनेका काल कहते हैं;—

अवरुक्कस्सेण हवे उववादेयंतवृद्धिटाणाणं ।

एकसमयं हवे पुण इदरेसिं जाव अट्ठोत्ति ॥ २४२ ॥

अवरोत्कृष्टेन भवेत् उपपादैकान्तवृद्धिस्थानानाम् ।

एकसमयो भवेत् पुनः इतरेषां यावदष्ट इति ॥ २४२ ॥

—उपपाद योगस्थान और एकांतानुवृद्धियोगस्थानोंके प्रवर्तनेका काल जघन्य कृष्ट एकसमय ही है, क्योंकि उपपादस्थान जन्मके प्रथम समयमें ही होता है,

सण्णिसुववादवरं णिव्वत्तिगदस्स सुहुमजीवस्स ।

एयंतवड्ढिअवरं लद्धिदरे थूलथूले य ॥ २३७ ॥

संज्ञिन उपपादवरं निर्वृत्तिगतस्य सूक्ष्मजीवस्य ।

एकान्तवृद्धववरं लब्धीतरस्मिन् स्थूलस्थूले च ॥ २३७ ॥

अर्थ—उससे अधिक संज्ञीपंचेद्री निर्वृत्त्यपर्याप्तकका उत्कृष्ट उपपादयोगस्थान, उससे अधिक सूक्ष्म एकेंद्री निर्वृत्त्यपर्याप्तकका जघन्य एकांतानुवृद्धि योगस्थान है, उससे अधिक वादर एकेंद्री लब्धि अपर्याप्तका और वादर (स्थूल) एकेंद्री निर्वृत्त्यपर्याप्तकका जघन्य एकांतानुवृद्धि योगस्थान क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भागकर गुणा है ॥ २३७ ॥

तह सुहुमसुहुमजेट्टं तो वादरवादरे वरं होदि ।

अंतरमवरं लद्धिगसुहुमिदरवरंपि परिणामे ॥ २३८ ॥

तथा सूक्ष्मसूक्ष्मज्येष्ठं ततो वादरवादरे वरं भवति ।

अन्तरमवरं लब्धिकसूक्ष्मेतरवरमपि परिणामे ॥ २३८ ॥

अर्थ—इसीप्रकार उससे सूक्ष्म एकेंद्रीलब्ध्यपर्याप्तक और सूक्ष्म एकेंद्री निर्वृत्त्यपर्याप्तक दोनोंके उत्कृष्ट योगस्थान क्रमसे अधिक हैं। उससे अधिक वादर एकेंद्री लब्ध्यपर्याप्तक और वादर एकेंद्री निर्वृत्ति अपर्याप्तक इन दोनोंके उत्कृष्ट एकांतानुवृद्धि योगस्थान हैं। उनके वाद अंतरं अर्थात् वादर एकेंद्री निर्वृत्त्यपर्याप्तकका उत्कृष्ट एकान्तानुवृद्धियोगस्थान और सूक्ष्म एकेंद्री लब्ध्यपर्याप्तकका जघन्य परिणामयोगस्थान इन दोनोंके बीचमें जगच्छ्रेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान पहला अंतर है। इस अंतरके स्थानोंका कोई नामी नहीं है अर्थात् ये स्थान किसी जीवके नहीं होते इसकारण यह अंतर पड़ा। इन स्थानोंको उलंघकर (छोड़कर) सूक्ष्म एकेंद्री और वादर एकेंद्री लब्ध्यपर्याप्तक इन दोनोंके जघन्य और उत्कृष्ट परिणामयोगस्थान क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भागकर गुणे बनने ॥ २३८ ॥

अंतरमुवरीवि पुणो तप्पुण्णाणं च उवरि अंतरियं ।

एयंतवड्ढिठाणा तसपणलद्धिस्स अवरवरा ॥ २३९ ॥

अन्तरमुपर्यपि पुनः तत्पूर्णाणां च उपर्यन्तरितम् ।

एकान्तवृद्धिस्थानानि त्रसपञ्चलब्धेरवरवराः ॥ २३९ ॥

अर्थ—इसके ऊपर दूसरा अंतर है अर्थात् वादर एकेंद्री लब्ध्यपर्याप्तके उत्कृष्ट परिणामयोगस्थानके आगे जगच्छ्रेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण योगस्थान स्वामीरहित हैं। इनको छोड़कर सूक्ष्म एकेंद्री और वादर एकेंद्री पर्याप्तकोंके जघन्य और उत्कृष्ट परिणामयोगस्थान क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भागसे गुणे हैं। फिर इस वादर एकेंद्री पर्याप्तके

गस्थानके आगे तीसरा अंतर है । उसको छोड़कर पांच त्रसोंके अर्थात् दो इंद्री पर्याप्तकआदि पांचके जघन्य और उत्कृष्ट एकांतानुवृद्धि योगस्थान क्रमसे पल्यके वें भागसे गुणे हैं ॥ २३९ ॥

लद्धीणिवृत्तीणं परिणामेयंतवद्धिठाणाओ ।

परिणामद्धाणाओ अंतरअंतरिय उवरुवरिं ॥ २४० ॥

लब्धिनिर्वृत्तीनां परिणामैकान्तवृद्धिस्थानानि ।

परिणामस्थानानि अन्तरान्तरितान्युपर्युपरि ॥ २४० ॥

—इसके आगे चौथा अंतर है । इसकेवाद लब्धि अपर्याप्तक और निर्वृत्ति अपर्याप्तक जीवोंके परिणामयोगस्थान, एकांतानुवृद्धियोगस्थान और परिणामयोगस्थान तथा पर बीच २ में अंतर सहित स्थान हैं । ये तीनों स्थान उत्कृष्ट और जघन्यपने लिये- ग्री रीतिसे क्रमपूर्वक जानने । इसतरह ८४ स्थान (ठिकाने) योगोंके कहे हैं । यह है कि इनस्थानोंमें अविभाग प्रतिच्छेद एकके बाद दूसरेमें आगे आगे पल्यके तवें भाग गुणे हैं । ऐसा क्रम जानना ॥ २४० ॥

इस कहेहुए गुणाकारको ग्रंथकर्ता स्वयं कहते हैं;—

एदेसिं ठाणाओ पल्लासंखेज्जभागगुणिकमा ।

हेट्ठिमगुणहाणिसला अण्णोण्णव्भत्थमेत्तं तु ॥ २४१ ॥

एतेषां स्थानानि पल्यासंख्येयभागगुणितक्रमाणि ।

अधस्तनगुणहानिशला अन्योन्याभ्यस्तमात्रं तु ॥ २४१ ॥

—ये ८४ स्थान क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भागकर गुणाकार किये गये हैं । अन्य तथा उत्कृष्ट योगस्थानोंके बीचकी जो अधस्तन गुणहानि नामकी शलाका (भेद) हैं वे असंख्यातरूप कम पल्यकी वर्गशलाका प्रमाण हैं । इसी संख्याको अभ्यस्तराशिकी “गुणाकार शलाका” कहते हैं ॥ २४१ ॥

इन उपपादादि तीनों स्थानोंका जघन्य और उत्कृष्टकी अपेक्षा निरंतर (एक-) प्रवर्तनेका काल कहते हैं;—

अवरुक्कस्सेण हवे उववादेयंतवद्धिठाणाणं ।

एकसमयं हवे पुण इदरेसिं जाव अट्ठोत्ति ॥ २४२ ॥

अवरोत्कृष्टेन भवेत् उपपादैकान्तवृद्धिस्थानानाम् ।

एकसमयो भवेत् पुनः इतरेषां यावदष्ट इति ॥ २४२ ॥

—उपपाद योगस्थान और एकांतानुवृद्धियोगस्थानोंके प्रवर्तनेका काल जघन्य कृष्ट एकसमय ही है, क्योंकि उपपादस्थान जन्मके प्रथम समयमें ही होता है,

और एकांतानुवृद्धिस्थान समय २ वृद्धिरूप अन्य अन्य (जुदा २) ही होता है । और इन दोनोंसे भिन्न जो परिणाम योगस्थान हैं उनके निरंतर प्रवर्तनेका काल दो समयसे लेकर आठ समय तक है ॥ २४२ ॥

अष्टसमयस्स थोवा उभयदिसासुवि असंखसंगुणिदा ।

चउसमयोत्ति तहेव य उवरिं तिदुसमयजोग्गाओ ॥ २४३ ॥

अष्टसमयस्य स्तोका उभयदिशयोरपि असंख्यसंगुणिताः ।

चतुःसमय इति तथैव च उपरि त्रिद्विसमययोगाः ॥ २४३ ॥

अर्थ—आठ समय निरंतर प्रवर्तनेवाले योगस्थान थोड़े हैं । और सातको आदि लेकर चार समयतक प्रवर्तनेवाले ऊपर—नीचे दोनों जगहमें असंख्यातगुणे स्थान हैं । इसी तरह तीन समय और दो समयतक प्रवर्तनेवाले योगस्थान ऊपर ही (एक जगह) जानने । इनकी जौके आकार रचना है ॥ २४३ ॥

मज्जे जीवा बहुगा उभयत्थ विसेसहीणकमजुत्ता ।

हेट्टिमगुणहाणिसलाहुवरि सलागा विसेसऽहिया ॥ २४४ ॥

मध्ये जीवा बहुका उभयत्र विशेषहीनक्रमयुक्ताः ।

अधस्तनगुणहानिशलाया उपरि शलाका विशेषाधिकाः ॥ २४४ ॥

अर्थ—पर्याप्त त्रसजीवोंके प्रमाणरूप जौकी रचनामें मध्यभागमें जीव बहुत हैं और ऊपर नीचे दोनों तरफ क्रमसे विशेषकर हीन २ होते हैं । परंतु नीचेकी गुणहानि शलाकासे ऊपरकी गुणहानि शलाका कुछ अधिक हैं ॥ २४४ ॥

यही कहते हैं;—

द्वतियं हेट्टुवरिमदलवारा दुगुणमुभयमण्णोणं ॥

जीवजवे चोद्दससयवावीसं होदि वत्तीसं ॥ २४५ ॥

चत्तारि तिणिण कमसो पण अड अट्टं तदो य वत्तीसं ।

किंचूणतिगुणहाणिविभजिद दवे दु जवमज्झं ॥ २४६ ॥ जुम्मं ।

द्रव्यत्रयमधउपरिमदलवारा द्विगुणमुभयमन्योन्यम् ।

जीवजवे चतुर्दशशतद्वात्रिंशतिः भवति द्वात्रिंशत् ॥ २४५ ॥

चत्वारि त्रीणि क्रमशः पञ्च अष्ट अष्ट ततश्च द्वात्रिंशत् ।

किञ्चिदूनत्रिगुणहानिविभाजिते द्रव्ये तु यवमध्यम् ॥ २४६ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—जौके आकार जीवोंकी संख्याकी रचनामें अंकोंकी कल्पनासे द्रव्यादि तीन अर्थात् द्रव्यकाप्रमाण, स्थितिका तथा गुणहानिआयाम (काल) का प्रमाण क्रमसे १४-२२, ३२ तथा ४ है । और नीचे तथा ऊपरकी नाना गुणहानिका प्रमाण ३ तथा ५

समझना, सब मिलकर द्विगुण अर्थात् दोगुणहानिकाप्रमाण ८ हुआ । तथा नानागुणहानिप्रमाण दूबे (दो दोके अंक) लिखकर आपसमें गुणाकरनेसे उभय अर्थात् नीचे ऊपरकी दोनों अन्योन्याभ्यस्तराशियोंका प्रमाण ८ तथा ३२ होता है । और कुछ कम तिगुनी गुणहानि (१२) का भाग द्रव्यमें देनेसे यवाकारके मध्यकी जीवसंख्या जानना ॥ २४५ । २४६ ॥

अब यथार्थ संख्याको दिखाते हैं;—

पुण्णतसजोगठाणं छेदाऽसंखस्सऽसंखबहुभागे ।

दलमिगिभागं च दलं दव्वदुगं उभयदलवारा ॥ २४७ ॥

पूर्णत्रसयोगस्थानं छेदासंख्यस्यासंख्यबहुभागे ।

दलमेकभागं च दलं द्रव्यद्विकमुभयदलवाराः ॥ २४७ ॥

अर्थ—द्रव्यद्विक अर्थात् द्रव्य और स्थितिका प्रमाण क्रमसे पर्याप्तत्रसजीवके प्रमाण तथा पर्याप्तत्रससंबंधी परिणामयोगस्थानोंके प्रमाण जानना । और पल्यके अर्द्धच्छेदोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण नानागुणहानियोंमें असंख्यातका भागदेनेसे असंख्यातबहुभागका जो प्रमाण हो उसका आधा तो नीचेकी गुणहानिका और बाकीका आधा तथा असंख्यातका एक भाग मिलकर ऊपरकी नानागुणहानिका प्रमाण इस तरह दोनों नानागुणहानियोंका प्रमाण समझना ॥ २४७ ॥

णाणागुणहाणिसला छेदासंखेज्जभागमेत्ताओ ।

गुणहाणीणद्वानं सव्वत्थवि होदि सरिसं तु ॥ २४८ ॥

नानागुणहानिशलाः छेदासंख्येयभागमात्राः ।

गुणहानीनामद्वानां सर्वत्रापि भवति सदृशं तु ॥ २४८ ॥

अर्थ—सब नानागुणहानियोंकी संख्या पल्यके अर्द्धच्छेदोंके असंख्यातवें भाग मात्र है । और गुणहानिके अर्द्धा अर्थात् कालका प्रमाण सब जगह समान है ॥ २४८ ॥

गुणहानिआयामका दूना दोगुणहानिका प्रमाण है ।

अण्णोण्णगुणिदरासी पल्लासंखेज्जभागमेत्तं तु ।

हेट्ठिमरासीदो पुण उवरिल्लमसंखसंगुणिदं ॥ २४९ ॥

अन्योन्यगुणितराशिः पल्यासंख्येयभागमात्रं तु ।

अधस्तनराशितः पुनः उपरिममसंख्यातसंगुणितम् ॥ २४९ ॥

अर्थ—अन्योन्याभ्यस्तराशि पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । उसमेंभी नीचेकी राशिसे ऊपरकी राशि असंख्यातगुणी है ॥ २४९ ॥

आगे उन परिणाम योगस्थानोंके धारक जीव कितना २ प्रदेश बंध करते हैं? इसके तरमें आचार्यमहाराज समयप्रवद्धकी वृद्धिका प्रमाण त्रैराशिकसे कहते हैं;—

इगिठाणफह्याओ समयपवद्धं च जोगवह्नी य ।
समयपवद्धचयट्टं एदे हु पमाणफलइच्छा ॥ २५० ॥

एकस्थानस्पर्द्धकानि समयप्रवद्धं च योगवृद्धिश्च ।
समयप्रवद्धचयार्थमेते हि प्रमाणफलेच्छाः ॥ २५० ॥

अर्थ—दोइन्द्रीपर्याप्तका पहला जघन्यपरिणामयोगस्थानका स्पर्द्धक, समयप्रवद्ध और गोंकी वृद्धि ये तीनों समयप्रवद्धके बढ़नेका प्रमाण लानेकेलिये क्रमसे त्रैराशिक संबंधी माणराशि, फलराशि और इच्छाराशि होते हैं ॥ २५० ॥

आगे इसी कथनका खुलासा पांचगाथाओंसे करते हैं;—

वीइंदियपज्जत्तजहण्णट्टाणादु सण्णिपुण्णस्स ।
उक्कस्सट्टाणोत्ति य जोगट्टाणा कमे उट्टा ॥ २५१ ॥

द्वीन्द्रियपर्याप्तजघन्यस्थानात् संज्ञिपूर्णस्य ।
उत्कृष्टस्थानमिति च योगस्थानानि क्रमेण वृद्धानि ॥ २५१ ॥

अर्थ—दो इन्द्रीपर्याप्तके जघन्यपरिणामयोगस्थानसे लेकर संज्ञीपर्याप्तके उत्कृष्ट परिणामयोगस्थानतक परिणामयोगस्थान क्रमसे एक २ स्थानमें समानवृद्धि प्रमाणकर बढ़ते ए जानने ॥ २५१ ॥

इस तरह बढ़नेपर जो हुआ उसे कहते हैं;—

सेट्ठियसंखेज्जदिमा तस्स जहण्णस्स फह्या होंति ।
अंगुलअसंखभागा ठाणं पडि फह्या उट्टा ॥ २५२ ॥

श्रेण्यसंख्येयिमानि तस्य जघन्यस्य स्पर्द्धकानि भवन्ति ।
अङ्गुलासंख्यभागानि स्थानं प्रति स्पर्द्धकानि वृद्धानि ॥ २५२ ॥

अर्थ—दोइन्द्रियपर्याप्तके जघन्यपरिणामयोगस्थानोंके स्पर्द्धक जगच्छ्रेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं, और इसके बाद हर एक स्थानके प्रति सूच्यंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण जघन्यस्पर्द्धक बढ़ते हैं ऐसा जानना ॥ २५२ ॥

धुववह्नीवह्णंतो दुगुणं दुगुणं कमेण जायंते ।
चरिमे पल्लच्छेदाऽसंखेज्जदिमो गुणो होदि ॥ २५३ ॥

ध्रुववृद्धिवर्धमानानि द्विगुणं द्विगुणं क्रमेण जायन्ते ।
चरमे पल्यच्छेदासंख्येयिमो गुणो भवति ॥ २५३ ॥

अर्थ—इस तरह स्थान २ प्रति ध्रुव अर्थात् एकसी वृद्धिकर बढ़ते हुए जघन्य योगस्थान दूने २ क्रमसे होते हैं, इसप्रकार दूने २ होते हुए अंतके संज्ञीपर्याप्तजीवके उत्कृष्ट परिणामयोगस्थानमें पल्यके अर्द्धच्छेदके असंख्यातवें भागप्रमाण गुणाकार होता है अर्थात् असंख्यातवें भाग गुणे हैं ॥ २५३ ॥

अब उनके भेदोंको गिनाते हैं;—

आदी अंते सुद्धे वृद्धिहिदे रूवसंजुदे ठाणा ।

सेढिअसंखेज्जदिमा जोगट्टाणा णिरंतरगा ॥ २५४ ॥

आदौ अन्ते शुद्धे वृद्धिहिते रूपसंयुते स्थानानि ।

श्रेण्यसंख्येयिमानि योगस्थानानि निरन्तरकानि ॥ २५४ ॥

अर्थ—आदि जघन्यस्थानको और अन्त उत्कृष्ट स्थानको आपसमें घटानेपर जो प्रमाण हो उसको वृद्धिसे भाजितकर तथा एक स्थान मिलाके जो प्रमाण हो उतने सब अंतररहित योगस्थान जानने । सो ये स्थान जगच्छेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ॥ २५४ ॥

अंतरगा तदसंखेज्जदिमा सेढी असंखभागा हु ।

सांतरणिरंतराणिवि सव्वाणिवि जोगठाणाणि ॥ २५५ ॥

अन्तरगाणि तदसंख्येयिमानि श्रेण्यसंख्येयभागानि हि ।

सान्तरनिरन्तराण्यपि सर्वाण्यपि योगस्थानानि ॥ २५५ ॥

अर्थ—अन्तरवाले योगस्थान उन निरंतरयोगस्थानोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण होते हैं । ये भी जगच्छेणीके छोटे असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । और सांतर तथा निरंतर मिश्ररूप योगस्थान अंतरगतयोगस्थानके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं तौभी वे जगच्छेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही हैं । इस तरह सभी योगस्थान यथायोग्य असंख्यातवें भाग प्रमाण कहे हैं ॥ २५५ ॥

अब इन योगस्थानोंमें आदि-अंतस्थान कहते हैं;—

सुहुमणिगोदअपज्जत्तयस्स पढमे जहण्णओ जोगो ॥

पज्जत्तसण्णिपंचिंदियस्स उक्कस्सओ होदि ॥ २५६ ॥

सूक्ष्मनिगोदापर्याप्तकस्य प्रथमे जघन्यको योगः ।

पर्याप्तसंज्ञिपञ्चैन्द्रियस्योत्कृष्टको भवति ॥ २५६ ॥

अर्थ—इन सब योगस्थानोंमें सूक्ष्मनिगोदियालब्ध्यपर्याप्तके अंतके छोटे भवके पहले-समयमें जघन्य उपपादयोगस्थान होता है वह आदि जानना । और सैनी पंचेद्री पर्याप्त-जीवके उत्कृष्ट परिणामयोगस्थान है वह अंतस्थान होता है ऐसा जानना ॥ २५६ ॥

आगे अनुकृष्टिके प्रथमखंडका प्रमाण कहते हैं;—

पडिसमयधणेवि पदं पचयं पभवं च होइ तेरिच्छे ।

अणुकृष्टिपदं सव्वद्धानस्स य संखभागे हु ॥ ९०५ ॥

प्रतिसमयधनेपि पदं प्रचयः प्रभवश्च भवति तिरश्चि ।

अनुकृष्टिपदं सर्वाध्वानस्य च संख्यभागो हि ॥ ९०५ ॥

अर्थ—हरएकसमयका धन लानेकेलिये अनुकृष्टिके गच्छ—चय—आदि सबकी रचना तिर्यग् (तिरछी) होती है और अनुकृष्टिका गच्छ ऊर्ध्वगच्छके संख्यातवें भाग प्रमाण निश्चयकर होता है ॥ ९०५ ॥ नीचे और ऊपरके समयोंमें समानता होनेको अनुकृष्टि कहते हैं ।

अणुकृष्टिपदेण हदे पचये पचयो तु होइ तेरिच्छे ।

पचयधणूं दव्वं सगपदभजिदं हवे आदी ॥ ९०६ ॥

अनुकृष्टिपदेन हते प्रचये प्रचयस्तु भवति तिरश्चि ।

प्रचयधनोनं द्रव्यं स्वकपदभाजितं भवेदादि ॥ ९०६ ॥

अर्थ—अनुकृष्टिके गच्छका भाग ऊर्ध्वचयमें देनेसे जो प्रमाण हो वह अनुकृष्टिका चय होता है और प्रथमसमयसंबंधी अनुकृष्टिके सर्वधनमें चयधन कम करके जो प्रमाण आवे उसमें अपने अपने गच्छका भाग देनेसे अनुकृष्टिके प्रथमखंडका प्रमाण होता है ॥ ९०६ ॥

आदिम्मि कमे वड्ढदि अणुकृष्टिस्स य चयं तु तेरिच्छे ।

इदि उड्ढतिरियरयणा अधापवत्तम्मि करणम्मि ॥ ९०७ ॥

आदौ क्रमेण वर्धते अनुकृष्टेः च चयस्तु तिरश्चि ।

इति ऊर्ध्वतिर्यग्रचना अधःप्रवृत्ते करणे ॥ ९०७ ॥

अर्थ—उस प्रथमखंडसे तिर्यग्रूप क्रमसे अनुकृष्टिका एक एक चय बढ़ता जाता है तब द्वितीयादि खंडोंका प्रमाण होता है । इसप्रकार ऊर्ध्वरूप और तिर्यग्रूप दोनों ही रचना अधःप्रवृत्तकरणमें जाननी चाहिये ॥ ९०७ ॥

अंतोमुहुत्तकालं गमिऊण अधापवत्तकरणं तु ।

पडिसमयं सुज्झंता अपुव्वकरणं समल्लियइ ॥ ९०८ ॥

अन्तर्मुहूर्तकालं गमयित्वा अधःप्रवृत्तकरणं तु ।

प्रतिसमयं शुद्ध्यन्नपूर्वकरणं समाश्रयति ॥ ९०८ ॥

अर्थ—वह सातिशय अप्रमत्तसंयमी समय समय अनन्तगुणी परिणामोंकी विशुद्धतासे बढ़ता हुआ अंतमुहूर्तकालतक अधःप्रवृत्तकरणको समाप्तकरके अपूर्वकरणको प्राप्त होता है ॥ ९०८ ॥ आगे अपूर्वकरणमें अंकोंकी सहनानी दिखलाते हैं;—

छण्णउदिचउसहस्सा अट्ट य सोलस धणं तदद्धानं ।

परिणामविसेसोवि य चउ संखापुव्वकरणसंदिट्ठी ॥ ९०९ ॥

पण्यवतिचतुःसहस्री अष्टौ च षोडश धनं तदध्वानः ।

परिणामविशेषोपि च चत्वारि संख्यातान्यपूर्वकरणसंघट्टिः ॥ ९०९ ॥

अर्थ—अपूर्वकरणं अंकोकी सहनानी “सर्वधन ४०९६, गच्छ ८ परिणामविशेष १६ और संख्यातका प्रमाण ४” इसप्रकार है ॥ ९०९ ॥

अंतोमुद्गुत्तमेत्ते पडिसमयमसंखलोगपरिणामा ।

कमउह्यापुषगुणे अणुकट्टी णत्थि णियमेण ॥ ९१० ॥

अन्तर्मुहूर्तमात्रे प्रतिसमयमसंख्यलोकपरिणामाः ।

प्रमवृद्धाः अपूर्वगुणे अनुकृष्टिर्नास्ति नियमेन ॥ ९१० ॥

अर्थ—अपूर्वकरणका काल अंतर्मुहूर्तमात्र है उसमें हरएकसमयमें समानचय (वृद्धि) से बढ़ते हुए असंख्यात लोकप्रमाण परिणाम पाये जाते हैं । लेकिन यहां अनुकृष्टि नियमसे नहीं होती क्योंकि परिणामोंमें अपूर्वता होनेसे समानता नहीं पायी जाती ॥९१०॥

आगे तीसरे अनिवृत्तिकरणका स्वरूप कहते हैं;—

एकस्मिह कालसमये संठाणादीहिं जह णिवट्टंति ।

ण णिवट्टंति तहंवि य परिणामेहिं मिहो जे हु ॥ ९११ ॥

होति अणियट्टिणो ते पडिसमयं जस्सिमेकपरिणामो ।

विमलयरझाणहुदवहसिहाहि णिदुहकम्मवणा ॥९१२॥ जुम्मं ।

एकस्मिन् कालसमये संस्थानादिभिर्यथा निवर्तन्ते ।

न निवर्तन्ते तथापि च परिणामैर्मिथो ये हि ॥ ९११ ॥

भवन्ति अनिवर्तिनस्ते प्रतिसमयं येषामेकपरिणामः ।

विमलतरध्यानहुतवहशिखाभिर्निर्दग्धकर्मवनाः ॥ ९१२ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—जो जीव अनिवृत्तिकरणकालके विवक्षित एकसमयमें शरीरके आकार वगैरःसे भेदरूप हो जाते हैं तौभी परिणामोंसे अधःकरणादिकी तरह भेदरूप नहीं होते । और उस करणमें जिनके समय समय प्रति एकस्वरूप एक ही परिणाम होता है वे जीव, अतिशयनिर्मल ध्यानरूपी अग्निसे जलाये हैं कर्मरूपी वन जिन्होंने ऐसे होते हुए अनिवृत्तिकरण परिणामके धारक होते हैं ॥ ९११ ॥ ९१२ ॥ इस अनिवृत्तिकरणका कालभी अंतर्मुहूर्तमात्र है ।

इति श्री नेमिचन्द्राचार्यविरचित पंचसंग्रह द्वितीयनामवाले गोष्मटसार ग्रंथके कर्म-कांडमें त्रिकरणचूलिका नामा आठवां अधिकार समाप्त हुआ ॥ ८ ॥



दोहा ।

करि विनष्ट सब कर्मकी, स्थितिरचना सद्भाव ।

परमेष्ठी परमात्मा, भये भजौं शिवराय ॥ १ ॥

आगे आचार्यमहाराज सिद्धोंको नमस्कार करते हुए कर्मस्थितिकी रचनाका सद्भाव कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं;—

सिद्धे विसुद्धणिलये पणट्टकम्मे विणट्टसंसारे ।

पणमिय सिरसा वोच्छं कम्मट्टिदिरयणसत्त्वावं ॥ ९१३ ॥

सिद्धान् विशुद्धनिलयान् प्रणष्टकर्मणः विनष्टसंसारान् ।

प्रणम्य शिरसा वक्ष्यामि कर्मस्थितिरचनासद्भावम् ॥ ९१३ ॥

अर्थ—अत्यंत नष्ट हुए हैं घाति अघाति कर्म जिनके, विशेषतासे नष्ट किया है चतुर्गतिभ्रमणरूप संसार जिन्होंने इसीकारण निर्मल आत्मप्रदेशोंमें है स्थान जिनका ऐसे सिद्ध-परमेष्ठियोंको मैं मस्तक नवाके नमस्कार कर कर्मोंकी स्थितिकी रचनाका सत्त्वरूप कथन कहता हूं ॥ ९१३ ॥ पहले बंधउदयसत्त्व अधिकारमें यह कथन कहागया है यहांपर भी गाथाओंसे कहते हैं ।

कम्मसरूवेणागयदव्वं ण य एदि उदयरूवेण ।

रूवेणुदीरणस्स य आवाहा जाव ताव हवे ॥ ९१४ ॥

उदयं पडि सत्तण्हं आवाहा कोडिकोडि उवहीणं ।

वाससयं तप्पडिभागेण य सेसट्टिदीणं च ॥ ९१५ ॥

अंतोकोडाकोडीठिदिस्स अंतोमुहुत्तमावाहा ।

संखेज्जगुणविहीणं सव्वजहण्णट्टिदिस्स हवे ॥ ९१६ ॥

पुव्वाणं कोडितिभागादासंखेवअद्धओत्ति हवे ।

आउस्स य आवाहा णट्टिदिपडिभागमाउस्स ॥ ९१७ ॥

आवलियं आवाहा उदीरणमासिज्ज सत्तकम्माणं ।

परभवियआउगस्स य उदीरणा णत्थि णियमेण ॥ ९१८ ॥

आवाहूणियकम्मट्टिदीणिसेगो दु सत्तकम्माणं ।

आउस्स णिसेगो पुण सगट्टिदी होदि णियमेण ॥ ९१९ ॥

आवाहं वोलाविय पढमणिसेगम्मि देय वहुगं तु ।

तत्तो विसेसहीणं विदियस्सादिमणिसेओत्ति ॥ ९२० ॥

१. इन ८ गाथासूत्रोंका अर्थवगैरः दूसरे अधिकारमें ६३-६४-६५ वें पृष्ठमें लिखा है इससे यहां मूल-त्र ही रक्खे गये हैं ।

विदिये विदियणिसेगे हाणी पुव्विल्लहाणिअद्धं तु ।
एवं गुणहाणिं पडि हाणी अद्धद्वयं होदि ॥ ९२१ ॥

द्वं ठिदिगुणहाणीणद्धाणं दलसला णिसेयछिदी ।
अण्णोण्णगुणसलावि य जाणेज्जो सव्वठिदिरयणे ॥ ९२२ ॥
द्रव्यं स्थितिः गुणहानीनामध्वानं दलशला निपेकच्छितिः ।
अन्योन्यगुणशला अपि च ज्ञातव्यं सर्वस्थितिरचनायाम् ॥ ९२२ ॥

अर्थ—सब कर्मोंकी स्थितिकी रचनामें द्रव्य १ स्थिति आयाम २ गुणहान्यायाम ३ नानागुणहानि ४ निपेकहार अर्थात् दोगुणहानि ५ अन्योन्याभ्यस्तराशि ६ ये छह राशियां जानना चाहिये ॥ ९२२ ॥

तेवट्ठिं च सयाइं अडदाला अट्ट छक्क सोलसयं ।
चउसट्ठिं च विजाणे दव्वादीणं च संदिट्ठी ॥ ९२३ ॥
त्रिपट्टिश्च शतानि अष्टचत्वारिंशदष्ट पट्ठं पोडशकम् ।
चतुःपट्ठिं च विजानीहि द्रव्यादीनां च संदट्टिः ॥ ९२३ ॥

अर्थ—उन द्रव्यादिकोंकी अंकोंकी सहनानी क्रमसे द्रव्य ६३००, स्थिति ४८, गुणहान्यायाम ८, नानागुणहानि ६, दोगुणहानि १६, अन्योन्याभ्यस्तराशि ६४ जानना चाहिये ॥ ९२३ ॥

अब अर्थसंदष्टिसे द्रव्यादिका प्रमाण कहते हैं;—

द्वं समयप्रवद्धं उक्तप्रमाणं तु होदि तस्सेव ।
जीव सहत्थणकालो ठिदिअद्धा संखपल्लमिदा ॥ ९२४ ॥
द्रव्यं समयप्रवद्धं उक्तप्रमाणं तु भवति तस्यैव ।
जीवेन सह स्थानकालः स्थित्यद्धा संख्यपल्यमिताः ॥ ९२४ ॥

अर्थ—‘द्रव्य’ तो पहले प्रदेशबंधाधिकारमें कहे हुए समयप्रवद्धके प्रमाण है, और उस समयप्रवद्धका जीवके साथ स्थित रहनेका काल ‘स्थितिआयाम’ है, वह स्थिति संख्या-तपल्यप्रमाण है ॥ ९२४ ॥

मिच्छे वग्गसलायप्पहुदिं पल्लस्स पढममूलोत्ति ।
वग्गहदी चरिमो तच्छिदिसंकलिदं चउत्थो य ॥ ९२५ ॥
मिथ्ये वर्गशलाकप्रभृति पल्यस्य प्रथममूलमिति ।
वर्गहतिः चरमः तच्छितिसंकलितं चतुर्थश्च ॥ ९२५ ॥

अर्थ—मिथ्यात्वनामा कर्ममें पल्यकी वर्गशलाकाको आदि लेकर पल्यके प्रथम मूलपर्यंत उन वर्गोंको आपसमें गुणकार करनेसे चरमराशि अर्थात् अन्योन्याभ्यस्तराशिका

प्रमाण होता है और उनको संकलित अर्थात् जोड़नेसे चौथी राशि अर्थात् नानागुणहानिका प्रमाण होता है ॥ ९२५ ॥

वर्गसलायेणवह्निदपल्लं अण्णोण्णगुणिदरासी हु ।

णाणागुणहाणिसला वर्गसलच्छेदणूणपल्लच्छिदी ॥ ९२६ ॥

वर्गशलाकयावहितपल्यमन्योन्यगुणितराशिर्हि ।

नानागुणहानिशला वर्गशलच्छेदन्यूनपल्यछितिः ॥ ९२६ ॥

अर्थ—इसप्रकार पल्यकी वर्गशलाकाका भाग पल्यमें देनेसे अन्योन्याभ्यस्तराशिका प्रमाण होता है और पल्यकी वर्गशलाकाके अर्धच्छेदोंको पल्यके अर्धच्छेदोंमें घटानेसे जो आवे उतनी नानागुणहानिराशि जाननी चाहिये ॥ ९२६ ॥

आगे गुणहान्यायामका प्रमाण कहते हैं;—

सव्वसलायाणं जदि पयदणिसेये लहेज्ज एकस्स ।

किं होदित्ति णिसेये सलाहिदे होदि गुणहाणी ॥ ९२७ ॥

सर्वशलाकानां यदि प्रकृतनिषेके लभ्यते एकस्य ।

किं भवतीति निषेके शलाहिते भवति गुणहानिः ॥ ९२७ ॥

अर्थ—सब नानागुणहानिशलाकाओंके यदि पूर्वोक्त स्थितिके सब निषेक होते हैं तो १ गुणहानिशलाकाके कितने होने चाहिये इसप्रकार त्रैराशिक गणितसे निषेकोंमें शलाकाओंका भागदेनेसे जो प्रमाण हो वह गुणहान्यायामका प्रमाण होता है ॥ ९२७ ॥

आगे दोगुणहानिका प्रमाण और उसके माननेका प्रयोजन दिखलाते हैं;—

दोगुणहाणिपमाणं णिसेयहारो दु होइ तेण हिदे ।

इष्टे पढमणिसेये विसेसमागच्छदे तत्थ ॥ ९२८ ॥

द्विगुणहानिप्रमाणं निषेकहारस्तु भवति तेन हिते ।

इष्टे प्रथमनिषेके विशेष आगच्छति तत्र ॥ ९२८ ॥

अर्थ—दूना गुणहानिका प्रमाण 'निषेकहार' होता है उस निषेकहारका भाग विवक्षित गुणहानिके पहले निषेकमें देनेसे उसगुणहानिमें विशेष (चय) का प्रमाण निकल आता है ॥ ९२८ ॥

इसतरह द्रव्यादिकोंका प्रमाण बतलाकर अन्य कार्य कहते हैं;—

रूऊणण्णोण्णभत्थवह्निददव्वं च चरिमगुणदव्वं ।

होदि तदो दुगुणकमो आदिमगुणहाणिदव्वोत्ति ॥ ९२९ ॥

रूपोनान्योन्याभ्यस्तावहितद्रव्यं च चरमगुणद्रव्यम् ।

भवति ततो द्विगुणक्रममादिमगुणहानिद्रव्यमिति ॥ ९२९ ॥

अर्थ—१ कम अन्योन्याभ्यस्तराशिका भाग सब द्रव्यमें देनेसे अंतगुणहानिका द्रव्य होता है और इससे दूना दूना पहलीगुणहानिके द्रव्यतक द्रव्य जानना चाहिये ॥ ९२९ ॥
अब द्रव्यजाननेसे क्या करना यह बतलाते हैं;—

रूऊणद्वाणद्वेणूणेण णिसेयभागहारेण ।

हदगुणहाणिविभजिदे सगसगदब्बे विसेसा हु ॥ ९३० ॥

रूपोनाध्वानार्धेनोनेन निपेकभागहारेण ।

हतगुणहानिविभाजिते स्वकस्वकद्रव्ये विशेषा हि ॥ ९३० ॥

अर्थ—एक कम गुणहान्यायामके प्रमाणको आधाकरके निपेक भागहारमें घटानेसे जो प्रमाण आवे उससे विवक्षित गुणहानिआयाम को गुणनेसे जो प्रमाण हो उसका भाग अपने २ द्रव्यमें देवे तो विशेष वा चयका प्रमाण होता है ॥ ९३० ॥

प्रचयस्स य संकलणं सगसगगुणहाणिदब्बमज्झम्हि ।

अवणिय गुणहाणिहिदे आदिप्रमाणं तु सव्वत्थ ॥ ९३१ ॥

प्रचयस्य च संकलनं स्वकस्वकगुणहानिद्रव्यमध्ये ।

अपनीय गुणहानिहिते आदिप्रमाणं तु सर्वत्र ॥ ९३१ ॥

अर्थ—सब चयधनको अपने अपने गुणहानिके सब द्रव्यमेंसे घटाके जो प्रमाण हो उसमें गुणहानिआयामका भागदेनेसे जो संख्या आवै वह आदिधनका अर्थात् अन्तके निपेकका प्रमाण सब जगह होता है ॥ ९३१ ॥

सव्वासिं पयडीणं णिसेयहारो य एयगुणहाणी ।

सरिसा हवंति णाणागुणहाणिसलाउ वोच्छामि ॥ ९३२ ॥

सर्वासां प्रकृतीनां निपेकहारञ्च एकगुणहानिः ।

सदृशे भवतः नानागुणहानिशला वक्ष्यामि ॥ ९३२ ॥

अर्थ—सब मूल उत्तर प्रकृतियोंका निपेकहार और एकगुणहान्यायाम ये दोनों तो एकसे ही होते हैं और नानागुणहानिशलाका समान नहीं हैं इसकारण उनको कहता हूँ ॥ ९३२ ॥

मिच्छत्तस्स य उक्ता उवरीदो तिण्णि तिण्णि संमिलिदा ।

अट्टगुणेणूणकमा सत्तसु रइदा तिरिच्छेण ॥ ९३३ ॥

मिथ्यात्वस्य च उक्ता उपरितः त्रयः त्रयः संमिलिताः ।

अष्टगुणेनोन्नक्रमाः सप्तसु रचिता तिरश्चा ॥ ९३३ ॥

अर्थ—जो मिथ्यात्वके पल्य वर्गशलाकाके अर्धच्छेद आदि कहे गये हैं वे स्थापन करके ऊपरसे पल्यके प्रथममूलसे लेकर तीन तीन वर्गस्थानोंके अर्धच्छेद मिलानेसे आठ आठ गुणे कम अनुक्रमसे होते हैं और वे मिलाये हुए सातस्थानोंमें तिरछी रचनारूप होते हैं ॥ ९३३ ॥

तत्थंतिमच्छिदिरस्स य अट्टमभागो सलायच्छेदा ह ।
 आदिमरासिप्रमाणं दसकोडाकोडिपडिवद्धे ॥ ९३४ ॥
 तत्रान्तिमच्छित्तेश्चाष्टमभागः शलाकच्छेदा हि ।
 आदिमराशिप्रमाणं दशकोटीकोटिप्रतिबद्धे ॥ ९३४ ॥

अर्थ—उन सातपंक्तियोंमेंसे पहली पंक्तिके अर्धच्छेदोंके आठवें भागप्रमाण शलाकाके अर्धच्छेद होते हैं और उतना ही दस कोड़ाकोड़ी सागर संबंधी अन्योन्याभ्यस्तराशिका प्रमाण होता है ॥ ९३४ ॥

आगे बीसकोड़ाकोड़ी सागरआदि स्थितीकी नानागुणहानि और अन्योन्याभ्यस्तराशिकी कहते हैं;—

इगिपंतिगदं पुध पुध अप्पिट्ठेण य हदे हवे णियमा ।
 अप्पिट्ठस्स य पंती णाणागुणहाणिपडिवद्धा ॥ ९३५ ॥
 एकपङ्क्तिगतं पृथक् पृथगात्मेष्टेन च हते भवेन्नियमात् ।
 आत्मेष्टस्य च पङ्क्तयो नानागुणहानिप्रतिबद्धाः ॥ ९३५ ॥

अर्थ—शेष छह पंक्तियोंमेंसे एक एक पंक्तिमें जुदे २ अपने इष्टका भाग देनेसे नियमकर अपनी २ इष्टराशि जो बीस कोड़ाकोड़ी सागरादि है उसकी नानागुणहानिशलाकाकी पंक्तियां होती हैं ॥ ९३५ ॥

अप्पिट्ठपंतिचरिमो जेत्तियमेत्ताण वर्गमूलानां ।
 छिदिणिवहोत्ति णिहाणिय सेसं च य मेलिदे इट्ठा ॥ ९३६ ॥
 आत्मेष्टपङ्क्तिचरमः यावन्मात्राणां वर्गमूलानाम् ।
 छितिनिवह इति निर्धाय शेषं च च मेलिते इष्टा ॥ ९३६ ॥

अर्थ—अपनी २ इष्टपंक्तियोंमें जितने अंतस्थान हों उतने वर्गमूलोंके अर्धच्छेदोंका समूहरूप ऐसा निश्चयकर और सबको मिलानेसे अपने २ विवक्षितकी नानागुणहानि होती है ॥ ९३६ ॥

आगे अन्योन्याभ्यस्तराशिकी कहते हैं;—

इट्ठसलायपमाणे दुगसंवग्गे कदे दु इट्ठस्स ।
 पयडिस्स य अण्णोण्णभत्थपमाणं हवे णियमा ॥ ९३७ ॥
 इष्टशलाकाप्रमाणे द्विकसंवर्गे कृते तु इष्टस्य ।
 प्रकृतेश्च अन्योन्याभ्यस्तप्रमाणं भवेन्नियमात् ॥ ९३७ ॥

अर्थ—अपनी नानागुणहानिशलाकाके प्रमाण दोके अंक लिखकर आपसमें गुणनेसे नियमकर अपनी इष्ट प्रकृतिकी अन्योन्याभ्यस्तराशिका प्रमाण होता है ॥ ९३७ ॥

आगे वह प्रमाण कितना किस कर्मका होता है यह कहते हैं;—

आवरणवेदणीये विग्धे पल्लस्स विदियतदियपदं ।
 णामागोदे विदियं संखातीदं हवंतित्ति ॥ ९३८ ॥
 आवरणवेदनीये विग्धे पल्लस्स द्वितीयतृतीयपदम् ।
 नामगोत्रे द्वितीयं संख्यातीतं भवन्तीति ॥ ९३८ ॥

अर्थ—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय इन चार कर्मोंमें अन्योन्याभ्य-
 स्तराशिका प्रमाण, पल्लके द्वितीयवर्गमूलके साथ असंख्यात तीसरे मूलको गुणनेसे जो होवे
 वह है । और नाम तथा गोत्रकर्मके असंख्यातगुणे पल्लके द्वितीयवर्गमूलप्रमाण अन्योन्या-
 भ्यस्तराशिका प्रमाण है ॥ ९३८ ॥

आउस्स य संखेज्जा तप्पडिभागा हवंति णियमेण ।
 इदि अत्थपदं जाणिय इट्ठिदिस्साणए मदिमं ॥ ९३९ ॥
 आयुपञ्च संख्येयाः तत्प्रतिभागा भवन्ति नियमेन ।
 इति अर्थपदं ज्ञात्वा इष्टस्थितेरानयेत् मतिमान् ॥ ९३९ ॥

अर्थ—आयुर्कर्ममें संख्याते प्रतिभाग नियमसे होते हैं इसप्रकार बुद्धिमान् मनुष्य वि-
 वक्षित स्थानोंको जानकर विवक्षित स्थितिकी नानागुणहानिशलाकाआदिको लवै ॥ ९३९ ॥
 यही कहते हैं;—

उक्कस्सट्ठिदिवंधे सयलावाहा हु सव्वठिदिरयणा ।
 त्काले दीसदि तो धोधो वंधट्ठिदीणं च ॥ ९४० ॥
 उत्कृष्टस्थितिवन्धे सकलावाधा हि सर्वस्थितिरचना ।
 तत्काले दृश्यते अतः अधोऽधो वन्धस्थितीनां च ॥ ९४० ॥

अर्थ—विवक्षितप्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवंध होनेपर उसीकालमें ही उत्कृष्ट स्थितिकी
 आवाधा और सब स्थितिकी रचना देखी जाती है । इसकारण उस स्थितिके अंतके निषेकसे
 नीचे २ प्रथमनिषेकपर्यंत स्थितिवंधरूप स्थितियोंकी एक एक समय हीनता देखनी
 चाहिये ॥ ९४० ॥

आगे अधिकता किसतरह देखनी इस बातको कहते हैं;—

आवाधाणं विदियो तदियो कमसो हि चरमसमयो हु ।
 पढमो विदियो तिदियो कमसो चरिमो णिसेओ हु ॥ ९४१ ॥
 आवाधानां द्वितीयः तृतीयः क्रमशो हि चरमसमयस्तु ।
 प्रथमो द्वितीयः तृतीयः क्रमशः चरमो निषेकस्तु ॥ ९४१ ॥

अर्थ—उस बंध होनेके बाद आवाधाकालका दूसरा समय तीसरा समय इसतरह क्रमसे
 एक एक बढ़ता हुआ आवाधाकालका अंतसमय होता है उसके बाद पहले समयमें प्रथम

निषेक दूसरेमें दूसरा तीसरे समयमें तीसरा निषेक इसतरह एक एक बढ़ता हुआ क्रमसे अंतसमयमें अंतका निषेक होता है ॥ ९४१ ॥

आगे समयप्रबद्धके प्रमाण द्रव्य वर्तमान एकसमयमें बँधता भी है और उदयरूप भी होता है ऐसा दिखलाते हैं;—

**समयप्रबद्धप्रमाणं होदि तिरिच्छेण वट्टमाणम्मि ।
पडिसमयं बंधुदओ एक्को समयप्रबद्धो दु ॥ ९४२ ॥**

समयप्रबद्धप्रमाणं भवति तिरश्चा वर्तमाने ।

प्रतिसमयं बन्धोदय एकः समयप्रबद्धस्तु ॥ ९४२ ॥

अर्थ—त्रिकोणरचनामें समयप्रबद्धका प्रमाण विवक्षित वर्तमान समयमें तिर्यकरूप अर्थात् बराबर रचनारूप हरएक समयमें एक समयप्रबद्ध बँधता है और एक समयप्रबद्ध ही उदयरूप होता है ॥ ९४२ ॥

आगे सत्त्व भी एकसमयप्रबद्धमात्र होगा इस आशंकाको दूर करनेके लिये कहते हैं;—

**सत्तं समयप्रबद्धं दिवड्डुगुणहाणिताडियं ऊणं ।
तियकोणसरूवट्टिददव्वे मिलिदे हवे णियमा ॥ ९४३ ॥**

सत्त्वं समयप्रबद्धं द्व्यर्धगुणहानिताडितमूनम् ।

त्रिकोणस्वरूपस्थितद्रव्ये मिलिते भवेन्नियमात् ॥ ९४३ ॥

अर्थ—सत्त्वद्रव्य, कुछकम डेढ गुणहानिकर गुणा हुआ समयप्रबद्ध प्रमाण है । वह त्रिकोणरचनाके सब द्रव्यका जोड़ देनेसे नियमसे इतना ही होता है ॥ ९४३ ॥

आगे इस सत्त्वारूप त्रिकोण यंत्रके जोड़ देनेकी विधि कहते हैं;—

**उपरिमगुणहाणीणं धनमन्तिमहीणपढमदलमेत्तं ।
पढमे समयप्रबद्धं ऊणकमेणट्टिया तिरिया ॥ ९४४ ॥**

उपरितनगुणहानीनां धनमन्तिमहीनप्रथमदलमात्रम् ।

प्रथमे समयप्रबद्धमूनक्रमेण स्थितं तिरश्चा ॥ ९४४ ॥

अर्थ—त्रिकोण रचनामें विवक्षित वर्तमानसमयमें प्रथमगुणहानिके प्रथम निषेकमें तो तिर्य-
करूप अर्थात् बराबर लिखे निषेकोंका समुदाय संपूर्ण समयप्रबद्ध प्रमाण होता है, और उसके बाद द्वितीय निषेकसे लेकर अंतकी गुणहानिके अंतनिषेकपर्यंत क्रमसे चय कम होती हुई द्वितीयादि गुणहानियोंके जोड़से लेकर अंतकी गुणहानिके जोड़को अपनी २ पहली गुणहा-
निके जोड़मेंसे घटाके जो प्रमाण हो उसका आधा २ होता है । और प्रथमगुणहानिका जोड़ गुणहानिके प्रमाणकर समयप्रबद्धको गुणनेसे जो प्रमाण हो उतना होता है ॥ ९४४ ॥

आगे स्थितीके भेदोंको कहते हैं;—

अंतोकोडाकोडिट्टिदित्ति सव्वे णिरंतरट्टाणा ।

उक्कस्सट्टाणादो सण्णिस्स य होंति णियमेण ॥ ९४५ ॥

अन्तःकोटीकोटिस्थितिरिति सर्वाणि निरन्तरस्थानानि ।

उत्कृष्टस्थानात् संज्ञिनश्च भवन्ति नियमेन ॥ ९४५ ॥

अर्थ—आयुके विना सात कर्मोंके उत्कृष्टस्थितिसे लेकर अंतःकोडाकोडीसागरप्रमाण जघन्यस्थितिपर्यंत एक एक समय कमका क्रम लिये हुए जो निरंतर स्थितिके भेद हैं वे संख्यातपल्यप्रमाण नियमसे संज्ञी पंचेन्द्री जीवोंके होते हैं ॥ ९४५ ॥

आगे सांतरस्थितिके भेद कहते हैं;—

संखेज्जसहस्साणिवि सेठीरूढम्मि सांतरा होंति ।

सगसगअवरोत्ति हवे उक्कसादो दु सेसाणं ॥ ९४६ ॥

संख्येयसहस्राण्यपि श्रेणीरूढे सान्तरा भवन्ति ।

स्वकस्वकावर इति भवेदुत्कृष्टात्तु शेषाणाम् ॥ ९४६ ॥

अर्थ—सम्यक्त्व देशसंयम सकलसंयम उपशमक वा क्षपकश्रेणीके संमुख हुए ऐसे क्रमकरके मिथ्यादृष्टि असंयत देशसंयत अप्रमत्त अपूर्वकरणादि तीन गुणस्थानवर्ती उपश-मश्रेणी क्षपकश्रेणी चढनेवाले जो जीव हैं उनके सांतर अर्थात् एक एक समय कमके नियमकर रहित स्थितीके भेद संख्यात हजार हैं । और शेष जीव समासोंमें (भेदोंमें) अपनी २ उत्कृष्ट स्थितीसे लेकर अपनी २ जघन्य स्थिति पर्यंत एक एक समय कम लिये-हुए निरंतर स्थितीके ही भेद होते हैं ॥ ९४६ ॥

आगे स्थितीके भेदोंके कारणरूप कपायाध्यवसाय (स्थितिबंधाध्यवसाय) स्थान मूल-प्रकृतियोंके कहते हैं;—

आउट्टिदिवंधज्झवसाणट्टाणा असंखलोगमिदा ।

णामागोदे सरिसं आवरणदु तदियविग्घे य ॥ ९४७ ॥

आयुःस्थितिवन्धावसायस्थानानि असंख्यलोकमितानि ।

नामगोत्रे सदृशमावरणद्विके तृतीयविघ्ने च ॥ ९४७ ॥

अर्थ—आयुके 'स्थितिबंधाध्यवसायस्थान' सबसे कम होनेपर भी यथायोग्य असंख्यात-लोकप्रमाण हैं । उनसे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे नाम-गोत्र इन दोनोंके परस्पर समान जानने । और उनसे भी पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय अंतराय—इन चारोंके परस्पर समान जानने चाहिये ॥ ९४७ ॥

सच्चुवरि मोहणीये असंखगुणिदक्कमा हु गुणगारो ।

पल्लासंखेज्जदिमो पयडिसमाहारमासेज्ज ॥ ९४८ ॥

सर्वोपरि मोहनीये असंख्यगुणितक्रमाणि हि गुणकारः ।

पल्यासंख्येयिमः प्रकृतिसमाहारमासाद्य ॥ ९४८ ॥

अर्थ—सबसे अधिक मोहनीयकर्मके स्थितिवंधाध्यवसायस्थान उनसे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं । ऐसा प्रकृतियोंके स्थितिभेदोंकी अपेक्षा क्रमसे असंख्यात गुणे स्थितिवंधाध्यवसाय जानने चाहिये । यहांपर गुणकारका प्रमाण पल्यका असंख्यातवां भाग जानना ॥ ९४८ ॥

आगे जघन्यादिक स्थितिकी अपेक्षा स्थितिवंधाध्यवसायस्थानोंका प्रमाण कहते हैं;—

अवरट्टिदिवंधज्झवसाणट्टाणा असंखलोगमिदा ।

अहियकमा उक्कस्सट्टिदिपरिणामोत्ति णियमेण ॥ ९४९ ॥

अवरस्थितिवन्धाध्यवसायस्थानानि असंख्यलोकमितानि ।

अधिकक्रमाणि उत्कृष्टस्थितिपरिणाम इति नियमेन ॥ ९४९ ॥

अर्थ—सब जघन्यस्थितिवंधके कारण जो अध्यवसायस्थान (परिणामोंके स्थान) हैं वे असंख्यातलोक प्रमाण हैं उससे आगे उत्कृष्टस्थितिपर्यंत एक एक चय क्रमसे अधिक नियमकर जानने चाहिये ॥ ९४९ ॥

अहियागमणमिच्चं गुणहाणी होदि भागहारो दु ।

दुगुणं दुगुणं वट्टी गुणहाणिं पडि क्रमेण हवे ॥ ९५० ॥

अधिकागमनमिच्चं गुणहानिः भवति भागहारस्तु

द्विगुणा द्विगुणा वृद्धिः गुणहानिं प्रति क्रमेण भवेत् ॥ ९५० ॥

अर्थ—विवक्षित गुणहानिमें अधिक (चय) का प्रमाण लानेकेलिये अंतके निपेकको दोका भागहार दिया जाता है उससे आगे हरएक गुणहानिके प्रति क्रमसे दूना २ चयका (वृद्धिका) प्रमाण होता है ऐसा जानना ॥ ९५० ॥

ठिदिगुणहाणिपसाणं अज्झवसाणम्मि होदि गुणहाणी ।

णाणागुणहाणिसला असंखभागो ठिदिस्स हवे ॥ ९५१ ॥

स्थितिगुणहानिप्रमाणमध्यवसाने भवति गुणहानिः ।

नानागुणहानिशला असंख्यभागः स्थितेर्भवेत् ॥ ९५१ ॥

अर्थ—पहले बंधकथनके अवसर पर जैसा कर्मस्थितिकी रचनामें गुणहानिका प्रमाण कहा है वैसा यहां कपायाध्यवसायस्थानोंमें भी गुणहानिका प्रमाण जानना और जो नानागुणहानियोंका प्रमाण उस जगह कहा है उसके असंख्यातवें भाग प्रमाण यहां कपायाध्यवसायस्थानोंमें नानागुणहानिका प्रमाण होता है ॥ ९५१ ॥

आगे जघन्यचयका महत्त्व दिखलाते हैं;—

लोगाणमसंखपमा जहण्णउट्टिमि तम्मिह छट्टाणा ।

ठिदिवंधज्झवसाणट्टाणाणं होंति सत्तण्हं ॥ ९५२ ॥

लोकानामसंख्यप्रमाणि जघन्यवृद्धौ तस्मिन् पदस्थानानि ।

स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानानां भवन्ति सप्तानाम् ॥ ९५२ ॥

अर्थ—आयुके विना शेष सात मूलप्रकृतियोंके स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोंका प्रमाण जघन्य वृद्धिमें अविभागप्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा असंख्यातलोकप्रमाण अनंतभागवृद्धि आदिक छहस्थानपतित वृद्धिरूप पाया जाता है ॥ ९५२ ॥

आगे आयुकर्मके स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोंमें विशेषता दिखलाते हैं;—

आउस्स जहण्णट्टिदिवंधणजोग्गा असंखलोगमिदा ।

आवलिअसंखभागेणुवरुवरिं होंति गुणिदकमा ॥ ९५३ ॥

आयुपः जघन्यस्थितिवन्धनयोग्यानि असंख्यलोकमितानि ।

आवत्यसंख्यभागोनोपर्युपरि भवन्ति गुणितक्रमाणि ॥ ९५३ ॥

अर्थ—आयुकर्मकी सब जघन्यस्थितिवंधके योग्य अध्यवसायस्थान असंख्यातलोकप्रमाण हैं । उससे आगे २ उत्कृष्टस्थितिपर्यन्त क्रमसे आवलीके असंख्यातवें भागकर गुणे हुए स्थान जानने चाहिये ॥ ९५३ ॥

आगे किसी जीवके जितने अध्यवसायस्थानोंसे नीचेकी स्थिति बंधती है किसी दूसरेके भी उतने ही स्थानोंसे ऊपरकी स्थिति बंधती है इसप्रकार ऊपर नीचे समानता समझ अनुकृष्टिविधान कहते हैं;—

पल्लासंखेज्जदिमा अणुकट्टी तत्तियाणि खंडाणि ।

अधियक्रमाणि तिरिच्छे चरिमं खंडं च अहियं तु ॥ ९५४ ॥

पल्यासंख्येयिमा अनुकृष्टिः तावन्ति खण्डानि ।

अधिकक्रमाणि तिरश्चि चरमं खण्डं च अधिकं तु ॥ ९५४ ॥

अर्थ—स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोंकी अनुकृष्टिरचनामें पल्यके असंख्यातवें भाग अनुकृष्टिपदोंका प्रमाण है और उतने ही अनुकृष्टिके खंड होते हैं । वे खंड तिर्यक् (बरावरी) रचना किये गये क्रमसे अनुकृष्टिके चयकर अधिक २ हैं तौभी अंतका खंड कुछ विशेषसे अधिक ही है दूना तिगुना नहीं होता ॥ ९५४ ॥

अब उस विशेषके प्रमाणको बतलाते हैं;—

लोगाणमसंखमिदा अहियपमाणा हवंति पत्तेयं ।

समुदायेणवि तच्चिय ण हि अणुकिट्टिमि गुणहाणी ॥९५५॥

लोकानामसंख्यमितानि अधिकप्रमाणानि भवन्ति प्रत्येकम् ।
समुदायेनापि तावत् न हि अनुकृष्टौ गुणहानिः ॥ ९५५ ॥

अर्थ—हर एक गुणहानिके प्रति अनुकृष्टिचयका प्रमाण सामान्यसे असंख्यातलोकमात्र है और सब चयसमूहको मिलानेसे भी असंख्यातलोकप्रमाण ही है । और अनुकृष्टिके गच्छोंमें गुणहानिकी रचना नहीं है ॥ ९५५ ॥

पढमं पढमं खंडं अण्णोण्णं पेक्खिऊण विसरित्थं ।

हेट्टिल्लुक्कस्सादोऽणंतगुणादुवरिमजहण्णं ॥ ९५६ ॥

प्रथमं प्रथमं खण्डमन्योन्यं प्रेक्ष्य विसदृशम् ।

अधस्तनोत्कृष्टादनन्तगुणादुपरितनजघन्यम् ॥ ९५६ ॥

अर्थ—इसप्रकार अनुकृष्टिरचनामें प्रथमादि गुणहानियोंमें पहले पहले खंड भी परस्पर अपेक्षाकर विसदृश (असमान) हैं क्योंकि अपने नीचेके प्रथमखंडके उत्कृष्टस्थानसे ऊपरले प्रथमखंडके जघन्य स्थान अनंतगुणे हैं ॥ ९५६ ॥

विदियं विदियं खंडं अण्णोण्णं पेक्खिऊण विसरित्थं ।

हेट्टिल्लुक्कस्सादोणंतगुणादुवरिमजहण्णं ॥ ९५७ ॥

द्वितीयं द्वितीयं खण्डमन्योन्यं प्रेक्ष्य विसदृशम् ।

अधस्तनोत्कृष्टादनन्तगुणादुपरिमजघन्यम् ॥ ९५७ ॥

अर्थ—गुणहानियोंमें प्रथमादि निषेकोंका दूसरा २ खंड परस्पर देखनेसे असमान है क्योंकि नीचले दूसरे खंडके उत्कृष्टस्थानसे ऊपरले दूसरे खंडके जघन्यस्थान अनंतगुणे हैं ॥ ९५७ ॥ ऐसे ही तीसरे तीसरे इत्यादि खंडोंकी असमानता जानलेना, इसप्रकार एक कम अनुकृष्टिप्रमाण खंडोंकी असमानता होती है ।

उसमें क्या होता है यह कहते हैं;—

चरिमं चरिमं खंडं अण्णोण्णं पेक्खिऊण विसरित्थं ।

हेट्टिल्लुक्कस्सादोणंतगुणादुवरिमजहण्णं ॥ ९५८ ॥

चरमं चरमं खण्डमन्योन्यं प्रेक्ष्य विसदृशम् ।

अधस्तनोत्कृष्टादनन्तगुणादुपरिमजघन्यम् ॥ ९५८ ॥

अर्थ—गुणहानिके प्रथमादिनिषेकोंका अंतअंतका खंड अंतके निषेकोंके अंतके खंड पर्यंत निरंतर एक एक चय अधिक होनेसे परस्परमें असमान है । और शक्तिसे नीचले अंतखंडके उत्कृष्टस्थानसे ऊपरले अंतखंडके जघन्यस्थान अनंतगुणे हैं ॥ ९५८ ॥

उसमें कारण कहते हैं;—

हेट्टिमखंडुक्कस्सं उव्वंकं होदि उवरिमजहण्णं ।

अट्टकं होदि तदोणंतगुणं उवरिमजहण्णं ॥ ९५९ ॥

अधस्तनखण्डोत्कृष्टमुर्वङ्को भवति उपरिमजघन्यम् ।

अष्टाङ्को भवति ततोऽनन्तगुणमुपरिमजघन्यम् ॥ ९५९ ॥

अर्थ—जिसकारण तिर्यगरूप रचनामें ऊपर लिखे हुए खंडोंके अपने २ नीचे लिखे खंडोंका उत्कृष्ट अध्यवसायस्थान पूर्वस्थानसे अनंत भागवृद्धिको लियेहुए है उसकारणसे नीचले खंडके उत्कृष्टसे ऊपरले खंडका जघन्यस्थान अनंतगुणा कहा है ॥ ९५९ ॥

अवरुक्कस्सटिदीणं जहण्णमुक्कस्सयं च णिवग्गं ।

सेसा सव्वे खंडा सरिसा खलु होंति उट्ठेण ॥ ९६० ॥

अवरोत्कृष्टस्थितीनां जघन्यमुत्कृष्टकं च निर्वर्गम् ।

शेषाः सर्वे खण्डाः सदृशा खलु भवन्ति वृद्ध्या ॥ ९६० ॥

अर्थ—जघन्यस्थितिका कारणरूप जो प्रथमनिषेकका जघन्य पहलाखंड और उत्कृष्ट-स्थितिका कारण जो अंतके निषेकका उत्कृष्ट अंतका खंड—ये दोनों तो निर्वर्ग हैं अर्थात् किसी खंडसे सर्वथा समान नहीं है । और शेष सब खंड ऊर्ध्वरचनासे अन्यखंडोंके समान हैं ॥ ९६० ॥

अट्टण्हंपि य एवं आउजहण्णट्टिदिस्स वरखंडं ।

जावय तावय खंडा अणुकट्टिपदे विसेसहिया ॥ ९६१ ॥

तत्तो उवरिमखंडा सगसगउक्कस्सगोत्ति सेसाणं ।

सव्वे ठिदियणखंडाऽसंखेज्जगुणक्कमा तिरिये ॥ ९६२ ॥ जुम्मं ।

अष्टानामपि च एवमायुर्जघन्यस्थितेः वरखण्डम् ।

यावत् तावत् खण्डा अनुकृष्टिपदे विशेषाधिकाः ॥ ९६१ ॥

ततः उपरिमखण्डाः स्वकस्वकोत्कृष्टक इति शेषाणाम् ।

सर्वे स्थितितनखण्डा असंख्येयगुणक्रमाः तिरश्चि ॥ ९६२ ॥ युगम् ।

अर्थ—आठों ही कर्मोंका रचनाविशेष समान है परंतु विशेषता यह है कि आयुकर्मके खंड अनुकृष्टिगच्छमें जघन्यस्थितिके खंडसे उत्कृष्ट खंडपर्यंत ही विशेषतासे अधिक हैं । उसके बाद उस उत्कृष्टखंडसे ऊपरके स्थितिखंड हैं उनसे लेकर अपने २ उत्कृष्टखंड पर्यंत तथा अवशेष स्थितियोंके अपने २ जघन्यखंडसे अपने २ उत्कृष्टखंडपर्यंत सब बराबर रचनाकरके क्रमसे असंख्यातगुणे हैं ॥ ९६१ । ९६२ ॥

आगे अनुभागबंधाध्यवसायस्थानोंको कहते हुए उसमें जघन्यस्थितिसंबंधी अध्यवसायस्थानोंमें जघन्यस्थितिसंबंधी अनुभागाध्यवसायस्थानोंको कहते हैं;—

रसबंधज्जवसाणट्टाणाणि असंखलोगमेत्ताणि ।

अवरट्टिदिस्स अवरट्टिदिपरिणामहि थोवाणि ॥ ९६३ ॥


रसबन्धाध्यवसायस्थानानि असंख्यलोकमात्राणि ।
अवरस्थितेरवरस्थितिपरिणामे स्तोकानि ॥ ९६३ ॥

अर्थ—अनुभागबंधाध्यवसायस्थान असंख्यातलोकप्रमाण हैं तौ भी जघन्यस्थितिसंबंधी जघन्यस्थितिवंधयोग्य परिणामोंकी अपेक्षा थोड़े हैं ॥ ९६३ ॥

ततो क्रमेण वद्धिदि पडिभागेण य असंखलोगेण ।
अवरट्टिदिस्स जेट्टिट्टिदिपरिणामोत्ति णियमेण ॥ ९६४ ॥
ततः क्रमेण वद्धते प्रतिभागेन च असंख्यलोकेन ।
अवरस्थितेः ज्येष्ठस्थितिपरिणाम इति नियमेन ॥ ९६४ ॥

अर्थ—उसके बाद क्रमसे जघन्यस्थितिके जघन्यपरिणामसंबंधी प्रथमनिषेकरूप अनुभागाध्यवसायस्थानसे लेकर उत्कृष्टस्थितिके उत्कृष्ट परिणामसंबंधी अनुभागाध्यवसायस्थानतक असंख्यातलोक रूप प्रतिभागहारकर बढ़ते २ अनुभागाध्यवसायस्थान नियमसे जानने चाहिये ॥ ९६४ ॥

इति श्रीनेमिचन्द्राचार्यविरचित पंचसंग्रह द्वितीयनामवाले गोम्मटसारग्रंथके कर्म-
कांडमें कर्मस्थितिरचनासद्भाव नामा नवमां अधिकार समाप्त हुआ ॥ ९ ॥



ग्रन्थकर्ताकी प्रशस्ति ।

आगे मूलग्रंथकर्ता श्रीनेमिचन्द्राचार्य अपनी ग्रंथ करनेकी प्रतिज्ञा पूर्ण करके अपने समाचार कहते हैं;—

गोम्मटसंगहसुत्तं गोम्मटदेवेण गोम्मटं रइयं ।
कम्माण णिज्जरट्टं तच्चट्टवधारणट्टं च ॥ ९६५ ॥
गोम्मटसंग्रहसूत्रं गोम्मटदेवेन गोम्मटं रचितम् ।
कर्मणां निर्जरार्थं तत्त्वार्थावधारणार्थं च ॥ ९६५ ॥

अर्थ—जो यह गोम्मटसारग्रंथका संग्रहरूप सूत्र है वह श्रीवर्द्धमान नामा तीर्थंकरदेवने नयप्रमाणके गोचर कहा है और वह ज्ञानावरणादिकर्मोंकी निर्जराकेलिये तथा तत्त्वोंके स्वरूपका निश्चय होनेकेलिये जानना चाहिये ॥ ९६५ ॥ इसप्रकार अपनी स्वच्छंदताका अभाव दिखलाया है ।

जम्हि गुणा विस्संता गणहरदेवादिइड्ढिपत्ताणं ।
सो अजियसेणणाहो जस्स गुरू जयउ सो राओ ॥ ९६६ ॥
यस्मिन् गुणा विश्रान्ता गणधरदेवादिक्कद्धिप्राप्तानाम् ।
सः अजितसेननाथो यस्य गुरूर्जयतु स रायः ॥ ९६६ ॥

अर्थ—जिसमें बुद्ध्यादिक्रद्धिप्राप्त गणधरदेवादि मुनियोंके गुण विश्राम पाके ठहरे हुए हैं अर्थात् गणधरादिकोंके समान जिसमें गुण हैं ऐसा अजितसेन नामा मुनिनाथ जिसका व्रत (दीक्षा) देनेवाला गुरू है वह चासुंडराय सर्वोत्कृष्टपनेसे जय पावौ ॥ ९६६ ॥

सिद्धंतुदयतडुग्गयणिम्मलवरणेमिचंदकरकलिया ।

गुणरयणभूसणंबुहिमइवेला भरउ भुवणयलं ॥ ९६७ ॥

सिद्धान्तोदयतटोदृतनिर्मलवरनेमिचन्द्रकरकलिता ।

गुणरत्नभूपणाम्बुधिमतिवेला भरतु भुवनतलम् ॥ ९६७ ॥

अर्थ—सिद्धांतरूपी उदयाचलपर ज्ञानादिकर उदयमान हुए निर्मल और उत्कृष्ट श्रीने-मिनाथतीर्थकररूपी चन्द्रमाकी अथवा नेमिचंद्राचार्यरूपी चंद्रमाकी वचनरूपीकिरणोंसे बंधी-हुई गुणरूपीरत्नोंकर शोभित ऐसे चासुंडरायरूप समुद्रकी बुद्धिरूपी वेला इस पृथ्वी तलको पूरित करौ अथवा समस्तजगत्में अतिशयकर विस्तार पाओ ॥ ९६७ ॥

गोम्मटसंगहसुत्तं गोम्मटसिहरुवरि गोम्मटजिणो य ।

गोम्मटरायविणिम्मियदक्खिणकुक्कडजिणो जयउ ॥ ९६८ ॥

गोम्मटसंग्रहसूत्रं गोम्मटशिखरोपरि गोम्मटजिनश्च ।

गोम्मटरायविनिर्मितदक्षिणकुक्कटजिनो जयतु ॥ ९६८ ॥

अर्थ—गोम्मटसारसंग्रहरूपसूत्र, गोम्मटशिखरके ऊपर चासुंडरायराजाकर वनवाये जिनमंदिरमें विराजमान एक हाथप्रमाण इंद्रनीलमणिमय नेमिनाथनामा तीर्थकरदेवका प्रतिविंब तथा उसी चासुंडरायकर निर्मापित लोकमें रूढिकर प्रसिद्ध दक्षिणकुक्कटनामा जि-नका प्रतिविंब जयवंत प्रवर्तौ ॥ ९६८ ॥

जेण विणिम्मियपडिमावयणं सव्वट्टसिद्धिदेवेहिं ।

सव्वपरमोहिजोगिहिं दिट्ठं सो गोम्मटो जयउ ॥ ९६९ ॥

येन विनिर्मितप्रतिमावदनं सर्वार्थसिद्धिदेवैः ।

सर्वपरमावधियोगिभिः दृष्टं स गोम्मटो जयतु ॥ ९६९ ॥

अर्थ—जिस रायकर वनवाया गया जो जिनप्रतिमाका मुख वह सर्वार्थसिद्धिके देवोंने तथा सर्वावधि-परमावधिज्ञानके धारक योगीश्वरोंने देखा है वह 'चासुंडराय' सर्वोत्कृष्टपनेसे वर्त्तौ ॥ ९६९ ॥

वज्जयणं जिणभवणं ईसिपभारं सुवण्णकलसं तु ।

तिहुवणपडिमाणिकं जेण कयं जयउ सो राओ ॥ ९७० ॥

वज्रतलं जिनभवनमीषत्प्रभारं सुवर्णकलशं तु ।

त्रिभुवनप्रतिमानमेकं येन कृतं जयतु स रायः ॥ ९७० ॥

अर्थ—जिसका, अवनितल (पीठबंध) वज्रसरीखा है, जिसका ईषत्प्राग्भार नाम है, जिसके ऊपर सुवर्णमयी कलश हैं तथा तीन लोकमें उपमा देने योग्य ऐसा अद्वितीय जिनमंदिर जिसने बनवाया ऐसा चामुंडराय जयवंत वर्तौ ॥ ९७० ॥

जेणुच्चिभयथंभुवरिमजक्खतिरीटग्गकिरणजलधोया ।

सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गोम्मटो जयउ ॥ ९७१ ॥

येनोद्धितस्तम्भोपरिमयक्षतिरीटाग्रकिरणजलधौतौ ।

सिद्धानां शुद्धपादौ स रायो गोम्मटो जयतु ॥ ९७१ ॥

अर्थ—जिसने चैत्यालयमें खड़े किये हुए खंभोंके ऊपर स्थित जो यक्षके आकार हैं उनके मुकुटके आगेके भागकी किरणोंरूप जलसे सिद्धपरमेष्ठियोंके आत्मप्रदेशोंके आकाररूप शुद्ध चरण धोये हैं ऐसा चामुंडराय जयको पाओ ॥ भावार्थ—चैत्यालयमें स्तंभ बहुत ऊंचा बना हुआ है उसके ऊपर यक्षकी मूर्ति है उसके मुकुटमें प्रकाशवन्त रत्न लगे हुए हैं ॥ ९७१ ॥

अब अंतिम आशीर्वाद देते हुए अपने समाचारोंको पूर्ण करते हैं;—

गोम्मटसुत्तल्लिहणे गोम्मटरायेण जा कया देसी ।


सो राओ चिरं कालं णामेण थ वीरमत्तंडी ॥ ९७२ ॥

गोम्मटसूत्रलेखने गोम्मटरायेन या कृता देशी ।

स रायः चिरं कालं नाम्ना च वीरमार्तण्डी ॥ ९७२ ॥

अर्थ—गोम्मटसारग्रंथके गाथासूत्र लिखनेके समय गोम्मटरायने जो देशीभाषा अर्थात् कर्णाटक वृत्ति बनाई है वह वीरमार्तण्ड नामसे प्रसिद्ध चामुंडराय बहुत कालतक जयवंत प्रवर्तौ ॥ ९७२ ॥ इसप्रकार श्रीनेमिचन्द्राचार्यने इस ग्रंथके होनेमें अपने समाचार कहे सो यही ग्रंथप्रशस्ति समाप्त हुई ॥

इति संक्षिप्त भाषाटीका सहित कर्मकाण्ड समाप्त हुआ ।





अर्थ—जिसका, अवनितल (पीठबंध) वज्रसरीखा है, जिसका ईषत्प्राग्भार नाम है, जिसके ऊपर सुवर्णमयी कलश हैं तथा तीन लोकमें उपमा देने योग्य ऐसा अद्वितीय जिनमंदिर जिसने बनवाया ऐसा चामुंडराय जयवंत वर्तौ ॥ ९७० ॥

जेणुच्चिभयथंभुवरिमजक्खतिरीटग्गकिरणजलधोया ।

सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गोम्मटो जयउ ॥ ९७१ ॥

येनोद्धितस्तम्भोपरिमयक्षतिरीटाग्रकिरणजलधौतौ ।

सिद्धानां शुद्धपादौ स रायो गोम्मटो जयतु ॥ ९७१ ॥

अर्थ—जिसने चैत्यालयमें खड़े किये हुए खंभोंके ऊपर स्थित जो यक्षके आकार हैं उनके मुकुटके आगेके भागकी किरणोंरूप जलसे सिद्धपरमेष्ठियोंके आत्मप्रदेशोंके आकार-रूप शुद्ध चरण धोये हैं ऐसा चामुंडराय जयको पाओ ॥ भावार्थ—चैत्यालयमें स्तंभ बहुत ऊंचा बना हुआ है उसके ऊपर यक्षकी मूर्ति है उसके मुकुटमें प्रकाशवन्त रत्न लगे हुए हैं ॥ ९७१ ॥

अब अंतिम आशीर्वाद देते हुए अपने समाचारोंको पूर्ण करते हैं;—

गोम्मटसुत्तल्लिहणे गोम्मटरायेण जा कया देसी ।

सो राओ चिरं कालं णाम्हेण य वीरमत्तंडी ॥ ९७२ ॥

गोम्मटसूत्रलेखने गोम्मटरायेण या कृता देशी ।

स रायः चिरं कालं नाम्ना च वीरमार्तण्डी ॥ ९७२ ॥

अर्थ—गोम्मटसारग्रंथके गाथासूत्र लिखनेके समय गोम्मटरायने जो देशीभाषा अर्थात् कर्णाटक वृत्ति बनाई है वह वीरमार्तण्ड नामसे प्रसिद्ध चामुंडराय बहुत कालतक जयवंत प्रवर्तौ ॥ ९७२ ॥ इसप्रकार श्रीनेमिचन्द्राचार्यने इस ग्रंथके होनेमें अपने समाचार कहे सो यही ग्रंथप्रशस्ति समाप्त हुई ॥

इति संक्षिप्त भाषाटीका सहित कर्मकाण्ड समाप्त हुआ ।

